

सन' ५७ का विप्लव

लेखक

बेनी प्रसाद बाजपेयी

प्रकाशक

आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४१९ अहियापुर

इलाहाबाद

तीसरा संस्करण] फरवरी सन् १९५५ [मूल्य पाँच रुपया

प्रकाशक
गिरिधर शुक्ल
आदर्श हिन्दी पुस्तकालय
४१९ अहियापुर,
प्रयाग ।

मुद्रक
इन्द्रमणि जायसवाल
मणि प्रिंटिंग प्रेस
मणि नगर
५१ए पूराबल्दी, कीटगंज,
प्रयाग ।

विषय-सूची

—:0:—

विषय	पृष्ठ संख्या
भूमिका	९
विप्लव के मुख्य कारण	१७
विप्लव की योजनायें	५६
कलकत्ते के पास की घटनायें	६८
मगल पांडे की फाँसी के बाद	७७
विप्लव के प्रचण्ड दिन	९०
अंगरेजों का दमन चक्र	१०३
कानपुर और नाना साहब	११३
फाँसी की रानी और लखनऊ की बेगम	१२५
सन् ५७ के पञ्जाबी और सिख	१३८
विप्लव का प्रधान केन्द्र दिल्ली	१५४
इलाहाबाद और कानपुर की घटनायें	१७०
पञ्जाब की एक घटना	१८४
दिल्ली का शेष वृत्तान्त	१९१

दिल्ली निवासियों पर अँगरेजों के अत्याचार	...	२१६
रक्त का समुद्र लखनऊ	...	२२३
तात्या टोपे और कैम्बेल के संग्राम	...	२५१
अवध और रुहेलखण्ड में दमन	...	२५९
बिहार का विप्लव और अहमदशाह	...	२७४
भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई	...	२९८
मध्य प्रान्त और दक्षिणी भारत की घटनाये	...	३१९
नाना साहब और बेगम हजरत महल	...	३३०
तात्या टोपे का अन्त	...	३४५
विप्लव की असफलता और उसके बाद	...	३६३

सहायक सूची

जिन प्रसिद्ध विद्वानों की पुस्तक के अध्ययन, आधार और सहायता से यह पुस्तक लिखी गई है नीचे लिखे उन महानुभावों का लेखक चिरकृतज्ञ है :—

The Marquis of Dalhousie's Administration of British India By Arnold Sir Edwin K. C. I. E.

The History of Indian Mutiny By Charles Ball.

The Indian Rebellion By Alexander Duff.

Reminiscences of the Great Mutiny 1857-59.

By William Forbes Mitchell.

Incidents in the Sepoy War By Sir Hope Grant.

The History of Indian Mutiny By Holmes.

A History of the Sepoy War in India.

By Sir John William Kaye.

Red Pamphlet By G. B. Malleson.

My Diary in India in the year 1858-59

By Sir William H. Russell.

The Indian War of Independence

By V. D. Savarkar.

सिपाई युद्धेर इतिहास (बंगला) रजनो कान्त ।

दिल्ली की जांकी (उर्दू) ख्वाजा हसन निजामी ।



हमारी प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें

महाराज

नन्दकुमार को फाँसी

मूल लेखल—चण्डीचरण सेन

सत्रहवीं सदी में बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अँगरेज व्यापारियों ने वहाँ के नवाबों की उदारता और कृपा से अनुचित लाभ उठाकर वहाँ की भोली भाली जनता पर जो भयानक अत्याचार और जुल्म किये हैं, उन सच्ची घटनाओं का रोमांचकारी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। उस समय के बंगाल की सामाजिक अवस्था, राज में फैले हुए दुराचार, पापाचार और भ्रष्टाचार; कम्पनी के अँगरेज अधिकारियों द्वारा भारतीय उद्योग धन्धों और कारीगरी का सर्वनाश, अँगरेजी कोठी के कर्मचारियों द्वारा गरीब जुलाहों और किसानों पर जुल्म तथा देश हितैषी महाराज नन्दकुमार के साथ छल कपट और षड्यन्त्र खड़ा कर उन्हें फाँसी पर लटका देना आदि घटनाओं की सच्ची रोमांचक कहानी आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। पौने चार सौ पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४॥) रुपये ढाक खर्च अलग।

पता—आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४१९ अहियापुर, इलाहाबाद

भारतकी प्रसिद्ध लड़ाइयाँ

[लेखक—श्री केशव कुमार ठाकुर]

भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण पुस्तक में भारत के तीनों काल यानी हिन्दू काल, मुसलिम काल तथा अँगरेजी काल में होने वाली उन प्रसिद्ध लड़ाइयों का विस्तृत वर्णन है जो भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। युद्धविद्या, युद्धकला तथा युद्धक्षेत्र में भारतीय वीरों की वीरता, रणकुशलता, साहस, शौर्य और बलिदान की महिमा जगत् प्रसिद्ध है। खेद है भारतीय युद्ध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर क्रमवद्ध कोई प्रामाणिक पुस्तक अब तक सामने नहीं आई।

हमारी प्रकाशित इस महत्वपूर्ण पुस्तक के समस्त पन्ने देश के प्रकाशित और अप्रकाशित लेखों तथा देशी और विदेशी इतिहासों के आधार पर विशुद्ध ऐतिहासिक भावों के साथ लिखे गये हैं। समस्त युद्धों के वर्णन में आपको भारतीय वीरों की वीरता, पराक्रम, शौर्य, साहस और युद्धकौशल का अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसे पढ़ कर आवेश से आपका हृदय फड़क उठेगा। पृष्ठ संख्या लगभग ५०० बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई सजिल्द पुस्तक का मूल्य ६) ६०

आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४१९, अहियापुर, इलाहाबाद

एक महान् क्रान्तिकारी उपन्यास

बलिदान

अनुवादक—श्री जयकृष्ण शुक्ल

यह उपन्यास फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार “विक्टर ह्यूगो” के प्रसिद्ध उपन्यास “नाइन्टी थी Ninety Three ” का हिन्दी अनुवाद है। जिसकी लाखों प्रतियाँ संसार की अनेक भाषाओं में छप कर अब तक बिक चुकी हैं। प्रसिद्ध विद्वान ने यह उपन्यास फ्रान्स की सन् १७९३ की प्रसिद्ध राज्यक्रान्ति पर लिखा है। अन्यायी और अत्याचारी शासन से घबरा कर राज सत्ता को उलटने के लिये फ्राँस के दीवाने देशभक्त वीर क्रान्तिकारियों ने उस क्रान्ति में जो अपने बलिदान किये हैं, उसका अत्यन्त रोमांचकारी वर्णन आपको इस उपन्यास में पढ़ने को मिलेगा। जिसे पढ़कर आवेश में आकर आपका हृदय फड़क उठेगा। एक नवयुवक के लिए इतना ही काफी है कि वह आरम्भ से अन्त तक इस उपन्यास को पढ़ डाले फिर उसमें देशभक्ति तथा स्वदेशानुराग की कमी न रहेगी। मोटा कागज, सुन्दर सजिल्द ३०४ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ४) ६०।

आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४१९ अहियापुर, इलाहाबाद

प्रस्तावना

यह संतोष ही नहीं अतीव हर्ष का विषय है कि आज से प्रायः सौ वर्ष पूर्व अपनी मातृभूमि को अंगरेजों के क्रूर शासन से मुक्त करने और देश को अंगरेजों से रहित करने का हमारे वीर देशवासियों ने जो रक्त रंजित देशव्यापी संग्राम किया था— जिसे हमारे देश की साधारण जनता में सन् सत्तावन का गदर कहा जाता है उसका सच्चा और प्रामाणिक इतिहास जनता के सामने लाने का अवसर प्राप्त हो सका है। अब तक विदेशी शासन के अभिशापों में एक यह भा था कि माता की गुलामी की बेड़ियों काटने वाले लाल क्रान्ति के इन पुजारियों की वीर-गाथाएँ हम अपनी सन्तान को सुना भी नहीं सकते थे। परन्तु उन्हीं के बलिदानों से उन्हीं की प्रेरणा और स्फूर्ति से हमारा देश विदेशी पराधीनता से मुक्त हुआ है और हम इस योग्य हो सके हैं कि उनकी वीर—गाथाओं को, उनकी गुण-गरिमा को उनके वास्तविक रूप में अपने देश के गौरव-पूर्ण इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में अंकित करे। उनकी स्मृतियाँ हमारी वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों की धमनियों में उन्हीं के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई स्वाधीनता की रक्षा के लिए स्फूर्ति, बल, साहस

लगन का संचार करेगी और उन वीरों के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा ।

सन् १८५७ में भारत में अँगरेजों के घोर अत्याचारी शासन के विरुद्ध सशस्त्र भारतीय विद्रोह के सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें अँगरेजी में और कुछ यत्र-तत्र भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं । अँगरेजी की पुस्तकें अधिकतर अँगरेजों द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें स्वभावतः भारतीयों को कलंकित करने वाला और एकतरफा चित्र चित्रित किया गया है । उनमें अँगरेज इतिहासकारों ने संसार की आँखों में धूल भोंकने का प्रयत्न करते हुए यह दिखाया है कि देश के कुछ स्थानों के मूर्ख सैनिकों ने इस अफवाह पर कि उनके बन्दूकों की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, अपनी मूर्खता और धर्मान्धता के कारण बहकावे में आकर अँगरेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण भावना और ढंग से उन लोगों ने घटनाओं का विवरण लिखा है । हिन्दी में तो इस समय इस सम्बन्ध की पुस्तकें नहीं के बराबर हैं । एक-आध जो हैं उनसे भी कोई पाठक उन घटनाओं का प्रामाणिक और सच्चा विवरण नहीं प्राप्त कर सकता । अब तक किसी भी विदेशी अथवा भारतीय लेखक ने—सिवा श्री विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक के—सन् ५७ के महान विद्रोह का सच्चा और वैज्ञानिक विवेचना पूर्ण विवरण नहीं दिया है; जो स्वभावतः

विदेशी शासन के रहते हुए सम्भव भी नहीं था। इसी कारण उनके सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ समस्त संसार में और विशेषतः साम्राज्यवादी देश में फैली हैं जिन्हें अँगरेज लेखकों ने दुष्टता और स्वार्थपूर्ण भावना से प्रेरित हो कर फैलाया है। पक्षपात का चश्मा लगा होने के कारण उनकी आखें यह देख ही नहीं सकी अथवा उन लोगों ने इसे देखने का प्रयत्न ही नहीं किया कि इस विप्लव का वास्तविक कारण क्या था। उनका यह कहना नितान्त असत्य है कि यह विप्लव जहाँ—तहाँ कुछ थोड़े-से सिपाहियों ने किया था। क्या कोई भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यह कह सकता है कि इतना देशव्यापी विप्लव बिना किसी निश्चित और व्यापक उद्देश्य के हो सकता था ? पेशावर से लेकर कलकत्ते तक एक साथ क्रान्ति की बाढ़ का एक साथ उठ खड़ा होना बिना निश्चित राजनीतिक ध्येय के सम्भव नहीं हो सकता था। दिल्ली की राजधानी पर जनता का अधिकार, कानपुर में अँगरेजों का कत्लेआम, कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक के अनेक नगरों में विद्रोहियों का भण्डा गड़ जाना क्या केवल सैनिकों के बूते की बात थी। वास्तव में यह महान क्रान्ति सार्वजनिक थी, जिसमें राजाओं से लेकर रङ्ग तक सब साथ थे और सभी केवल यही भावना से उठ खड़े हुए थे कि अपने देश से अँगरेजी शासन उखाड़ फेंकना है और पवित्र भारत-भूमि को घोर अत्याचारी और धूर्त अँगरेजों से

रहित कर देना है। दिल्ली के सम्राट बहादुरशाह, भोंसी की महारानी लक्ष्मी बाई, नाना साहब, रुहेलखंड के बहादुर खॉं आदि का विप्लव में सम्मिलित होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह विप्लव सार्वजनिक था और इसमें सभी प्रान्तों तथा सभी सम्प्रदायों के लोग सम्मिलित थे। इसमें हिन्दू और मुसलमान, अमीर और गरीब, राजे महाराजे और ताल्लुकदार सभी साथ थे।

यह प्रश्न क्या जा सकता है कि इस विद्रोह का कारण क्या था ? क्या बात थी कि हजारों नहीं लाखों आदमियों ने तलवार उठा ली, अपने प्राणों की चिन्ता न कर रण-क्षेत्रों में वे निकल पड़े और रक्त की होली खेली ? कौन सी भावना सभी के हृदयों में काम कर रही थी कि सभी एक मत से विदेशियों को निकाल बाहर करने पर तुल गये थे। मौलवी लोग मुस्लिम जनता को अंगरेजों से लड़ने के लिये प्रोत्साहित कर रहे थे और ब्राह्मण लोग हिन्दुओं को ललकार रहे थे ? दिल्ली की मस्जिदों में इबादते होती थीं और काशी के मन्दिरों में विद्रोह की सफलता के लिये प्रार्थनाएँ होती थीं ?

इन सब की तह में जो महान भावना काम कर रही थी वह थी अपनी देश की स्वाधीनता की और अपने धर्म की रक्षा की। मजहब की रक्षा के लिये मुसलमानों ने 'दीन' और हिन्दुओं ने 'धर्म' की आवाज उठाई थी। हमारे देश में धर्म को जो

सदा से सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उस पर आघात की बात देख कर और धर्म पर तथा देश की स्वतन्त्रता पर आघात करने वालों का देश से अंत कर देने की प्रेरणा से यह महान विप्लव खड़ा किया गया था। स्वाधीनता और स्वधर्म पर आघात होता देखकर हिन्दू और मुसलमान अपनी पारस्परिक विरोध-भावना छोड़कर अंगरेजों के विरुद्ध एक साथ खड़े हो गए थे। दिल्ली के सम्राट बहादुरशाह ने उस समय अपनी हिन्दू और मुस्लिम प्रजा को सम्बोधित करते हुए अपनी घोषणा में कहा था—

“ऐ हिन्दुस्तान के बच्चों ! अगर हम कस्द कर लें, तो दुश्मन का खात्मा करने में देर न लगेगी। अगर हम दुश्मन का खात्मा कर दें, तो अपनी जान से भी प्यारे अपने मजहब और मुल्क को हम बचा लेंगे।”

बरेली में किए गए अपने एलान में सम्राट बहादुर शाह ने कहा था “हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों उठो ? भाइयों उठ खड़े हो !! खुदा की सब से बड़ी न्यामत स्वराज है। क्या जालिम शैतान जिसने धोखा देकर हमारी आज़ादी छीन ली है, उसे हमेशा के लिए हम से दूर रख सकेगा ? क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ उसकी यह कार्रवाई हमेशा कायम रह सकेगी ? नहीं, कभी नहीं। अंगरेजों ने इतने जुल्म किए हैं, कि उनके पाप का प्याला भर गया है। उसे और भरने के लिए वे अब हमारे पाक मजहब को भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्या तुम सब

इतने पर भी खामोश बैठे रहोगे ? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि उसने हिन्दुओं और मुसलमानों के दिलों में यह ख्वाहिश पैदा कर दी है कि अँगरेजों को अपने मुल्क से निकाल बाहर कर दो। और खुदा के फजल से, तुम्हारी कूवतों से वे जल्द ही पूरी शिकस्त पाएँगे और हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में उनका नामोनिशान नहीं रह जायागा। हमारे मुल्क में छोटे और बड़े का कोई फर्क न रहेगा, सब के साथ बराबरी का बर्ताव किया जायगा, क्योंकि मजहब को बचाने की इस पाक लड़ाई में जितने लोग तलवार उठाते हैं, वे सब बराबर से हकदार हैं, सब बराबर के भाई हैं, और इनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए मेरा फिर सभी हिन्दू भाइयों से कहना है कि उठ खड़े हो और इस पाक लड़ाई में जूझ पड़ो।”

सम्राट बहादुरशाह की इस उद्बोधनपूर्ण घोषणा से और उसके देव-स्वरूप सारे देश में उठ खड़े हुए विप्लव से यह स्पष्ट है कि जबलन्त-भावना से यह सशस्त्र विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा की भावना उस समय समस्त देश के नर-नारियों में काम कर रही थी और उसी से प्रेरित होकर यह देशव्यापी विप्लव उठ खड़ा हुआ था।

यही एक मात्र भावना १८५७ के विप्लव की जननी थी। प्रस्तुत पुस्तक सन् १८५७ के महान विप्लव, जिसे आधुनिक भारत का प्रथम सशस्त्र स्वतन्त्रता संग्राम कहा जा सकता है,

का वास्तविक, विस्तृत और क्रमबद्ध इतिहास प्रकाश में लाने के उद्देश्य से लिखी गई है। इस विषय की अपने ढंग की हिन्दी में यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक है और निःसन्देह यह बड़े भारी प्रभाव की पूर्ति करेगी। कम से कम हिन्दी में सन् सत्तावन के विलसव के सम्बन्ध में अभी ऐसी प्रामाणिक पुस्तक जहाँ तक मेरा अनुमान है, नहीं थी, अतः इस पुस्तक में उसका क्रमबद्ध और विशद विवरण प्राप्त कर पाठकों को सन्तोष होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विद्वान लेखक ने बड़े अच्छे और क्रमबद्ध ढंग से सभी घटनाओं का समावेश किया है और इस सम्बन्ध में लेखक तथा अनुभवी प्रकाशक का प्रयत्न सराहनीय है।

प्रयाग, महाशिवरात्रि
सन्वत् २००४

} —रामकिशोर मालवीय

पलासी का युद्ध

अर्थात्

[भारत में अँगरेजी राज कायम होने का इतिहास]

“पलासी का युद्ध” भारत में अँगरेजी राज के समय की अत्यन्त रोमांचकारी एवं महत्वपूर्ण घटना है। सत्रहवीं सदी में ईस्ट इन्डिया कम्पनी कायम होने के बाद अँगरेजों का भारत में व्यापार करने की गरज से आकर भारतीय नरेशों के साथ अनेक प्रकार के षड़यन्त्र, कूटनीति, छल और कपट के व्यवहार द्वारा पलासी के युद्ध में विजयी होकर भारत में अँगरेजी राज कायम कर लेना, फिर भारतीय नरेशों के साथ विश्वासघात, गुप्त साजिशें, जालसाजियों, रिश्वतें देना, फूट डलवाना, भारतीय प्रजा पर अनेक प्रकार के अन्याय व अत्याचार और ईस्ट इन्डिया कम्पनी द्वारा भारत के हजारों साल के उन्नत व्यापार और उद्योग धन्धे का नाश कर डालना और इन सबके नतीजे में भारत का सौ सवा सौ साल के भीतर संसार के सबसे अधिक प्रबल, उन्नत और सम्पन्न देशों की श्रेणी से निकलकर सबसे अधिक निर्बल, अवनत और दरिद्र देशों की श्रेणी तक पहुँचा दिया जाना आदि ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अँगरेजों के कारनामों की अत्यन्त दुखकर कहानी इस पुस्तक में बयान की गई है। देश के प्रत्येक स्वाभिमानी स्त्री पुरुष को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। मूल्य ४०० पृष्ठ का सजिल्द पुस्तक का ५) डाक खर्च अलग।

आदर्श हिन्दी पुस्तकालय

४१९ अहियापुर, इलाहाबाद

सन् १८५७ का विप्लव

—:०::०::०:—

विप्लव के मुख्य कारण

केवल भारतवर्ष के निवासी ही नहीं, बल्कि इङ्ग्लैण्ड के निवासी भी यह स्वीकार करते हैं कि सन् १८५७ का विप्लव-भारतवर्ष की भूमि में अँगरेजी-राज्य के इतिहास की सब से अधिक रोमांचकारी और महत्वपूर्ण घटना थी। सच कहा जाय तो वह एक ऐसी भयानक घटना थी जिसकी प्रचण्ड लपटों में एक बार इस देश की वीर-भूमि में अँगरेजी राज और अँगरेजी जाति का अस्तित्व जलकर मिटने वाला-सा मालूम होता था।

उस रोमांचकारी विप्लव के मुख्य कारणों को भली भँति समझने के लिए हमारे पास यदि कोई सामग्री है तो वह उस विप्लव से ठीक एक सौ वर्ष पूर्ण का इतिहास है। इस इतिहास पर यदि एक बार दृष्टि न डाली गई तो यह समभव नहीं है कि विषय की गम्भीरता सरलता के साथ समझ में आ जाय !

विचारशील विद्वानों का कथन है कि सन् १८५७ के विप्लव की नींव वास्तव में सन् १७५७ में प्लासी की युद्ध भूमि में रखी गई थी, इसलिए सन् १८५७ के विप्लव में भाग लेने वाले असंख्य भारतीय सिपाहियों के मुख से जो भिन्न-भिन्न प्रकार के

१७

ओजस्वी वाक्य निकला करते थे उनमें से एक वाक्य यह भी था, “आज हम प्लासी के युद्ध का बदला चुकाने वाले हैं।”

मई और जून के महीने में दिल्ली के प्रायः सभी समाचार पत्रों में यह भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी कि जिस दिन प्लासी के युद्ध की शताब्दी पूरी होगी ठीक उसी दिन अर्थात् २३ जून सन् १८५७ को भारतवर्ष की पवित्र भूमि में अंगरेजी राज को सदा के लिए समाप्त कर दिया जायगा। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी की घोषणा भी देश के प्रत्येक भाग में बड़ी तत्परता के साथ करा दी गई थी।

परिणाम यह हुआ कि उस समय उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जितने भारतीय वीर थे, सभी उत्तेजित हो गये और सन् १८५७ के प्लासी के मैदान का बदला चुकाने के लिए विप्लव में भाग लेना अपना धर्म समझने लगे थे। इसलिये यह कहना पड़ता है कि यदि अंगरेज न्याय-पूर्वक प्लासी के युद्ध में विजयी हुये होते तो सन् १८५७ के विप्लव में उनके विरुद्ध भाग लेने के लिए कोई भी भारतीय प्रस्तुत न होना।

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि प्लासी के युद्ध में अन्याय-पूर्वक विजयी होने वाले अंगरेजों और अंगरेजी राज के विरुद्ध प्लासी युद्ध के समय से ही असंख्य भारतवासियों के हृदय में क्रोध और असन्तोष के भाव बढ़ने लगे थे। क्लाइव के समय से लेकर डलहौजी के समय तक जिस प्रकार कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अपने गम्भीर प्रतिज्ञा-पत्रों और हस्ताक्षरी संधि-पत्रों की अवहेलना की, वह भी विप्लव का एक कारण था।

इतना ही नहीं, भारतवर्ष में प्रभुता स्थापित करते ही अभिमानी अंगरेज भारत के अगणित राजकुलों को पददलित करने

लगे, और उनकी रियासतों को एक-एक कर अपने राज में मिलाने लगे; भारत के प्राचीन उद्योग धंधों को नष्ट कर लाखों भारतवासियों से उनकी जीविका छीनने लगे, असहाय बेगमों और रानियों के महलों में घुसकर उन्हें लूटने और उनका श्रमदान करने लगे. अनेक जमींदारों की जमींदारियों को हड़प कर भारत के असंख्य प्रतिष्ठित घरानों को नष्ट करने लगे, इसके साथ ही साथ गोरखपुर और बनारस के समान लाखों भारतीय किसानों को उनकी पैतृक जमीनों से बाहर निकालकर गृहहीन बनाने लगे ।

इन्हीं सब शोकास्पद घटनाओं के कारण भारतीय राजाओं और भारतीय प्रजाओं दोनों में ही समान रूप से अंगरेजों के विरुद्ध असंतोष की अग्नि भीतर ही भीतर सुलगने लगी थी । सन् १७८० के लगभग पूना द्वार के प्रधान मंत्री नाना फड़नवीस और मैसूर राज के स्वामी हैदरअली का सम्मिलित रूप से दिल्ली-सम्राट और अन्य भारतीय राजाओं को अपनी ओर कर अंगरेजों को भारतवर्ष से निकाल देने का प्रयत्न करना इसी असन्तोष की अग्नि का एक रूप और सन् १७५७ के विश्व का पूर्व-चिह्न था । सन् १८०६ में बेलोर की छावनी के भारतीय सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था, वह भी इसी अग्नि का एक छोटा-सा स्वरूप था ।

बेलोर के विद्रोह का कारण यह था कि उस समय के अंगरेज-शासकों में भारत के निवासियों को ईसाई बनाने का बड़ा उत्साह था । प्रारम्भ से ही ईसाई मत को भारतवर्ष में सबसे अच्छा क्षेत्र मद्रास-प्रान्त में मिला । इसीलिए मद्रास-प्रान्त में ही अभी तक ईसाइयों की संख्या अधिक है ।

जिस समय की घटना का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय लॉर्ड विलियम बेरिड्ज मद्रास का गवर्नर और सर जॉन क्रैडक वहाँ का कमाण्डर इन चीफ था। ये दोनों अँगरेज ईसाई मत के प्रचार में बड़े उत्साह से कार्य करते थे। उस समय के ईसाई शासक ईसाई मत का प्रचार करने वालों को सभी तरह की सुविधाएँ और सहायता दिया करते थे।

पादरी लोग जहाँ कहीं भी जाना चाहते थे, अँगरेज सरकार से उन्हें पासपोर्ट मिल जाते थे। किले के अन्दर भारतीय सिपाहियों में ईसाई मत का प्रचार करने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएँ दी गई थी। धीरे-धीरे मद्रास प्रान्त की भारतीय सेना को आज्ञा दी गई कि कोई भी सैनिक परेड के समय या ड्यूटी पर अथवा वर्दी पहने हुए अपने माथे पर तिलक आदि धार्मिक चिह्न न लगाये। हिन्दू मुसलमान सभी सिपाहियों को आज्ञा दी गई कि वे सब अपनी दाढ़ियों मुड़वा दे और सब लोग एक तरह की कटी मूँछ रखे।

इसी पर जुलाई सन् १८०६ की रात को बेलोर की छावनी के भारतीय सैनिक बिगड़ खड़े हुए। दो बजे रात को उन्होंने सदर गारद के सामने जमा होकर अपने कमाण्डिंग अफसर कर्नल फैनकोर्ट के मकान को घेर लिया और उसे गोली से मार दिया। उसके बाद उन्होंने अपने शेष अँगरेज सिपाहियों और ईसाई अफसरों को गोली से मारना आरम्भ कर दिया। किन्तु किसी तरह यह विद्रोह शान्त कर दिया गया और विद्रोहियों को पूरा दण्ड दिया गया। इसीलिए मानना पड़ता है कि यह विद्रोह भी सन् १८५७ के विसव-के कारणों में से एक कारण अवश्य था।

आगे चलकर डलहौजी का समय आया। डलहौजी के समय में कम्पनी और इंग्लैण्ड के नीतिज्ञों की साम्राज्यपिपासा चरम सीमा को पहुँच गई। डलहौजी ने महाराज रणजीतसिंह के साथ कम्पनी की सधियों को रद्द करके पञ्जाब पर चढ़ाई की, लाहौर दरबार के अन्दर फूट डबलाई, दलीपसिंह और उसकी विधवा माता महारानी भिन्दों को पञ्जाब और भारत दोनों देशों से निकाल दिया और पञ्जाब के उपजाऊ भाग को कम्पनी के राज्य में मिला लिया।

डलहौजी ने निरपराध बरमा के साथ युद्ध छेड़ कर पेगू के पान्त को बरमा राज्य से छीन लिया। भारतीय राजाओं में जो गोद लेने की प्राचीन प्रथा था, उसका तिरस्कार कर डलहौजी ने सतारा, भोंसी, नागपुर आदि अनेक रियासतों का अन्त कर उन्हें अंगरेजी राज्य में मिला लिया।

नवाब के 'कुशासन' का बहाना लेकर सन् १८५७ में उनके अवध की उपजाऊ रियासत को कम्पनी के राज में सम्मिलित कर लिया। नवाब वाजिदअली शाह को बन्दी करके कलकत्ते भेज दिया। भारत के असंख्य पुराने ताल्लुकेदारों और जमींदारों की पैतृक जागीरे छीनकर उन्हें कंगाल बना दिया।

यह सब व्यवहार तो भारतीय राजाओं और सरदारों के साथ हुआ। सधारण प्रजा के साथ भी अंगरेजों का व्यवहार अनेक प्रकार से दिन-प्रति दिन अधिक से अधिक उद्दण्ड, धुष्ट और असह्य होता जा रहा था। स्थान-स्थान पर अंगरेज अफसर अपने सामने घोड़े पर आनेवाले भारतीयों को घोड़े से उतर कर चलने के लिए बाध्य करते थे ॥ भारतीय जनता के धार्मिक

और सामाजिक प्रथाओं की बड़ी अवहेलना की जाती थी। सभी लोग अंगरेजों के इन दुर्व्यवहारों से मन ही मन हड़दने लगे थे।

दिल्ली के आते ही सहारनपुर में एक नया अंगरेजी अस्पताल बना। अस्पताल के बनते ही उसमें प्रत्येक धर्म के पुरुष और स्त्री रोगियों को आने की आज्ञा दी गई। सहारनपुर के अंगरेज अफसरों ने यह घोषणा प्रकाशित की कि प्रत्येक जाति और धर्म के रोगी, स्त्री और पुरुष, यहाँ तक कि पर्दे में रहने वाली स्त्रियाँ भी इलाज के लिए इसी अस्पताल में आवें और कोई देशी हकीम या वैद्य न किसी को दवा दे और न किसी का इलाज करे।

इस घोषणा के प्रकाशित होते ही सहारनपुर की जनता में असंतोष की अग्नि भड़क उठी। लोगों के भाव यहाँ तक प्रचण्ड होने लगे कि वहाँ के अंगरेज अफसरों को अपनी घोषणा वापस लेनी पड़ी। इस प्रकार के अनुचित और उद्दण्ड व्यवहारों के और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, फिर भी साधारण रूप से सन् १८५७ के विद्रोह के पाँच प्रधान कारण कहे जा सकते हैं। वे पाँच प्रधान कारण इस प्रकार के हैं :—

१—दिल्ली सम्राट के साथ का अंगरेजों का लगातार अनुचित व्यवहार।

२—अवध के नवाब और और अवध की प्रजा के साथ अत्याचार।

३—दिल्ली के अंगरेजों की अपहरण नीति।

४—अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ कम्पनी का अन्याय।

५—भारतवासियों को ईसाई बनाने की प्रबल आकांक्षा और भारतीय सेना में बलपूर्वक ईसाई मत का प्रचार ।

विषय को भली भाँति समझने के लिए आवश्यक होगा कि ऊपर बताये गये कारणों में से प्रत्येक कारण को पुष्ट करनेवाली घटनाओं का अध्ययन कर लिया जाय नहीं तो विसाव की कहानी अधूरी ही रह जायगी ।

विसाव का प्रथम मुख्य कारण :—

सम्राट शाहआलम (जो सन् १७५९ से १८०६ तक दिल्ली के तख्त पर रहा) के समय तक भारत में रहने वाले समस्त अँगरेज अपने को दिल्ली के सम्राट की प्रजा कहने में ही अपना गौरव समझते थे । इसी लिए अँगरेजों की कम्पनी को अपनी तिजारती कोठियाँ बनवाने के लिए कलकत्ता, मद्रास, सूत आदि स्थानों में सम्राट के फरमानों द्वारा ही जागीरे मिली थीं । उन जागीरों के लिए अँगरेज दिल्ली के सम्राट को बराबर खिराज देते थे और गवर्नर जनरल से लेकर छोटा से छोटा तक जो अँगरेज सम्राट के दरबार में जाता था, वह शेष दरबारियों के समान आदाब वजा लाता था, सम्राट को नजर भेंट करता था और अपने स्थान पर अदब के साथ खड़ा रहता था । प्रत्येक गवर्नर जनरल की मुहर में “दिल्ली के बादशाह का फिदवी खास” जिसका अर्थ यह है कि (दिल्ली के बादशाह के विशेष नौकर) ये शब्द खुदे रहते थे । शाहआलम ने सबसे पहले सन् १७६५ में क्लाइव को बंगाल और बिहार की दिवानी के अधिकार प्रदान किये थे । इसके बाद धीरे-धीरे दिल्ली सम्राट के दरबार में षड़यन्त्र और युद्ध की तैयारियाँ होने लगी ।

दिल्ली-सम्राट का बल घटता गया और अंगरेजों कम्पनी का बल बढ़ता गया ।

माधोजी सीधिया ने दिल्ली पर चढ़ाई करके भारत सम्राट के बल को फिर से थोड़ा बहुत बढ़ाया और सम्राट, उसकी राजधानी तथा आस-पास के इलाकों की सैनिक रक्षा का भार भी अपने हाथो लिया । सम्राट् शाहआलम की लिखी हुई फारसी की एक कविता अभी तक प्रचलित है, जिसमें उसने माधोजी सीधिया को अपना फरजन्द “जिगरबन्डे मन” कहा है और उसकी खुलकर बड़ी प्रशंसा की है ।* कम्पनी ने भारत में अपना राज स्थापित करने के लिए मराठों की बढ़ती हुई सत्ता को कुचल देना आवश्यक समझा । यह दूसरे मराठा युद्ध का समय था । जनरल लोक ने कम्पनी की ओर से एक इकरारनामा लिख कर अपने दस्तखतो से शाहआलम के सामने पेश किया जिसमें कम्पनी ने शाहआलम से यह वादा किया कि हम समस्त देश पर आपका प्राचीन क्रियात्मक आधिपत्य फिर से स्थापित कर देगे आदि आदि ।

भाग्यहीन, निर्बल और अदूरदर्शी शाहआलम फिर से अंगरेजोंकी चालो में फँस गया । शाहआलम की ही सहायता से अंगरेजों ने सन् १८०४ में मराठों को दिल्ली से निकाल दिया, सम्राट् के निजी खर्च के लिए १२ लाख रुपये सालाना का तुरन्त प्रबन्ध कर दिया और राजधानी की सैनिक रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया । उस समय तक भी अंगरेज

*माधोजी सीधिया फरजन्द जिगरबन्देमन, हस्त मसहफ तलीफीए सितमगारि-ए-मा ।

दिल्ली-सम्राट के देश व्यापी मान, मराठों और अफगानों के बल और अपनी निर्बलता के कारण दिल्ली सम्राट और उसके ऊपरी मान को बनाये रखना तथा अपने को सम्राट की प्रजा कहते रहना अपने लिए आवश्यक कार्य समझते थे ।

अंगरेजों की नीयत के सम्बन्ध में भारत सम्राट और उसके हितचिन्तकों को सबसे पहिले सन्देह उस समय हुआ जिस समय कि लार्ड वेल्सली ने यह तजबीज की कि शाहआलम और उसके दरबार को दिल्ली के लाल किले से हटा कर मुग़र के किले में लाकर रखा जाय । लिखा है कि बूढ़ा शाहआलम इस तजबीज को सुनते ही क्रोध से भर गया । लार्ड वेल्सली को अपनी तजबीज के वापस ले लेने में ही कुशल दिखाई दी किन्तु अनेक दिल्ली-निवासियों के चिन्त उसी समय से अंगरेजों की ओर से सशक हो गये । दिल्ली के अन्दर सन् १८५७ के महान विश्व का एक प्रकार यही बीजारोपण था । इस घटना के बाद ही सन् १८०६ में शाहआलम की मृत्यु हुई । शाहआलम के बाद अकबरशाह दिल्ली के तख्त पर बैठा । इससे पहिले सीटन नाम का एक अंगरेज कम्पनी के रेजिडेण्ट की हैसियत से दिल्ली में रहा करता था । सीटन जब कभी दरबार में जाता था तब निम्न श्रेणी के एक भारतीय अमीर के समान सम्राट के सामने यथा-नियम तसलीम और कोरनिश किया करता था और सम्राट कुल के प्रत्येक बच्चे की ओर यथोचित मान दर्शाता था । किन्तु सीटन के बाद चार्ल्स मेटकाफ रेजिडेण्ट हुआ । मेटकाफ ने तुरन्त अपने अंगरेज मालिकों की आज्ञा से सम्राट अकबरशाह की ओर अपना व्यवहार बदल दिया और अनेक ऐसी हरकतें करनी आरम्भ कर दीं जो सम्राट और उसके दरबार

के लिये घोर अपमान जनक थीं। सम्राट और उसके हितचिन्तकों के दिलों में अंगरेजों की ओर से असन्तोष और घृणा बढ़ती चली गई।

सम्राट अकबरशाह ने अपने एक पुत्र मिरजा सलीम को, जिसे मिरजा जहाँगीर भी कहते थे, युवराज नियुक्त करना चाहा। ऐसा कहा जाता है कि मिरजा सलीम अंगरेजों से घृणा करता था। अंगरेजों ने किसी बहाने मिरजा सलीम को इलाहाबाद भेजकर वहाँ नजर बन्द कर दिया। सम्राट के दरबार का बल अनेक आन्तरिक कारणों से पहिले ही कम हो रहा था। सम्राट ने इसके बाद अपने एक दूसरे बेटे मिरजा नीली को युवराज बनाने का प्रयत्न किया। अंगरेजों ने इसका भी विरोध किया। सन् १-३७ में सम्राट अकबरशाह की मृत्यु हुई और अन्त में सम्राट बहादुरशाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा।

जनरल लेक ने सम्राट शाहआलम को जो 'इकरारनामा' लिख कर दिया था वह अभी तक पूरा न किया गया था। सम्राट अकबरशाह ने उस इकरारनामे की शर्तों को पूरा कराना चाहा, किन्तु उसे भी सफलता न हो सकी। इस पर अकबरशाह ने राजा राममोहन राय को अपना एलची नियुक्त करके इंग्लैण्ड भेजा। वहाँ पर भी राजा राममोहन राय की किसी ने न सुनी और इंग्लैण्ड के शासकों ने कम्पनी की मुहर लगे हुए 'इकरारनामे' की कदर रही कागज से अधिक न की। जब यह सब समाचार दिल्ली पहुँचा तब वहाँ के लोगों को अंगरेजों के रहते दिल्ली और दिल्ली के सम्राट-कुल के भविष्य के सम्बन्ध में तरह-तरह की गहरी शकाएँ होने लगीं।

सम्राट बहादुरशाह ने भी इकरारनामे की एक शर्त के अनु-

सार अपने खर्च की रकम को बढ़वाना चाहा। इस बीच दिल्ली और उसके पास के इलाके के ऊपर कम्पनी का पञ्जा कसता जा रहा था, और वही दिल्ली सम्राट जो कुछ समय पहिले समस्त भारत के खजानों का मालिक समझा जाता था, अब अपने सहस्रों कुटुम्बियों और आश्रितों सहित बड़ी आर्थिक कठनाई के साथ दिल्ली के किले के अन्दर दिन बिता रहा था। सम्राट को उत्तर मिला कि यदि आप अपने और अपने वंशजों के समस्त रहे सहे अधिकार विधिवत कम्पनी को सौंप दे तो खर्च की रकम बढ़ा दी जायगी। बहादुरशाह ने इसे स्वीकार न किया।

प्रत्येक ईद को, नौरोज को और सम्राट की साल-गिरह के दिन गवर्नर जनरल और कमाण्डर-इन चीफ दोनों सम्राट के दरबार में उपस्थित होकर या रेजीडेण्ट द्वारा सम्राट के सामने नजरे भेट किया करते थे। सन् १८३७ में बहादुरशाह के तख्त पर बैठने के समय भी ये नजरे दी गई थी। किन्तु इसके कुछ वर्ष बाद लार्ड एलनब्रू ने गवर्नर जनरल बनते ही इन नजरों का भेट किया जाना बन्द कर दिया। इस नजर का बन्द किया जाना पूर्वोक्त असन्तोष का एकमात्र कारण कहा जा सकता है। इसी तरह की और भी अनेक बातों में अंगरेजों ने पद-पद पर दिल्ली-सम्राट का अपमान करना शुरू कर दिया।

सन् १८३९ में सम्राट बहादुरशाह के पुत्र युवराज दारा-बख्त की मृत्यु हुई। उसके बाद सम्राट बेगम जीनतमहल के पुत्र शाहजादे जवाबख्त को युवराज नियुक्त करना चाहता था। सन् १८५७ में साबित हो गया कि जीनतमहल की योग्यता और संगठन-शक्ति दोनों असाधारण थी और जवाबख्त एक होनहार और स्वाभिमानि युवक था। अंगरेज जीनतमहल और

उसके पुत्र दोनों के विरुद्ध थे। रेजिडेंट और गवर्नर जनरल के उस समय के पत्रों से प्रगट है कि वह भविष्य के लिये हिन्दु-स्तान के 'बादशाह' की उपाधि को ही तोड़ देने की चिन्ता में थे।

गवर्नर जनरल ने गुप्त षड्यन्त्र द्वारा बहादुरशाह के एक दूसरे पुत्र मिरजा फखरु से एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिया, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि यदि मुझे युवराज बना दिया गया तो तख्त पर बैठते ही मैं दिल्ली का लाल कला छोड़कर, जहाँ अंगरेज कहेंगे, वहाँ जाकर रहने लगूंगा। बहादुरशाह को जब इसका पता चला तब उसने आपत्ति की। फिर भी कहा जाता है कि बहादुरशाह की इच्छा के विरुद्ध मिरजा फखरु ही को युवराज नियत होने की घोषणा दिल्ली में कर दी गई। यह समय लार्ड डलहौजी का था। राजधानी के अन्दर अंगरेजों के विरुद्ध गहरं असन्तोष का यह भी एक मुख्य कारण हुआ।

सन् १८५४ में मिरजा फखरु की भी मृत्यु हो गई। रेजिडेंट टामस मेटकाफ बहादुरशाह के दरबार में मिलने गया। उस समय बहादुरशाह के नौ बेटे थे, जिनमें सबसे होनहार और होशियार मिरजा जवाबख्त समझा जाता था। बहादुरशाह ने एक पत्र रेजिडेंट को दिया जिसमें लिखा था कि जवाबख्त को युवराज बनाया जाय। इस पत्र के साथ एक अलग पत्र था जिस पर बाकी आठों शाहजादों के दस्तखत थे और यह लिखा था कि हम सब जवाबख्त के युवराज बनाये जाने में खुश हैं और यही चाहते भी हैं। इस पर अंगरेजों ने इन आठों शाहजादों में से एक मिरजा कोयास को फिर अपनी ओर फोड़ा।

मिरजा कोयास से गवर्नर जनरल के नाम एक गुप्त पत्र लिखाया गया। इस अवसर पर गवर्नर जनरल ने रेजिडेंट को अपने एक पत्र में इस प्रकार लिखा था :

“सम्राट के ऊपरी वैभव और ऐश्वर्य के अनेक भूषण उतर चुके हैं जिससे उस वैभव की पहली सी चमक-दमक नहीं रही, और सम्राट के वे अधिकार, जिन पर तैमूर के कुल वालों को घमण्ड था, एक दूसरे के बाद छिन चुके हैं, इसलिए बहादुरशाह के मरने के बाद कलम के एक डोबे में ‘बादशाह’ की उपाधि का अन्त कर देना कुछ भी कठिन नहीं है।”

बादशाह को जो नजर, गवर्नर जनरल और कमाण्डर-इन-चीफ देते थे, बन्द हुई। कम्पनी का सिक्का जो बादशाह के नाम से ढाला जाता था, वह भी बन्द कर दिया गया। गवर्नर जनरल की मोहर में जो पहले “बादशाह का फिदवी खास” (बादशाह का विशेष नौकर) ये शब्द रहते थे, वे निकाल दिये गये और हिन्दुस्तानी रईसों को मनाही कर दी गई कि वे भी अपनी मोहरों में बादशाह के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग न करें।

इन सब बातों के बाद अब गवर्नमेण्ट ने फैसला कर लिया है कि दिखावे की अब कोई बाद भी ऐसी बाकी न रखी जाय जिससे हमारी गवर्नमेण्ट बादशाह के अधीन मालूम हो। इसलिए दिल्ली के ‘बादशाह’ की उपाधि एक ऐसी उपाधि है जिसका रहने देना या न रहने देना गवर्नमेण्ट की इच्छा पर निर्भर है।”*

*ख्वाजाहसन निजामी की लिखी हुई ‘देहली की जोंकनी’ नामक पुस्तक से उद्धृत।

अपने इसी इरादे को सफल बनाने के लिए गवर्नर जनरल ने शाहजादे जवाबख्त के विरुद्ध मिरजा कोयास को युवराज स्वीकार किया। सम्राट को इसकी सूचना दे दी गई, और मिरजा कोयास से ये तीन शर्तें कर ली गईं। १—तुम्हें 'बादशाह' के स्थान पर केवल 'शाहजादा' कहा जाया करेगा। २—तुम्हें दिल्ली का किला खाली करना होगा। और ३—एक लाख मासिक के स्थान पर तुम्हें पन्द्रह हजार रुपये मासिक खर्च के लिए मिला करेगे।

इस समाचार को पाते ही सम्राट बहादुरशाह और दिल्ली निवासियों के दिलों में क्रोध की आग भड़क उठी कि जिसने दिल्ली वालों को विस्व के लिए कटिबद्ध कर दिया और वे जिस तरह हो, अंगरेजों के पजे से देश को स्वतन्त्र करने के उपाय सोचने लगे। यह घटना सन् १८५६ की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय में अर्थात् उक्त घटना के अगले वर्ष ही भारत में इस ओर से उस ओर तक विस्व की भयानक आग लगी हुई दिखाई दी और वह ऐसी भयानक आग थी जिसकी कल्पना भी अंगरेजों ने स्वप्न में भी न की होगी। वे तो अपने को सर्वशक्ति-सम्पन्न समझे हुए थे।

विस्व का दूसरा मुख्य कारण :—

विस्व का दूसरा मुख्य कारण था, अवध के नवाब और अवध की प्रजा के ऊपर कम्पनी का अत्याचारपूर्ण अमानुषिक वर्ताव। विस्व से केवल एक वर्ष पूर्व बिना किसी कारण के अवध का समस्त राज्य अंगरेजों ने अपने अधिकार में कर लिया और नवाब वाजिदअली शाह को अवध से निर्वासित कर कलकत्ते भेज दिया।

सबसे अन्तिम भारतीय राज्य, जिसे लार्ड डलहौजी ने अंगरेजी राज में शामिल किया था, वह अवध का राज था। लार्ड डलहौजी के इस कार्य को वर्णन करने से पहले कुछ वर्ष पूर्व की एक और हास्य-जनक घटना को वर्णन करना प्रसंग के अनुकूल ही होगा। वह घटना इस प्रकार की थी—डलहौजी का पिता एक समय कम्पनी की भारतीय सेना का कमाण्डर इन-चीफ था। अपने समय के अन्य अंगरेज अफसरों के समान वह एक बार लखनऊ के नवाब से भेट करने गया। कमाण्डर-इन-चीफ ने अवध के नवाब से अपनी धर्मपत्नी का परिचय कराया। अनुमान किया जाता है कि कमाण्डर-इन-चीफ का उद्देश्य अपनी पत्नी को महल में भिजवा कर बेगमों से कुछ नजरे कमाना था। पुरुषों से स्त्रियों का इस प्रकार परिचय कराने की प्रथा भारत में नहीं थी। अवध का नवाब कमाण्डर-इन-चीफ का मतलब न समझ सका। उसने यह समझा कि कमाण्डर इन-चीफ अपनी पत्नी को नवाब के हाथों बेचना चाहता है। निस्सन्देह अवध के नवाब को इस तरह का सौदा रुचिकर न हो सकता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने कर्मचारियों से कहा, “बहुत हो चुका! इस औरत को यहाँ से हटाओ।”

इस स्थल पर आवश्यकता इस बात की भी है कि घटना-क्रम को पूर्ण रीति से समझाने के लिए अंगरेजों और अवध का इतिहास संक्षेप में बतला दिया जाय।

आरंभ में अवध का राज्य विशाल मुगल साम्राज्य का एक अंग था। अवध के नवाब दिल्ली-सम्राट के पैतृक वजीर समझे जाते थे। धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य की निर्बलता के अन्तिम दिनों में अवध के नवाब बहुत दर्जे तक उस साम्राज्य से स्वतंत्र होते

चले गये। कम्पनी के साथ अवध के नवाब का सम्बन्ध सन् १७६४ में प्रारंभ हुआ। आरंभ में अवध के नवाब को अपने राज्य की रक्षा के लिए राज्य के अन्दर कम्पनी को सेना रखने की सलाह दी गई। इस सेना के खर्च के लिए सोलह लाख रुपये वार्षिक नवाब से लिये जाने लगे। धीरे-धीरे कम्पनी की यह सेना बढ़ने लगी और उसके खर्च के लिए रकम भी बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि इस विशाल सेना के खर्च के लिए रुहेलखण्ड और दोआब का इलाका, जिसकी वचत उस समय दो करोड़ रुपये वार्षिक थी, नवाब से ले लिया गया।

सन् १८०१ में अवध के नवाब और कम्पनी के बीच एक और नई सन्धि हुई, जिसमें अंगरेजों ने वादा किया कि नवाब का शेष समस्त राज्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसके शासन में कायम रहेगा और अंगरेज उसमें कभी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी सन्धि की एक धारा यह भी थी कि “अंगरेज सरकार नवाब वजीर के समस्त इलाके की बाहर के आक्रमणों और भीतर के विद्रोहों से रक्षा करने का वादा करती है।” वास्तव में यही धारा अवध की समस्त भावी मुसीबतों की जड़ साबित हुई।

इसके बाद समय-समय पर अंगरेज गवर्नर जनरलों ने अपने भारतीय युद्धों के लिये करोड़ों रुपये कभी बतौर कर्ज के और कभी बतौर सहायता के, अवध के नवाब से वसूल किये। असंख्य अंगरेज शासकों और अफसरों की व्यक्तिगत अर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी अवध के खजाने ने समय-समय पर कामधेनु का काम दिया। वास्तव में अवध के राज्य से धन चूस-चूस कर ही अधिकतर कम्पनी के नवजात साम्राज्य ने भारत में अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट किया।

आये दिन की नित्य नई माँगों के कारण अवध के नवाब की आर्थिक कठिनाई बढ़ती चली गई। एक अँगरेजी रेजिडेंट लखनऊ के दरबार में रहने लगा। शासन के छोटे से छोटे मामलों में नित्य नये हस्तक्षेप होने लगे। कई छोटे-छोटे इलाकों का शासन नवाब से कहकर अँगरेज अफसरों को सौंप दिया गया। इन अँगरेज अफसरों ने स्थान-स्थान पर अपने कानून चला दिये। इस अनुचित हस्तक्षेप के कारण प्रजा में दुःख और दरिद्रता की अधिकता होने लगी। नवाब ने प्रजा की दशा सुधारने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु प्रत्येक बार कम्पनी के प्रतिनिधियों ने नवाब के इन प्रयत्नों को सफल होने से पहले ही रोक दिया।

अवध के शासन में कम्पनी के प्रतिनिधियों के इस अनुचित हस्तक्षेप और उसके परिणामों को वर्णन करते हुए सर हेनरी लारेन्स जनवरी सन् १८४५ के कलकत्ता रिव्यू में लिखता है—
 “हमारे भारतीय इतिहास में अवध का, अध्याय हमारे लिए बड़े ही कलंक का अध्याय है। उससे हमें यह भयानक चेतावनी मिलती है कि जो राजनीतिज्ञ एक बार धर्म और अधर्म के सीधे नियम को छोड़कर उसकी जगह क्षणिक उपयोगिता या अपने विचार के अनुसार ‘अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से काम करने लगता है तो वह किसी सीमा तक पहुँच सकता है। अवध के इतिहास के प्रत्येक लेखक ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है, उन सबसे यही सिद्ध होता है कि उस प्रान्त में अँगरेजों का हस्तक्षेप करना जितना अँगरेजों के नाम पर कलक था, उतना ही अवध दरबार और वहाँ की प्रजा के लिए नाशकर था। X X X हम जिधर हो दृष्टि डालते हैं उधर ही हमें अपने हस्तक्षेप के नाशकर परिणाम स्पष्ट अक्षरों में लिखे हुए दिखाई देते हैं। X X X

यदि कहीं पर भी कुशासन बनाये रखने के लिये कोई सफल उपाय काम में लाया जा सकता है तो वह यह है कि देशी नरेश हो, उसका मन्त्री भी देशी हो, और दोनों की पुष्टि के लिए वे विदेशी संगीने हों, जिनको एक अंगरेज रेजिडेंट नित्य पीछे से चलाता रहे।”

वास्तव बात ऐसी ही थी। एक ओर तो अवध के शासन में इस प्रकार पद पद पर हस्तक्षेप किया जा रहा था और दूसरी ओर अवध के नवाब को दिल्ली के दरबार से तोड़ने के लिए नित्य नये प्रयत्न किये जा रहे थे। कम्पनी के प्रतिनिधि इस बात के लिए चिन्तित रहते थे कि अवध के नवाब दिल्ली की ओर से सर्वथा स्वाधीन हों। यहाँ तक कि मार्किवस आफ हेस्टिंग्स ने अवध के ‘नवाब-वजीर’ को ‘अवध के बादशाह’ की उपाधि दी और इसके बाद नवाब के उत्तराधिकारियों को इसी उपाधि से पुकारा गया। किन्तु ज्यों-ज्यों मुगल दरबार की ओर अवध के नवाबों की स्वतंत्रता बढ़ती गई, त्यों-त्यों अंगरेज कम्पनी की ओर से उनकी परतंत्रता बढ़ती चली गई यहाँ तक कि अवध के अदूरदर्शी-भारतीय नरेश कम्पनी की मित्रता के चगुल में पड़कर थोड़े ही दिनों में सर्वथा पंगुल हो गये।

नवाब पर बार-बार यह अपराध लगाया जाने लगा कि तुम्हारा राज-प्रबन्ध ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रजा तुमसे असंतुष्ट है। वास्तव में जो कुछ कुप्रबन्ध था और उसके कारण जैसा असंतोष उस समय अवध में फैला हुआ था, वह सब अंगरेजों ने ही जान-बूझकर पैदा किया था।

एक स्थल पर लार्ड हेस्टिंग्स ने ऐसा लिखा है—“वास्तव में इस प्रकार का शासन स्थापित करने का जिससे प्रजा सुखी हो,

एममात्र सच्चा और लाभकर उपाय यही हो सकता था कि अंगरेज रेजिडेण्ट को वापस बुला लिया जाता और नवाब को अपने राज-प्रबन्ध में स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता। इसलिए उस इलाके के असतोप का सारा अपराध कम्पनी के ही सिर पर है।”

इतना ही नहीं, सन् १८३७ में नवाब के साथ एक नई सन्धि फिर की गई, जिससे नवाब को और भी अधिक जरूढ़ दिया गया धीरे-धीरे समय बीतता गया। सन् १८४७ में नवाब वाजिदअली-साह अवध के तख्त पर बैठा। वाजिदअलीशाह नौजवान, उत्साही और समझदार था। उसने अवध के शासन में अनेक सुधार किये। वह समझ गया कि अवध के राज्य में वास्तविक रोग क्या है ?

जिस भाग्यहीन वाजिदअलीशाह के ऊपर विषयलोलुपता के असख्य भूटे और द्वेषपूर्ण अपराध लगाये जा चुके हैं, उसी ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहले अपनी रही-सही सेना को सुधारने और उसे फिर से सुसंगठित करने के प्रबल प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये। सेना के अनुशासन के लिए उसने अनेक नये और कठोर नियम बनाये। उसने प्रतिदिन अपने सामने सेना से कवायद करवानी शुरू कर दी। लखनऊ दरबार की समस्त पलटनों को प्रतिदिन सूर्योदय से पहले कवायद के मैदान में जमा हो जाना पड़ता था। नवाब वाजिद अलीशाह स्वयं सूर्योदय से पूर्व सेनापति की वर्दी पहन कर और घोड़े पर सवार होकर मैदान में पहुँच जाता था। यदि किसी पलटन को आने में देर होती थी तो उससे दो हजार रुपये जुर्माना वमूल किया जाता था।

इतिहास-लेखक मेटकाफ लिखता है कि—“वाजिदअलीशाह अपने नियमों का इतना पाबन्द था कि यदि कभी किसी कारण उसे देर होती थी तो इतनी ही रकम जुर्माने की वह स्वयं अदा करता था किन्तु वाजिदअलीशाह को प्रायः कभी भी देर न होती थी। दोपहर तक सारी पलटनें कवायद करनी थीं और वाजिदअलीशाह बराबर घोड़े पर सवार मैदान में उपस्थित रहता था।”

अवध के नवाब वाजिदअलीशाह के ये काम कम्पनी के प्रतिनिधियों के लिये अधिक अरुचिकर होने लगे। परिणाम यह हुआ कि अनेक प्रकार से दबाव डालकर नवाब को इस कार्य से रोका गया इतना ही नहीं, एक समय वह भी आया जब कि वाजिदअलीशाह को विवश होकर कवायद के मैदान में जाना भी बन्द कर देना पड़ा।

इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद डलहौजी का समय आया। अवध की हरी-भरी भूमि का प्रलोभन डलहौजी के लिए कोई साधारण प्रलोभन न था। अवध के विषय की ये बातें पार्लमेण्ट की रिपोर्ट में इस तरह दर्ज हैं—

“इस सुन्दर भूमि में हर जगह जमीन की सतह से बीस फुट नीचे और कहीं-कहीं दस फुट नीचे विपुल जल भरा हुआ है। यह प्रदेश अत्यन्त मनोरम और वैभव-पूर्ण है। इसमें लम्बे और ऊँचे बाँसों के जगल के जगल हैं। मैदानों में आम के वृक्षों की ठडी छाया है। खेत हरी-भरी पैदावार से लहलहाते हैं। स्वयं प्रकृति ने यहाँ की भूमि को अत्यन्त सुन्दर बनाया है। इस पर इमली के वृक्षों की घनी छाया, सन्तरे के बागों की सुगन्ध, इजीर के पेड़ों का गहरा रंग और फूलों के रज की

सुन्दर और व्यापक सुगंध यहाँ के दृश्य को और अधिक वैभव प्रदान करती रहती है।”

इसमें सन्देह नहीं कि अवध का धन-वैभव उस समय कल्पना से अतीत था। इसीलिए असंभव हो गया कि डलहौजी इस प्रलोभन को जीत सकता किन्तु अवध के अपहरण के लिए उतना भी बहाना न मिल सका जितना कि उसे नागपुर, भॉसी और सतारा के लिए मिल चुका था। अवध के नवाबों ने सर्वदा अंगरेजों की सहायता की थी। वे सदा ईमानदारी के साथ सन्धि का पालन करते थे।

वाजिदअलीशाह अपने पूर्वाधिकारी का पुत्र था और वाजिद-अलीशाह के अनेक पुत्र लखनऊ के महल में मौजूद थे। फिर भी सन् १८५६ में लार्ड डलहौजी ने अपने इस निश्चय की घोषणा करा दी कि अवध का राज्य कम्पनी के राज्य में मिला लिया जायगा। इसका कारण यह बताया गया कि नवाब अपने शासन में उचित सुधार नहीं कर रहा है और न करने के ही योग्य है! निस्संदेह डलहौजी का यह कार्य सन् १८०१ और १८३७ की सन्धियों का स्पष्ट उल्लघन था।

लार्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेजिडेण्ट ऊटरम महल में वाजिदअलीशाह से मिलने गया। ऊटरम ने नवाब के सामने एक पत्र पेश किया, जिसमें लिखा था कि मैं खुशी से अपनी सल्तनत कम्पनी को देने के लिए राजी हूँ। रेजिडेण्ट ऊटरम ने उस पत्र पर दस्तखत करने के लिए नवाब पर दबाव डाला। नवाब ने पत्र पढ़ कर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्वतों और धमकियों द्वारा वाजिद-

अलीशाह से दस्तखत कराने का प्रयत्न किया गया। तीन दिन बीत गये, फिर भी वाजिदअलीशाह ने दस्तखत करने से इंकार किया।

इस पर कम्पनी की सेना ने समस्त सन्धियों को धूल में मिलाकर लखनऊ के महल में बलपूर्वक प्रवेश किया। कम्पनी की मर्यादा के अनुसार महलों को लूटा गया, बेगमों का अपमान किया गया। वाजिदअलीशाह को कैद करके कलकत्ते भेज दिया गया, और समस्त अवध पर कम्पनी का अधिकार हो गया।

इसी समय के आस-पास वाजिदअलीशाह के शासन और उसके चरित्र पर भॉति-भॉति के भूठे कलंक लगाकर अनेक पुस्तकें लिखवाई गईं। इनमें एक प्रसिद्ध पुस्तक लार्ड डलहौजी के जीवन-चरित्र के रचयिता आरनाल्ड की लिखी हुई है। उचित होगा कि हम इन रही पुस्तकों और उसके भूठे कलंकों को लेकर कोई तर्क उपस्थित न करे। सर जान कं के समय में यह कहते हैं कि कम्पनी की यह प्रथा थी कि जिस देशी नरेश का राज्य छीना जाता था उसे जन-साधारण की दृष्टि में गिराने के लिये उसके चरित्र पर अनेक भूठे दोष लगाये जाते थे किन्तु दुर्भाग्यवश आरनाल्ड जैसों की पुस्तकों के आधार पर अनेक उपन्यास रचे गये। वाजिदअली शाह के कल्पित पाप इतिहास से इतिहास में नकल किये जाने लगे और आज तक वाजिदअलीशाह के असंख्य देश-निवासी तक इनमें से अनेक गन्दे कलंकों को सच्चा मानते चले आ रहे हैं।

इस स्थल पर हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि वाजिदअलीशाह के जीवन में भोग-विलास की वासना लेश-मात्र भी न थी अथवा यह है कि उसका व्यक्तिगत चरित्र सर्वथा एक

आदर्श चरित्र था किन्तु हम उस भारतीय नरेश के साथ केवल न्याय और सत्य की दृष्टि से केवल इतनी ही बातों का प्रति-पादन अपने इन शब्दों में करना चाहते हैं—

पहिली बात यह कि वाजिदअलीशाह की ऐय्याशी का जमाना केवल उस समय प्रारंभ हुआ, जिस समय अंगरेज गवर्नर जनरल और रेजिडेंट के हस्तक्षेप द्वारा उसे अपनी सेना को कबायद कराने तक से रोका गया। उस जमाने में भी वाजिदअलीशाह की ऐय्याशी के सम्बन्ध में जितनी बातें कही जाती हैं उनमें से नब्बे प्रतिशत कल्पित और मिथ्या हैं, और उनमें सत्य की मात्रा कदापि उससे अधिक नहीं है जितनी संसार के नब्बे प्रतिशत नरेशों के जीवन में पाई जाती है और जितनी क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स जैसे अनेक गवर्नर जनरलों के जीवन में कही अधिक पतित और असभ्य रूप में पाई जाती थी। साथ ही इस अनुचित हस्तक्षेप से पहले वाजिदअलीशाह का जीवन एक नरेश की हैसियत से असाधारण सयम का जीवन था।

दूसरी बात यह कि वाजिदअलीशाह शुजाउदौला के बाद अवध का पहला नवाब था जिसने अपने राज्य को अंगरेजों के प्रभाव से मुक्त करने का विचार किया और यही उसकी आपत्तियों और उस पर झूठे कलकों का कारण हुआ।

तीसरी बात यह कि सन् १८५७ के विश्व ने पूर्ण रूप साबित कर दिया कि नवाब वाजिदअलीशाह अपनी हिन्दू और मुसलमान प्रजा में सर्वप्रिय था और कम्पनी का हस्तक्षेप अवध के अन्दर किसी भी अवध के निवासी को रुचिकर न था।

अवध के नवाबों के अधीन अधिकांश बड़े-बड़े जमीदार और ताल्लुकदार हिन्दू थे। कम्पनी की सत्ता जमते ही इन में से अधिकांश की जमीनें छीनी जाने लगी, उनके गाँव जब्त किये जाने लगे और उनके किले गिराये जाने लगे। सर जान के लिखता है कि “इन प्राचीन पैतृक जमींदारों के साथ घोर अन्याय किया गया।” समस्त अवध के अन्दर वह जबदस्ती और बरबादी शुरू हो गई जिसका वर्णन पढ़कर पढ़ने वाले का हृदय कॉपने लगता है।

इतिहास से उस समय की घटना का पता चलता है कि अवध के सहस्रों ग्रामों के लाखों किसान नवाब वाजिदअली शाह और उसके कुटुम्बियों के इस विपत्ति का हाल सुनकर रो पड़ते थे और सहस्रों ग्राम-निवासी अपने गृह-विहीन जमींदारों और ताल्लुकदारों से मिलकर उनके साथ सहानुभूति प्रगट करते थे। नवाब से लेकर छोटे से छोटे किसान तक सब कम्पनी की नई अमलदारी से दुःखी थे। कम्पनी की फौज के अधिकांश हिन्दुस्तानी सिपाही अवध ही से लिए जाते थे, इसलिए अवध-निवासियों के साथ लार्ड डलहौजी के अत्याचारों ने समस्त अवध और अंगरेजी फौज दोनों के अन्दर गहरे असंतोष के बीज बो दिये।

विस्मव का तीसरा मुख्य कारण :—

विस्मव का तीसरा मुख्य कारण लार्ड डलहौजी का व्यापक अपहरण-नीति थी। किस प्रकार उसने एक दूसरे के बाद सतारा, पंजाब, भाँसी, नागपुर, पेगू सिक्किम और सम्बलपुर आदि रियासतों का अपहरण किया, इसे भी संक्षेप में बतला देना आवश्यक है।

भारत के अन्दर अंगरेजी साम्राज्य के विस्तार देनेवालो मे डलहौजी का नाम सबसे अन्तिम है अर्थात् डलहौजी के शासन-काल के पश्चात् भारत के मानचित्र मे कोई और हिस्सा लाल नहीं रंगा गया ।

लार्ड आरुलैण्ड के समय मे इङ्गलैण्ड के अन्दर लार्ड लैन्सडाउन के मकान पर वहाँ के मंत्रियों और मुख्य-मुख्य नीतिज्ञों की एक सभा हुई थी जिसमे यह निश्चय किया गया था कि अंगरेजो को भारत के अपने मित्र देशी नरेशों के राज्यों को जिस प्रकार बन पड़े अपने सम्राज्य मे मिला-मिला कर अपनी वार्षिक आय को बढ़ाना चाहिए । इसी निश्चित नीति के अनुसार लार्ड डलहौजी ने एरु-एरु करके भारत के रहे रहे देशी राज्यों का अन्त करना आरम्भ कर दिया ।

महाराजा रणजीतसिंह के समय से ही पंजाब पर कम्पनी के शासको के दात लगे हुए थे । लार्ड पैलनब्रु ने रणजीतसिंह की मृत्यु के बाद पंजाब के अन्दर विद्रोह खड़े करने और अराजकता फैलाने का पूरा प्रयत्न किया । सिखों के साथ युद्ध करने की उससे तैयारी भी कर ली थी किन्तु सिख युद्ध को आरम्भ करने का श्रय गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिञ्ज को प्राप्त हुआ क्योंकि उसने अपने पूवाधिकारी के कायं को ज्यों का त्यों जारी रखा ।

सतलज नदी के दाहिनी ओर उस समय महाराजा रणजीत सिंह के बालक पुत्र महाराजा दलीपसिंह का राज्य था और बाईं ओर फीरोजपुर, लुधियाना, अम्बाला और मेरठ इन चारों स्थानों मे अंगरेजो की मुख्य छावनियाँ थी । अंगरेज पंजाब पर आक्रमण करने का वहाँता खोज रहे थे ।

महाराजा दलीपसिंह के नाबालिग होने के कारण उसकी माता रानी भिन्दा राज्य का अधिकतर कार्य चलाती थीं और शासन-व्यवस्था में सिख साम्राज्य के तीन मुख्य स्तम्भ लालसिंह, तेजसिंह और गुलबार्सिंह का पूर्ण रूप से विश्वास करती थी किन्तु ये तीनों ही अंगरेजों से मिल गये धीरे-धीरे परिस्थिति बदलती ही गई। अन्त में अंगरेजों को सिखों से युद्ध करने का कुछ न कुछ बहाना मिल ही गया। भयानक युद्ध के बाद मार्च सन् १८४६ में लाहौर दरबार के साथ पहली सन्धि हुई किन्तु शीघ्र ही इस सन्धि को तोड़कर दूसरी सन्धि की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अन्त में लाहौर में ही दूसरी सन्धि की गई जिसे भैरवलाल की सन्धि कहा जाता है। यह सन्धि १६ दिसम्बर सन् १८४६ को की गयी। इस सन्धि के अनुसार रानी भिन्दा को पन्द्रह हजार पाउण्ड अर्थात् डेढ़ लाख रुपये सालाना की पेनशन देकर राज्य प्रबन्ध से अलग कर दिया गया। दलीपसिंह के नाबालिग रहने के समय तक के लिए आठ सरदारों की एक समिति बना दी गई।

सर फ्रेडरिक करी इसी समय लाहौर का रेजीडेण्ट था वह आरम्भ से ही बालक दलीपसिंह और सिख राज्य को समूल नष्ट कर देना चाहता था इसीलिए पञ्जाबियों में उसके प्रति सन्देह और असतोष होने लगा था।

कुछ दिनों के बाद मुलतान में सभ्राम छिड़ गया। लाहौर बैठे बैठे रेजीडेण्ट करी ने महाराज दलीपसिंह की माता महाराणी भिन्दाकौर पर यह दोषारोपण किया कि मुलतान के विद्रोह में भिन्दाकौर का हाथ था और इसी बहाने अंगरेज रेजीडेण्ट के आदेश से १५ मई सन् १८४८ को महाराजा

रणजीतसिंह की विधवा महारानी और महाराजा दलीपसिंह की माता भिन्दा कौर को शेखपुरे के महल से कैद करके तुरन्त बनारस भेज दिया गया। समस्त पञ्जाब और विशेषकर समस्त सिख जाति महारानी भिन्दा कौर को अपनी माता के समान समझती थी। विधवा महारानी के साथ इस प्रकार के व्यवहार को देखते ही समस्त सिख जाति में एक आग सी लग गई। इसी प्रकार की घटनाएँ होते-होते दूसरा सिख युद्ध हुआ और अन्त में लार्ड डलहौजी ने अन्याय-पूर्वक नाबालिग महाराज दलीपसिंह का राज्य छीनकर उसे अंगरेजी राज्य में मिला लिया। इस प्रकार डलहौजी ने पञ्जाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

अब पेगू पर किस प्रकार अधिकार जमाया गया इसे भी सक्षेप में जान लेना उचित होगा। जून सन् १८५१ में मार्क नामक एक अंगरेजी जहाज मोलमई से चलकर रंगून पहुँचा। जहाज के अंगरेज कप्तान का नाम शैपर्ड था। रंगून बन्दरगाह बरमा के राज्य में था। रंगून पहुँचने के बाद दो मुकदमे रंगून की बरमी अदालत में कप्तान शैपर्ड के विरुद्ध दायर किये गये। एक मुकदमा नरहत्या का था और दूसरा लूटने का था। अगस्त सन् १८५१ में चैम्पियन नामक एक दूसरा अंगरेजी जहाज मारीशस से रंगून पहुँचा। उस जहाज के कप्तान लुई के विरुद्ध भी नरहत्या करने पर बरमी अदालत में मुकदमे दायर किये गये। बरमी अदालत ने उन दोनों को उचित दंड दिया। इसी एक बहाने को लेकर अंगरेजों ने बरमा राज्य के शासकों से द्रोह करना आरम्भ कर दिया। अतः में गवर्नर जनरल डलहौजी ने एक बड़ी सेना बरमा की ओर भेज दी। चूँकि बरमा-निवासी किसी भी प्रकार युद्ध के लिए तैयार न थे इसलिए अंगरेज

सैनिक वहाँ पर सफल हो गये और पेगू का प्रान्त अगरेज कम्पनी के उदर में समा गया ।

इसके बाद बिना युद्ध के ही डलहौजी ने हिन्दुस्तान के अन्य आठ राज्यों का अन्त कर दिया और एक विशाल राज्य का अग भंग कर डाला । जिस नीति के अनुसार इन राज्यों को अगरेजी राज्य में मिलाया गया था उसे अगरेजी में 'लेप्स' कहते हैं । इसका अर्थ यह था कि जिन देशी नरेशों ने कम्पनी के साथ मित्रता की सन्धि कर रखी थी, अथवा जिनके पूर्वजों की सहायता से कम्पनी ने राज्य स्थापित किया था, उनमें से किसी के मर जाने पर यदि उसके कोई पुत्र न हो तो उसका समस्त राज्य अगरेजों का हो जाता था और कम्पनी तुरन्त उस पर अपना अधिकार कर लेती थी ।

सबसे पहला भारतीय राज्य, जिसे इस नीति के अनुसार लार्ड डलहौजी ने जब्त किया था, वह सतारा का राज्य था । इस स्थल पर उल्लेखनीय बात यह है कि सतारा के राजा की सहायता से ही अगरेजो ने पेशवा बाजीराव का नाश किया था और फिर आगे चलकर सतारा के राजा के साथ की गई प्रतिज्ञाओं को ही अगरेजो ने तोड़ दिया । इसी प्रकार नागपुर का राज्य तथा ऊपर उल्लेख किये गये अन्य राज्यों को भी लार्ड डलहौजी ने हड़पकर अगरेजी राज्य में मिला लिया ।

इन भारतीय राज्यों को साधारणतया जिस प्रकार कम्पनी के राज्य में मिलाया जाता था और उसका जो परिणाम होता उसके विषय में मद्रास कौन्सिल का सदस्य जान सलीवन लिखता है—

“जब किसी देशी रियासत का अन्त किया जाता है तब वहाँ के नरेश को हटाकर एक अगरेज उसके स्थान पर नियुक्त कर

दिया जाता है। उस अंगरेज को कमिश्नर कहा जाता है। तीन या चार दर्जन खानदानों देशी दरबारियों और मंत्रियों के स्थान पर कमिश्नर के तीन या चार सलाहकार नियुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक देशी नरेश जिन सहस्रों सैनिकों का पालन करता है उनकी जगह हमारी सेना के इने-गिने सौ सिपाही नियुक्त कर दिये जाते हैं। उन पुराने छोटे से दरवार का लोप हो जाता है, वहाँ का व्यापार शिथिल पड़ जाता है, राजधानी वीरान हो जाती है, लोग निर्धन हो जाते हैं, अंगरेज फलते-फूलते हैं और स्पंज की तरह गंगा के किनारे से धन खींचकर टेम्स नदी में किनारे ले जाकर निचोड़ देते हैं।”

इन रियासतों के अपहरण का उल्लेख करते हुए इतिहास-लेखक लडलो लिखना है—

“निस्सन्देह यदि इस तरह की दशाओं में जिन नरेशों की रियासतें अंगरेजी राज्य में मिला ली गईं, उनके पक्ष में अंगरेजों के विरुद्ध भारतवासियों के विचार न बढ़क उठते तो भारत-वासियों को मनुष्यत्व से गिरा हुआ कहा जाता। निस्सन्देह एक भी स्त्री ऐसी न होगी जिसे इन रियासतों के अपहरण ने हमारा शत्रु न बना दिया हो, एक भी बच्चा ऐसा न होगा जिसे हमारा इन कार्यों के कारण फिरंगी राज्य के विरुद्ध आरंभ से घृणा की शिक्षा न दी जाती हो।” निस्सन्देह सन् १८५७ तक भारतवासी मनुष्य से इतने गिरे हुए न थे।

अपनी अपहरण-नीति की आड़ में लार्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन नाम की एक जाँच कमेटी तैयार की। इस कमेटी ने समस्त भारत के लगभग पैंतीस हजार जागीरों और इनामों की जाँच की और दस वर्ष के अन्दर उनमें से लगभग इक्कीस

हजार को जब्त करके कम्पनी के राज्य में मिला लिया। इस प्रकार समस्त भारत के अन्दर सहस्रों पुराने घरानों को बरबाद कर दिया। इसमें सदेह नहीं कि कम्पनी के इन सब कार्यों ने समस्त देश के अन्दर लाखों भारतवासियों को अँगरेजों की ओर से दुःखी और निराश कर दिया था।

विसव का चौथा मुख्य कारण :—

विसव का चौथा कारण पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र सुप्रसिद्ध नाना साहब के साथ कम्पनी का अन्याय था। सन् १८५१ में अन्तिम पेशवा बाजीराव की मृत्यु हुई। बाजीराव के राज्य के बदले में कम्पनी ने सन् १८१८ में उसे “उसके कुटुम्बियों और उसके आश्रितों के पोषण के लिए” आठ लाख रुपये वार्षिक देते रहने का वादा किया था। सन् १८२७ में बाजीराव ने नाना धुन्धपन्त को गोद लिया। नाना की आयु उस समय तीन वर्ष की थी। कानपुर के पास बितूर में पेशवा के साथ उस समय लगभग आठ हजार पुरुष स्त्री और बच्चे रहा करते थे। इन सब का पोषण इसी आठ लाख रुपये वार्षिक की पेनशन से होता था।

बाजीराव के मरते ही गर्वनर जनरल डलहौजी ने इस पेनशन को बन्द कर दिया। बाजीराव की मृत्यु के पहले की पेनशन के बासठ हजार रुपये कम्पनी की ओर बाकी थे। डलहौजी ने इसे भी देने से इनकार किया। नाना साहब को इसका भी नोटिस दे दिया गया कि बितूर की जागीर भी तुमसे जिस समय चाहे, छीन ली जायगी।

समस्त अँगरेज इतिहास-लेखक स्वीकार करते हैं कि इससे पहले युवक नाना साहब का व्यवहार अँगरेजों के प्रति बहुत ही अच्छा था। सर जान के लिखता है कि “नाना शान्त-स्वभाव

और आडम्बर रहित युवक था। उसमे कोई भी बुरी आदत नहीं थी और वह अंगरेज कमिश्नर की सलाह मानने के लिए सदैव तैयार रहता था।”

कानपुर के समस्त अंगरेज और उनकी मेमे नाना साहब के महल में जाकर ठहरतीं व रहती थीं। नाना उनको बड़े आराम से रखता था और जब वे उसके यहां से चलने लगते तब उन्हें मूल्यवान दुशाले और आभूषण भेंट करता था। नाना के हाथी घोड़े और गाड़ियों सर्वदा अंगरेजों की सेवा के लिये खडी रहती थीं। फिर भी लार्ड डलहौजी ने बाजीराव के मरते ही नाना साहब की पेनशन को बन्द कर दिया।

नाना ने अपने खर्च, कठिनाइयों और कम्पनी की सन्धियों को दिखाते हुए डलहौजी के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि पेनशन न बन्द की जाय। नाना ने इंग्लैण्ड के शासकों से अपील की और अपना एक योग्य वकील अजीमुल्ला खॉं को इस कार्य के लिए विलायत भेजा किन्तु वहाँ पर भी नाना के साथ किसी ने न्याय न किया।

सर जान के, चार्ल्स बाल, ट्रेवेलियन और मार्टिन, ये चारो प्रसिद्ध अंगरेज इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि न्याय नाना के पक्ष में था। परिणाम यह हुआ कि उसी समय से युवक नाना साहब के चित्त में अंगरेजों की ओर घृणा उत्पन्न हो गई और वह अपने तथा अपने देश को अंगरेजों के पजे से छुड़ाने के उपाय सोचने लगा।

विसव का पाँचवाँ मुख्य कारण :—

विसव का पाँचवाँ कारण था भारतवासियों को ईसाई बनाने की आकांक्षा और विशेष रूप से हिन्दुरतानी सेनाओं में अंगरेज अफसरों का ईसाई-मत प्रचार। सन् १८५७ के बहुत पहले से

अनेक बड़े-बड़े अँगरेज नीतिज्ञों को भारतवासियों के ईसाई हो जाने में ही अपने राज्य की स्थिरता दिखाई देती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अध्यक्ष मिस्टर मैगल्स ने सन् १८५७ में पार्लिमेन्ट के अन्दर कहा था—

“परमात्मा ने हिन्दुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैण्ड को सौंपा है, और इसलिए सौंपा है ताकि हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजयी झण्डा फहराने लगे। हममें से प्रत्येक को अपनी पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिये, ताकि समस्त भारत को ईसाई बनाने के महान् कार्य में देश भर के अन्दर कहीं पर भी किसी कारण तनिक भी ढील न होने पाये।”

यह बात ब्रिटिश-भारतीय राजनीति को दृष्टि से उस समय के सब से अधिक उत्तरदायी अँगरेज नीतिज्ञ की है। उसी समय के निकट एक दूसरे विद्वान अँगरेज रेवरेण्ड कैनेडी ने लिखा है—“हम पर कुछ भी आपत्तियों वर्यों ने आये, जब तक भारत में हमारा साम्राज्य बना हुआ है तब तक हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा मुख्य कार्य उस देश में ईसाई मत को फैलाना है। जब तक रासकुमारी से लेकर हिमालय तक सारा हिन्दुस्तान ईसा के मत को ग्रहण न कर ले और हिन्दू तथा मुसलमान धर्मों की निन्दा न करने लगे तब तक हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिये। इस कार्य के लिए हम जितने भी प्रयत्न कर सकें, हमें करने चाहिये और हमारे हाथों में जितने अधिकार और जितनी सत्ता है उसका इसी के लिये उपयोग करना चाहिये।”

इसी तरह के और भी वाक्य उस समय के अनेक अँगरेज नीतिज्ञों, शासकों और विद्वानों के उद्धृत किये जा सकते हैं।

यही विचार लार्ड मैकाले के लेखों में पाया जाता है और यही एक अश तक ब्रिटिश-भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल में भी वर्तमान है।

कारण स्पष्ट है। अंगरेज नीतिज्ञ इस बात को भली भाँति समझते थे कि किसी जाति को अधिक समय तक पराधीन रखने के लिए उसमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय अभिमान या अपनी श्रेष्ठता अथवा अपने प्राचीनत्व की आन का विचार नहीं रहने देना चाहिये और कम से कम उस समय भारतवासियों को सब से अधिक अभिमान अपने धर्म का था। धर्म ही उनकी मुख्य आन थी। इसीलिए भारतवासियों को धर्म-च्युत कर देना उनके राष्ट्रीय अभिमान और उमगों को एक दीर्घ काल के लिए अस्त कर देना था। अनन्त काल तक उन्हें विदेशी राज्य के भक्त और उसकी विनीत प्रजा बनाय रखने का यही सब से अच्छा उपाय हो सकता था।

मद्रास के गवर्नर की हैसियत से लार्ड विलियम बेण्टिन्क ने जिन प्रकार अपने प्रान्त और विशेषकर वहाँ की सेना के अन्दर ईसाई-मत-प्रचार को सहायता और उत्तेजना दी, उसी का परिणाम सन् १८०६ की बेलोर के सिपाहियों का विद्रोह था, जिसका कि वर्णन हम पहले कर चुके हैं। गवर्नर जनरल होने के बाद भी लार्ड बेण्टिन्क की यह नीति इसी प्रकार चलती रही। सन् १८३२ में एक नया कानून पास किया गया जिसका अभिप्राय यह था कि जो भारतवासी ईसाई हो जायँ, उनका अपनी पैतृक सम्पत्ति पर पूर्ववत् अधिकार बना रहे।

अंगरेजी-राज्य के स्थापित होने के साथ-साथ असंख्य प्राचीन मन्दिरों और मस्जिदों की माफी की जागीरे छिन गईं। कैदियों

के लिए जेलखाने में अपने धर्म का पालन करना असम्भव कर दिया गया। लार्ड डलहौजी ने भारतवासियों को गोद लेने की प्राचीन धार्मिक प्रथा को नाजायज करार दिया, और भी इसी तरह के अनेक कार्य किये गये जो भारतवासियों के धार्मिक नियमों और उनके धार्मिक रस्म रिवाज के स्पष्ट विरुद्ध थे।

स्वयं लार्ड कैनिंग ने लाखों रुपये ईसाई-मत के प्रचारकों में वितरण किये। भारतीय खजाने से पादरी विशाषों को ऊँचे ऊँचे वेतन मिलने लगे। दफ्तरों के अन्दर अनेक अँगरेज अफसर अपने भारतीय मातहतों पर ईसाई होने के लिये अपना दबाव डालने लगे। अनेक अँगरेज ईसाई पादरी अपनी वक्तृताओं और पत्रिकाओं में हिन्दू और मुसलमान धर्मों की घोर निन्दा करने लगे और दोनों धर्मों के पूज्य पुरुषों के लिये अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे। २२ मार्च सन् १८३२ को पार्लिमेट की सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कप्तान टी० मैकेन ने ऐसा बयान किया था—

“×××बहुत से योग्य भारतीय मुसलमानों ने मुझसे बयान किया है कि गवर्नमेट ईसाई पादरियों के साथ बड़ी रियायते करती है और ये पादरी लोग उनके धार्मिक रिवाजों को गलियों तंके में निन्दा करने में हद्द को पहुँच जाते हैं। इनमें से एक पादरी हिन्दू-मुसलमान जनता को व्याख्यान देते हुए कह रहा था—“तुम लोग मुहम्मद के जरिये अपने पापों की माफी की आशा करते हो, किन्तु मुहम्मद इस समय दोजख में है और यदि तुम लोग मुहम्मद के उसूलों पर विश्वास करते रहोगे तो तुम सब भी दोजख जाओगे।” ईसाई पादरियों के

विरुद्ध इस तरह की शिकायते उन दिनों प्रायः सभी स्थानों में हुआ करती थीं ।

सन् १८४९ में पंजाब पर कम्पनी का अधिकार हुआ । उसके बाद पंजाब को एक आदर्श ईसाई प्रान्त बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किये गये । सर हेनरी लारेन्स, सर जान लारेन्स, सर राबर्ट मायट गूमरी, डानेल्ड मेकलिआड, कर्नल एडवर्ड्स इत्यादि पञ्जाब के प्रसिद्ध अंगरेज शासक सब उसी राय के थे । इनमें से अनेक की यह राय थी कि पञ्जाब में शिक्षा का सारा कार्य ईसाई पादरियों के हाथों में दे दिया जाय । सरकार की ओर से ईसाई मदरसों को धन की पूरी सहायता दी जाय और अंगरेज सरकार अपने स्कूल बन्द कर दे ।

गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी और कम्पनी के डाइरेक्टर भी इन लोगों की राय से सहमत थे । इनमें से कुछ की राय यह भी थी कि सरकारी स्कूलों और कालेजों में इस्लाम और ईसाई मन की शिक्षा दी जाय करे । अंगरेज सरकार हिन्दू धर्म और इस्लाम को किसी तरह की सहायता, उत्तेजना या स्वीकृति न दे । किसी सरकारी महकमे में किसी भी हिन्दू या मुसलमान त्योहार की छुट्टी न दी जाय । अपने न्यायालयों में अंगरेज सरकार हिन्दू या मुस्लिम धर्मशास्त्रों और धार्मिक रिवाजों को कोई स्थान न दे । हिन्दुओं या मुसलमान के धार्मिक कीर्तन बन्द कर दिये जाय ।

किन्तु भारत की विचित्र परिस्थितियों में उस समय के शासकों की यह नीति इस खुले रूप में देर तक न चल सकी । कुछ भी हो, ईसाई धर्म-प्रचार के पक्ष में निरन्तर प्रयत्न होते रहे धीरे-धीरे इन धर्मोन्मत्त शासकों का ध्यान हिन्दुस्तानी सिपाहियों

की ओर गया। इतिहास-लेखक नालेन लिखता है कि अंगरेज सरकार सिपाहियों के धार्मिक भावों की अवहेलना करने लगी और बात-बात में उनके धार्मिक नियमों आदि का उल्लंघन किया जाने लगा। यहाँ तक कि कम्पनी की सेना के अनेक अंगरेज अफसर खुले तौर पर अपने सिपाहियों का धर्म-परिवर्तन करने के काम में लग गये।

बंगाल के पैदल सेना के एक अंगरेज कमाण्डर ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि “मैं लगातार २८ वर्ष से भारतीय सिपाहियों को ईसाई बनाने की नीति पर अमल करता रहा हूँ और गैर ईसाइयों की आत्माओं को शैतान से बचाना मेरे फौजी कर्तव्य का एक अंग रहा है।”

‘काञ्चन आफ दी इण्डियन रिवोल्ट’ नामक पत्रिका का भारतीय रचयिता लिखता है—“सन् १८५७ के आरम्भ में हिन्दुस्तानी सेना के बहुत से कर्नल सेना को ईसाई बनाने के अत्यन्त घोर तथा दुष्कर कार्य में लगे हुए पाये गये। उसके बाद यह बता चला कि इन जोशीले अफसरों में से अनेक ××× न रोजी के ख्याल से फौज में भर्ती हुए थे, न इसलिए भर्ती हुए थे कि फौज का कार्य उनकी प्रकृति के अत्यन्त अनुकूल था, बल्कि उनका केवल मात्र और एकमात्र उद्देश्य यही था कि इस जरिये से लोगों को ईसाई बनाया जाय। फौज को उन्होंने खास तौर पर इसलिए चुना, क्योंकि शान्ति के दिनों में फौज के अन्दर सिपाहियों और अफसरों दोनों को हृदय की फुर्सत रहती है और वहाँ पर बिना खर्च परिश्रम इत्यादि के या बिना गॉव-गॉव भटकने के हर तरफ बहुत बड़ी संख्या में गैर ईसाई मिल सकते हैं।”

“X X इन लोगों ने हिन्दू और मुसलमान अफसरों और सिपाहियों में प्रचार करना और उनमें ईसाई पुस्तकों के अनुवाद और पत्रिकाएँ बाँटना शुरू किया। शुरू में सिपाहियों ने कभी घृणा के साथ और कभी उदासीनता के साथ यह सब सहन किया। किन्तु जब इन लोगों का कार्य बराबर चलता रहा, जब इनके ईसाई बनाने के प्रयत्न दिन-प्रतिदिन अधिक से अधिक गहरे और कष्ट पहुँचाने वाले होते गये, तब दोनों धर्मों के सिपाही चौंक उठे। X X इस असें में ये विचित्र अफसर जिन्हें ‘मिशनरी कर्नल’ और ‘पादरी लेफ्टेनेण्ट’ कहा जाने लगा था, चुप न बैठे। सिपाहियों की सहनशीलता से इनका साहस और बढ़ गया और वे पहले की अपेक्षा और अधिक जोश दिखलाने लगे। हिन्दू-धर्म और इस्लाम की वह पहले से अधिक जोरदार शब्दों में निन्दा करने लगे। पहले से अधिक जोश के साथ वे इन अविश्वासी लोगों पर जोर देने लगे कि अपने तैतीस करोड़ कुरूप देवी-देवताओं को छोड़ कर उनकी जगह एक सच्चे परमात्मा की, उसके बेटे ईसा के रूप में पूजा करो। मुहम्मद और राम को अभी तक वे केवल ऐसे-वैसे मनुष्य कहा करते थे अब वे उन्हें बड़े दगाबाज और पक्के धूर्त बतलाने लगे।”

“X X धीरे-धीरे इन धर्म-प्रचारक कर्नलों ने सिपाहियों को रिश्ते दे-देकर उन्हें ईसाई बनाना शुरू किया और ईसाई बननेवालों को तरक्की तथा दूसरे इनामी का भी लालच दिया। इस नापाक काम में उन्होंने निर्लज्जता के साथ अपने अफसरी के प्रभाव का उपयोग किया। सिपाहियों ने आपत्ति की, उनके यूरोपियन अफसरों ने वादा किया कि हर

सिपाही को, जो अपना धर्म छोड़ देगा, हवलदार बना दिया जायगा। हर हवलदार को सूबेदार मेजर बना दिया जायगा, इत्यादि। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सिपाहियों में बहुत बड़ा असन्तोष फैलने लगा।”

विसव के ठीक बाद पूर्वोक्त पत्रिका लन्दन से प्रकाशित हुई। इसके बाद भारतीय क्रान्ति और उसके कारणों के ऊपर असंख्य पुस्तकें, पत्रिकाएँ और लेख इंग्लैण्ड और भारत में प्रकाशित हुए किन्तु किसी लेखक को भी पूर्वोक्त पत्रिका के गम्भीर दोषारोपण को असत्य कहने का साहस न हो सका।

इसी पत्रिका का अंगरेज सम्पादक मैलकम लुइन, जो मद्रास सुप्रीम कोर्ट का जज और मद्रास कौन्सिल का सदस्य रह चुका था, अपने अनुभव से भारतवासियों के साथ उस समय के अंगरेज शासकों के, बर्ताव का वर्णन करते हुए भूमिका में लिखता है—“समाज के सदस्यों की हैसियत से हम दोनो अर्थात् अंगरेज और हिन्दुस्तानी एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। हमारा एक दूसरे से वही सम्बन्ध है जो कि मालिकों और गुलामों में होता है। हमने हर एक ऐसी चीज पर अपना अधिकार जमा लिया है जिससे कि देशवासियों का जीवन सुखमय हो सकता था। प्रत्येक ऐसी वस्तु जो कि देशवासियों को समाज से उभार सकती थी या मनुष्य की हैसियत से उन्हें ऊँचा कर सकती थी, हमने उनसे छीन ली है। हमने उन्हें जाति-भ्रष्ट कर दिया है। उनके उत्तराधिकार के नियमों को हमने रद्द कर दिया है। उनकी विवाह की सस्थाओं को हमने बदल दिया है उनके धर्म के पवित्रतम रिवाजों की हमने अवहेलना की है। उनके मन्दिरों की जायदाद हमने जब्त कर की है। अपने

सरकारी उल्लेखों में हमने उन्हें काफिर कहकर कलङ्कित किया है। उनके देशी नरेशों के राज्य हमने छीन लिये हैं और उनके अमीरो और रइसो की जायदादे जब्त कर ली है। अपनी लूट-खसोट से हमने देश को बर्बाद कर दिया है, और लोगो को सता-सता कर उनसे मालगुजारो वसूल की है। हमने संसार के सबसे प्राचीन उच्च कुलों को निर्मूल कर देने और उन्हें गिराकर पैरिया बना देने का प्रयत्न किया है।”

इसके बाद भारतयामियो को ईसाई बनाने के प्रयत्न के अनौचित्य और भारतीय धर्म और भारतीय सभ्यता की श्रृष्टता का वर्णन करते हुए मैलरुम लुइन लिखता है—

“× × नहीं, यदि वृक्ष की परख उसके फूलों से की जाती है, यदि इंग्लैण्ड और भारत के अलग-अलग सदाचारों को वहाँ के धर्म की कसौटी मान लिया जाय, तो भारत का मस्तक उस तुलना में ऊँचा रहेगा।”

इन सब प्रसंगों से यह प्रमाणित है कि अपने भारतीय सिपाहियो के साथ कम्पनी और फम्पनी के अफसरों का साधारण व्यवहार भी बहुत अच्छा न था। सामान, वेतन, रहने के मकान इत्यादि के विषय में सिपाहियो की ओर से अनेक शिकायते बार-बार की जा चुकी थीं। किन्तु उन पर यथोचित ध्यान कभी न दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों के दिल अँगरेज की ओर से भीतर ही भीतर असन्तोष और क्रोध से भर गये। सन् १८५७ के महात् विश्व का यह पाँचवाँ और एक तरह सबसे अधिक जवर्दस्त कारण था।

विप्लव की योजनाएँ

पूर्वोक्त पाँचों कारणों ने मिलकर समस्त भारत के अन्दर अँगरेजी-राज्य के विरुद्ध प्रत्येक श्रेणी के लोगों में जबर्दस्त स्फोटक सामग्री जमा कर रखी थी। केवल किसी ऐसे योग्य नेता की आवश्यकता थी जो इस सामग्री से लाभ उठाकर समस्त देश को स्वाधीनता के एक महान् सत्राम के लिये तैयार कर सके और सौ वर्ष से जमे हुए विदेशी शासन को उखाड़ फेंक सके, या कोई अकस्मात् चिनगारी इस मामले पर पड़कर देश में एक भयंकर आग लगा दे, परिणाम, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो।

इसीलिए यह कहना पड़ता है कि सन् १८५७ का महान् विप्लव वास्तव में भारत के हिन्दू और मुसलमान नरेशों और भारतीय जनता की ओर से देश को विदेशियों की राजनैतिक अधीनता से मुक्त कराने का एक महान् और व्यापक प्रयत्न था। लन्दन 'टाइम्स' का विशेष प्रतिनिधि सर विलियम हावर्ड रसल, जो सन् १८५७ के महान् विप्लव के समय भारत में मौजूद था, उस विप्लव के सम्बन्ध में लिखता है—

“वस ऐसा युद्ध था जिसमें लोग अपने धर्म के नाम पर, अपनी कौम के नाम पर, बदला लेने के लिये और अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए उठे थे। उस युद्ध में समस्त राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों के जुए को फेंक कर उसकी जगह देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता और देशी धर्मों का पूर्ण अधिकार फिर से स्थापित करने का संकल्प कर लिया था।”

इस राष्ट्रीय प्रयत्न की तह में उतनी ही गहरी योजना और उतना ही व्यापक और गुप्त सगठन भी था। जहाँ तक मालूम हो सकता है, इस विशाल योजना का सूत्रपात दोनों में से किसी एक स्थान पर हुआ—कानपुर के निकट बिठूर में या इंग्लैण्ड की राजधानी लन्दन में।

अन्तिम पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब धुन्ध-पत विप्लव के मुख्यतम नेताओं में से था। यह पहले ही बताया जा चुका है कि नाना साहब ने अपनी पेनशन के विषय में अपील करने के लिए अजीमुल्ला खॉं को इंग्लैण्ड भेजा था। यह अजीमुल्ला नाना का विश्वस्त सलाहकार और विश्व का दूसरा मुख्य नेता था। अजीमुल्ला अत्यन्त योग्य नीतिज्ञ था। अंगरेजी और फ्रान्सीसी दोनों भाषाओं का वह पूर्ण पंडित था। विलायत में वह हिन्दुस्तानी वेश में ही रहता था। देखने में वह अत्यन्त सुन्दर था। लन्दन के उच्च समाज के लोगों में उसका आचार-व्यवहार इतना आकर्षक रहा कि लिखा है, 'उच्चतम श्रेणी के अंगरेजी समाज की अनेक स्त्रियों उस पर मुग्ध हो गईं'। फिर भी अजीमुल्ला को अपने मुख्य उद्देश्य में सफलता प्राप्त न हो सकी अर्थात् नाना की पेनशन के विषय में इंग्लैण्ड के नीतिज्ञों या शासकों ने उसकी एक न सुनी।

ठीक उन्हीं दिनों सतारा के पदच्युत राजा की ओर से अपील करने के लिए रंगो बापूजी नामक एक मराठा नीतिज्ञ भी इंग्लैण्ड गया हुआ था। रंगो बापूजी को भी अपने कार्य में सफलता न हो सकी। लन्दन में अजीमुल्ला और रंगो बापूजी को भेट हुई। सम्भव है कि सन् १८५७ के विश्व की योजना का सूत्रपात भारत से अजीमुल्ला के चलने से पहले बिठूर ही में

हो चुका हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि रंगो बापू जी और अजीमुल्ला खाँ ने लन्दन के कमरों में बैठकर बहुत अश तक इस राष्ट्रीय योजना को रंग और रूप दिया। उसके बाद रंगो बापू जी दक्खिन के नरेशों को इस योजना के पक्ष में करने के उद्देश्य से सतारा वापस आया और चतुर अजीमुल्ला खाँ यूरोप के अन्दर अँगरेजों के बल और स्थिति को समझने के लिए और भारत के भावी स्वाधीनता संग्राम में अन्य राष्ट्रों की सहायता या सहानुभूति प्राप्त करने के लिये यूरोप के विविध देशों में भ्रमण करने लगा।

अन्य देशों में होते हुए अजीमुल्ला खाँ टर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया पहुँचा। उन दिनों रूस और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध हो रहा था। अजीमुल्ला खाँ ने सुना कि हाल में सेबस्तेपोल की लड़ाई में रूस ने अँगरेजों को हरा दिया है। अजीमुल्ला खाँ रूस भी पहुँच गया। कई अँगरेज इतिहास लेखकों ने यह शङ्का प्रकट की है कि अजीमुल्ला खाँ नाना साहब को ओर से अँगरेजों के विरुद्ध रूस से सन्धि करने के लिए रूस गया था। रूस में प्रसिद्ध अँगरेज विद्वान रसल के साथ, जो लन्दन के अखबार 'टाइम्स' का सम्बन्धित था, अजीमुल्ला खाँ की मुलाकात हुई। एक दिन रसल के साथ बैठकर अजीमुल्ला खाँ बड़े शौक के साथ दिन भर अँगरेजों और रूसियों की लड़ाई देखता रहा। रसल ने लिखा है कि रूसी तोप का एक गोला अजीमुल्ला के ठीक पैर के पास आकर फूटा, किन्तु अजीमुल्ला अपनी जगह से बाल भर भी न हिला। मालूम नहीं कि रूस के बाद अजीमुल्ला और कहाँ-कहाँ गया। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अजीमुल्ला खाँ ने इटली, रूस, टर्की और मिश्र

इत्यादि देशों की सहानुभूति अपने भावी स्वाधीनता युद्ध की ओर करने का प्रयत्न किया। लार्ड राबर्ट्स ने अपनी पुस्तक 'फार्टी इयर्स-इन-इण्डिया' में लिखा है कि—“उसने अजीमुल्ला कं कई पत्र इस सम्बन्ध में टर्की के सुलतान और उमर पाशा के नाम देखे, जिनमें भारत के अन्दर अंगरेजों के अत्याचारों का वर्णन था।”

कह नहीं सकते कि अजीमुल्ला खाँ को अपने इन सब प्रयत्नों में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई किन्तु दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। एक यह कि विश्व के दिनों में भारत के अन्दर यह एक आम अफवाह उड़ी थी कि नाना साहब ने अंगरेजों के विरुद्ध रूस के जार के साथ कुछ सन्धि कर ली है। दूसरी यह कि जिन दिनों भारत में विश्व हो रहा था उन दिनों इटली का प्रसिद्ध देशभक्त सेनापति गैरीबाल्डी भारतवासियों की सहायता के लिए अपने देश से सेना और सामान लाने की तैयारी कर रहा था। इटली की आन्तरिक कठिनाइयों, और विद्रोहों के कारण गैरीबाल्डी को जल्दी वहाँ से चलने का अवकाश न मिल सका, और जिस समय गैरीबाल्डी अपने यहाँ के जहाजों में सेना और सामान भरकर भारतीय विश्वकारियों की सहायता के लिए अपने देश से चलने के लिए तैयार हुआ, उसी समय उसे मालूम हुआ कि भारत का विश्व शान्त हो चुका है। गैरीबाल्डी ने बड़े दुःख के साथ अपनी सेना को जहाजों से उतार लिया।

यूरोप और एशिया के अन्य देशों में भ्रमण करने के बाद अजीमुल्ला खाँ भारत लौटा। अब एक ओर रंगो बापूजी सतारा में बैठा हुआ दक्खिन के नरेशों और वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा था और दूसरी ओर अजीमुल्ला खाँ और नाना

साहब बिठूर में बैठे हुए आगामी विस्व के नक्शे को पूरा कर रहे थे ।

विस्व की योजना करने वालों का मुख्य विचार यह था कि भारत के समस्त हिन्दू और मुसलमान बड़े सम्राट् बहादुर शाह के झण्डे के नीचे मिलकर अंगरेजों को देश से बाहर निकाल दे और फिर सम्राट् ही के झण्डे के नीचे अपने देश के सुशासन का नये सिरे से प्रबन्ध करें । इसके लिए एक विशाल और गुप्त संगठन की आवश्यकता थी और संगठन के बाद इस बात की भी आवश्यकता थी कि समस्त भारत में एक साथ एक ही दिन अंगरेजों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया जाय ।

इस विशाल गुप्त संगठन की नींव मालूम होता है बिठूर ही में रखी गई । संगठन इतना विशाल होते हुए भी इतना सम्पूर्ण, सुन्दर और शुभ्यवस्थित था और उसे अंगरेजों जैसी जागरूक कौम से वर्षों इतनी अच्छी तरह गुप्त रखा गया कि इस विषय में अनेक अंगरेज इतिहास-लेखकों तक ने विस्व के प्रवर्तकों और सचालकों की योग्यता की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है । अधिकतर अंगरेजों की ही पुस्तकों से हमें इस संगठन के विषय में जो कुछ मालूम हो सकता है, उससे पता चलता है कि सन् १८५६ से कुछ पहले नाना साहब ने बिठूर से बैठे हुए भारत भर में चारों ओर अपने गुप्त-दूत और प्रचारक भेजने आरंभ कर दिये ।

• नाना के विशेष दूत दिल्ली से लेकर मैसूर तक समस्त भारतीय नरेशों के दरबारों में पहुँचे और उसके गुप्त प्रचारक कम्पनी की समस्त देशी फौजों तथा जनता को अपनी ओर करने के लिये निकल पड़े । जो गुप्त-पत्र नाना ने इस समय भारतीय

नरेशों को लिखे उनमें उसने दिखलाया कि किस प्रकार अंगरेज एक-एक देशी रियासत को हड़प कर समस्त भारत को पराधीन करने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। कुछ समय बाद अंगरेजों ने नाना के एक दूत को पकड़ा जो मैसूर दरबार के नाम नाना का पत्र लेकर गया था। इसी दूत से अंगरेजों को पता लगा कि इस प्रकार के कितने ही पत्र नाना अनेक नरेशों को भेज चुका था। इतिहास-लेखक सर जान के लिखता है—

“महीनों से बल्कि वर्षों से ये लोग समस्त देश के ऊपर अपने षडयन्त्रों का जाल फैला रहे थे। एक देशी दरबार से दूसरे दरबार तक विशाल भारतीय महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक नाना साहब के दूत पत्र लेकर घूम चुके थे। इन पत्रों में होशियारी के साथ और शायद रहस्यपूर्ण शब्दों में भिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न-भिन्न धर्मों के नरेशों और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें आमन्त्रित किया गया था कि आप लोग आगामी युद्ध में भाग लें।”

इस राष्ट्रीय योजना को फूलने फलने के लिए सबसे अच्छा स्थान दिल्ली के लाल किले में मिला जिसके कारण पहले ही बातये जा चुके हैं।

सम्राट बहादुरशाह, उसकी योग्य वेगम जीनत महल और उनके सलाहकारों ने देश और नाना साहब का पूरा साथ देने का निश्चय कर लिया। लिखा है कि इन विषयों में दिल्ली के सम्राट और ईरान के शाह के बीच भी कुछ पत्र व्यवहार हुआ। दिल्ली के नगर में भी गुप्त सभाएँ होने लगी और उपाय सोचे जाने लगे।

इसके बाद ही अवध के अँगरेजी-राज्य में मिलाये जाने का समय आया। सर जॉन के लिखता है कि इस एक घटना से नाना को बहुत बड़ी सहायता मिली। सर जॉन के इन शब्दों में लिखता है कि :—

“अँगरेजों के इस अन्तिम राज्य-अपहरण का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि अब कौन सुरक्षित रह सकता है। यदि अँगरेज सरकार ने अवध के नवाब जैसे अपने बफादार दोस्त और मददगार का राज्य छीन लिया है, जिसने कि आवश्यकता के समय अँगरेजों को मदद दी थी तो अँगरेजों के साथ बफादारी करने से क्या लाभ? कहा जाता है कि जो राजा और नवाब उस समय तक (विस्मय में भाग लेने से) पीछे हट रहे थे वे अब आगे बढ़ने लगे और नाना साहब को अपने पत्रों का संतोष-जनक उत्तर मिलने लगा।”

लखनऊ का निर्वासित नवाब वाजिद अलीशाह, उसका होशियार वजीर अली नकी खॉं, अवध के समस्त ताल्लुकदार, जमींदार और वहाँ की समस्त प्रजा अब इस राष्ट्रीय विस्मय की सफलता पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो गई। वाजिद अलीशाह की बेगम हजरत महल और वजीर अली नकी खॉं, दोनों की गणना विस्मय के मुख्य प्रवर्तकों में की जाती है। वजीर अली नकी खॉं, ने कलकत्ते से बैठ कर मुसलमान फकीरों और हिन्दू साधुओं के रूप में अपने गुप्त दूत उत्तरी भारत की समस्त देशी फौजों में भेजने आरम्भ किये और उन फौजों के भारतीय अफसरों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार आरम्भ किया। बेगम हजरत महल ने अवध के तमाम रईसों और जनता को राष्ट्रीय विस्मय के लिए तैयार करना शुरू

किया। इतिहास-लेखक के लिखता है कि—“अली नकी खॉ के निमन्त्रण पर हजारों हिन्दू सिपाही और उनके अफसरों ने गगा-जल और मुसलमानों ने कुरान हाथ में लेकर राष्ट्रीय सत्राम में भाग लेने और अंगरेजों को देश से बाहर निकालने की शपथ खाई।”

इस विशाल संगठन के लिए धन की कमी न थी। सहस्रों रईसों और साहुकारों ने अपनी थैलियाँ राष्ट्रीय नेताओं के चरणों पर रख दी। बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और सन्यासी घूम-घूम कर एक-एक ग्राम और एक-एक पलटन में स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने लगे। सहस्रों मौलवी सहस्रों पंडित विश्व का सफलता के लिए जगह-जगह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे।

विश्व के इस समय पाँच मुख्य केन्द्र थे—दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। इसमें सन्देह नहीं कि जिस शीघ्रता और वेग के साथ समस्त भारत और विशेषकर उत्तरी भारत में विश्व का प्रचार किया गया, अत्यन्त आश्चर्यजनक था। तरीफ यह कि अंगरेजों को अन्त-समत तक इस तैयारी का कुछ भी ज्ञान न हो सका।

सन् १८५७ के इस गुप्त संगठन के विषय में एक अंगरेज लेखक जैबक लिखता है—“जिस आश्चर्यजनक गुप्त संगठन से यह समस्त षडयन्त्र चलाया गया, जितनी दूरदर्शिता के साथ योजनाएँ की गईं, जिस सावधानी के साथ इस संगठन के विविध समूह एक दूसरे के साथ काम करते थे, एक समूह का दूसरे समूह के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों का किसी को पता न चलता था, और इन लोगों को केवल इतनी ही सूचना

दी जाती थी जितनी उनके कार्य के लिए आवश्यक होती थीं, इस सब बातों का बयान कर कसना कठिन है और ये लोग एक दूसरे के साथ आश्चर्यजनक वफादारी का व्यवहार करते थे।”

इसका एक कारण यह भी था कि अधिकाँश अँगरेजी थानों में पुलिस अनेक अन्य सरकारी कर्मचारी और अँगरेजों के बावर्ची और भिश्ती तक इस राष्ट्रीय योजना में शामिल थे, कहीं-कहीं अँगरेजों ने किसी प्रचारक को पकड़ भी लिया। एक अँगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि—“एक बार मेरठ छावनी के निकट कोई फकीर ठहरा हुआ विप्लव का प्रचार कर रहा था। अँगरेजों ने उसे बाहर निकाल दिया। वह फकीर अपने हाथी पर बैठकर पास के गाँव में चला गया और वहाँ से अपना काम करता रहा।”

इन राजनैतिक फकीरों को प्रायः सवारी के लिए हाथी और रक्षा के लिए सिपाही मिले हुए थे। यहाँ तक कि काशी, प्रयाग, और हरिद्वार में अँगरेजी राज्य के नाश के लिए खुली प्रार्थनाएँ होने लगी और सहस्रों यात्रो भावी विसव में भाग लेने का सकल्प उठाने लगे। तमाशों, पवाड़ों, लावनियों, कठपुतलियों, नाटकों आदि से भी विसव के सचालकों ने पूरा लाभ उठाया। इस प्रकार का व्यापक प्रचार कम या अधिक एक साल से ऊपर तक रहा।

दिल्ली दरबार के राजकवि ने एक राष्ट्रीय गान तैयार किया जो देश भर में स्थान-स्थान पर गाया जाने लगा। धीरे-धीरे संगठन के केन्द्रों की संख्या बढ़ने लगी। इन केन्द्रों के बीच गुप्त पत्र-व्यवहार होने लगा। जगह-जगह विसव की घोषणा प्रकाशित होने लगी, जिनमें लोगों को देश और धर्म

के नाम पर शहीद होने के लिए आमन्त्रित किया गया। इस प्रकार की घोषणा सन् १८५७ के आरम्भ से मद्रास में भी लगी हुई पाई गई। जगह-जगह गुप्त सभाएँ होने लगीं, जनमें एक-एक समय दस-दस हजार आदमी भाग लेते थे। पत्र-व्यवहार के लिए भी गुप्त लिपियाँ तैयार हो गईं।

अन्त में इस गुप्त संगठन के अनेक केन्द्रों को एक सूत्र में बाँधने और देश भर में विश्व का दिन निश्चित करने के लिए मार्च सन् १८५७ के प्रारम्भ में नाना साहब और अजीमुल्ला खॉ तीर्थ-यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ था। सब से पहले ये लोग दिल्ली पहुँचे। लाल किले के दीवान खास में सम्राट बहादुरशाह, बेगम जीन्तमहल और दिल्ली के मुख्य-मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मन्त्रणाएँ हुईं। इसके बाद नाना अम्बाले गया। अन्य अनेक स्थानों में चक्कर लगाने के बाद १८ अप्रैल को नाना और उसके साथी लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में बड़े समारोह के साथ नाना का जुलूस निकाला गया। नाना जहाँ जाता था वहाँ के अंगरेज अफसरों से मिलकर उन्हें तरह-तरह के बहाने बतला देता था और इस प्रकार अपनी ओर से निःशक कर देने के पूरे प्रयत्न करता रहता था। इसके बाद कालपी आदि होते हुए नाना अप्रैल के अन्त में बिठूर वापस आ गया। रसल लिखता है—कि अपनी इस यात्रा में नाना और अजी-मुल्ला रास्ते की समस्त अंगरेजी छावनियों में होते जाते थे।

विप्लव के उन सहस्रों प्रचारकों में, जिन्होंने घूम-घूम कर जनसाधारण के हृदयों को अपनी ओर किया, सबसे मुख्य नाम फैजाबाद के एक जमींदार मौलवी अहमदशाह का है।

लखनऊ और आगरे के शहरों में दस-दस हजार आदमी मौलवी अहमदशाह का व्याख्यान सुनने के लिए जमा होते थे। हिन्दू और मुसलमान अपनी सौ वर्ष की पराधीनता की कहानी सुनकर मौलवी अहमदशाह के व्याख्यानों से यह शपथ खाकर उठते थे कि हम लोग आगामी स्वाधीनता के संग्राम में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। मौलवी अहमदशाह का विशेष वृत्तान्त आगे चलकर इसी पुस्तक में किसी उचित स्थान पर दिया जायगा।

सन् १८५७ के अद्भुत संगठन का वर्णन समाप्त करने से पहले दो और बातों का वर्णन करना आवश्यक है। विसव के नेताओं ने अपने संगठन के दो मुख्य चिन्ह नियत किये थे। एक कमल का फूल और दूसरी चपाती। कमल का फूल उन समस्त पलटनों में, जो इन संगठन में शामिल थी, घुमाया जाता था। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन भर में हाथों हाथ वह फूल सब के हाथों से निकलना था। जिसके हाथ में वह सब से अन्त में आता था उसका कर्तव्य होता था कि वह अपने पास की दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुँचा दे। इसका गुप्त अर्थ यह लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही विसव में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार के सहस्रों कमल पेशावर से बैरकपुर तक विविध पलटनों के अन्दर घुमाये गये।

चपाती (रोटी) एक गाँव का चौकीदार दूसरे गाँव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य होता था कि वह उस चपाती में से थोड़ी सी स्वयं खाकर शेष गाँव के दूसरे लोगों को खिला दे और फिर गेहूँ या दूसरे आटे की उसी तरह

की चपातियों बनवाकर वह अपने गांव तक पहुँचा दे। इसका अर्थ यह होता है कि उस गाँव की जनता राष्ट्रीय विप्लव में भाग लेने के लिए तैयार है। चमत्कार सा मालूम होता है कि थोड़े महीनों के अन्दर ये अलौकिक चपातियाँ भारत जैसे विशाल देश में इस सिरे से उस सिरे तक लाखों ग्रामों के अन्दर पहुँच गईं। निस्सन्देह सिपाहियों के लिए लाल रंग का कमल और जनता के लिये रोटी, दोनों चिह्न गम्भीर और अर्थ-सूचक थे।

नाना की इस यात्रा में ही ग्विवार ३१ मई सन् १८५७ का दिन समस्त भारत में एक साथ विप्लव करने के लिए नियत कर दिया गया। किन्तु इस तिथि की सूचना प्रत्येक केन्द्र के केवल मुख्य-मुख्य नेताओं की ओर प्रत्येक पलटन के तीन-तीन अफसरों को ही दी गई। शेष कर्तव्य केवल अपने नेताओं की आज्ञा पर कार्य करना था।

विविध देशी पलटनों के बीच भी इस समय खूब पत्र व्यवहार हो रहा था। इस प्रकार के एक पत्र में, जो अँगरेजों के हाथों में पड़ा लिखा था—“भाइयों। हम स्वयं विदेशियों की तलवार अपने शरीर के अन्दर धोप रहे हैं। यदि हम खड़े हो जायें तो सफलता निश्चित है। कलकत्ते से पेशावर तक सारा मैदान हमारा होगा।” इतिहास लेखक के लिखता है कि सिपाही लोग रात को अपनी गुप्त सभाएँ किया करते थे जिनमें बोलने वालों के मुँह पर नकाब पड़ा होता था।

कलकत्ते के पास की घटनाएँ

ऊपर किये गये वर्णनों से पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं कि १८५७ के महान विद्रोह को चलाने वालों ने कितनी गुप्त और कितनी सुव्यवस्थित योजनाएँ तैयार की थी, किन्तु किसी भी विद्रोह अथवा क्रान्ति को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि सभी स्थानों में नियत समय पर और नियत उपायों से विद्रोहकारी कार्य किये जायें। जनवरी सन् १८५७ में कलकत्ते के पास दमदम नामक ग्राम में अकस्मात् एक छोटी सी घटना हुई जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि सन् १८५७ का विद्रोह अपने सभी प्रयत्नों के सफल होते-होते सफल न हो सका।

सन् १८५३ में एक नये ढंग के कारतूस बनाने के लिए कम्पनी की ओर से अपनी भारतीय सेना के लिये कारखाने खोले गये। इससे पहले के कारतूस सिपाहियों को हाथों से तोड़ने पड़ते थे, किन्तु नये कारतूस को दाँतों से काटना पड़ता था। आरम्भ में केवल एक दो पलटनों में उन्हें प्रचलित किया गया। भारतीय सिपाहियों ने अज्ञान के कारण कई जगह नये कारतूसों को दाँतों से काटना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे नये कारतूसों का इस्तेमाल बढ़ाया गया।

बैरकपुर के पास इन कारतूसों के बनाने के लिये एक कारखाना खोला गया। एक दिन दमदम का एक ब्राह्मण सिपाही

पानी का लोटा हाथ में लिये बारिक की ओर जा रहा था अकस्मात् मेहतर ने आकर पानी पीने के लिए सिपाही से लोटा माँगा। सिपाही ने हिन्दू प्रथा के अनुसार लोटा देने से इन्कार किया। इस पर मेहतर ने कहा, “तुम अब जात-पात का घमंड न करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शीघ्र ही तुम्हें अपने दाँतों से गाय का मांस और सुअर की चर्बी काटनी पड़ेगी ? जो नये कारतूस बन रहे हैं उनमें जान-बूझकर ये दोनों चीजें लगाई जा रही हैं।”

ब्राह्मण सिपाही इसे सुनते ही क्रोध से भरकर छावनी में गया। जब दूसरे सिपाहियों ने यह समाचार सुना तो वे भी क्रोध से लाल हो गए। वे सोचने लगे कि अँगरेज सरकार इस प्रकार जान-बूझकर हमें धर्म-भ्रष्ट करना चाहती है। उन्होंने अपने अँगरेज अफसरों से पूछा। अफसरों ने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया कि यह अफवाह बिल्कुल भूठी है और नये कारतूस में इस तरह की कोई चीज नहीं है। सिपाहियों को विश्वास न हुआ। उन्होंने बैरकपुर के कारखाने में काम करने वाले छोटी जाति के हिन्दुस्तानी मजदूर से पता लगाया। उन्हें पता लगा कि वास्तव में नये कारतूसों के अन्दर दोनों चीजें, जो हिन्दू और मुसलमान धर्मों में निषिद्ध हैं, लगाई जाती हैं। इस प्रकार अपनी तसल्ली करने के बाद बैरकपुर के सिपाहियों ने यह खबर सारे हिन्दुस्तान में फैला दी। लिखा है कि इसके दो महीने के अन्दर बैरकपुर से पेशावर और महाराष्ट्र तक हजारों पत्र इस विषय के भेजे गए और नये कारतूसों का समाचार बिजली के समान भारत के एक-एक हिन्दुस्तानी सिपाही के कानों तक पहुँच गया। प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान सिपाही अब अँगरेजों से इस अन्याय का

बदला लेने के लिए बेचैन हो गया, किन्तु सिपाहियों के नेता ने उन्हें ३१ मई तक रोक रखने का हर तरह से प्रयत्न किया।

इस स्थल पर विचार करने योग्य बात यह है कि नये कारतूसों में गाय और सुअर की चरबी का उपयोग किया जाना कहाँ तक सच था। आजकल प्रायः समस्त अंगरेज इतिहास लेखक और विशेषकर वे अंगरेज और हिन्दुस्तानी लेखक, जो सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखते हैं, इस अफवाह को भूठा बनाते हैं और उस पर विश्वास करने वाले सिपाहियों को पागल कहते हैं।

सन् १८५७ में गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग से लेकर छोटे से छोटे अंगरेज अफसर तक सब ने गम्भीरता के साथ यह ऐलान किया और सिपाहियों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि कारतूसों में चरबी का किस्सा सरासर भूठा है और बदमाश लोगों ने फौज को बर्बाद करने के लिए फैलाया है। किन्तु सर जान के जो सन् १८५७ के विस्रव का सब से अधिक प्रामाणिक इतिहास लेखक माना जाता है, वह इस प्रकार लिखता है—“इसमें कोई सदेह नहीं कि इस चिकने मसाले के बनाने में गाय की चरबी का उपायोग किया गया था।”

सर जान के यह भी लिखता है कि—“दिसम्बर सन् १८५३ में कर्नल टकर ने बहुत साफ शब्दों में इस बात को लिखा था कि नये कारतूसों में गाय और सुअर दोनों की चरबी लगाई जाती थी।” दमदम के कारखाने में जिस ठेकेदार को कारतूसों के लिए चरबी का ठेका दिया गया था उसके ठेके के कागज में यह साफ शब्दों में लिखा गया था कि “मैं गाय की चरबी लाकर दूँगा।” और चरबी का भाव चार सेर रखा गया था।

लार्ड रावर्ट्स ने (जो इस विश्व के समय भारत में मौजूद था) लिखा है—“मिस्टर फारेस्ट ने भारत सरकार के कागजों की हाल में जाँच की है। उस जाँच से साबित है कि कारतूसों के तैयार करने में जिस चिकने मसाले का उपयोग किया जाता था वह मसाला वास्तव में दोनों निषिद्ध पदार्थों अर्थात् गाय की चरबी और सुअर की चरबी को मिला कर बनाया जाता था और इन कारतूसों के बनाने में सिपाहियों के धार्मिक भावों की ओर इतनी बेपवाही दिखाई जाती थी कि जिसका विश्वास नहीं होता।”

इस पर प्रसिद्ध इतिहास लेखक विलियम लैकी लिखता है—“यह एक लज्जाजनक और भयंकर सचचाई है कि जिम् बात का सिपाहियों को विश्वास था, वह बिस्कुल सच थी।” और आगे चलकर लैकी यह भी लिखता है—“इस घटना पर फिर से दृष्टि डालते हुए अंगरेज लेखकों को लज्जा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय सिपाहियों ने जिन बातों के कारण विद्रोह किया था, उनसे ज्यादा जबरदस्त बातें कभी किसी विद्रोह को उचित साबित करने के लिए और हो ही नहीं सकती।”

सिपाहियों में इस असतोष के फैलने के थोड़े ही दिनों बाद कम्पनी सरकार की ओर से एक एलान प्रकाशित हुआ कि एक भी इस तरह का कारतूस फौज में नहीं भेजा गया, किन्तु हाल ही में साढ़े बाईस हजार कारतूस अम्बाला डिपो से और चौदह हजार कारतूस सियालकोट डिपो से अर्थात् केवल दो डिपो से साढ़े छत्तीस हजार कारतूस भारतीय फौज में भेजे जा चुके थे। कई पलटनों में अंगरेज अफसरों ने देशी सिपाहियों को धमकाना शुरू किया कि तुम्हें नये कारतूसों का उपयोग

करना पड़ेगा। एक दो जगह सिपाहियों ने जिद्द की इस पर सारी रेजिमेण्ट को कड़ी सजा दी गई।

इस प्रकार इन गाय और सुअर की चरबी से बने हुए कारतूसों ने उस समय की हिन्दुस्तानी फौज के अन्दर स्फोटक मसाले के ऊपर चिनगारी का काम किया। कोई अंगरेज इतिहास लेखक कारतूसों के मामले को ही विसव का एकमात्र या मुख्य कारण बतलाते हैं। इन लोगों के उत्तर में हम केवल दो तीन प्रामाणिक अंगरेज इतिहास लेखकों की ही राय नीचे उद्धृत करते हैं। जस्टिन मैककार्थी लिखता है—“सच यह है कि हिन्दुस्तान में उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के अधिकांश भाग में देशी कौमों अंगरेजी सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो गई। चरबी के कारतूसों का झगड़ा केवल इस तरह की चिनगारी थी जो अकस्मात् इस समस्त स्फोटक मसाले में आ पड़ी। वह एक राष्ट्रीय और धार्मिक युद्ध था।”

एक दूसरा इतिहास लेखक मेंडले लिखता है—“किन्तु वास्तव में जमीन के नीचे ही नीचे जो स्फोटक मसाला अनेक कारणों से बहुत दिनों से तैयार हो रहा था, उस पर चरबी लगे हुए कारतूसों ने केवल दियासलाह का काम किया।”

चार्ल्स बाल ने अपने विसव के इतिहास में लिखा है कि डिजरेली, जो बाद में इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री हुआ, कहा करता था कि “कोई भी मनुष्य कारतूसों को विसव का वास्तविक कारण नहीं मानता।”

एक इतिहास लेखक लिखता है कि “जिन कारतूसों पर भारतीय सिपाही आपत्ति करते थे, उन्हीं को उनमें से अनेक ने बेखटके विसव के दिनों में अंगरेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया।”

हम ऊपर लिख चुके हैं कि इन नये कारतूसों के कारण विस्रव नियत समय से पहले आरम्भ हो गया। सन् १८५७ के विस्रव का श्रीगणेश एक प्रकार बैरकपुर से हुआ। फरवरी सन् १८५७ में बैरकपुर की १९ नम्बर पलटन को नये कारतूस उपयोग करने के लिए दिये गये। सिपाहियों ने उन कारतूसों का उपयोग करने से साफ इन्कार कर दिया। बंगाल भर में उस समय कोई गोरी पलटन न थी। इसलिए अंगरेज अफसरों ने तुरन्त बरमा से एक गोरी पलटन भंगाकर १९ नम्बर पलटन से हथियार रखा लेने और सिपाहियों को नौकरी से निकाल देने का इरादा कर लिया।

सिपाहियों को जब इस बात का पता चला तो उनमें से कुछ ने चुपचाप हथियार रख देने के बदले तुरन्त विद्रोह कर देने का विचार किया। उनके हिन्दुस्तानी अफसरों ने उन्हें ३१ मई तक रुके रहने की सलाह दी। किन्तु १९ नवम्बर पलटन का एक नौजवान सिपाही, जिसका नाम मंगल पाण्डे था, अपने आपको न रोक सका। इसमें सदेह नहीं कि उसे सब तरह के समझाने का प्रयत्न किया गया। किन्तु अंगरेज अफसरों के इस अपमान जनक बर्ताव से दुःखी होकर वह तुरन्त बदला लेने के लिए अधीर हो उठा। ३१ मई तक रुकना उसके लिये असम्भव सा हो गया।

२९ मार्च सन् १८५७ को पलटन परेड के मैदान में बुलाई गई। जिस समय पलटन आकर खड़ी हुई उस समय मंगल पाण्डे तुरन्त अपनी भरी हुई बन्दूक लेकर सामने कूद पड़ा और चिल्लाकर शेष सिपाहियों को अंगरेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध आरम्भ करने के लिए आमन्त्रित करने लगा।

एक अंगरेज अफसर साजेंट मेजर ह्यूसन ने जब यह देखा

तब उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो, किन्तु कोई सिपाही आज्ञा पालन करने के लिये आगे न बढ़ा। इतने में मंगल पांडे ने अपनी बन्दूक की गोली से तुरन्त सार्जेंट मेजर ह्यूसन को वहीं पर ढेर कर दिया। इस पर एक दूसरा अफसर लेफ्टिनेण्ट वाघ अपने घोड़े पर आगे बढ़ा।

उसका घोड़ा अभी कुछ दूर ही था कि मंगल पांडे ने एक दूसरी गोली के घोड़े और सवार दोनों को जमीन पर गिरा दिया। मंगल पांडे ने तीसरी बार अपनी बन्दूक भरने का इरादा किया। लेफ्टिनेण्ट वाघ ने उठकर और आगे लपककर पांडे पर अपनी पिस्तौल चलाई, परंतु पांडे बच गया। पांडे ने अब तुरंत अपनी तलवार निकाल कर एक दूसरे अंगरेज अफसर को भी वहीं पर समाप्त कर दिया।

थोड़ी देर के बाद कर्नल व्हीलर ने आकर सिपाहियों को आज्ञा दी कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने वैसा करने से इन्कार कर दिया। कर्नल घबड़ाकर जनरल के बैगल पर गया। जनरल ने समाचार पाकर कुछ गोरे सिपाहियों के साथ पांडे की ओर बढ़ा। यह देख कर मंगल पांडे ने स्वयं अपनी छाती पर गोली चलाई। वह घायल होकर गिर पड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया।

मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ। उसे फाँसी की सजा दी गई। ८ अप्रैल का दिन फाँसी के लिए नियत किया गया किन्तु बैरकपुर भर में कोई मेहतर तक मंगल पांडे को फाँसी देने के लिए तैयार न हुआ। अन्त में कलकत्त से चार आदमी इस काम के लिए बुलाये गये और ८ तारीख के सबेरे मंगल पांडे को फाँसी दे दी गई।

चार्ल्स बाल और रावर्ट्स दोनो लिखते हैं कि उसी दिन से सन् १८५७-५८ के समस्त विप्लवकारी सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आज भी हमारे भारतीय युवक यह विश्वास करते हैं कि जिस दिन मगल पांडे को फाँसी दी गई उसी दिन से स्वतन्त्रता-संग्राम का आरम्भ होता है और निरन्तर उसी संग्राम में लगे रहने के कारण ही आज हम सब भारतीय भारत सं अंगरेजों को भगाने में और स्वतन्त्रता-लाभ करने में सफल मनोरथ से हो सके हैं ।

यदि हमारे भारतीय युवकों का ऐसा विश्वास न होता तो वे १५ अगस्त सन् १९४७ अर्थात् स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष्य में अपने उस प्रथम अमर शहीद मगल पांडे को स्मरण न करते, और न इस ऐतिहासिक दिवस के उत्सव को मनाने के बाद अर्थात् नवम्बर में ही प्रयाग नगर से 'अमर कहानी' नामक पत्रिका के शहीद अंक "मगल पांडे" शीर्षक जीवन कहानी को 'भारतीय क्रान्ति के इतिहास का पहला खूनी व १८५७ के गद्दर का प्रथम शहीद' इन शब्दों द्वारा सुशोभित करने का प्रयत्न न करते और न सफलता के साथ उस प्रथम शहीद 'मगल पांडे' की कहानी को समाप्त करके अपने को धन्य समझते ।

उपर्युक्त कहानी का लेखक कोई न कोई पांडे ही रहा होगा किन्तु इस स्थल पर अनुमान करना यह पड़ता है कि जिस प्रकार कहानी का चरित-नायक देश के गौरव के लिए शहीद हो गया उसी प्रकार इस कहानी के गुप्त लेखक पांडे ने भी अपने नेक मित्र के नाम को बढ़ाने के लिए लेखकों के ससार में शहीद होना ही उचित समझा होगा । कुछ भी हों, और चाहे कोई भी कहानी

लेखक हो किन्तु कहानी का निर्माण सुन्दर हुआ है, इसे स्वीकार कर लेना भी अपने लिए गौरव का विषय समझा रहा है।

मंगल पांडे की जीवन-कहानी के शेष भाग को इस प्रकार वर्णन किया गया है—(जब फॉसी की सजा सुना दी गई तब), “सारी रेजीमेंट में मातम छाया था। अनायास ही किसी ने कहा, “मंगल से पूछ लिया जाय कि घर क्या संदेश भेजेगा।”

फॉसी मंगल के गले में पड़ चुकी थी, उसी समय किसी ने पूछा, “घर कुछ सन्देश भेजना है ?”

“हाँ !” मंगल ने हँसते हुए कहा।

“क्या ?”

“घर को नहीं, देश को भेजना है।”

मंगल की आँखें लाल हो गईं आवेश में बोला, “देश को मेरा खून देना और कहना तुम्हें इसकी सोगन्ध है कि जब तक इन विदेशियों से इस अपमान का बदला न ले लेना, तुम चैन से न बैठना। मरना है तो इन्सानों की मौत मरो, कुत्तों की तरह जजीरे घसीट कर नहीं।”

रूमाल हिला और तख्ता हट गया।

मंगल पाण्डे की फाँसी के बाद

जब मंगल पाण्डे को फाँसी हो गई तब अँगरेजों को विदित हुआ कि १९ नम्बर और ३४ नम्बर की देशी पलटने विप्लव के लिए गुप्त मन्त्रणाएँ कर रही हैं। ऐसा विदित होते ही तुरन्त इन दोनों पलटनों से हथियार रखा कर सिपाहियों को बरखास्त कर दिया गया। पलटन नम्बर ३४ के सूबेदार को इस अपराध में कि उसके यहाँ गुप्त मन्त्रणाएँ हुआ करती थीं, फाँसी दे दी गई। फिर भी इन दोनों पलटनों के नेताओं ने विप्लव के सचालकों के आदेश का ध्यान रखते हुए ३१ मई से पहले विप्लव की कोई कार्रवाई नहीं की।

यह समाचार भी समस्त उत्तरी भारत में बड़ी ही शीघ्रता के साथ फैल गया। यह बात पहले ही निश्चित हो चुकी थी कि विप्लव के कार्य आरम्भ करने से पहले हर एक जगह अँगरेजों के बंगलों और बारिगो में आग लगा दी जाय। अप्रैल के महीने में लखनऊ, मेरठ और अम्बाजे में अँगरेजों के मकान जला दिये गये। अफसरों ने इन आकस्मिक घटनाओं के अपराधियों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न किया। किन्तु पुलिस भी विप्लवकारियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए उन अपराधियों का कुछ भी पता न चला।

इसके बाद मई का महीना आया। ६ मई सन् १८५७ को मेरठ में बतौर परीक्षा के ९० हिन्दुस्तानी सवारों की एक कम्पनी

को चर्बी लगे हुए नये कारतूस दिये गये। उन कारतूसों को दाँतों से काटने के लिए सवारों से यह कहा गया। १० सवारों से ८५ सवारों ने साफ इन्कार कर दिया। उन सभी सवारों का कोर्ट मार्शल हुआ। आज्ञा उल्लंघन करने के अपराध में उन सबको आठ-आठ और दस-दस वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई। ९ मई को सबेरे उन ८५ सवारों को परेड पर लाकट खड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फौज और तोपखाना था। छावनी के शेष समस्त हिन्दुस्तानी सिपाहियों को भी यह दृश्य दिखाने के लिए परेड पर बुला लिया गया। ८५ अपराधी सवारों से उनकी वर्दियों उतरवा ली गईं और वहीं परेड पर खड़े-खड़े उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गईं। उन सब सवारों से कहा गया कि तुम सबों को दस-दस वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई है। इसके बाद पैरों में बेड़ियाँ डाले हुए उन सब हिन्दुस्तानी सवारों को बड़ी निर्दयता के साथ जेल-खाने भेज दिया गया। उनके साथ के सहखों हिन्दुस्तानी सिपाही जो उन्हें सब तरह से निपराध समझते थे, भीतर ही भीतर दुःख और क्रोध से अधीर हो उठे किन्तु उन्हें अभी तीन सप्ताह और शान्त रहने की आज्ञा थी। वे सब हिन्दुस्तानी वीर सिपाही अपने क्रोध को पीकर अपने-अपने बारिगों की ओर वापस चले गये।

यह सब घटना सबेरे की थी। सन्ध्या के समय मेरठ छावनी के ये हिन्दुस्तानी सिपाही शहर घूमने के लिए गये। कहा जाता है कि मेरठ की स्त्रियों ने स्थान-स्थान पर उन्हें यह कह कह कर लांछना दी—“छिः ! तुम्हारे भाई जेलखाने में हैं और तुम यहाँ बाजार में मक्खियों मार रहे हो। तुम सब सिपाहियों के

पुरुपार्थ और जीवन को बार-बार धिक्कार है।” सिपाहियों ने अभी तक काफी धीरज से काम लिया था। अब मेरठ की स्त्रियों के शब्द उनके दिलों में रह-रह कर चुभने लगे। रात को बारिगों में फिर गुप्त सभाएँ हुईं। उन सभाओं में यह निश्चित हुआ कि २१ मई तक चुप बैठना असंभव है।

९ मई की रात को ही सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को यह समाचार भेज दिया कि हम लोग कल या परसों तक दिल्ली अवश्य पहुँच जायेंगे। आप लोग भी दिल्ली में सब तरह से तैयार रहे। दूसरे दिन १० मई को इतवार था मेरठ शहर के अन्दर नगर निवासी तथा सहस्रों सशस्त्र ग्रामों के निवासी बाहर से आ-आकर एकत्रित होने लगे थे। उधर छावनी में जोरों की तैयारी हो रही थी।

सब से पहले कुछ सवार जेलखाने की ओर बढ़े। चूँकि जेलर भी विसवकारियों के साथ मिले हुए थे इसलिए जेलखाने में पहुँच कर उन सबों ने जेलखाने की दीवारों को ही गिरा दिया। फिर क्या था उन समस्त कैदियों की बेड़ियाँ तुरन्त काट दी गईं। हिन्दू और मुसलमान, पैदल सवार और तोपखाने के समस्त सिपाही उधर-उधर मेरठ के तमाम अँगरेजों को मौत के घाट उतारने के लिए दौड़ पड़े। अनेक अँगरेज मारे गये। बगलों दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई। ‘दीन! दीन! हर हर महादेव! और ‘मारो फिरगी को!’ इस तरह की आवाजे शहर और छावनी के चारों ओर गूँजने लगी। निश्चित योजना के अनुसार तार काट दिये गये और रेलवे लाइन पर विसवकारियों का पहरा बैठ गया। जो अँगरेज किसी प्रकार बच गए, उनमें से कुछ अरतबलों और नालियों में जाकर छिप गये और शेष

ने हिन्दुस्तानी नौकरों के घरों में भाग कर आश्रय लिया। चूँकि शहर और छावनी दोनों ही स्थानों में विद्रोह की आग लग चुकी थी इसलिये जो थोड़ी सी सेना अंगरेजों की मेरठ में मौजूद थी, वह भी भयभीत हो जाने के कारण उस समय अपने कर्त्तव्य को निश्चित न कर सकी। परिणाम यह हुआ कि अनेक अंगरेज, स्त्रियाँ और बच्चे बंगलों के अन्दर जल-जल कर परलोक को सिधार गये। इसके बाद १० तारीख की रात को ही मेरठ के समस्त सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गये। उस समय अंगरेजों के पास कोई भी ऐसी शक्ति न थी जो उन्हें दिल्ली जाने से रोक लेती।

मालसन, हाइट और विलसन नाम के ये तीनों इतिहास लेखक यह स्वीकार करते हैं कि मेरठ में निश्चित समय से पहले ही विप्लवकारियों द्वारा विद्रोह का प्रारम्भ हो जाना अंगरेजों के लिए बरकत और भारत के विप्लवकारियों के लिए हानि पहुँचानेवाला साबित हुआ। मालसन स्पष्ट लिखता है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार एक ही साथ और एक ही तारीख को समस्त भारत में स्वाधीनता का संग्राम हुआ होता, तो यह निश्चित था कि भारत में एक अंगरेज जिन्दा न बचता और उसी समय भारत में अंगरेजी-राज्य का अन्त हो गया होता।

जे० सी० विलसन लिखता है कि "वास्तव में मेरठ शहर की स्त्रियों ने वहाँ के सिपाहियों को समय से पहले भड़का कर अंगरेजी-राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। फिर भी मेरठ में विद्रोह का आरम्भ होते ही भारत में एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक एक भयानक और प्रचण्ड आग भड़क उठी।"

हजार सशस्त्र हिन्दुस्तानी सवार मेरठ से चलकर ११ मई को आठ बजे सबेरे दिल्ली पहुँच गये ।

दिल्ली के नेनाओं को उनके आने का पहले पता था किन्तु अँगरेजों को इसका गुमान तक न था । दिल्ली में कम्पनी की फौज का अँगरेज अफसर कर्नल रिप्ले समाचार को पाते ही ५४ नम्बर की देशी पलटन को जमा करके मेरठ के विद्रोहियों का सामना करने के लिए बढ़ा । आमना-सामना होते ही जिस समय मेरठ के सवारों ने 'अँगरेजी-राज की क्षय' और 'सम्राट बहादुर-शाह की जय !' ऐसे नारे लगाये, उस समय दिल्ली के सिपाही बजाय तुरन्त हमला करने के, आगे बढ़कर अपने मेरठ के सिपाही भाइयों के साथ गल मिलने लगे । कर्नल रिप्ले घबड़ा गया और तुरत वही पर मार डाला गया । दिल्ली की सेना के सब अँगरेज अफसर मार डाले गये । संयुक्त सेना ने काश्मीरी दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश किया । दरियागञ्ज के तमाम अँगरेजी बंगले जला दिये गये । दिल्ली के किले पर तुरन्त विप्लवकारियों का अधिकार हो गया । सम्राट बहादुरशाह और बेगम जीनतमहल ने सोचा कि अब ३१ मई तक ठहरे रहना मूर्खता होगी ।

इतने में मेरठ की पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्ली पहुँच गया । मेरठ के तोपखाने ने लाल किले में प्रवेश करते ही सम्राट बहादुरशाह के नाम पर २१ तोपों की सलामी दी । चार्ल्स बाल लिखता है कि सेना के भारतीय अफसरों ने सम्राट बहादुरशाह को जाकर सलाम किया और मेरठ का समाचार कह सुनाया । इन अफसरों में हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे । मेटकाफ लिखता है कि सम्राट ने उन सबों से कहा कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है मैं आप लोगों की तनखाहें

कहाँ से दूँगा ? इस पर सिपाहियों ने उत्तर दिया—“हम लोग हिन्दुस्तान भर के अँगरेजी खजाने ला-लाकर आपके कदमों पर डाल देंगे।” बूढ़े सम्राट ने स्वाधीनता के सश्रम का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और समस्त किला सम्राट की जय-ध्वनि से गूँज उठा। दिल्ली के सहस्रों नगर-निवासी विप्लवकारियों के साथ मिल गये। जो अँगरेज जिसे जिस स्थान पर मिला उसने उसे उसी स्थान पर मार डाला। लिखा है कि जिस समय मेरठ की फौज दिल्ली पहुँची उस समय दिल्ली के सहस्रों मुसलमान उनके चारों ओर से इकट्ठे हो गये और दिल्ली के हिन्दू-निवासी स्थान-स्थान पर अपनी लुटियों में मेरठ से आये हुए हुए सिपाहियों को ओलों और बताशों का शर्बत पिलाने लगे। दिल्ली का अँगरेजी बैंक अधिकार में कर लिया गया और अँगरेजी इमारतों को मिट्टी में मिला दिया गया।

दिल्ली के अन्दर उस समय कोई भी गोरी पलटन न थी। किले के पास अँगरेजों का एक बहुत बड़ा मैगजीन था, जिसमें लगभग नौ लाख कारतूस, दस हजार बन्दूक और बहुत सा गोला बरूद था। लेफ्टिनेण्ट विलोबी को सन्देशा भेजा कि मैगजीन हमारे हवाले कर दो। विलोबी ने इन्कार किया। मैगजीन के अन्दर नौ अँगरेज और कुछ हिन्दुस्तानी थे। हिन्दुस्तानियों ने जब लाल किले के ऊपर सम्राट बहादुरशाह का हरा और सुनहला झण्डा फहराते हुए देखा, तब वे अपने सिपाही भाइयों से आ मिले। यह हरा झण्डा ही सन् १८५७-५८ के विप्लव में समस्त भारत के अन्दर विप्लवकारियों के युद्ध का झंडा था। नौ अँगरेजों ने कुछ देर वीरता के साथ शत्रुओं का सामना किया। अन्त में मैगजीन को बचा सकना असम्भव देख, उन्होंने उसमें आग लगाई।

दी। लिखा है कि मैगजीन के उड़ने पर एक हजार तोपों के साथ बूटने का सा शब्द हुआ, जिससे समस्त दिल्ली के मकान हिल गये। नौ अंगरेज वीर भी उसी आग के भीतर समाप्त हो गये; और उसी के साथ २५ हिन्दुनानी और आसपास की गलियों में लगभग ३०० और नगर निवासी खंड-खंड होकर उड़ गये समस्त बन्दूक विसवकारियों के हाथ आ गई और प्रत्येक सिपाही को चार-चार बन्दूके मिल गई।

छावनी के अन्दर सब अंगरेज अफसर मार डाले गये। शहर के अन्दर अंगरेजों का कत्लेआम ११ मई से १६ मई तक जारी रहा। इस बीच सैकड़ों अंगरेज जान बचाकर दिल्ली से भाग निकले। अनेक ने अपने मुंह काजे कर लिये और हिन्दुस्तानी फकीर के समान कपड़े पहिन लिये। अनेक गर्मी से और मार्ग की कठिनाई से मर गये और अनेक को पास-पड़ोस के गाँववालों ने खत्म कर दिया। कुछ अंगरेजों को दयालु ग्रामवालों ने आश्रय दिया और अपने यहाँ छिपा लिया। १६ मई सन् १८५७ को भारत की प्राचीन राजधानी दिल्ली पूर्ण रूप से कम्पनी के अधि-कार से मुक्त हो गई और सम्राट बहादुरशाह फिर से दिल्ली का क्रियात्मक सम्राट माना जाने लगा।

इसमें सन्देह नहीं कि दिल्ली की इस घटना का प्रभाव भारत के शेष भाग पर बड़े ही महत्व का हो गया। नाना साहिब और महान् विप्लव के अन्य सचालकों ने बहादुरशाह ही के नाम पर समस्त भारत के नरेशों, सैनिकों और प्रजा को अंगरेजों के विरुद्ध आमन्त्रित किया था। बहादुरशाह का झंडा ही उस समय भारत भर के विप्लवकारियों का एकमात्र झंडा था। इस स्थल पर ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि मेरठ, दिल्ली और उसके

आस-पास के ग्रामों में उन दिनों एक-एक अंगरेज को चुन-चुन कर मारा गया, फिर भी एक भी अंगरेज स्त्री का अपमान विस्फकारियों की ओर से नहीं किया गया। इसके प्रणाम में हम केवल कम्पनी की खुफिया पुलिस के प्रधान अफसर आनरेबुल सर विलियम म्योर के० सी० एस० आई० का यह बयान दे देना उचित समझते हैं। उनका कहना है कि “चाहे और कितना भी अत्याचार और रक्तपात क्यों न हुआ हो, जो कहानियाँ अंगरेज स्त्रियों की बेइज्जती की कही-सुनी जाती थी, वे सब जहाँ तक मैंने देखा और जाँच की वहाँ तक वे सब आदि से लेकर अन्त तक निराधार थी।”

दिल्ली के स्वाधीन हो जाने का समाचार बिजली के समान तमाम भारतवर्ष में फैल गया। जिस जिसने इस समाचार को सुना वही-वही ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ प्रमन्नता प्रकट करने लगा। अनेक स्थानों के नेता उस समय तक भी यह न निश्चय कर पाये कि उन्हें अपने-अपने स्थानों में तुरन्त विप्लव के कार्य आरम्भ कर देना चाहिये अथवा निश्चित दिवस के आने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर भी ११ मई से लेकर ३१ मई तक समस्त उत्तरी भारत में स्थान-स्थान पर विप्लव के दावानल की ज्वाला भड़क उठी।

कम्पनी की ९ नम्बर पैदल पलटन अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा और बुलन्दशहर में बँटी हुई थी। मई महीने के आरम्भ में एक ब्राह्मण प्रचारक बुलन्दशहर की छावनी में सिपाहियों को विप्लव करने का उपदेश देने के लिए पहुँचा। पलटन के तीन सिपाहियों ने मुखबिरी करके उस ब्राह्मण को पकड़वा दिया। पलटन का

मुख्य स्थान अलीगढ़ था। उस ब्राह्मण को फॉसी के लिए अलीगढ़ लाया गया। २० मई के संध्या समय समस्त भारतीय सिपाहियों के सामने उस उपदेशक ब्राह्मण को फॉसी पर लटका दिया गया। ब्राह्मण को फॉसी पर लटका हुआ देखकर उत्तेजना के कारण समस्त सिपाहियों का रक्त बात की बात में खौलने लगा। विश्व से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकों में लिखा हुआ है कि उसी समय तुरंत एक सिपाही कतार से निकल कर अपनी तलवार से उसके शरीर की ओर संकेत करके अपने अन्य सिपाही भाइयों को उत्तेजित करते हुए कहने लगा, 'भाइयो ! यह शहीद हमारे लिए रक्त का स्नान कर रहा है।' ऐसी दशा में सिपाहियों के लिये ३१ मई तक की प्रतीक्षा कर सकना असम्भव हो गया। उस समय को परिस्थितियों से विवश होकर ९ नम्बर की समस्त पलटन तुरन्त बिगड़ खड़ी हुई किन्तु इस पलटन के सिपाहियों ने शान्ति के साथ अपने अँगरेज अफसरों से कहा कि यदि आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो तुरन्त अलीगढ़ छोड़ दीजिए। उसी समय अलीगढ़ के समस्त अँगरेज अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित अलीगढ़ से चल दिये और २० तारीख की आधी रात से पहले स्वाधीनता का हरा झण्डा अलीगढ़ के ऊपर फहराने लगा। सिपाही बहुत सा खजाना और अस्त्र शस्त्र लेकर दिल्ली की ओर खाना हो गये।

अलीगढ़ का यह समाचार २२ तारीख को मैनपुरी पहुँचा। इस समाचार को सुनते ही वहाँ के समस्त सिपाही भी उसी दिन बिगड़ खड़े हुये। इन लोगों ने भी तमाम अँगरेजों की जान बचा दी और फिर अलीगढ़ के सिपाहियों के समान गोला, बारूद और हथियार ऊटों पर लाद कर २३ मई को राजधानी दिल्ली

की ओर रवाना हो गये । स्वाधीनता का झण्डा मैनपुरी के ऊपर भी फहराने लगा ।

ठीक ऐसी ही घटना इटावे में भी हुई । इटावे के कलक्टर मिस्टर ह्यूम ने पुलिस और जनता से सहायता के लिये कहा, किन्तु इन दोनों में से किसी ने भी कलक्टर की बात न मानी और उसकी समस्त आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से विप्लवकारियों का साथ दिया । असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट लड़ाई में मारा गया । २३ मई को हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने खजाने पर अपना अधिकार कर लिया और जेलखाने को भी तोड़ दिया । किन्तु इतना सब होने पर भी अंगरेजों को अपने बच्चों और स्त्रियों सहित भाग जाने का मौका भी दिया । उस समय के इतिहास की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि इटावे के कलक्टर मिस्टर ह्यूम एक भारतीय स्त्री का रूप धारण करके इटावे से निकल भागे । समस्त शहर में स्वाधीनता का ढिंडोरा पीट दिया गया । इस प्रकार ९ नम्बर पलटन के समस्त सिपाही अलीगढ़, बुलन्दशहर, मैनपुरी, इटावा और आस-पास के इलाके को स्वाधीन करके कम्पनी के खजाने पर अधिकार करते हुए, अंगरेजों को जान से न मारते हुए केवल हथियार और रसद साथ लेकर दिल्ली की ओर चल दिये । इन नगरों के शासन का प्रबन्ध नगरनिवासियों को सौंप दिया गया ।

अजमेर के निकट नसीराबाद में कम्पनी की एक पलटन देशी पैदल की, एक कम्पनी गोरों की और कुछ तोपखाना रहा करता था । मेरठ के सिपाही इस समय दूर दूर तक फैल गये थे जिनमें से कुछ नसीराबाद में भी पहुँचे । २८ मई को

वहाँ की हिन्दुस्तानी सेना विद्रोही हुई। गोरो की कम्पनी से उनका संग्राम हुआ। कुछ अंगरेज मारे गये और शेष जान बचा कर भाग गये। देशी सिपाहियों के नेता दिल्ली-सम्राट के नाम पर नगर के शासन प्रबन्ध करके खजाना, हथियार और कई हजार सिपाहियों को साथ लेकर दिल्ली की ओर चल दिये।

रुहेलखण्ड का प्रान्त कुछ समय पहले रुहेल पठानों के स्वाधीन शासन में रह चुका था। बरेली वहाँ की राजधानी थी। अन्तिम रुहेला नवाब का वंशज खानबहादुर खॉ इसी समय कम्पनी के अमीन जजी के पद पर नियुक्त था। यह खानबहादुर खॉ ही रुहेलखण्ड में विप्लव का प्रधान नेता था।

उन दिनों बरेली में कम्पनी की ओर से ८ नम्बर देशी सवार, १८ और ६८ नम्बर पैदल पलटने और कुछ तोपखाना रहता था। जनरल सिबल्ड वहाँ का सेनापति था। मेरठ के विप्लव की खबर १४ मई को बरेली पहुँची। मेरठ के विप्लव के बाद ही अंगरेज प्रधान सेनापति (कमाण्डर-इन-चीफ) ने हिन्दुस्तान की समस्त सेनाओं में इस बात की घोषणा कर दी थी कि चर्बी वाले नये कारतूस बन्द कर दिये गये और समस्त सिपाही पुराने कारतूसों का ही उपयोग करें, परन्तु विप्लव-कारियों पर इस घोषणा का अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था। देहली से निम्नलिखित पत्र रुहेलखण्ड की पलटनों के नाम पहुँचा—

“दिल्ली की सेना के सेनापति की ओर से बरेली और मुरादाबाद की पलटनों सेनापतियों के नाम हार्दिक आलिगन !

भाइयों ! दिल्ली में अंगरेजों के साथ युद्ध बराबर हो रहा है । ईश्वर के आशीर्वाद से हमने अंगरेजों को जो पहली बार हराया है, उसी से वे इतना घबरा गये हैं जितना कि किसी दूसरे अवसर पर दस बार हारने पर भी कभी न घबराते । अनगिनती हिन्दु-स्तानी बहादुर दिल्ली में आ-आकर प्रतिदिन जमा हो रहे हैं । ऐसे अवसर पर अगर आप वहाँ भोजन कर रहे हों, तो हाथ यहाँ आकर धोइए । शाहों का बादशाह, जहाँपनाह, हमारा दिल्ली का शाहशाह आपका स्वागत करेगा और आपकी सेनाओं को पारितोषिक देगा । हमारे कान इस प्रकार आपकी ओर लगे हुए हैं जिस प्रकार रोजेदारों के कान अज्ञान देने वाले की पुकार की ओर लगे रहते हैं । हम आपकी तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं । हमारी आँखें आपके दर्शनों की प्यासी उसी तरह सड़क पर लगी हुई हैं जिस तरह कासिद् की आँखें लगी रहती हैं । आइए, आपका फर्ज है कि आप फौरन आइए । हमारा घर आपका घर है । भाइयो ! आइए, बिना आपकी आमद की बहार के गुलाब में फूल नहीं आ सकते । बिना जारिश के कली नहीं खिल सकती । बिना दूध के बच्चा नहीं जी सकता ।”

इसमें सन्देह नहीं कि यह पत्र यथा समय बरेली पहुँच गया था । जिन-जिन सिपाहियों के सामने यह पत्र पढ़ा गया वे तुरन्त दिल्ली जाने और अंगरेजों को मार भगाने के लिए कमर कस कर तैयार हो गये । उस समय तक सिपाहियों पर अंगरेजों और उनके सहायकों ने जो-जो अत्याचार किये थे वे प्रायः सभी को विदित हो चुके थे । अत्याचारों का बदला लेने के लिए समस्त भारतीय सैनिक अधीर होने लगे किन्तु

रुहेलखंड के नेता खानबहादुर खाँ इतने पर भी विस्रव की योजना के पूर्व निश्चय के अनुसार ३१ मई तक प्रतीक्षा करना उचित सनभने लगे । कहने की आवश्यकता नहीं कि खानबहादुर खाँ और बरेली की समस्त देशी पलटनो का व्यवहार अँगरेजों के साथ इतना सुन्दर और प्रशसनीय रहा कि अन्त समय तक अँगरेजों को उनकी वफादारी मे सन्देह करने का तनिक भी मौका न मिल सका ।

विप्लव के प्रचण्ड दिन

जैसे ही ३१ मई का सबेरा हुआ वैसे ही सबसे पहले बरेली के कप्तान ब्राउनलो का बंगला जलाया गया। ठीक ग्यारह बजे दिन को अचानक एक तोप छूटी। विप्लव आरम्भ करने का यही संकेत था। यह सभी स्वीकार करते हैं कि बरेली का संगठन अच्छा था। ६८ नम्बर पलटन ने अँगरेजों के बगले में आग लगाना और अँगरेजों को मारना आरम्भ कर दिया। अँगरेज नैनीताल की ओर भागने लगे। जनरल सिबल्ड और अन्य अनेक अँगरेज अफसर मार डाले गये केवल ३२ अँगरेज जान बचा कर नैनीताल पहुँच सके। छः घण्टे के अन्दर बरेली के ऊपर स्वाधीनता का हरा झण्डा फहराने लगा।

जिस समय अँगरेजी झण्डा उतार कर उसके स्थान पर हरा झण्डा फहराया गया उसी समय तोपखाने के सूबेदार बख्तखॉ ने विप्लव की सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व ग्रहण किया। इतिहास-लेखक चार्ल्स बाल लिखता है कि बख्त खॉ ने सिपाहियों को उपदेश दिया कि स्वाधीनता प्राप्त कराने के बाद तुम्हें शान्ति और न्याय का व्यवहार करना चाहिये। समस्त प्रजा ने खानबहादुर खॉ को सम्राट की ओर से रुहेलखण्ड का सूबेदार स्वीकार किया। उसी दिन सूर्यास्त से पहले खानबहादुर खॉ की ओर से एक दूत सम्राट को रुहेलखण्ड की स्वाधीनता की सूचना देने के लिये दिल्ली की ओर रवाना हो गया।

बरेली से ४७ मील दूर शाहजहाँपुर में २८ नम्बर पैदल पलटन थी। ठीक बरेली ही के समान शाहजहाँपुर भी इस पलटन के प्रयत्नों द्वारा ३१ मई के सध्या के समय तक स्वाधीन हो गया बरेली के दूसरी ओर मुरादाबाद है। वहाँ पर २९ नम्बर देशी पलटन थी। १८ मई को अंगरेज अफसरों को पता चला कि मेरठ के कुछ विप्लवकारी सिपाही मुरादाबाद के निकट आकर ठहरे हुए हैं। रात के समय २९ नम्बर के सिपाहियों को मेरठ के सिपाहियों पर हमला करने का हुकुम मिला। सिपाहियों ने उन पर हमला किया। लड़ाई के बाद इन सिपाहियों ने अपने अफसरों को सूचना दी, केवल एक को छोड़कर शेष सब मेरठ भाग गये। कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये सब मेरठ के सिपाही मुरादाबाद के सिपाहियों के साथ बारिंगो में आये और खाने-पीने के बाद आपस में बातें कीं और वही आनन्द के साथ रात बिताई।

३१ मई को सबेरे २९ नम्बर पलटन के सब सिपाही परेड पर जमा हुए। उन्होंने अपने अंगरेज अफसरों को नोटिस दिया। कि, “कम्पनी का राज्य समाप्त हो गया। आप सब लोग दो घण्टे के अन्दर मुरादाबाद छोड़ दीजिये, नहीं तो आप सब को मार डाला जायगा।” मुरादाबाद की जनता और पुलिस भी विप्लव के पक्ष में थी। कुछ अंगरेज जिनमें वहाँ के जज कलेक्टर और सिविल सर्जन भी शामिल थे, अपने बाल बच्चों को लेकर मुरादाबाद से भाग निकले। मुरादाबाद का कभिश्नर पावेल और उसके कुछ साथी मुसलमान हो गये। उनको फिर जान से नहीं मारा गया। इसके बाद सिपाहियों ने खजाने और तमाम सरकारी माल पर अपना अधिकार कर लिया। सूर्यास्त से

पहले ही मुरादाबाद के ऊपर भी स्वाधीनता का हरा झण्डा फहराने लगा ।

बरेली, शाहजहाँपुर और मुरादाबाद के अतिरिक्त एक और बड़ा शहर रुहेलखण्ड के इलाके में है । वह शहर बदायूँ के नाम से प्रसिद्ध है । पहली जून की सन्ध्या के समय बदायूँ में विप्लव का कार्य आरम्भ होता है । सिपाहियों, मुख्य मुख्य नगर-निवासियों और पुलिस ने मिल कर ढिठोरा पिटवा दिया कि अंगरेजी राज्य का अन्त हो गया और सूबेदार खानबहादुर खॉ का शासन आरम्भ हो गया । इतना सुनते ही बदायूँ के अंगरेज जंगलों में भाग गये । उनमें से अनेक अंगरेज बड़े कष्टों के साथ जङ्गलों में मर भी गये । इस प्रकार समस्त रुहेलखण्ड दो दिन के ही अन्दर कम्पनी के अत्याचार-पूर्ण शासन से निकल गया । इसके बाद एक नई सेना का संगठन कर सूबेदार खानबहादुर खॉ ने समस्त रुहेलखण्ड में शान्ति और सुशासन को स्थापित किया । अधिकांश महकमों में हिन्दुस्तानी कर्मचारी पहले के ही समान बहाल रखे गये और लगान दिल्ली के सम्राट के नाम पर वसूल किया जाने लगा । खानबहादुर खॉ ने अपने हाथ से रुहेलखण्ड की स्वाधीनता का सब हाल लिखकर सम्राट को भेजा ।

इतना ही नहीं, उसने एक ऐलान लिखकर समस्त रुहेलखण्ड में बटवाया । इस ऐलान के मुख्य वाक्य इस प्रकार थे—
 “हिन्दुस्तान के रहने वालों ! स्वराज्य का पाक दिन, जिसका बहुत अरसे से इन्तजार था, आ पहुँचा है । आप लोग इसे मजूर करेंगे या इससे इन्कार करेंगे ? आप हम जबर्दस्त मौके से फायदा उठाएंगे या इसे हाथ से जाने देंगे ? हिन्दू और मुसलमान भाइयो ! आप सब को मालूम होता चाहिये कि

अगर ये अंगरेज हिन्दुस्तान में रह गये तो हम सब को कत्ल कर देगे और आप लोगों के मजहब को मिटा देगे ! हिन्दुस्तान के बाशिन्दे इतने दिनों तक अंगरेजों के धोखे में आते रहे और अपनी ही तलवारों से अपने गले काटते रहे हैं इसलिये अब हमें मुल्क-फरोशी के अपने इस गुनाह का प्रायश्चित्त करना चाहिये । अंगरेज अब भी अपनी पुरानी दगाबाजी से काम लेंगे । वे हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश करेंगे । लेकिन हिन्दू भाइयों ! उनके फरेब में न पड़ना । हमें अपने होशियार हिन्दू भाइयों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अंगरेज कभी अपने वादे पूरे नहीं करते । ये लोग चाल और दगाबाजी के ताक में हैं । ये हमेशा से सिवाय अपने मजहब के और सब मजहबों को दुनियाँ से मिटाने की कोशिश करते रहे हैं । क्या उन्होंने गोद लिये हुए बच्चों के हक नहीं छीन लिये हैं ? क्या उन्होंने हमारे राजाओं के राज्य और मुल्क नहीं हड़प लिये हैं ? नागपुर का राज्य किसने ले लिया ? लखनऊ की बादशाहत किसने छीन ली ? हिन्दू और मुसलमान दोनों को किसने पैरो तले रौदा ? मुसलमानों ! अगर तुम कुरान की इज्जत करते हो तो और हिन्दुओं ! अगर तुम गो माना की इज्जत करते हो तो अपने छोटे छोटे तफर्कों को भूल जाओ और इस पाक जग में शामिल हो जाओ । लड़ाई के मैदान में क्रूढ़ कर एक भण्ड के नीचे लड़ो और खून की नदियों से अंगरेजों का नाम हिन्दुस्तान से धो डालो ! X गाय का मारा जाना बन्द कर दिया जाय । इस पाक जङ्ग में जो आदमी खुद लड़ेगा या जो धन से लड़ने वालों की मदद करेगा दोनों को इस लोक में और परलोक

मे दोनों जगह निजात मिलेगी ! लेकिन अगर कोई इस मुल्की जङ्ग की मुखालफत करेगा तो वह अपने सर पर कुल्हाड़ी मारेगा और खुदकशी के गुनाह का जिम्मेवार होगा ।”

बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद और बदायूँ से कम्पनी की समस्त हिन्दुस्तानी सेना कम्पनी के खजानों, तोपों और अन्य हथियारों सहित बख्तखाँ के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली की ओर रवाना हो गई । खानबहादुर खाँ और बख्तखाँ दोनों की गिनती उस विप्लव के सबसे अधिक योग्य नेताओं में की जाती है ।

रुहेलखण्ड की घटनाओं का वर्णन करने के पश्चात् उचित तो यही होता कि हम लखनऊ और कानपुर की घटनाओं का वर्णन करते किन्तु इन्हे कुछ देर के लिए बीच में ही छोड़कर हम बनारस और इलाहाबाद की घटनाओं की ओर दृष्टि डालना चाहते हैं । और आशा है कि पाठकगण इस सम्बन्ध में हमारा साथ अवश्य देंगे ।

बनारस में कम्पनी की ३७ नम्बर पैदल पलटन, एक लुधियाना की सिख पलटन और एक सवार पलटन थी । वहाँ का तोपखाना गोरों के हाथों में था । आगरे से कलकत्ते तक उस समय केवल दानापुर में एक पूरी गोरी रेजिमेण्ट मौजूद थी । अर्थात् यदि एक साथ सभी स्थानों में स्वाधीनता की लड़ाई शुरू होती तो अँगरेजों के लिए कम से कम उत्तरी भारत में ठहर सकना सर्वथा असंभव था ।

३१ मई को बनारस की बारिगों में आग लगा दी गई । ३ जून को गोरखपुर और आजमगढ़ के खजानों से सात लाख रुपये

नकद बनारस के लिये आ रहे थे। उसी दिन रात को १७ नम्बर पलटन ने, जो आजमगढ़ में थी, विप्लव आरम्भ कर दिया। केवल दो अंगरेजों को छोड़कर उन्होंने शेष सब अंगरेजों की जान बख्श दी यहाँ तक कि उनके और उनके बाल-बच्चों के बनारस जाने के लिये गाड़ियों तक का प्रबन्ध कर दिया किन्तु सात लाख के उस खजाने पर, कम्पनी के गोले वारूद पर और जेलखाने, दफ्तरों आदि पर विप्लवकारियों ने अपना अधिकार जमा लिया। आजमगढ़ की पुलिस ने विप्लवकारी सिपाहियों का पूरा साथ दिया। आजमगढ़ के नगर पर उसी रात को बड़ी धूमधाम के साथ स्वाधीनता का हरा झण्डा फहराने लगा।

इस समय तक गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने मेरठ के विद्रोह और दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार पाते ही बम्बई, मद्रास और रङ्गून से मँगाकर बहुत सी गोरी सेना बंगाल में जमा कर ली थी। ठीक उन्ही दिनों ईरान के साथ अंगरेजों का युद्ध समाप्त हुआ था और चीन के ऊपर अंगरेज आक्रमण करने वाले थे किन्तु भारत में विप्लव हो जाने के कारण अंगरेजों को चीन पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देना पड़ा। एक विशाल गोरी सेना ईरान से चीन की ओर जा रही थी। लार्ड कैनिंग ने इस समस्त सेना को भारत में रोक लिया। इसमें से बहुत सी सेना लेकर सुप्रसिद्ध जनरल नील बनारस पहुँचा। उसके पहुँच जाने से ही बनारस के अंगरेजों के जी में जी आया। ४ जून को आजमगढ़ का समाचार बनारस पहुँचा। उसी दिन तीसरे पहर बनारस के अंगरेज अफसरों ने देशी सिपाहियों से हथियार रखा लेने का निश्चय किया।

परेड के मैदान में जिस समय देशी सिपाहियों को हथियार

रख देने की आज्ञा दी गई, उस समय के सब सिपाही बजाय हथियार रख देने के मैगजीन पर अंगरेज अफसरों पर टूट पड़े। तुरन्त सिख पलटन उनके मुकाबिले के लिये आ खड़ी हुई। अभी लड़ाई शुरू हो हुई थी कि अंगरेजी तोपखाने ने आकर सब पर गोले बरसाने शुरू किये। यद्यपि सिख अंगरेजों का साथ दे रहे थे, यद्यपि उस समय की घटवराहट में तोपखाने के अंगरेज अफसर यह न समझ सकें कि उनमें से कौन हिन्दू था और कौन सिख? उन्होंने दोनों पर गोले बरसाने शुरू कर दिये। विवश हो कर सिखों को भी विप्लवकारियों का साथ देना पड़ा। सन् १८५७-५८ के तमाम विप्लव में कदाचित् यही एकमात्र अफसर था जब कि सिख सेना ने हिन्दू और मुसलमानों का साथ दिया।

बनारस की जनता विप्लवकारियों के साथ थी, किन्तु सिखों ने, वहाँ के कई रईसों ने और राजा चेतसिंह के वंशज बनारस के उपाधिधारी राजा ने उस समय, अंगरेजों को पूरी सहायता दी। विप्लवकारी नगर छोड़कर इधर-उधर फैल गये। ५ जून को जौनपुर में विप्लव का आरम्भ हुआ। उस विप्लव में कई अंगरेज मारे गये। शेष अंगरेजों को नगर छोड़कर चले जाने की आज्ञा दे दी गई। विप्लवकारियों ने खजाने पर अधिकार कर लिया। जौनपुर के बचे हुये अंगरेज नावों में बैठकर बनारस की ओर चल दिये।

अपने-अपने नगरों को स्वाधीन करने के बाद आजमगढ़ और जौनपुर दोनों जगह के विप्लवकारी सिपाही फैजाबाद की ओर चल दिये। दोनों नगरों के ऊपर हरा भण्डा फहराने लगा। यद्यपि बनारस नगर पर कम्पनी का अधिकार रहा, फिर भी

आस-पास का अधिकांश इलाका विप्लवकारियों के अधिकार में आ गया। जगह-जगह अंगरेजों के नियुक्त किये हुए जमीदारों को हटा कर पुराने पैतृक जमींदार उनकी जगह नियुक्त कर दिये गये। जगह-जगह अंगरेजी अदालतों, अंगरेजी जेलों और अंगरेजी दफ्तरों का अन्त कर दिया गया। तार काट डाले गये। रेलें उखाड़ कर फेंक दी गईं। गाँव-गाँव में हरा झण्डा लिये हुए स्वयंसेवक पहरा देने लगे।

बनारस के प्रान्त भर में विप्लवकारियों ने एक भी अंगरेज स्त्री को नहीं मारा और जिन अंगरेजों ने हथियार रख दिये उन्हें शान्ति के साथ स्वयं गाड़ियों में बैठा कर नगर से चले जाने की आज्ञा दे दी।

अब हम इलाहाबाद की ओर दृष्टिपात करेंगे। यह बात प्रसिद्ध है कि सन् ५७ में भी विप्लवकारियों और अंगरेजों दोनों की ही दृष्टि से इलाहाबाद का नगर बनारस की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व का था। कलकत्ते से पश्चिमोत्तर प्रदेशों को जाने वाली सब सड़कें इलाहाबाद में मिलती थीं। इलाहाबाद का किला भारत के सुविशाल किलों में से एक है। उसमें गोले-बारूद और अस्त्र-शस्त्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग के परछे आस पास की हिन्दू जनता के अन्दर स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने में बहुत भाग ले रहे थे। मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा कहीं अधिक जोश था। चार्ल्स बाल लिखता है कि अंगरेज सरकार के अधिकांश बड़े और छोटे देशी कर्मचारी इस सगठन में शामिल थे।

जिस समय मेरठ का समाचार इलाहाबाद पहुँचा, उस

समय इलाहाबाद में एक भी अँगरेज सिपाही न था। वहाँ केवल ६ नम्बर देशी पलटन, लगभग २०० सिख सिपाही और मुट्ठी भर अँगरेज अफसर थे। अवध से देशी सवारों की एक पलटन और बुला ली गई थी। ६ नम्बर की पलटन ने अपने अँगरेज अफसरो इतनी सुन्दरता के साथ भुलावा देकर रखा कि उन अफसरों को अन्त समय तक उन पर सन्देह न हो पाया। दिल्ली का समाचार पाकर उन्होंने अपने अफसरों से कहा, “आप हमें दिल्ली भेज दीजिए, हम विद्रोहियों के टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे।” इस पर गर्वनर जनरल लार्ड कैनिंग तक ने ६ नम्बर पलटन को शबासी दी। लिखा है कि ६ जून को जब उनके अँगरेज अफसर बारिगों में उनसे मिलने के लिए गये तब कुछ सिपाहियों ने अपनी खैरख्वाही दिखाने के लिए लपककर उन्हें अपनी छाती से लगाया जब कि वही रात उनके विप्लव के लिए नियत थी। ६ नम्बर की बारिगे किले के बाहर थी। जिस समय अँगरेज अफसर खाना खा रहे थे, उसी समय सिपाहियों की बिगुल बजी। बिगुल के बजते ही विप्लव करने के लिए सिपाही निकल पड़े। फिर क्या था। ? विप्लवकारी अँगरेजों पर दूट पड़ने के लिए आगे बढ़े। बात की बात में अनेक अँगरेज मारे गये। शेष किले में जाकर छिप गये। अँगरेजों ने सवार पलटनों को अपनी सहायता के लिए बुलया। सवार तुरन्त आकर जमा हो गये किन्तु परिणाम यह हुआ कि सब सवार बजाय विप्लवकारियों पर आक्रमण करने के मैदान में पहुँचते ही उन सबों के साथ मिल गये। दोनों पलटनों के अधिकांश अफसर बहुत बुरी तरह मारे गये। इतना ही नहीं, विप्लवकारी सिपाहियों द्वारा अँगरेजों के बँगलों में भी तुरन्त आग लगा दी गई।

जिस समय विश्वकारी सिपाही पूरे उत्साह के साथ निर्विघ्न विप्लव के कार्यों को सफल बना रहे थे, उम समय सिख पलटन किले के अन्दर थी। वह विश्वकारी सिपाहियों का साथ नहीं दे रहे थे। यदि किले के सिख उस समय बुद्धिमानों से काम करते हुए विश्वकारियों का साथ दे जाते तो इसमें कुछ सन्देह न था कि आध घन्टे के अन्दर इलाहाबाद नगर का मुप्रसिद्ध और सुविशाल किला और उसके भीतर का तमाम सामान विश्वकारियों के अधिकार में आ जाता। इस स्थल पर बड़े खेद के साथ लिखना पड़ना है कि ऐसे भयानक सकट के समय उन सिखों ने भारत-माता के परम शत्रु अंगरेजों का साथ दिया। यही कारण है कि विश्व के दिनों में भी अंगरेजी झण्डा इलाहाबाद के किले पर फहराता रहा।

कुछ भी हो, इलाहाबाद की जनता ने विश्वकारी सिपाहियों का पूरा साथ दिया। जनता का साथ पा जाने से विश्वकारी सिपाहियों का उत्साह कई गुना अधिक बढ़ गया। अंगरेजों के जितने मकान थे, सभी जला दिये गये। जेलखाने में जितने कैदी थे सभी तुरन्त रिहा कर दिये गये। इसके बाद विश्वकारी सिपाही खजाने को अपने अधिकार में कर लेने के लिए आगे बढ़े। बात की बात में उनका वहाँ भी अधिकार जम गया। दूसरी ओर रेल की पटरियों उखाड़ने और तार को काटने तथा तार के खम्भों को तोड़ने का काम आरम्भ हो गया। निर्विघ्न ये काम तुरन्त पूरे हो गये। कहा जाता है कि इलाहाबाद के खजाने में विप्लवकारियों को लगभग तीस लाख रुपये मिले। तारीख ७ जून को सन्ध्या समय शहर और छावनी में हरे झण्डे का जुलूस निकाला गया। नगर-निवासियों और सिपाहियों ने झण्डे को

सलामी दी। शहर की कोतवाली के ऊपर हरा भण्डा फहराने लगा।

इलाहाबाद के आस-पास के सैकड़ों गाँवों में हिन्दू और मुसलमान रैयत तथा जमींदार आदि सबों ने मिलकर अंगरेजी राज्य का अन्त हो जाने की घोषणा कर दी और जिस तरह इलाहाबाद में स्वाधीनता का हरा भण्डा फहराने लगा था उसी तरह हर एक गाँव में स्वाधीनता का हरा भण्डा फहराने लगा। जगह-जगह अंगरेजों के नियुक्त किये हुए नये जमींदार हटा दिये गये और पुराने खानदानी जमींदार उनकी जगह नियुक्त कर दिये गये। लिखा हुआ मिलता है कि नगर के अन्दर दस-दस बारह वर्ष के लड़के हरे भण्डे हाथों में लेकर जुलूस बनाये हुए निकलने लगे। इतिहास लेखक सर जान के अपनी पुस्तक 'इण्डियन म्युटिनी' में लिखता है—

“न केवल गङ्गा के पार के इलाकों में ही, बल्कि गङ्गा और जमुना के बीच के इलाके में भी देहाती जनता बिगड़ खड़ी हुई। शीघ्र ही हिन्दू अथवा मुसलमान एक भी मनुष्य न बचा जो हमारे विरुद्ध न हो गया हो।”

इलाहाबाद के स्वाधीन होने के बाद दो-चार दिन थोड़ी बहुत अराजकता रही। उसके बाद शहर के लोगों और आस-पास के कुछ जमींदारों ने मिलकर मौलवी लियाकत अली नामक एक योग्य व्यक्ति को सम्राट बहादुरशाह की ओर से इलाहाबाद के इलाके का सूबेदार नियुक्त किया। लियाकत अली एक असाधारण योग्य व्यक्ति था। उसके चरित्र की पवित्रता के कारण

सब लोग उसका बड़ा आदर करते थे। उसने खुसरोबाग को अपना केन्द्र बनाया, शहर में पूरा शान्ति स्थापित कर दी और दिल्ली सम्राट को बराबर अपने यहाँ की सभी घटनाओं की सूचनाएँ भेजता रहा। इसके बाद मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद के किले पर अधिकार कर लेने का प्रयत्न किया। किले के भीतर जितने सिख सिपाही थे, उसने उन सबों को स्वाधीनता के सम्राट में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया किन्तु सिखों पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा।

सन् १८५७ के महान् विप्लव की घटनाओं का वर्णन इस समय हम यही तक करेंगे। यह हम मानते हैं कि विप्लवकारियों के सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कृत्यों का वर्णन अभी बाकी है फिर भी यह कहना पड़ता है कि इसी समय से ही अंगरेजों की ओर से प्रतिकार की आग भड़कनी शुरू हो गई। इसलिए उचित यही होगा कि पाठकगण यह भी जान लें कि अन्याय और अत्याचार के बल पर भारत में राज्य स्थापित करने वाले अंगरेजों ने किस निर्दयता के साथ विप्लवकारियों को दबाने का प्रयत्न किया। जिन अंगरेजों को प्राणों की भिन्ना दी गई थी वहाँ अंगरेज विप्लवकारियों के प्राणों के भूखे हो गए। कितने बड़े दुःख की बात है। लोगों का कहना है कि इलाहाबाद की सिख पलटन हमेशा ही अंगरेजों की सहायता करती रही और उसी के कारण विप्लवकारी सिपाहियों को वैसी सफलता न प्राप्त हुई जैसी कि प्राप्त होनी चाहिए थी। कुछ भी हो विप्लवकारी अपने विप्लव के कार्यों में लगे हुए थे और अंगरेज उनको दबाने के लिए उपाय सोचने में लगे हुए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसे अब हम आगे चल कर बतलायेंगे। पाठकों को चाहिए कि

पिछली समस्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे कही जाने वाली घटनाओं पर विशेष रूप से मनन करें।

यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो यह समझ सकना असम्भव हो जायगा कि किस प्रकार की नर-हत्याएँ करके अंगरेजों ने हमारी स्वाधीनता के भावों को दबा रखने का प्रयत्न किया था।

अंगरेजों का दमन-चक्र

यह हम पहले कइ आये हैं कि मेरठ के विद्रोह और दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार पाते ही उस समय का गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग मद्रास, रगून और बम्बई से गोरी सेना को बुलाकर बंगाल में इकट्ठा करने लगा था और जो सेना ईरान से चीन की ओर जा रही थी उसे भी भारत में रोक लिया था। इतना ही नहीं विप्लवकारियों का दमन करने के लिए भी लार्ड कैनिंग एक विशाल सेना के साथ, जिसमें अधिक श गोरे कुछ सिख और कुछ मद्रासी थे, जनरल नील को बनारस की ओर रवाना कर चुका था।

बनारस का नगर उस समय तक अंगरेजों के ही अधिकार में था। जनरल नील के बनारस पहुँचते ही सब से पहले नगर में बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियाँ हुईं। इसके बाद जनरल नील ने आस-पास के इलाके को फिर से अपने अधिकार में कर लेने के लिए अंगरेजों और सिख सिपाहियों के कइ अलग-अलग दमते बनाये। इस अवसर पर जनरल नील के आदेश से उसकी सेना ने भारतीय प्रजा के ऊपर जो भयकर और अमानुषिक अत्याचार किये उन्हें हम अंगरेज इतिहास-लेखकों की ही पुस्तकों से लेकर पाठकों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जनरल नील इतना अत्याचारी था कि उसके सम्बन्ध में बस यही कह देना पर्याप्त है कि वह अपने गोरे तन में भयानक

अत्याचार करने वाले दानव का काला मन रखता था। उसी जनरल नील रूपी दानव के सिपाही जिस समय किसी गाँव में प्रवेश करते थे उस समय उस गाँव में हाहाकार मच जाता था। जितने मनुष्य उन्हें मार्ग में मिलते थे, उन्हें वे बिना किसी भेद-भाव अथवा सोच-विचार के तलवार के घाट उतार देते थे, या गोली से उड़ा देते थे अथवा आनन्द लूटने के लिए फॉसी पर लटका देते थे।

निरपराध जनता को फॉसी पर लटकाने के लिए स्थान-स्थान पर फॉसी के तख्ते खड़े किये गये थे और उन फॉसी के तख्तों पर चौबीस-चौबीस घण्टे बराबर काम होता रहता था। जब इनसे भी काम न चला तब अंगरेज अफसरों ने बड़े-बड़े पेड़ों की डालों से फॉसी के तख्ते का काम लेना शुरू किया। जिस मनुष्य को फॉसी पर चढ़ाना होता था उसे प्रायः सब से पहले हाथी पर बैठा कर घुमाया जाता था। फिर हाथी को किस ऊँची डाल के पास ले जाकर खड़ा किया जाता था। इसके बाद उस मनुष्य की गर्दन रस्सी से डाल के साथ बाँध दी जाती थी। फिर हाथी को हटा लिया जाता था और उस भाग्यहीन मनुष्य की लटकती हुई लाश को उसी जगह छोड़ दिया जाता था।

कं और मालेसन ने अपने विप्लव के इतिहास में लिखा है कि जो लोग फॉसी पर लटकाये जाते थे, उनके हाथों और पैरों को मन बहलाने की इच्छा से अंगरेज सैनिकों द्वारा अंगरेजी के अक्षरों आठ और नौ की शक्ति में बाँध दिया जाता था। इसे यों समझ लेना चाहिए कि जिन मनुष्यों को फॉसी पर लटकाया जाता था उनके सभी अंगों को तोड़-मरोड़ दिया जाता था तभी तो अंगरेजी के अक्षर आठ और नौ (४ और ९) बन सकते थे।

जब इन सब अत्याचार-पूर्ण उपायों से भी पूर्ण रूप से सन्तोष लाभ न हुआ तब अँगरेज अफसरों ने गाँव के गाँव जलाने आरम्भ कर दिये। गाँव के बाहर तोपे लगा दी जाती थीं और समस्त पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों और पशुओं समेत गाँव में आग लगा दी जाती थी। अनेक अँगरेज अफसरों ने बड़े अभिमान के साथ इन हृदय-बिदारक दृश्यों का वर्णन अपने पत्रों में किया है। आग इतनी होशियारी से लगाई जाती थी कि उससे एक भी गाँव का रहने वाला न बच सके। इतिहास लेखक चार्ल्स बाल लिखता है कि—“माताएँ अपने दुधमुँहे बच्चों के साथ और असंख्य बूढ़े आदमी और औरते जो अपनी जगह से हिलने-डोलने में असमर्थ थे, उन सबों को बिछौनों के अन्दर जलाकर राख के ढेर बना दिये गये।”

एक अँगरेज अपने एक पत्र में लिखता है—“हमने एक बड़े गाँव में आग लगाई। उस गाँव में लोग भरे थे। हमने उन्हें घेर लिया और जब वे आग की लपटों में से निकल कर भागने लगे तब हमने उन्हें गोलियों से उड़ा दिया।”

अनेक स्थानों पर विप्लवकारियों ने अँगरेज मर्द, और बच्चों को प्राणों की भिन्ना दी थी और असंख्य ग्रामों में ग्राम-निवासियों ने भागे हुए अँगरेजों को अपने घरों में आश्रय दिया था किन्तु कम्पनी के पूरे इतिहास में अँगरेज जाति के अन्दर वीरोचित गुणों का सदा अभाव ही मिला है। जनरल नील की दानवी सेना ने भी दोषी, निर्दोषी, बालक, वृद्ध अथवा स्त्री-पुरुष का कभी भी कहीं पर कोई विचार नहीं किया।

जनरल नील के अत्याचारों के विषय में एक अँगरेज इतिहास

लेखक लज्जित होकर लिखता है—“अच्छा यह है कि जनरल नील के प्रतिकार के विषय में कुछ लिखा ही न जाय।”

इतिहास लेखक सर जान के लिखना है “फौजी और सिविल दोनों तरह के अंगरेज अफसर अपनी-अपनी खूनी अदालत लगा रहे थे, अथवा बिना किसी तरह के मुकदमे का ढोंग रचे और बिना मर्द औरत या छोटे-बड़े का विचार किये, भारतवासियों का सहार कर रहे थे।” इसके बाद खून की प्यास और भी अधिक भड़की। भारत के गवर्नर जनरल ने जो पत्र इंग्लैण्ड भेजे, उसमें हमारी ब्रिटिश पार्लिमेण्ट के कागजों में यह बात दर्ज है कि ‘बूढ़ी औरतों और बच्चों का उसी तरह बध किया गया है जिस प्रकार उन लोगों का जो विप्लव के अपराधी थे। इन लोगों को सोच समझ कर फाँसी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें उनके गाँव के अन्दर जला कर मार डाला गया, शायद कहीं-कहीं उन्हें मौके-बेमौके गोली से भी उड़ा दिया गया। अंगरेजों को अभिमान के साथ यह कहते हुए अथवा पत्रों में लिखते हुए भी सङ्कोच न हुआ कि हमने एक भी हिन्दुस्तानी को नहीं छोड़ा और काले हिन्दुस्तानियों को गोली से उड़ाने में हमें बड़ा विनोद और आश्चर्यजनक आनन्द प्राप्त होता था। एक पुस्तक में जिसका बड़े-बड़े अंगरेज अफसरों ने समर्थन किया है, लिखा है कि—“सड़को, चौराहों पर और बाजारों में जो लाशें टँगी हुई थीं, उनको उतारने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मुर्दे ढोने वाली आठ-आठ गाड़ियाँ बराबर तीन-तीन महीने तक लगी रहीं और इस प्रकार एक स्थान पर ६ हजार मनुष्यों को भटपट खतम कर परलोक भेज दिया गया। X X X जब कोई अंगरेज यह

पढ़ता है कि किसी काले रंग के बदमाश ने किसी मिस्टर चैम्बर्स या किसी निस जे निगस को काट डाला तो क्रोध के मारे उसका दम धुटने लगता है, किन्तु भारतवासियों के इतिहास में अथवा यदि इतिहास न हुए तो उनके परम्परागत वृत्तान्तों में हमारी जाति के विरुद्ध यह स्मरण रहेगा कि भारत की माताएँ, पत्नियाँ और बच्चे, जिनके नामों से हम इतना अच्छी तरह परिचित नहीं हैं, अंगरेजों के प्रतिकार की पहली बाढ़ के निर्दयता के साथ शिकार हुए।”

यह दशा कुछ थोड़े-से ग्रामों की ही नहीं की गई। हम यह कह चुके हैं कि जनरल नील ने अपनी फौज को अनेक भागों में बाँट दिया था। एक एक भाग में कई कई अफसर होते थे। इनमें से एक अफसर अपने केवल एक दिन के कृत्य को अभिमान के साथ बरण करते हुए अपने किसी अंगरेज मित्र को लिखता है—“किन्तु आप यह जान कर संतुष्ट होंगे कि मैंने बाँस ग्रामों को जमीन से मिला कर बराबर कर दिया।”

बनारस से जनरल नील अपनी विजयी सेना के साथ इलाहाबाद की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने बनारस से इलाहाबाद तक असंख्य ग्रामों को ग्राम निवासियों के साथ जला कर राख के ढेर बना दिया। ११ जून को जनरल नील इलाहाबाद पहुँचा। यदि इससे पूर्व किले के अन्दर सिख सिपाही विप्लवकारियों से मिल गये होते और किले के अन्दर असंख्य बन्दूकें और युद्ध की अन्य सा.ग्रा. विप्लवकारियों के अधिकार में आ गई होती, तो जनरल नील के लिये इलाहाबाद फिर से विजय कर सकना शायद असम्भव होता।

जनरल नील जब इलाहाबाद पहुँचा तब दूर से यह देख कर

चक्रित रह गया कि इलाहाबाद के किले पर अभी तक अंगरेजी भण्डा फहरा रहा है। इस पर भी वह इलाहाबाद जैसे किले के लिए किसी भारतवासी का विश्वास करने को तैयार न था। जैसे ही उसने किले के अन्दर पैर रखा वैसे ही किले के भीतर के समस्त सिख सिपाहियों को समीप के गाँव जलाने के लिये बाहर भेज दिया, और किला गोरे सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिखों ने सहर्ष जनरल नील के अत्याचारी आदेश का पालन किया। किला और किले के सामान की सहायता से अंगरेजों ने १७ जून को खुसरोबाग पर हमला किया। दिन भर खूब घमासान सत्राम हुआ। विप्लवकारियों ने बड़ी, धीरता के साथ सामना किया किन्तु अन्त में मौलवी लियाक़तअली ने देख लिया कि नील की विशाल सेना के सामने उनका ठहर सकना असम्भव था। इसके अतिरिक्त लियाक़तअली के पास उस-समय तीस लाख का बड़ा खजाना था, जिसे वह शत्रु के हाथ में पड़ने देना नहीं चाहता था।

इसलिए लियाक़तअली अपने साथियों और खजाने सहित १७ जून की रात को कानपुर की ओर निकल गया। कानपुर के समर्पण के बाद लियाक़तअली दक्खिन की ओर गया। वहीं से गिरफ्तार करके उसे अरमन भेज दिया गया। वहाँ कई वर्ष तक निवासन का दण्ड भुगतने के बाद मौलवी लियाक़तअली की मृत्यु हुई। इस समय इलाहाबाद से १५ मील पश्चिम महगाँव में जहाँ कि लियाक़तअली का जन्म-स्थान था, उसकी एक कन्या अब तक जीवित है।

मौलवी लियाक़तअली के कानपुर चले जाने के बाद १८ जून की रात को अंगरेजों ने सिखों की मदद से इलाहाबाद के

नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते ही सिखों ने अंगरेजों का जैसा साथ दिया उसका वर्णन न करना ही अच्छा है। केवल इतना ही समझ लेना चाहिए कि इस अवसर पर इलाहाबाद के नगर-निवासियों से जनरल नील और उसके सैनिक, चाहे अंगरेज रहे हो या सिख सबों ने बड़े ही भयानक रूप से बदला चुकाया। उन सबों ने जिस भयानक रूप से बदला चुकाया उसका कुछ अनुमान इस एक घटना से लगाया जा सकता है कि अनेक छोटे छोटे लड़कों को केवल इस अपराध में फाँसी पर लटका दिया गया कि वे हरे भण्डे हाथ में लेकर ढोल बजाते हुए जुलूस के रूप में शहर की गलियों में घूम रहे थे।

लन्दन 'टाइम्स' के सम्बाददाता सर विलियम रसल से कमाण्डर-इन-चीफ कालिन कैम्पबेल ने कहा था कि उन दिनों इलाहाबाद का एक अंगरेज सौदागर विद्रोहियों का पता लगाने के लिये स्पेशल कमिश्नर नियुक्ति किया गया था। वह अनेक हिन्दु-स्तानी व्यापारियों का कर्जदार था। सब से पहला काम उसने यह किया कि अपने समस्त ऋणदाताओं को पकड़ कर फाँसी दे दी।

इलाहाबाद के चौक के अन्दर उन सात नीम के वृक्षों में से कुछ अभी तक मौजूद हैं, जिनकी डालों पर थोड़े दिनों के अन्दर ही, कहा जाता है कि लगभग आठ सौ निर्दोष नगर-निवासियों को फाँसा दे दी गई थी। इस फाँसी के ढग का वर्णन करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित बालकृष्ण भट्ट, जिनकी आयु सन् १८५७ में लगभग १५ वर्ष की थी, कहा करते थे कि अहियापुर मुहल्ले का रहने वाला एक मनुष्य समाचार सुन कर फाँसियाँ देखने के लिये चौक में पहुँचा। जो अंगरेज फाँसी दिलवा रहा था उसने पूछा—'तुम क्यों खड़े हो?' उसने

उत्तर दिया—“सुना था कि यहाँ फॉसियाँ लग रही हैं, इसलिये केवल देखने आया था” साहब ने आज्ञा दी, इसे भी फॉसी दे दो। तुरन्त वह निर्दोष और चकित दर्शक एक नीम पर लटका दिया गया। जो काम सात नीम के वृक्षों पर चौरु में हो रहा था वही काम उस समय सैकड़ों अन्य वृक्षों पर इलाहाबाद और उसके आस-पास के इलाक़े में बड़ी निर्दयता के साथ किया जा रहा था।

नगर के कुछ लोगों ने बचने के लिये नावों में बैठकर नगर से भाग जाना चाहा किन्तु किले के नीचे तोपे लगी हुई थी और अंगरेजी सेना किनारे मौजूद थी। नावों में भागते हुए लोगों पर किनारे से गोलियों और गोलों की बौछार की गई और उन्हें वही समाप्त कर दिया गया। इलाहाबाद के अपने एक दिन के कृत्यों का वर्णन करते हुए एक अंगरेज अफसर लिखा है—

“एक यात्रा में मुझे अद्भुत आनन्द प्राप्त हुआ। हम लोग एक तोप लेकर एक स्टीमर पर चढ़ गये। सिख और गोरे सिपाही शहर की तरफ बढ़े। हमारी नाव ऊपर की चढ़ना जानी थी और हमने अपनी बन्दूको से गोतियाँ बरसायी शुरू की। मेरी पुरानी दो नली बन्दूक ने कई काले आदमियों को गिरा दिया। मैं बदला लेने का इतना प्यासा था कि मैंने दाएँ और बाएँ प्रामों में आग लगानी शुरू की। लपटे आसमान तक पहुँचीं और चारों ओर फैल गईं। हवा ने उन्हें फैलाने में सहायता दी, जिससे विदित होता था कि दगाबाज बदमाशों से बदला लेने का दिन आ गया है। प्रतिदिन हम लोग विद्रोही प्रामों को जलाने और मिटा देने के लिये निकलते थे और हमने बदला ल लिया है।
 XXX लोगों का जीवन हमारे हाथों में है और मैं उन्हें

विश्वास दिलाता हूँ कि हम किसी को नहीं छोड़ते। X X X अपराधी को एक गाड़ी के ऊपर बैठाकर किसी पेड़ के नीचे ले जाया जाता है। उसकी गर्दन में रस्सी का फन्दा डाल दिया जाता है। फिर गाड़ी हटा ली जाती है और वह लटका रह जाता है।”

इलाहाबाद के इस सर्वव्यापी सहार से माताएँ या बच्चे, वृद्धे या अपाहज, कोई न बच सके। इतिहास लेखक होम्स बड़े दुःख के साथ लिखा है—“वृद्धे आदिमियों ने हमें कोई नुकसान न पहुँचाया था, असहाय स्त्रियों से, जिनकी गोद में दूध-पीते बच्चे थे, हमने उसी तरह बदला लिया, जिस तरह बुरे से बुरे अपराधियों से।”

जिस स्थान का वर्णन चार्ल्स बाल के पूर्वोक्त उद्धरण में किया गया है केवल उस एक स्थान के विषय में इतिहास लेखक के स्वीकार करता है कि वहाँ पर छः हजार भारतवासियों का सहार किया गया। निःस्सन्देह अकेले इलाहाबाद के इलाके में नील ने इनने भारतवासियों का संहार किया जितने अंगरेज पुरुष, स्त्रियों और बच्चों का समस्त भारत के अन्दर भी सन् १८५७-५८ भर में विष्वक्कारियों ने नहीं किया।

सर जान कैम्पबेल लिखता है—“और मैं जानता हूँ कि इलाहाबाद में बिल्डुल बिना किसी तमीज के कत्लेआम किया गया था। X X X और इसके बाद नील ने वे काम किये जो कत्लेआम से भी अधिक मालूम होते थे, उसने लोगों को जान वूझ कर इस प्रकार की यातनाएँ दे देकर मारा जिस प्रकार की यातनाएँ जहाँ तक हमें प्रमाण मिले हैं, भारतवासियों ने कभी किसी को नहीं दी।”

बनारस के समान इलाहाबाद के नगर पर भी अँगरेजों का फिर से अधिकार हो गया यद्यपि जनरल नील और उसके साथियों ने इलाहाबाद निवासियों से बदला चुकाने में कोई कसर नहीं की, फिर भी चार्ल्स बाल लिखता है कि शहर और आस-पास के गाँव के लोगों ने अँगरेजों का इतना बहिष्कार कर रखा था कि अपने मुर्दे और घायलों को ढोने के लिये उन्हें डोलियों अथवा मजदूर तक नहीं मिल रहे थे। कोई गाँव वाला उन्हें रसद देने के लिये तैयार न होता था ! चार्ल्स बाल लिखता है कि जो कोई अँगरेज का काम करता था देहाती उसके हाथ और नाक काट डालते थे। इसके ऊपर जून की गर्मी, नतीजा यह हुआ कि अँगरेजी कैम्प में हैजे की बीमारी शुरू हो गई।

कानपुर और नाना साहब

अब हम इलाहाबाद से हटकर सन् १८५७ की राष्ट्रीय योजना के उद्भव स्थान कानपुर की ओर आते हैं। घटनाओं का क्रम इस समय तक जैसा कहा गया है उसी के अनुसार कानपुर की घटनाओं की ओर पाठको को ले जाना हम इस समय उचित समझ रहे हैं।

नाना साहब, उसके दो भाई बाला साहब और बाबा साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब और चतुर अजीमुल्ला खॉ कानपुर में विप्लव के प्रधान नेता थे। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे भी जिसके अद्भुत पराक्रम का वर्णन कुछ और आगे बढ़कर किया जायगा, उस समय बिठूर में नाना साहब के दरबार में मौजूद था।

सर ह्यू वहीलर कानपुर का अँगरेजी सेना का सेनापति था। वहीलर के अधीन तीन हजार देशी सिपाही और लगभग एक सौ अँगरेज सिपाही थे। दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार नाना साहब को १५ मई को मिला और सर ह्यू वहीलर को १८ मई को। इस पर एक अँगरेज लेखक लिखता है—

“निस्सन्देह विप्लव के अत्यन्त आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक यह रहा कि भारतवासियों को दूर-दूर के स्थानों की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना अत्यन्त शीघ्र और असन्दिग्ध रूप में मिलती रहती है। खबर ले जाने वाले

मुख्यकर हरकारे होते हैं जो असाधारण वेग के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को सन्देश ले जाते हैं।”

दिल्ली के स्वाधीन हो जाने का समाचार जैसे ही कानपुर के निवासियों के कानों में पहुँचा वैसे ही पूर्ण उत्साह के साथ हिन्दू और मुसलमान सभी बड़े-बड़े जलसे करने लगे। ऐसा कोई भी स्थान न रह गया था जहाँ किसी प्रकार का उत्सव न मनाया गया हो। ठीक ऐसे ही अवसर पर कानपुर की छावनी में सिपाहियों की गुप्त सभाएँ होने लगी। स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में आगामी स्वाधीनता के संग्राम की चर्चा होने लगी। फिर भी नाना साहब ने ३१ मई तक तक चुप रहने का निश्चय किया और सर ह्यू व्हीलर ने गङ्गा के दक्षिण में एक नया स्थान घेर कर किलेबन्दी शुरू की, ताकि आवश्यकता के समय कानपुर के अँगरेज उसमें आश्रय ले सकें।

जिस समय व्हीलर अपने और सैनिकों के लिए आश्रय का स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहा था उसी समय उसकी सहायता के लिए लखनऊ से कुछ और सेना कानपुर पहुँच गई। आश्चर्य की बात है कि उस समय तक भी अँगरेजों को नाना साहब पर पूर्ण विश्वास था। जब कि ३१ मई को कानपुर में विप्लव करने की तैयारी में नाना साहब और उनके सहायक लगे हुए थे तब उसके पहले ही व्हीलर ने नाना साहब को सन्देशा भेजा कि आप आकर कानपुर की रक्षा करने में अँगरेजों का हाथ बटाइए। उस समय भी अर्थात् २२ मई सन् १८५७ को नाना साहब ने कुछ सेना और दो तोपों के साथ बिठूर से निकल कर कानपुर नगर में प्रवेश किया। व्हीलर ने कम्पनी का खजाना नाना साहब को सौंप दिया। नाना साहब ने अपने

दो सौ सिपाही खजाने पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिये ।

कम्पनी की देशी सेना के मुख्य नेना थे सूबेदार टीकासिंह और सूबेदार शम्सुद्दीन खॉं । नाना साहब के दो मुख्य विश्वस्त सहायक ज्वालाप्रसाद और मुहम्मद अली थे । इन चारों और नानासाहब तथा अजीमुल्ला खॉं में प्रायः नावों में बैठकर गङ्गा के ऊपर दो-दो घण्टे गुप्त मन्त्रणाएँ हुआ करती थी । सर ह्यू व्हीलर ने कम्पनी का मैगजीन भी नाना साहब की रक्षा में छोड़ दिया था । कानपुर के अन्दर उस समय अंगरेज इतना डरे हुए थे कि २४ मई को रमजान के बाद की ईद थी, उसी दिन रानी विकटोरिया की सालगिरह के उपलक्ष्य में हमेशा तोपों की सलामी दी जाती थी । किन्तु २४ मई सन् १८५७ को कानपुर में इसलिये कोई तोप नहीं छोड़ी गई कि कही उससे हिन्दुस्तानी सिपाही न भड़क उठें । एक अंगरेज अफसर लिखता है—“कि उस समय विप्लव की कोई भूठी अफवाह भी नगर में उड़ जाती थी तो तुरन्त शहर के सब अंगरेज भागकर अपने बाल-बच्चों के साथ जनरल व्हीलर के नये किले में जाकर जमा हो जाते थे ।

४ जून की आधी रात को अचानक कानपुर की छावनी में तीन फायर हुए । सिपाहियों को विप्लव के कार्य आरम्भ करने के लिये यही पूर्व निश्चित सूचना थी । सबसे आगे सूबेदार टीकासिंह घोड़े पर लपका । उसके पीछे सैकड़ों सवार और हजारों पैदल मैदान में निकल आये । पूर्व निश्चय के अनुसार कुछ ने अंगरेजी इमारतों में आग लगा दी, कुछ दूसरों को सूचना देने के लिए गये और कुछ ने जगह जगह से अंगरेजी भण्डों

को गिराकर उनकी जगह हरे भण्डे फहरा दिये। नवाबगञ्ज मे नाना साहब का पड़ाव था। नाना साहब के सिपाही विप्लवकारियों के साथ मिल गये। ५ जून को सबेरे तक अँगरेजी खजाना और मैगजीन दोनों विप्लवकारियों के हाथों मे आ गये। भारतीय सेना और नगर-निवासियों ने मिलकर दिल्ली-सम्राट के अधीन नाना साहब को अपना राजा चुना। फौज के लिये अफसर और नगर के लिए शासक उसी समय चुने गये। ५ जून को ही हाथी के ऊपर दिल्ली सम्राट के भण्डे का जुलूस बड़े समारोह के साथ शहर तथा छावनी मे निलाका गया। इसके बाद नगर-निवासियों ने बड़े हर्ष के साथ नाना साहब की समस्त आज्ञाओं का पालन किया।

दिल्ली सम्राट के अधीन राजा चुने जाने के दूसरे दिन अर्थात् ६ जून को सबेरे नाना साहब ने जनरल वहीलर को चेतावनी दी कि आज आप किला हमारे सुपुर्द कर दीजिये, नहीं तो सन्ध्या समय किले पर आक्रमण किया जायगा। उसी दिन सन्ध्या समय विप्लवकारी सेना ने अँगरेजी किले को घेरना आरम्भ कर दिया। कानपुर के प्रायः समस्त अँगरेज स्त्री, पुरुष और बच्चे उस समय इस किले के अन्दर मौजूद थे। चेतावनी देने के बाद जो अँगरेज किसी कारणवश किले से बाहर रह गये या कानपुर शहर मे मौजूद थे, उन्हें मार डाला गया। नाना साहब के साथ तोपों की कमी न थी। नाना साहब की तोपों ने कानपुर के किले के अन्दर गोले बरसाने आरम्भ कर दिये। किले के अन्दर अँगरेज इतनी तेजी के साथ मरने लगे कि उस समय की इतिहास की पुस्तकों मे लिखा है कि उन्हें दफन करना तक कठिन हो गया।

किले के अन्दर केवल एक कुआँ था। नाना साहब की विप्लवकारी सेना ने उस कुएँ को निशाना बनाकर इस ढङ्ग से गोले बरसाये कि किले के अन्दर रहने वाले अनेक अंगरेज-पुरुष और स्त्री पानी न मिलने के कारण प्यास से तपड़ने लगे। २१ दिन तक यह गोलाबारी रही। कुछ ऐसे भी लोग थे जो विप्लवकारियों के गोले से बच गये थे किन्तु पेचिस, बुखार और हैजे के चगुल में पड़कर वे भी परलोक को सिधाए गए। किले की दीवारों पर से कम्पनी की तोपें भी बड़े साहस और धैर्य के साथ अपना कार्य करती रही। विप्लवकारियों के कठिन पहरे के कारण अंगरेजों के लिए किसी भी प्रकार का सन्देश बाहर भेज सकना अत्यन्त कठिन हो गया। फिर भी कम्पनी का एक वफादार हिन्दुस्तानी नौकर जनरल व्हीलर का सन्देश लेकर लखनऊ पहुँचा। यह सन्देश एक पत्ती के पों के नीचे बंधा हुआ था। कुछ अंगरेजी, कुछ लातीवी और कुछ फ्रान्सीसी भाग मिली हुई थी। पत्र का शब्दार्थ केवल इतना ही था, “मदद ! मदद !!! हमें महद भेजो, नहीं तो हम मर रहे हैं। हमें मदद मिल जाय तो हम आकर लखनऊ को बचा लेंगे।”

इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि उस समय कानपुर के किले में रहने वाले अंगरेजों की वास्तविक स्थिति कैसी थी। और उस समय कितनी होशियारी के साथ नाना साहब के गुप्तचर काम करते थे और कितनी सुन्दरता के साथ वे अंगरेजी किले के अन्दर के समाचार ला-लाकर नाना साहब के पास पहुँचाते थे।

जब कि अंगरेजी कैम्प की ऐसी बुरी हालत थी, तब नाना

साहब के पास चारों ओर के जमींदारों की ओर से धन और जन दोनों की सहायता धड़ाधड़ चली आ रही थी । नाना साहब और उसके समस्त साथियों तथा सहायकों का उत्साह बढ़ा हुआ था । नाना साहब के अधीन उस समय लगभग चार हजार सेना थी । कानपुर की हिन्दू और मुसलमान स्त्रियों उस समय अपने घरों से निकल-निकल कर गोला-बारूद इधर-उधर ले जाने, सैनिकों को भोजन पहुँचाने और ठीक अँगरेजी किले की दीवार के नीचे तोपचियों को मदद देने का काम कर रही थीं ।

इन सब स्त्रियों में उस समय कानपुर की एक वेश्या अजीजन का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । एक इतिहास लेखक लिखता है कि—यह अजीजन हथियार बंधे हुए घोड़े पर चढ़ी हुई बिजली के समान शहर की गलियों और छावनी में दौड़ती फिरती थी । कभी वह गलियों के अन्दर थके हुए और घायल सिपाहियों को दूध और मिठाई बोटती थी और कभी अँगरेजी किले के ठीक दीवार के नीचे लड़ने वालों के उत्साह को बढ़ाती थी ।

ठीक उस समय जब कि अँगरेजी किले को घेर लेने का काम हो रहा था, नाना साहब ने शहर के शासन का पूरा प्रबन्ध किया । शहर के प्रमुख लोगों को जमा करके उनके बहुमत से हुलाससिंह नामक एक मनुष्य को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया । फौज को रसद पहुँचाने का काम मुल्ला नामक एक मनुष्य के सुपुर्द कर दिया गया । दीवानी के मुकदमों के लिये ज्वालाप्रसाद, अजीमुल्ला खाँ और बाबा साहब की एक अदालत तुरन्त बना दी गई । इतिहास लेखक टामसन लिखता है कि—“अपराधियों को कड़े दण्ड दिये जाते थे और

नगर में पूर्ण रूप से सुव्यवस्था और शान्ति दिखाई पड़ती थी ।”

१८ जून और २३ जून को दो गहरे सग्राम हुए । अन्त में कोई दूसरा उपाय न देखकर २५ जून सन् १८५७ को जनरल व्हीलर ने अपने किले के ऊपर सुलह का सुफेद झण्डा गाड़ दिया । नाना साहब ने तुरन्त लड़ाई बन्द कर दी । इसके साथ ही नाना साहब ने एक पत्र जनरल व्हीलर के पास भेजा जिसमें लिखा था—“रानी विक्टोरिया की प्रजा के नाम—जिन लोगों का डलहौजी की नीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, और जो हथियार रख देने और आत्म-समर्पण कर देने के लिए तैयार है, उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद पहुँचा दिया जायगा ।”

२६ तारीख को दोनों ओर के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई इस बातचीत के सम्बन्ध में यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अजीमुल्ला खॉ अंगरेजी भाषा का विद्वान था, फिर भी ज्यों ही अंगरेज प्रतिनिधि ने अंगरेजी में बातचीत प्रारम्भ की, अजीमुल्ला ने उसका घोर विरोध किया । उसने अपने तर्क से अंगरेज प्रतिनिधियों का मस्तक ऐसा झुका दिया वे कुछ भी उत्तर न दे सके । अपनी प्रतिभा के कारण, अजीमुल्ला खॉ ने अंगरेज प्रतिनिधियों को विवश किया कि सारी बातचीत हिन्दुस्तानी में ही हो जाय । परिणाम यह हुआ कि सारी बातचीत हिन्दुस्तानी में ही हुई ।

अन्त में किले के अन्दर के सब अंगरेजों ने अपने आपको नाना साहब के सुपुर्द कर दिया । किला, तोपखाना और भीतर के तमाम अस्त्र-शस्त्र तथा खजाना नाना साहब के हाथों में दे दिया गया । नाना साहब की तरफ से बचन दिया गया कि

आत्म-समर्पण करने वाले समस्त अंगरेजों को नावों में बैठा कर और मार्ग के लिये भोजन आदि का आवश्यक सामान देकर इलाहाबाद भेज दिया जायगा।

कहने की आवश्यकता नहीं कि उसी रात को चालीस बड़ी-बड़ी नावों का इन्तजाम कर दिया गया। रसद का पर्याप्त सामान भी रख दिया गया। २७ जून को सबेरे अंगरेजी भ्रष्टा किले पर से उतार दिया गया और सम्राट बहादुरशाह का भ्रष्टा बड़े सजधज के साथ उसी स्थान पर फहरा दिया गया। इसके बाद समस्त अंगरेजों को हाथियों और पालकियों में बैठाकर किले से डेढ़ मील दूर सतीचौरा घाट पर पहुँचा दिया गया।

किन्तु इतने ही दिनों के अन्दर इलाहाबाद और उसके आस-पास के इलाक़े से असंख्य मनुष्य जिनके घर-द्वार, सगे-सम्बधियों और बाल-बच्चों को जनरल नील और उसके निर्दय सिपाहियों ने जलाकर राख के ढेर बना दिए थे, वे सब शरणार्थी के रूप में कानपुर नगर में आ-आकर एकत्रित हो रहे थे और अपने अपने दुःख भरे कथानक को आँसुओं को बहाते हुए लोगों से कहने लगे थे। इन लोगों के बयानों और इलाहाबाद में कम्पनी के अंगरेज अफसर और उनकी दानवी सेना के क्रूर अत्याचारों को सुन-सुन कर कानपुर की सहृदय जनता और वहाँ की देशी सेना के सिपाहियों का क्रोध भड़कने लगा। इसका परिमाण कितना भयानक हुआ इसे हम अपने पाठकों को बता देना उचित समझते हैं।

२७ जून को सबेरे दस बजे नावे सतीचौरा घाट से अंगरेजों को लेकर चलने वाली थी। उस समय नाना साहब अपने महल में था। घाट पर सिपाहियों और जनता की भीड़ थी।

कहा जाता है कि क्रोध से उन्मत्त सिपाहियों में से किसी एक ने पहले कर्नल ईवर्ट पर हमला किया। तुरन्त मार-काट शुरू हो गई। करीब-करीब समस्त अंगरेज इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि ज्यों ही नाना साहब को इस दुर्घटना का समाचार मिला, उसने तुरन्त आज्ञा भेजी कि, “अंगरेज पुरुषों को मारो किन्तु बच्चों और स्त्रियों को कोई हानि न पहुँचाओ।” नाना साहब की आज्ञा के पहुँचते ही १२५ अंगरेज स्त्रियों और बच्चे कैद करके सौदाकोठी पहुँचा दिये गए। अंगरेज पुरुषों को लाइन बाँध कर सतीचौरा घाट पर खड़ा किया। उनमें से एक ने जो शायद पादरी था, प्रार्थना की कि मरने से पहले मुझे इजाजत दी जाय कि मैं अपने भाइयों को इञ्जील में से कुछ ईश्वर प्रार्थना पढ़ कर सुना दूँ। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई।

जब वह प्रार्थना कर चुका तब हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने समस्त अंगरेजों के सिर तलवार से कत्ल कर दिये। अंगरेज पुरुषों में से केवल चार एक नाव में बैठकर भाग निकले। इस प्रकार ७ जून को कानपुर के अन्दर जो लगभग एक हजार अंगरेज थे उनमें से २७ जून की शाम को केवल चार आदमी अपनी फुर्ती से और १२५ सियों और बच्चे नाना साहब की उदारता से जीवित रहे।

यह समी को स्वीकार करना पड़ेगा कि निस्सन्देह सतीचौरा का हत्याकाण्ड किसी भी दृष्टिकोण से विरोचित कार्यों के लिए प्रशंसा के योग्य नहीं था। निःशस्त्र मनुष्यों पर हथियार उठाना युद्ध के सदाचार में भी क्षमा के योग्य नहीं कहा गया है। इसके अतिरिक्त नाना साहब ने इन लोगों से प्राणदान का वादा भी

कर लिया था। दूसरी ओर हमें यह स्मरण रखना होगा कि सतीचौरा घाट के अमानुषिक अत्याचार की जिम्मेदारी एक दर्जे तक दानवी कृत्य करने वाले जनरल नील और उसके साथियों के उन सर्वापेक्षा अधिक वीभत्स अत्याचारों पर है जिन्होंने कानपुर के हिन्दुस्तानी सिपाहियों के मानवोचित आतरिक भावों को उचित ढङ्ग से काम में लाने के लिए ठीक ठिकाने तक भी नहीं रहने दिया था। साधारण बुद्धि का ऐसा ही कोई मनुष्य होगा जिसमें प्रतिशोध की भावना न उत्पन्न होती हो। जब आज से ९० वर्ष पहले का यह कथानक पढ़ लेने पर हममें उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है तब फिर भला उस समय के लोगों में क्यों न उत्तेजना उत्पन्न हो और फिर उन लोगों में जिनके परिवारों तथा सम्बन्धियों के साथ क्रूरता और निर्दयतापूर्ण दानवी अत्याचार किये गये हों।

नाना साहब ने कैदी अंगरेज स्त्रियों और बच्चों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उसके विषय में अनेक भूठी अफवाहें उन दिनों भारत और इंग्लैण्ड में उड़ाई गईं। उन सब भूठी अफवाहों को इस समय दुहराना हम उचित नहीं समझते। इस सम्बन्ध में इतना कह देना ही पर्याप्त है कि बाद में अंगरेजों का ही एक कमीशन इन झलजामों की जाँच करने के लिए नियुक्त हुआ। पूरी जाँच करने के बाद इस कमीशन ने फैसला दिया कि पूर्वोक्त तमाम अफवाहें बिल्कुल भूठी थीं। इन अफवाहों के विषय में जस्टिस मैक्कार्थी एक स्थान पर लिखता है—

“लोगों की क्रोधाग्नि को इस तरह की अफवाहें उड़ा-उड़ा कर भड़काया गया कि आम तौर पर स्त्रियों की बेइज्जती की गई और निर्दयता के साथ उनके अङ्ग-भङ्ग किये गये। सौभाग्य-

बश ये अफवाहें भूठी थी। XXX सच यह है कि सिवाय उनसे नाज पिसवाने के और किसी प्रकार का भी अपमान अंगरेज स्त्रियों का नहीं किया गया। XXX साधारण अर्थों में किसी स्त्री पर अत्याचार नहीं किया गया। न किसी अंगरेज स्त्री के कपड़े उतारे गये। न किसी की बेइज्जती की गई और न जान-बूझ कर किसी का अंग भंग किया गया।”

इतना ही नहीं, सतीचौरा घाट के हत्याकाण्ड के आरम्भ की गड़बड़ी में कुछ हिन्दुस्तानी सिपाही चार अंगरेज स्त्रियों को पकड़ कर ले गये थे। यह समाचार पाते ही नाना साहब ने तुरन्त उन सिपाहियों को कड़ा दंड दिया और चारों अंगरेज स्त्रियों को उनसे वापस ले लिया। कैदी स्त्रियों और बच्चों के साथ नाना साहब का व्यवहार अत्यन्त उदार था। उन्हें खाने के लिये चपाती और गोशत दिया जाता था। कोई कड़ी मेहनत उनसे नहीं ली जाती थी। बच्चों को दूध मिलता था और दिन में तीन-तीन बार उन्हें हवा खाने के लिए बाहर आने की इजाजत थी। स्वयं जनरल नील अपनी रिपोर्ट में लिखता है—

“आरम्भ में उन्हें खराब खाना दिया गया, किन्तु बाद में उन्हें अच्छा खाना दिया जाने लगा। साफ कपड़े मिलने लगे और खिदमत के लिए नौकर दे दिये गये। इनमें से केवल कुछ स्त्रियों को अपने खाने भर के लिए थोड़ा सा आटा पीसना पड़ता था।” अब हम इन अंगरेज कैदियों से हटकर कानपुर के शेष वृत्तान्त की ओर आते हैं।

२८ जून सन् १८५७ को कानपुर नगर छावनी और आस-पास के इलाके पर से अंगरेजी राज्य के समस्त चिन्ह मिटाने के

पश्चात् नाना साहब ने एक बड़ा दरबार किया। छः पलटन पैदल दो पलटन सवार, अनेक जमींदार और असंख्य जनता इस दरबार में उपस्थित थी। सब से पहले सम्राट बहादुरशाह के नाम पर १०१ तोपों की सलामी हुई। इसके बाद २१ तोपों की सलामी नाना साहब की हुई। नाना साहब ने सिपाहियों और जनता को धन्यवाद दिया। एक लाख रुपये बतौर इनाम के फौज में बाँटे गये। दरबार के बाद नाना साहब कानपुर से बिठूर गये। बिठूर में पहली जुलाई सन् १८५७ को नाना साहब धुन्ध-पत विधिवत् पेशवा की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार सन् १८५७ के महान विप्लव में क्षण भर के लिए पेशवा की मृतप्राय सत्ता फिर से जीवन लाभ करती हुई दिखाई देने लगी।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस समय नाना साहब पेशवा की गद्दी पर बैठा था उस समय जनता यही कहने लगी थी कि परमात्मा की असीम दया से फिर से धर्म-राज्य स्थापित हो गया। अंगरेजों के कारण जो जनता सभी प्रकार के कष्टों का अनुभव कर रही थी उसने विश्वास कर लिया कि अब उसके कष्टों का अन्त हो गया। जिधर दृष्टि जाती थी उधर ही जनता के अन्दर एक नया उत्साह दिखाई पड़ता था।

भाँसीकी रानी और लखनऊकी बेगम

कानपुर के वृत्तान्त के बाद अब हम अपने पाठकों को भाँसी की ओर ले जाना चाहते हैं। यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि किस प्रकार लार्ड डलहौजी ने राजा गगाधरराव के दत्तक पुत्र बालक दामोदरराव के उत्तराधिकार को नाजायज कह कर भाँसी की रियासत को जबर्दस्ती कम्पनी के राज्य में मिला लिया था।

गगाधरराव की मृत्यु के बाद १६ मार्च सन् १८५४ को भाँसी की रियासत के कम्पनी के राज्य में मिलाये जाने की घोषणा प्रकाशित हुई। समस्त प्रजा में इस घोषणा से घोर असन्तोष उत्पन्न हो गया। विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसकी आयु उस समय १८ वर्ष की थी और जिसने अपने बालक पुत्र की ओर से असाधारण योग्यता के साथ राज्य का समस्त कार्य सम्भाल लिया था, इस घोषणा का विरोध किया। किन्तु उसके विरोध की कुछ भी सुनवाई न हुई और न भविष्य के लिए कोई आशा ही रही। इतना ही नहीं, राजा गगाधरराव मरते समय जो लगभग साढ़े चार लाख रुपये के जवाहरात, और ढाई लाख रुपये नकद छोड़ गया था, लार्ड डलहौजी ने इस समस्त सम्पत्ति को जबर्दस्ती छीन कर कम्पनी के खजाने में जमा कर लिया और कहा कि जब दामोदरराव बालिक होगा तब यह सब धन उसे तुरन्त दे दिया जायगा। डलहौजी ने स्पष्ट लिखा कि दत्तक पुत्र को बालिग होने पर

पिता की इस निजी सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा, किन्तु गद्दी का कभी नहीं।

रानी लक्ष्मीबाई को इस समस्त सम्पत्ति और राज्य के बदले में पाँच हजार रुपये मासिक पेनशन देने का वादा किया गया। वादे को रानी ने तिरस्कार के साथ अस्वीकार किया। विधवा रानी के साथ इससे भी कहीं अधिक अन्याय किया गया। इतिहास लेखक सर जान के लिखता है—

“उस पर दोषारोपण किये गये, क्योंकि हम लोगों में यह प्रथा है कि पहले किसी देशी नरेश का राज्य लें लेते हैं और फिर पद-च्युत नरेश या उसके उत्तराधिकारी की भूठी बुराईयों करने लगते हैं। कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई केवल बच्ची है और दूसरों के प्रभाव में रहती है। यह भी कहा गया कि रानी को नशा का व्यसन है। यह बात कि रानी केवल बच्ची नहीं है, उसकी बातचीत से पूरी तरह साबित है, और उसके नशा करने की बात बिल्कुल भूठी कल्पना मालूम होती है।”

निःसन्देह किसी भी मनुष्य के साथ और विशेषकर किसी स्त्री के साथ इससे बढ़कर अन्याय नहीं किया जा सकता। रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत चरित्र के विषय में हम अब एक विद्वान् अंगरेज की राय इस स्थल पर और उद्धृत करते हैं, जो उस समय लक्ष्मीबाई के रहन-सहन इत्यादि से भली भाँति परिचित था। मेजर मैलकम ने १६ मार्च सन् १८५५ को गवर्नर जनरल के नाम पर एक सरकारी पत्र में लिखा था—“रानी का चरित्र अत्यन्त उच्च है और भाँसी में हर मनुष्य उसे अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखता है।”

उस समय के समस्त इतिहास से यह साबित है कि लक्ष्मीबाई वास्तव में अत्यन्त सुचरित्र, योग्य वीर और असाधारण बुद्धि की स्त्री थी। युद्ध-विद्या में वह अत्यन्त निपुण थी उसके माता-पिता बिठूर में पेशवा के दरबार में रहा करते थे। लिखा है कि बिठूर के दरबार में कुमारी लक्ष्मीबाई अत्यन्त सर्वाप्रेय थी। छोटी आयु में ही निशानेबाजी और शस्त्रों के उपयोग में अत्यन्त निपुण हो गई थी। सात वर्ष की अल्पावस्था में वह घोड़े की बड़ी दक्ष सवार थी और प्रायः नाना साहब और उनके भाइयों के साथ शिकार के लिये जाया करती थी।

वीर लक्ष्मीबाई भाँसी की गद्दी के इस अपमान और भाँसी की प्रजा के साथ इस अन्याय को सहन न कर सकी। सन् १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम की एक मुख्यतम नेत्री थी। पूर्व निश्चय के अनुसार ४ जून सन् १८५७ को भाँसी में विद्रोह आरम्भ हुआ। कम्पनी की सेना सन् १८५४ की घोषणा के बाद ही भाँसी पहुँच चुकी थी और कम्पनी का राज्य स्थापित हो चुका था। ४ जून को सब से पहले १२ नम्बर देशी पलटन के हवलदार गुरुबख्शसिंह ने किले के मेगजीन और खजाने पर अधिकार कर लिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने महल से निकल कर और शस्त्र धारण कर स्वयं विप्लवकारी सेना का सेनापतित्व ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मीबाई की आयु केवल २१ वर्ष की थी। ७ जून को रिसालदार कालेखों और तहसीलदार मुहम्मद हुसेन ने रानी की ओर से किले पर आक्रमण किया। किले के अन्दर की हिन्दुस्तानी सेना ने भी साथ दिया। ८ जून को कहा जाता है कि रिसालदार कालेखों की आज्ञा से किले के अन्दर के ६७ अंगरेज, जिनमें पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे शामिल थे,

कत्ल कर दिये गये । इतिहास लेखक सर जान के लिखता है कि इस हत्याकाण्ड से रानी लक्ष्मीबाई का कोई सम्बन्ध न था । न उसका कोई आदमी मौके पर नौजूद था और न उसने उसकी इजाजत दी थी । अन्त मे उसी दिन भॉसी पर से कम्पनी का राज्य हटा दिया गया । बालक दामोदर के बली की हैसियत से रानी लक्ष्मीबाई फिर से भॉसी की गद्दी पर बैठी । कम्पनी के भण्डे की जगह दिल्ली सम्राट की पताका भॉसी के किले पर फहराने लगे । सारी रियासत मे ढिठोरा पिटवा दिया गया—
“खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह (अर्थात् दिल्ली के सम्राट) का हुकुम रानी लक्ष्मीबाई का ।”

सन् १८५७-५८ के सब से अधिक भयङ्कर संग्राम अवध की धरती पर लड़े गये । अवध की सल्तनत के अंगरेजी राज्य मे मिलाये जाने और अवध निवासियों के दुःखों और शिकायतो का वर्णन हम पहले ही कर चुके है जो पाठकों को स्मरण होगा । अब हमे इतना ही कहना है कि अवध के जमीदारों, वहाँ की पुलिस, वहाँ की फौज और करीब-करीब समस्त जनता ने स्वाधीनता के उस महायुद्ध की सफलता पर अपना सर्वस्व लम्बा दिया था । वास्तव मे विप्लव की तैयारी कही भी इतनी अच्छी न थी जितनी कि अवध मे थी । हजारों मौलवी और हजारों पण्डित एक-एक बारिग और एक-एक गाँव मे आगामी युद्ध के लिए लोगों को तैयार करते फिरते थे ।

सर हेनरी लारेन्स अवध का चीफ कमिश्नर था । लखनऊ छावनी के कुछ सिपाही मगल पाडे की फॉसी के बाद अपने आपको रोक न सके । मई के प्रारम्भ मे वहाँ पर अंगरेजों के कुछ

मकान जला दिये गये। चार्ल्स बाल लिखता है कि—“३ मई को सात नम्बर पलटन के सात उच्छृङ्खल सिपाही लेफिटनेएट मीकम के खेमे में पहुँचे और कहने लगे—“हमें आपसे कोई निजी झगड़ा नहीं है किन्तु आप फिरंगी है, इसलिए हम आपको मार डालेंगे।” भयभीत किन्तु चतुर लेफिटनेएट ने उनसे दया की प्रार्थना की और कहा—“मुझ एक गरीब आदमी को मारने से आपको क्या लाभ होगा, आपकी शत्रुता तो इस राज्य से है।” दया में आकर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया किन्तु यह समाचार तुरन्त मर हेनरी लारेन्स तक पहुँचा। उसने एक गोल से सात नम्बर पलटन के हथियार रखा लिया।”

१२ मई को सर हेनरी लारेन्स ने एक बहुत बड़ा दरबार किया, जिसमें उसने हिन्दुस्तानी भाषा में एक जोरदार भाषण किया। इस जोरदार भाषण में उसने हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों को कम्पनी सरकार की वफादारी का महत्व दर्शाया। उसने मुसलमान सिपाहियों से कहा कि पञ्जाब में महाराजा रणजीतसिंह ने इस्लाम धर्म की कितनी तौहीन की थी और हिन्दुओं को यह याद दिलाया कि सम्राट औरंगजेब ने हिन्दू धर्म पर किस तरह कुठार चलाया था, और दोनों को बतलाया कि केवल अंगरेज ही एक दूसरे से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद उसने खैरखाह सिपाहियों को दुशाले, तलवारे और और पगडि़याँ इनाम में दी, किन्तु इन सब बातों का परिणाम और अधिक बुरा हुआ। हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों को और पूरी तरह दिखाई दिया कि अंगरेज किस प्रकार हमें पुराने झगड़ों की याद दिला कर और एक दूसरे से लड़ाकर दोनों को पराधीन बनाये रखना चाहते हैं।

१३ मई को मेरठ के विसव का समाचार लखनऊ पहुँचा। १४ मई को दिल्ली की स्वाधीनता का समाचार आया। सर हेनरी लारेन्स ने अब लखनऊ शहर के निकट दो स्थानों में खास तौर पर किलेबन्दी शुरू कर दी, ताकि आवश्यकता के समय लखनऊ के अंगरेज इनमें आश्रय ले सकें—एक मच्छी भवन और दूसरे रेजिडेन्सी। लखनऊ की समस्त अंगरेज स्त्रियाँ और बच्चे इन स्थानों में पहुँचा दिये गये और समस्त अंगरेज पुरुषों को फौजी कवायद सीखने का हुकुम हो गया।

अवध की सरहद नैपाल से मिली हुई है। सर हेनरी लारेन्स ने विशप दूत भेज कर नैपाल दरबार के प्रधान मन्त्री सेनापति जगबहादुर से प्रार्थना की कि आप इस सङ्कट में अपनी सेना से अंगरेजों की सहायता कीजिए।

ठीक ३० मई की रात को ९ बजे छावनी की तोप छुटी। विसव के आरम्भ होने का यही चिन्ह नियत था। सबसे पहले ७१ नम्बर पलटन की बन्दूकों की आवाज सुनाई दी। अंगरेज के बगले जला दिये गये। जो अंगरेज मिला, उसे मार डाला गया। ३१ मई को सवेरे हेनरी लारेन्स ने कुछ गोरी सेना और ७ नम्बर देशी सवार पलटन को साथ लेकर विसवकारियों पर आक्रमण किया। उस समय तक ७ नम्बर पलटन अंगरेजों की ओर थी, किन्तु मार्ग में ही इस पलटन ने भी कम्पनी का झण्डा फेंक कर हरा झण्डा हाथ में ले लिया। उन सबों को वही छोड़ कर अपने थोड़े से अंगरेज सिपाहियों के साथ लारेन्स को रेजिडेन्सी में आकर शरण लेनी पड़ी। ३१ मई के सन्ध्या समय तक ४८ और ७१ नम्बर पैदल और ७ नम्बर सवार और अन्य देशी पलटनों में भी स्वाधीनता का हरा झण्डा फहराने लगा।

लखनऊ से लगभग ५० मील उत्तर-पश्चिम में सीतापुर है। वहाँ पर कम्पनी की तीन देशी पलटनों थी। ३ जून को इन पलटनों ने कम्पनी का झण्डा फेंककर हरा झण्डा हाथ में ले लिया। उन्होंने खजाने पर अधिकार कर लिया और जो अँगरेज मिला उसे मार डाला। कहा जाता है कि २४ अँगरेज सीतापुर में मारे गये और कुछ ने आस-पास के जमीदारों के यहाँ जाकर आश्रय ग्रहण किया।

सीतापुर को स्वाधीन करने के बाद वहाँ के सिपाही फर्रुखाबाद पहुँचे। कम्पनी ने फर्रुखाबाद के नवाब तफज्जलहुसेन खाँ को गद्दी से उतार दिया था। फर्रुखाबाद के किले में बहुत से अँगरेजों ने शरण ले ली थी। एक प्रकार के भयानक संग्राम करने के बाद विसवकारियों ने फर्रुखाबाद के किले पर अधिकार कर लिया, वहाँ के समस्त अँगरेजों को मार डाला और पदच्युत नवाब को फिर से वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। पहली जुलाई तक फर्रुखाबाद की रियासत में एक भी अँगरेज शेष न था।

मुहम्बदी, मालन, बहरायच, गोंडा, सिकरौरा, मेलापुर इत्यादि आस-पास के समस्त इलाके १० जून सन् १८५७ तक पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गये। स्थान-स्थान पर अनेक अँगरेज मारे गये, अनेक भाग निकले और कुछ को आस-पास के जमीदारों ने अपने कहीं शरण दी।

यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अबध के जिन जमीदारों और ताल्लुदारों ने इस अवसर पर स्वाधीनता के संग्राम में खुले तौर से भाग लिया, उनमें से अनेक ने अपने महलों के अन्दर अँगरेज अफसरों और बच्चों को शरण देने में

बड़ी उदारता दिखलाई। उस समय के बचे हुए अनेक अँगरेजों के पत्रों और रिपोर्टों में इसका उल्लेख पाया जाता है।

अवध के पूर्वी भाग में फैजाबाद का नगर सब से प्रधान था। सर हेनरी लारेन्स ने स्वीकार किया है कि फैजाबाद जिले के ताल्लुकदारों के साथ अँगरेजों ने घोर अन्याय किया। उनमें से कुछ की पूरी जागीरे छीन ली गई थी और कुछ के आधे गाँव बिना किसी कारण के ले लिए गये थे। मौलवी अहमदशाह, जिसका थोड़ा सा परिचय हम पहले ही दे आये हैं, इन्हीं पदच्युत ताल्लुकदारों में से था। अवध की सल्तनत के छिन्नने के समय से मौलवी अहमदशाह ने अपने जीवन का समस्त समय इस स्वाधीनता के महायुद्ध की तैयारी में लगा रखा था। फैजाबाद में लखनऊ और आगरे तक वह बराबर दौरे करता रहता था। विश्व की आवश्यकता पर उसने अनेक स्थानों में उत्तेजक भाषण दिए और अनेक पत्रिकाएँ लिखी। अँगरेजों को जिस समय इसका पता चला उस समय उन्होंने मौलवी अहमदशाह की गिरफ्तारी की आज्ञा दी। अवध की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने से इकार किया। इसलिए फौज भेजनी पड़ी। अहमदशाह पर बगावत का मुकदमा तुरन्त चलाया गया। उसे फाँसी का हुकुम सुना दिया गया और फाँसी की तारोख तक के लिए उसे फैजाबाद के जंलखाने में बन्द कर दिया गया।

मौलवी अहमदशाह की गिरफ्तारी ने फैजाबाद के इलाक़े भर में आग लगा दी। फैजाबाद के शहर में उस समय दो पैदल पलटन, कुछ सवार और थोड़ा-सा तोपखाना था। तुरन्त फैजाबाद के सिपाहियों और जनता ने मिल कर स्वतन्त्रता का झण्डा खड़ा कर दिया। परेड के ऊपर देशी सिपाहियों ने अपने

अंगरेज अफसरों से साफ कह दिया कि इस समय के बाद हम केवल अपने हिन्दुस्तानी अफसरों की आज्ञा का पालन करेंगे। सूबेदार दलीपसिंह ने तुरन्त आगे बढ़कर समस्त अंगरेज अफसरों को कैद कर लिया। जेलखाने की दिवारें तोड़ दी गईं। मौलवी अहमदशाह की बेड़ियाँ काट डाली गईं। फैजाबाद के समस्त सिपाहियों और जनता ने मौलवी अहमदशाह को अपना नेता चुना। मौलवी अहमदशाह ने फैजाबाद के समस्त अंगरेज को लिख भेजा कि आप सब लोग तुरन्त फैजाबाद छोड़ दीजिए। उसने सब अंगरेजों को नावों में बैठकर फैजाबाद से रवाना कर दिया। उन्हें मार्ग के लिए खाने-पीने का सामान और कुछ मार्ग का व्यय तक भी दे दिया गया। फैजाबाद शहर में शान्ति और व्यवस्था का प्रबन्ध तुरन्त कर दिया गया। ९ जून को प्रातःकाल शहर और आस-पास के इलाक़े में घोषणा कर दी गई कि अब से कम्पनी की हुकूमत का अन्त ही गया है और वाजिद अली शाह की हुकूमत फिर से कायम हो गई।

शाहगज के ताल्लुकदार राजा मानसिंह को इससे पूर्व मालगुजारी के कुछ भगड़े में अंगरेज कैद कर चुके थे। मानसिंह इस समय बिल्व के नेताओं में से था, फिर भी उसने बिल्व के अन्य नेताओं की इजाजत से २९ अंगरेज स्त्रियों और बच्चों को अपने किले के अन्दर तक सुरक्षित रखा। मौलवी अहमदशाह की आज्ञा के अनुसार खास फैजाबाद के शहर में एक भी अंगरेज नहीं मारा गया।

फैजाबाद के बाद ९ जून को सुलतानपुर और दस जून को सालोनी में स्वाधीनता का हरा झण्डा फहराने लगा। सालोनी

के जमींदार सरदार रुस्तमशाह और काला के राजा हनुमन्तसिंह दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि बिना अंगरेजी-राज्य को हिन्दु-स्तान से मिटाये, विश्राम न लेंगे। फिर भी इन दोनों भारतीय नरेशों ने अपने आश्रित अंगरेजों और उनके बाल-बच्चों के साथ साधारण उदारता का व्यवहार किया। राजा हनुमन्तसिंह के विषय में इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—“इस उदार राजपूत की अधिकांश जागीर अंगरेजों की नई लगान पद्धति के कारण छीनी जा चुकी थी। वह इस अन्याय और अपमान को बहुत महसूस करता था। फिर भी वह स्वभाव से इतना उदार था कि जिस कौम ने उसको करीब-करीब बर्बाद कर दिया था, उस कौम के भागे हुए अफसरों के साथ वह वैसा ही व्यवहार करता था, जैसा किसी भी दुःखित मनुष्य के साथ। उसने मुसीबत में उनकी सहायता की, उसने उन्हें उनके स्थानों पर सुरक्षित पहुँचा दिया। किन्तु जब बिदा होते समय कप्तान बैरो ने राजा हनुमन्तसिंह से कहा कि—“मुझे आशा है, आप इस विप्लव के शान्त करने में अंगरेजों की सहायता करेंगे।” तब तो राजा हनुमन्तसिंह सीधा खड़ा हो गया और बोला—“साहब! तुम्हारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में घुस आये और उन्होंने हमारे बादशाह (बाजिद अलीशाह) को निकाल दिया। तुमने अपने अफसरों को जिलों में भेजा ताकि वे पुराने रईसों और जमींदारों के पट्टों की जाँच करें। एक बार ही मैं तुमसे मुझसे वे सब जमीनें छीन लीं जो चिरकाल से मेरे कुटुम्ब में चली आती थीं। मैंने सब सहन कर लिया। अचानक तुम सब पर यह आफत आई, तुमने मुझे बर्बाद किया था और तुम मेरे ही पास आये मैंने तुम्हें बचा दिया। किन्तु अब—अब मैं अपनी

समस्त सेना इकट्ठी करके लखनऊ जा रहा हूँ और तुम्हे मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा।”

इतिहास से पता चलता है कि उस समय अवध के अन्दर अनेक हिन्दू और मुसलमानों के विचार हनुमन्तसिंह के विचारों के ही समान अँगरेजों के विरुद्ध उग्र हो रहे थे किन्तु इतना सब होने पर भी वे सब हिन्दू और मुसलमान समान रूप से हनुमन्तसिंह के ही आदर्श के थे अर्थात् उन सबों में जितना प्रबल स्वाधीनता का प्रेम था उतनी ही आदर्शमयी वीरोचित उदारता भी थी। सारांश यह कि ३१ मई और १० जून के बीच केवल लखनऊ शहर के एक भाग को छोड़ कर समस्त अवध अँगरेजी राज्य के चगुल से निकल गया। इतिहास का प्रसिद्ध विद्वान फारंस्ट लिखता है—

“इस प्रकार दस दिन के भीतर अवध से अँगरेजी राज्य स्वप्न की तरह भिट गया। उनका कोई अवशेष तक बाकी न रहा। फौज ने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया। जनता ने पराधीनता की बेड़ियों तोड़ कर फेंक दी किन्तु उनमें से किसी ने बदला नहीं लिया, किसी ने अन्याय नहीं किया। एक दो अपवादों को छोड़ कर शेष समस्त वीर और विद्रोही जनता ने भागते हुए अँगरेजों के साथ स्पष्ट दयालुता का व्यवहार किया। अवध-निवासियों के जिन शासकों (अर्थात् अँगरेज अफसरों) ने अपनी सत्ता के दिनों में अत्यन्त अच्छी (?) नीयत से अनेक लोगों के साथ घोर अन्याय किया था, उन शासकों का जब पतन हो गया तब अवध-निवासियों ने उनके साथ अपने व्यवहार में उच्च श्रेणी की उदारता और दयालुता का व्यवहार किया। अवध-निवासियों के ये गुण साफ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे।”

लार्ड डलहौजी का बयान है कि वाजिदअली शाह के अत्याचारों से अवध की प्रजा दुःखी थी! किन्तु जिस प्रकार सन् १८५७ में समस्त अवध के जमींदारों जागीरदारों, राजाओं, सिपाहियों, किसानों, सौदागरों, सारांश यह कि समस्त हिन्दू और मुसलमानों ने वाजिदअली शाह को फिर से अवध के सिंहासन पर बैठाने के लिए दस दिन के भीतर अवध से अंगरेजी राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया, उससे वाजिदअली शाह के शासन की सर्व-प्रियता और कम्पनी के शासन की अप्रियता दोनों का साफ पता चल जाता है। अवध के अन्दर उस समय एक गाँव भी ऐसा न बचा होगा जिसने कम्पनी के झण्डे को फाड़ कर न फेंक दिया हो।

अवध के भिन्न-भिन्न भागों से जमींदारों के सिपाही और स्वयंसेवक सहस्रों की संख्या में अब लखनऊ में बेगम हजरत महल के झण्डे के नीचे आकर इकट्ठे होने लगे। अवध निवासियों की इस स्वाधीनता की लड़ाई में बेगम हजरत महल के अधीन अवध की अनेक स्त्रियाँ तक मर्दाना भेष पहन कर और हथियार बंध कर अपने अलग दल बना कर लड़ रही थीं। लखनऊ शहर का एक भाग अभी तक अंगरेजों के अधिकार में था। दो पलटन सिखों की, एक पलटन गोरों की और कुछ तोपखाना इस समय लारेन्स के पास था। कानपुर के अंगरेजी किले को विसवकारियों का समूह अभी तक घेरे हुए था। कानपुर में अंगरेजों के पराजित होने का समाचार २८ जून को लखनऊ पहुँचा। लखनऊ के विसवकारियों ने अंगरेजों पर आक्रमण करने के लिए चिनहट नामक स्थान पर धावा बोल दिया।

कानपुर की पराजय का समाचार सुन कर सर हेनरी लारेन्स

का साहस उसका साथ छोड़ चुका था। २९ जून को लोहे के पुल के पास कम्पनी की सेना जमा हुई। एक अत्यन्त घमासान सभ्राम हुआ। अन्त में हार कर सर हेनरी लारेन्स को पीछे हटना पड़ा। अँगरेजों की तोपे मैदान में रह गईं। सर हेनरी लारेन्स को लौट कर रेजीडेन्सी में आश्रय लेना पड़ा। इसके बाद विप्लवकारियों ने मच्छी भवन और रेजीडेन्सी दोनों को घेर लिया। अँगरेजों ने मच्छी भवन के मैगजीन में आग लगा दी। मच्छी भवन भी विप्लवकारियों के अधिकार में आ गया।

लखनऊ के अन्दर समस्त अँगरेजी सत्ता अब रेजीडेन्सी के मकान में कैद हो गई। उसमें लगभग एक हजार और आठ सौ हिन्दुस्तानी थे। अन्न-शस्त्र और खाने-पीने का सामान पर्याप्त था। विप्लवकारियों ने चारों ओर से रेजीडेन्सी को घेरे रखा। लखनऊ के शेष नगर और समस्त अवध पर वाजिदअली शाह के पुत्र शाहजादे बिरजिस कदर की ओर से बेगम हज्रत महल का शासन कायम हो गया।

इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—“समस्त अवध ने हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिये थे। न केवल बाजाब्ता फौज ही बल्कि पदच्युत नवाब की फौज के साथ हजार आदमी, जमींदार उनके सिपाही, ढाई सौ किले—जिनमें बहुतों पर भारी तोपे लगी हुई थी सब के सब हमारे विरुद्ध खड़े हो गये। इन लोगों ने कम्पनी के शासन को अपने नवाबों के शासन के साथ तोल कर देख लिया था और एक मत से यह फैसला कर लिया था कि उनके अपने नवाबों का शासन कम्पनी के शासन से बेहतर था।”

सन् ५७ के पंजाबी और सिख

अभी तक हमने जो कुछ वर्णन किया है उससे पाठक यह भली भाँति समझ गये होंगे कि १८५७ के विप्लव को दबाने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने किन-किन उपायों को काम में लाने का प्रयत्न किया था और किस प्रकार उनके आदेश का पालन करते हुए जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद में क्रूरता के साथ नर-संहार के कार्य आरम्भ कर दिये थे किन्तु वे सब क्रूरता के कार्य ही भारत में अंगरेजी-सत्ता स्थापित करने वाले अंगरेजों के लिए घातक प्रमाणित हुए। इतना ही नहीं, परिणाम यह हुआ कि कानपुर, भॉसी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, सुलतानपुर और लखनऊ आदि सभी स्थानों में उस समय की स्वाधीनता का हरा झण्डा फहराने लगा और कम्पनी का जो झण्डा था वह विप्लवकारियों द्वारा फाड़ कर फेंक दिया गया।

अब हम उन सब घटनाओं का वर्णन करेंगे जिनका सम्बन्ध दिल्ली, पञ्जाब और उत्तर-पश्चिमी इलाके से है। पाठकों को यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि सन् १८५७ के महान् विप्लव की योजना करने वालों के दृष्टिकोण से उस स्वाधीनता के समस्त महायुद्ध का केन्द्रस्थल उस समय दिल्ली ही था। सम्राट बहादुरशाह के नाम पर विप्लव का श्रीगणेश किया गया था। उस समय की जनता के हृदय पर आसन ग्रहण करने वाला सम्राट बहादुरशाह ही समस्त विप्लवकारियों

की सुनहली आशाओं का मुख्य केन्द्र-बिन्दु था और बहुत अंशों में यह सत्य भी था कि दिल्ली की सफलता पर भारत की स्वाधीनता का निर्भर होना स्वभावतः स्वयंसिद्ध था।

इसीलिए समस्त भारत के अंगरेजों और विप्लवकारियों, दोनों की ही दृष्टि दिल्ली पर ही लगी हुई थी। समस्त भारत से सेनाएँ आ-आकर दिल्ली में इकट्ठी हो रही थी और भारत के भिन्न-भिन्न भागों से उस समय की अंगरेजी कम्पनी के खजाने ला-लाकर सम्राट बहादुरशाह के चरणों पर अर्पण कर देती थी। इसी प्रकार अंगरेजों ने भी दिल्ली को फिर से जीत लेने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना उचित समझ लिया था। हम यह समझ रहे हैं कि पाठकों का हृदय दिल्ली की घटनाओं को जान लेने के लिए उत्सुक हो रहा होगा किन्तु विषय की गम्भीरता को पूर्ण रूप से समझने के लिए हम पाठकों से यही निवेदन करेंगे कि वे अधिक अधोर न हों। इसका कारण यही है कि दिल्ली के महत्वपूर्ण स्वाधीनता के महायुद्धों का वर्णन करने से पहले हमें उत्तर-पश्चिमी भारत और पञ्जाब की ओर एक दृष्टि अवश्य डालनी होगी। क्योंकि वह मानी हुई बात है कि स्वाधीनता-संग्राम में भारतीयों को असफल बनाने के लिए उसी ओर से ही अंगरेजों ने सम्राट बहादुरशाह, समस्त विसवकारी समुदाय और दिल्ली पर आक्रमण करने का आयोजन किया था।

जिस समय गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने मेरठ और दिल्ली के स्वाधीन हो जाने के समाचार को सुना, उस समय वह अपने कर्तव्य को निश्चय कर सकने में समर्थ न हुआ। कुछ भी हो, विशेष रूप से विचार कर लेने के बाद उसने.

एक ओर मद्रास, कलकत्ता, रंगून आदि स्थानों से फौज जमा करके जनरल नील के अधीन बनारस और इलाहाबाद की ओर रवाना कर दिया और दूसरी ओर कमाण्डर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) ऐनसन को, जो उस समय शिमले में था, पञ्जाब से सेना इकट्ठी कर लेने के बाद तुरन्त दिल्ली पर चढ़ाई करने और फिर से दिल्ली और दिल्ली सम्राट बहादुरशाह को जीत लेने के लिए आदेश कर दिया ।

ठीक ऐसे ही अवसर पर गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने भारतीय सिपाहियों के मनोमालिन्य को दूर कर सान्त्वना देने के लिए समस्त भारत में अपनी एक घोषणा प्रकाशित करा दी । उस घोषणा का तात्पर्य यह था कि—“कम्पनी की सरकार का कोई विचार न कभी किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का था और न है । यदि सिपाही चाहे तो अपने कारतूस स्वयं बना सकते हैं और जिन लोगों ने आज तक कम्पनी की सरकार का नमक खाया है उनके लिए विप्लव में भाग लेना घोर पाप है ।” किन्तु जब विप्लव की प्रचण्ड अग्नि जल चुकी थी तब फिर भला इन सब घोषणाओं का क्या प्रभाव पड़ सकता था ।

विप्लव करने वाली जनता और सिपाहियों ने उस घोषणा को पढ़ा पढ़ाया, सुना-सुनाया किन्तु कोई भी विप्लव से किनारा कसने को तैयार न हुआ । जनरल ऐनसन ने परिस्थिति को भली भाँति समझ लिया और यह भी समझ लिया कि फिर से दिल्ली विजय करने के लिए केवल पञ्जाब से ही सेना मिल सकती थी । राजनीति के क्षेत्र में जिन विद्वानों का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है, उन सब का कहना है कि जिस प्रकार अबध, रूहेलखण्ड, कानपुर आदि स्थानों के लोगों ने भारत से

अंगरेजों को भगाने के लिये विप्लवकारियों का साथ तन, मन, धन से दिया था, यदि उस समय उन्हें स्वाधीनता-प्रेमी विप्लवकारियों का साथ पञ्जाब ने दिया होता तो दिल्ली या दिल्ली सम्राट बहादुरशाह अथवा भारत को फिर से विजय कर सकना अंगरेजों के लिए सर्वथा असम्भव होता। पञ्जाब का चीफ कमिश्नर सर जान लारेन्स पञ्जाब और पञ्जाब की जनता के स्वभाव और विचार से भली भाँति परिचित था और किस प्रकार वहाँ की जनता को अपने अनुकूल बना कर उससे विप्लव को दबाया जा सकेगा, इसको भी अच्छी तरह समझता था। इसीलिए पञ्जाब को और विशेषकर सिखों को उस महान सङ्कट के समय अंगरेज सरकार का भक्त बनाए रखने के लिए पञ्जाब के चीफ कमिश्नर सर जान लारेन्स ने जिन-जिन उपायों का अवलम्बन किया था, वे सभी उपाय अंगरेजों के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे।

उस समय अंगरेजों द्वारा सिखों को भड़काने के लिए उन्हें यह समझाया गया कि औरंगजेब जैसे मुसलमान बादशाहों ने तुम्हारे धर्म पर किस तरह हमले किये हैं और किस प्रकार निफ्तुर औरंगजेब ने दिल्ली के अन्दर तुम्हारे पूज्य गुरु तेग-बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। शायद तुम सब इन सब अत्याचारों को न भूलें होंगे और भूलना भी न चाहिये। इसके बाद सिखों को यह भी बताया गया कि अब तुम सब बहादुर सिखों को अंगरेजों की सहायता से अपने गुरु और धर्म के शत्रुओं से बदला लेने और दिल्ली जैसे शाही नगर को जमीन से मिला देने का सुन्दर अवसर मिल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि बूढ़े सम्राट बहादुरशाह के नाम से एक बनावटी घोषणा भी उन दिनों जगह-जगह दीवारों पर लगी हुई दिखाई पड़ी, जिसमें

लिखा था कि सम्राट बहादुरशाह का पहला फरमान यह है कि सिखों को मार डाला जाय । इतिहास का लेखक मेटकाफ लिखता है कि—“जिस समय यह बनावटी घोषणा प्रकाशित की गई, ठीक उसी समय दिल्ली का बूढ़ा सम्राट बहादुरशाह हाथी पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों और गलियों में अपने मुख से यह एलान करता फिर रहा था कि स्वाधीनता का यह समस्त युद्ध केवल फिरगियों के साथ है और किसी भी भारतवासी को किसी तरह की कोई हानि न पहुँचाई जाय ।”

कहने की आवश्यकता नहीं कि सर जान लारेन्स की इन समस्त चालों का अत्यन्त अधिक प्रभाव पड़ा । सम्राट बहादुर शाह और विसव के अन्य प्रमुख नेताओं ने सिखों और सिख राजाओं को अपनी ओर कर लेने के लिए भरसक प्रयत्न किये किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे अपने उन प्रयत्नों में सफल न हो सके । बहादुरशाह ने अपना विशेष दूत, जिसका नाम ताजुद्दीन था पटियाला, नाभा और भिन्द के राजाओं तथा अन्य प्रधान-प्रधान सिख सरदारों के पास भेजा । सिख राजाओं तथा सिख सरदारों से मिलने के बाद जो परिणाम निकला, उस सम्बन्ध में ताजुद्दीन ने सम्राट बहादुरशाह को एक पत्र लिखा जिसके कुछ वाक्य इस प्रकार के थे :—

“पञ्जाब के सिख सरदार सब सुस्त और कायर हैं । बहुत कम आशा है कि वे विसवकारियों का साथ देंगे । ये लोग फिरगियों के हाथों के खिलौने बने हुए हैं । मैं स्वयं इन लोगों से एकान्त में मिला । मैंने उनसे बातचीत की और उनके सामने अपना कलेजा पानी कर दिया । मैंने उनसे कहा आप लोग फिरगियों का साथ क्यों दे रहे हैं और क्यों देश की आजादी के साथ

विश्वासघात कर रहे हैं ? क्या स्वाधीन भारत में आप इससे अच्छी दशा में न रहेंगे ? इसलिए कम से कम अपने फायदे के लिए ही आपको दिल्ली के बादशाह का साथ देना चाहिए । इस पर उन सब सिख सरदारों ने जवाब दिया, "देखिए, हम सब मौके के इन्तजार में हैं । ज्योंही हमें सम्राट का हुक्म मिलेगा त्योंही हम एक दिन के अन्दर इन सब काफिरों को मार डालेंगे । × × × लेकिन मेरा ख्याल है कि उन सब सिख सरदारों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता ।"

ताजुद्दीन के पत्र आने के कुछ दिनों बाद थोड़े से सवार सम्राट बहादुरशाह का सन्देश लेकर इन समस्त सिख राजाओं के पास पहुँचे किन्तु उन सब के पहुँचने से पहले ही लार्ड कैनिंग और सर जान लारेन्स के जहरीले तीर भी सिख राजाओं के दिलों और दिमागों पर चल चुके थे । उन तीरों का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था कि अदूरदर्शी सिख राजाओं ने दिल्ली के बड़े सम्राट बहादुरशाह के सन्देशों का तिरस्कार कर दिया और पत्र लाने वाले सवारों को भी निर्दयता से मरवा डाला ।

अपने कूटनीति से पूर्ण इन उपायों में सफल होते ही पञ्जाब की जनता को अपनी ओर रखने तथा अबोध रूप से अनुकूल बनाने के लिए सर जान लारेन्स ने एक और साधारण सा उपाय यह किया कि उसने आरम्भ में ही पञ्जाब की जनता से ६ प्रतिशत व्याज पर कम्पनी के नाम से कर्ज लेना आरम्भ कर दिया । इसके दो परिणाम हुए । पहिला परिणाम यह हुआ कि रकम बड़े ही संकट के समय कम्पनी के काम आई और दूसरे परिणाम में यह समझ लेना चाहिए कि पञ्जाब के जिन असंख्य साहूकारों ने कम्पनी को कर्ज दिया, उन्हें कम्पनी के

शासन के अधीन बने रहने में ही अपना हित दिखाई देने लगा ।

जिस समय की घटनाओं का वर्णन हम कर रहे हैं उस समय लखनऊ के विसवकारी नेताओं का थोड़ा-सा पत्र व्यवहार काबुल के अमीर दोस्त मुहम्मद खॉ के साथ होना आरम्भ हुआ था । यह हम नहीं जानते कि अफगानिस्तान में उसके मुकाबले के लिए अंगरेजों ने किन-किन उपायों का सहारा लिया था किन्तु इतिहास की पुस्तकों से इतना पता अवश्य चलता है कि सरहद को मुसलमान कौमों को अपनी ओर बनाये रखने के लिए सर जान लारेन्स ने आवश्यकता से अधिक धन व्यय किया और उन्हें अपने अनुकूल बनाये रखने के उद्देश्य से उनमें प्रचार करने के लिए अनेक मुल्लाओं को नौकर रखा था ।

विसव के दिनों में पञ्जाब के अन्दर सिख और गोरी पलटनों के अतिरिक्त हिन्दू और मुगलमान सिपाहियों की भी अनेक पलटने थी । ये लोग राष्ट्रीय स्वाधीनता युद्ध को सफल बनाने के लिये विसव में भाग लेने की कसमें खा चुके थे । इनके अतिरिक्त पञ्जाब के अनेक नगरों की साधारण हिन्दू और मुसलमान जनता भी विसव के साथ पूरी सहानुभूति रखती थी । इसीलिए हमें यह देखना होगा कि इन सब के वीरोचित प्रयत्नों को असफल करने के लिए अंगरेज अफसरों ने कौन-कौन से नये उपाय काम में लाने की चेष्टाएँ की और उन सब चेष्टाओं में उन्हें कहीं तक सफलता प्राप्त हुई ।

उन दिनों पञ्जाब की सब से बड़ी और महत्वपूर्ण छावनी लाहौर के समीप मियों मीर में थी । मियों मीर की छावनी में

गोरे सिपाहियों की तुलना में हिन्दुस्तानी सिपाही ठीक चौगुने थे। पञ्जाब की हिन्दुस्तानी सेना के सिपाहियों ने यह तय कर रखा था कि सब से पहले मियाँ मीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे और अंगरेजों को जीत कर किले पर अपना पूरा अधिकार कर लेंगे और फिर पेशावर, अमृतसर, फिलौर और जालंधर की पलटने एक साथ विसर्ज करना आरम्भ कर देगी।

मियाँ मीर की पलटने राबर्ट माण्टगुमरी के अधीन थी। मेरठ का समाचार पाते ही माण्टगुमरी पूर्ण रूप से सावधान हो गया था। उसे अपने एक विशेष गुप्तचर द्वारा सूचना मिली कि मियाँ मीर की हिन्दुस्तानी सेना के सिपाही भी विप्लव के लिए तैयार हो चुके हैं। इस समाचार को पाते ही माण्टगुमरी ने १३ मई को तुरन्त लगभग एक हजार हिन्दुस्तानी सिपाहियों को परेड पर जमा किया और गोरे सवार तोपखाने सहित उन सब सिपाहियों के चारों ओर खड़े कर दिये। इसके बाद सिपाहियों से हथियार रखने के लिये कहा गया। ऐसी दशा में जब सिपाहियों ने दूसरा कोई लाभकारी उपाय न देखा तब तुरन्त अपने अपने हथियार रख दिये। इसके बाद वे सब चुपचाप अपनी बारिगों में चल गये।

इस घटना के बाद ही गोरों की एक पलटन लाहौर के किले में भेजी गई। उसने भी वहाँ पहुँच कर वहाँ के तोपखाने की सहायता से किले के अन्दर रहने वाले देशी पलटनों के सिपाहियों से हथियार रखा लिये। इसके बाद उन सबों को किले से बाहर बारिगों में भेज दिया और लाहौर के किले पर स्वयं अधिकार कर लिया। इसमें सन्देह नहीं कि दूरदर्शी माण्टगुमरी

के उचित समय के उचित साहस और उसके फुर्तिलेपन ने पञ्जाब को कम्पनी के हाथों से निकल जाने से बचा लिया और समस्त विस्व की भावी प्रगति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। सर जान लारेन्स एक स्थान पर लिखता है—“यदि पञ्जाब चला जाता तो हम अवश्य बर्बाद हो जाते। उत्तरी प्रान्तों तक सहायता पहुँच सकने से बहुत पहले ही समस्त अँगरेजों की हड्डियाँ धूप में पड़ी सूखती होती। इनना ही नहीं, इंगलैण्ड भी कभी उस आपत्ति के कारण न तो पनप सकता था और न एशिया में फिर से अपनी सत्ता को ही स्थापित कर सकता था।”

उस समय फिरोजपुर में कम्पनी का एक बहुत बड़ा मैगजीन था। १३ मई को यह देखने के लिये कि वहाँ के हिन्दुस्तानी सिपाहियों के मानसिक विचार किस प्रकार के हैं अँगरेजों ने उन्हें परेड पर बुला कर इकट्ठा किया। सिपाहियों का व्यवहार इतना सुन्दर और प्रशसनीय रहा कि अँगरेज अफसरों का सन्देह उन पर से जाता रहा। किन्तु उसी दिन थोड़ा सा समय बीत जाने पर फिरोजपुर के हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने विप्लव करना आरम्भ कर दिया। उन सिपाहियों के विप्लव करते ही अँगरेजों ने मैगजीन में आग लगा दी। फिरोजपुर नगर के निवासियों ने विप्लवकारियों का पूरा साथ दिया। अँगरेजों के मकान जला डाले गये। जो अँगरेज जिस-जिस स्थान पर मिला उसे उसी स्थान पर मार डाला। इसके बाद वहाँ की हिन्दुस्तानी सेना के समस्त सिपाही दिल्ली की ओर रवाना हो गये। गौरी पलटन ने कुछ दूर तक उन सबों का पीछा किया किन्तु अन्त में असफल होकर उसे फिरोजपुर लौट आना पड़ा।

पेशावर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ पर २४, २७

और ५१ नम्बर पैदल और सवार इन्हीं चार देशी पलटनों ने २२ मई सन् १८५७ को विप्लव करने का निश्चय कर रखा था। ये चारों पलटने पेशावर के आस-पास अलग-अलग छावनियों में थीं। मियों मीर की छावनी का समाचार पाते ही पेशावर के अंगरेज अफसरों ने भेलम के आस-पास गोरी सेना को और अपने विश्वास-पात्र भारतीय सिपाहियों की पलटनों को जमा किया। २२ मई को प्रातःकाल कुछ गोरी सेना और कुछ तोपे चारों स्थानों पर भेज दी गईं और पहले कही गई चारों पलटनों को सन्देह पर घेर कर उनसे हथियार रखा लिये गये।

हथियार रखा लेने के बाद इन सब हिन्दुस्तानी सिपाहियों को अपनी बारिगों में रहने की आज्ञा दी गई। लिखा हुआ मिलता है कि २२ तारीख की रात को उनमें से कुछ सिपाहियों ने नगर की ओर जाना चाहा। चूँकि अंगरेज अफसरों को यह डर था कि कहीं नगर में या आस-पास विसव न खड़ा हो जाय इसलिए उन सिपाहियों को नगर जाने से रोक दिया गया और तुरन्त उनमें से १३ या १४ को इसलिए फौसी पर लटका दिया गया ताकि दूसरों को सबक मिले। इतना ही नहीं, बारिगों के बाहर तोपें भी लगा दी गईं। फिर इन सिपाहियों में से किसी को भी बाहर निकलने का साहस न हो सका। फिर भी बाद में इनमें से अनेक को फौसी दी गई और अनेक को तोप के मुँह से बाँध कर उड़ा दिया गया।

पेशावर के समीप होती मर्दान में ५५ नम्बर पैदल पलटन थी। इस पलटन के कर्नल स्पार्टिश बुड को पूरा विश्वास था कि मेरी पलटन विद्रोह न करेगी। पञ्जाब के दूसरे अंगरेज अफसरों.

ने आग्रह भी किया कि इस पलटन से भी हथियार रखा लिये जायँ। कर्नल ने इस आग्रह का घोर विरोध किया। पञ्जाब सरकार ने हथियार रखा लेने के पक्ष में फैसला दिया। कहा जाता है कि इस फैसले पर कर्नल स्पाटिश बुड ने अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली।

कर्नल स्पाटिश बुड के न रहने पर पेशावर से गोरी सेना और तोपे होती मर्दान में रहने वाली पलटन से हथियार रखा लेने के लिए भेजी गई। इस समाचार को पाते ही ५५ नम्बर के कुछ सिपाहियों ने होती मर्दान के किले से निकल कर भागना चाहा किन्तु कम्पनी की गोरी सेना ने, जो उनसे सख्या में अधिक थी और जिसके पास भारी तोपें थीं, उन सबों को घेर लिया और १५० सिपाहियों को उसी स्थान पर मार डाला गया। फिर भी कुछ सिपाही भाग कर निकल ही गये। जो रह गये वे सब तुरन्त गिरफ्तार कर लिये गये। उस समय के इतिहास की पुस्तकों को देखने से पता चलता है कि ५५ नम्बर पलटन के कैदियों के साथ अधिक भयंकर व्यवहार किया गया, और इसलिए कि उससे दूसरे सिपाहियों को भी शिक्षा मिल सके और वे विद्रोह करने का साहस न करे। प्रसिद्ध है कि उन सब सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें दंड दिया गया और उनमें से प्रति तीसरे सिपाही को तोप के मुँह से उड़ाने के लिये चुन लिया गया। एक अंगरेज अफसर, जो इन लोगों के तोप से उड़ाये जाने के समय उपस्थित था, उस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखता है—“उस दिन की परेड का दृश्य विचित्र था। परेड पर लगभग नौ हजार सिपाही थे।
× × × एक चौरस मैदान के तीन ओर सेना खड़ी कर दी गई।

चौथी और दस तोपे थी। × × × पहले दस कैदी तोपों के मुँह से बाँध दिये गये। इसके बाद तोपखाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई, तुरन्त तोपों की गर्जना सुनाई दी और धुएँ के ऊपर हाथ, पैर और सिर चारों ओर हवा में उड़ते हुए दिखाई देने लगे। यह दृश्य चार बार दोहराया गया। हर बार समस्त संना में से एक जोर की गूँज सुनाई देती थी जो दृश्य की वीभत्सता के कारण लोगों के हृदयों से निकलती थी। उस समय से प्रति सप्ताह एक या दो बार उस तरह के प्राण-दंड की परेड होती रहती है और हमें उसकी इतनी आदत हो गई है कि अब हम पर उसका कोई असर नहीं होता। × × ×”

इतिहास लेखक के लिखता है कि—“ ५५ नम्बर पलटन के अधिकांश सिपाहियों की निर्दोषिता को कर्नल निकल्सन और सर जान लारेंस दोनो ने अपने पत्रों में स्वीकार किया है। फिर भी इस पलटन के छिपे और भागे सिपाही जून और जुलाई के महीनों में बराबर दूर-दूर से पकड़ कर लाये जाते थे और इसी प्रकार तोप के मुँह से उड़ाये जाते थे। कभी-कभी और भी अधिक वीभत्स तरीकों से उनके प्राण लिये जाते ।”

उन दिनों विश्व के सन्देह पर लोगों का तोपों के मुँह से उड़ाया जाना एक साधारण-सी बात थी, जो अनेक स्थानों पर और अनेक बार दोहराई गई थी। १० नम्बर पलटन के हथियार सन्देह पर ही रखा लिये गये। इन सब सवारों में घोड़े उनके अपने थे। इनके ये घोड़े इनसे छीन लिये गये और आठ हजार नकद रुपये भी, इन सब सवारों के पास थे, बल-पूर्वक ले लिये गये। लिखा है कि घोड़ों को बेच कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के खजाने में पचास हजार रुपये जमा किये

गये। सिपाहियों को बलपूर्वक नावो मे बैठाकर सिन्धु नदी के प्रवाह मे कहीं पर भेज दिया गया। कहा नहीं जा सकता कि उन सबों का अन्त मे क्या हुआ। एक अँगरेज अफसर जो उस समय मौजूद था, लिखता है, “मुझे आशा है कि वहाँ पर उनमे से प्रत्येक माता के पुत्र को नदी की तेज धार मे डूबने का मौका मिल जायगा।”

पेशावर और उसके आस-पास के इलाके मे विप्लवकारियों को अथवा विसव के सन्देह पर लोगो को भयङ्कर यन्त्रणाएँ दे देकर मारा गया, जिनके विषय मे इतिहास लेखक के लिखता है—“यद्यपि मेरे पास बहुत से पत्र मौजूद है, जिनमे यह बयान किया गया है कि हमारे अफसरों ने किस प्रकार की वीभत्स और क्रूर यन्त्रणाएँ लोगो को पहुँचाईं तथापि मैं उनके विषय मे एक भी शब्द नहीं लिखता, ताकि यह विषय ही अब ससार के सामने न रहे।”

अब हम पेशावर की घटनाओं का वर्णन बन्द करके जालन्धर दोआब की घटनाओं का वर्णन आरम्भ करते है। जालन्धर, फिलौर और लुधियाने की देशी पलटने चुपचाप किन्तु सच्ची लगन और दृढ़ता के साथ विप्लव करने की तैयारी कर रही थी। ९ जून को अचानक जालन्धर की सेना ने आधी रात के समय विप्लव करने की घोषणा की। सेना जालन्धर मे मौजूद थी किन्तु देशी पलटने इस तरह अचानक बिगड़ी कि अँगरेजी सेना कर्त्तव्य-विमूढ़ हो गई। जालन्धर के सिपाहियों ने वहाँ के अँगरेजों का सहाय करने मे अपना समय नष्ट नहीं किया। वे तुरन्त दिल्ली को रवाना हो गये।

फिलौर के सिपाहियों को सूचना देने के लिये जालन्धर के सिपाहियों ने अपने मे से एक सवार को भेज दिया। उसी समय फिलौर की देशी पलटनो के सिपाही भी बिगड़ खड़े हुए। इसके बाद जालन्धर के सिपाही फिलौर पहुँच गये। दोनों जगहों की पलटने एक दूसरे से गले मिलीं और फिर दिल्ली की ओर बढ़ी। रास्ते में सतलज नदी पड़ती थी जिसके दूसरे तट पर लुधियाने का नगर था। लुधियाने के अंगरेज अफसरों को जालन्धर और फिलौर के विद्रोह का पता लगने से पूर्व ही वहाँ की देशी पलटनों के सिपाहियों को इसकी सूचना मिल गई। लुधियाने के अंगरेज अफसरों ने सतलज के ऊपर का नावों का पुल तुरन्त तोड़ दिया।

इसके बाद अंगरेजी और सिख पलटने तथा महाराजा नाभा की कुछ पलटने सतलज नदी के तट पर फिलौर से आने वाली विप्लवकारी सेना को रोकने के लिये इकट्ठी हो गईं। विप्लवकारियों को जब इसका पता चला तब उन्होंने रात्रि के समय चुपचाप चार मील ऊपर से सतलज को पार करने का विचार किया। किन्तु जैसे ही उनमें से कुछ सिपाही सतलज के उस पार पहुँचे वैसे ही अंगरेजों और सिखों ने उन पर बड़ी ही शीघ्रता के साथ तोपों के गोले बरसाने आरम्भ कर दिये। रात के करीब-करीब दस बजे थे अर्थात् अंधेरे पाख की अष्टमी के चाँद के निकलने में अभी दो घण्टे बाकी थे, इसलिये उस अन्धकार में विप्लवकारी सिपाहियों को यह भी पता नहीं चलता था कि शत्रु की सेना किस ओर है। उनकी तोपें भी अभी नदी को पार न कर पाई थी फिर भी उसी दशा में वे वीर सिपाही दो घण्टे तक अपने शत्रुओं का मुकाबिला करते रहे। इतने में

किसी सिपाही की एक गोली अँगरेजी सेना कमाण्डर विलियम्स की छाती में जाकर लग गई। गोली के लगते ही वह वही धरती पर गिर कर ढेर हो गया। इमके बाद प्रातःकाल तक घमासान संग्राम होता रहा। अन्त में सिखों और अँगरेजों को विवश हो कर पोछे हट जाना पड़ा।

विजय लाभ करने के कारण विप्लवकारी सिपाहियों में हर्ष और उल्लास की बाढ़-सी आ गई। पूर्ण प्रसन्नता-पूर्वक दोपहर के समय उन सबों ने लुधियाने में प्रवेश किया। पंजाब में लुधियाने का नगर विप्लव का एक विशेष महत्वपूर्ण केन्द्र था। विप्लवकारियों की दृष्टि इस पर विशेष रूप से लगी रहा करती थी। आस-पास का जितना इलाका था वह सब लुधियाने के ही संकेतों पर चलने के समय की प्रतीक्षा कर रहा था। इसलिये जिस समय विसवकारी सिपाहियों ने लुधियाने के नगर में प्रवेश किया उस समय प्रसन्नता की चरम सीमा से जनता ने उन सबों का स्वागत किया और उन सबों के साथ विसव में भाग लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि सारा दिन लुधियाने के नगर में विसव के कार्य होते रहे। जेलखाना तोड़ दिया गया, अँगरेजों के जितने मकान थे, वे सब तुरन्त जला दिये गये। विसवकारी सिपाहियों ने कम्पनी के सरकारी खजाने को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद जालन्धर, फिलौर और लुधियाने की देशी पलटनों के समस्त सिपाही एक होकर गले निले और फिर स्वाधीनता के युद्ध में भाग लेने के लिये विजय के गीत गाते हुये दिल्ली की ओर रवाना हो गये। सन् १८५७ के विसव में पञ्जाब की ओर से यही मुख्य सहायता कही जा सकती है।

पंजाब के शासकों को उस समय सब से अधिक सन्देह पूर्वी प्रान्तों के रहने वालो पर था, जिन्हें पजाब मे 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं। इसलिए विसव के आरम्भ के दिनों मे पंजाब के अनेक शहरों और गाँवो से हजारों निरपराध और प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानियों को बलपूर्वक पजाब से निर्वासित कर सतलज के इस पार भेज दिया गया। इसके पश्चात् पजाब के अँगरेजों के लिए अपने यहाँ की अँगरेजी और सिख सेनाओं को दिल्ली विजय करने के लिये भेज देना और भी अधिक सरल हो गया।

विप्लव का प्रधान केन्द्र दिल्ली

अब हम पाठको का ध्यान फिर से विप्लव के प्रधान केन्द्र दिल्ली की ओर ले जाना चाहते हैं। अभी अपने पाठकों को बताये हुए चले आ रहे हैं कि गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने दिल्ली के स्वाधीन हो जाने का समाचार पाते ही कमाण्डर-इन-चीफ जनरल ऐनसन को आज्ञा दी कि तुम तुरन्त दिल्ली पर धावा बोल कर फिर से दिल्ली और दिल्ली के सम्राट बहादुरशाह को जीत लो। लार्ड कैनिंग की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर जनरल ऐनसन शिमले से अम्बाले पहुँचा। अम्बाले पहुँच कर उसने दिल्ली पर हमला करने की पूरी तैयारी करनी आरम्भ कर दी। निःसन्देह इस कार्य में जनरल ऐनसन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और तैयारी के सभी कार्यों को समाप्त करने में आवश्यकता से अधिक समय लग गया।

इसका मुख्य कारण यह था कि अम्बाले और उसके आस-पास कोई भी हिन्दुस्तानी किसी तरह की सहायता अँगरेजों को देने के लिए तैयार न था। उस समय ऐनसन को न गाड़ियाँ मिलती थी और न मजदूर न रसद मिलती थी और न चारा। इतिहास लेखक के लिखता है—“हर श्रेणी के हिन्दुस्तानी हमसे दूर रहे। ये लोग चुपचाप बैठे हुए इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि परिस्थिति किस ओर की मुड़ती है। पूँजीपतियों से लेकर कुलियों तक सभी एक समान हमें सहायता देने में सङ्कोच करते

थे क्योंकि उन्हें सन्देह था कि शायद हमारी सत्ता एक दिन के अन्दर उखाड़ कर फेंक दी जाय।”

ऐनसन के सामने दूसरी कठिनाई एक और थी। अम्बाले और दिल्ली के बीच में पंजाब की तीन प्रसिद्ध रियासतें पटियाला, नाभा और फ़िन्द के इलाक़े पड़ते थे। यदि उस समय ये तीनों, प्रमुख रियासतें देश का साथ दे जातीं तो इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि कम्पनी के अंगरेजों के लिए फिर से दिल्ली विजय कर सकना सर्वथा असम्भव होता और भारत माता की धरती से अंगरेजी राज्य की जड़ें उस समय वास्तव में एक ही झटके से उखाड़ कर फेंक दी गई होती।

यदि पटियाला, नाभा और फ़िन्द तटस्थ भी रहते तो भी परिणाम अंगरेजी राज्य के लिए कदाचित् काफी अनिष्टकारी होता। किन्तु जनरल ऐनसन और अंगरेजी राज्य दोनों के ही सौभाग्य से इन तीनों प्रमुख रियासतों ने उस समय हिन्दुस्तानी विश्वकारियों के विरुद्ध अंगरेजों को धन, जन और सामान तीनों ही अंगों से पूर्ण रूप से सहायता दी। इतना ही नहीं, सर जान लारेन्स और उसके साथियों की नीतिज्ञता के कारण ऐनसन को अपने साथ के लिए पंजाब से आशा से भी अधिक सेना मिल गई।

जनरल ऐनसन के लिए अब अम्बाले से दिल्ली का रास्ता साफ़ हो गया और दिल्ली के विश्वकारियों को पंजाब से और अधिक सहायता प्राप्त कर सकना प्रत्येक दृष्टिकोण से असम्भव हो गया। पटियाला के राजा ने अपनी सेना और उसके साथ अपना तोपखाना भेज कर थानेश्वर की रक्षा की। फ़िन्द के राजा

ने पानीपत की रक्षा का भार अपने कन्धों पर ले लिया। इन सब तैयारियों के बाद कमाण्डर-इन-चीफ जनरल ऐनसन अपनी अँगरेजी और सिख सेना के साथ (जिसमे बहुत सी सेना इन्हीं तीन रियासतों की थी) २५ मई को अम्बाले से दिल्ली की ओर रवाना हुआ।

इस प्रकार पूर्ण रूप से शक्ति सम्पन्न हो जाने पर भी जनरल ऐनसन का हृदय इस भयानक परिस्थिति में भीतर ही भीतर चबरा रहा था। मार्ग में २७ मई को हैजे से कर्नाल में उसकी मृत्यु हो गई। सर हेनरी वर्नार्ड उसकी जगह कमाण्डर-इन-चीफ बनाया गया।

अम्बाले से दिल्ली की यात्रा में अँगरेजों ने जो जो न कहने योग्य अत्याचार किये वे किसी भी अंश में जनरल नील के अत्याचारों से कम अमानुषिक न थे। रास्ते में असंख्य लोगों को जो पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे थे इस सन्देह में कि वे दिल्ली के विस्रवकारियों की सहायता के लिये जा रहे हैं, पकड़ पकड़ कर मार डाला गया। उस समय की सकटपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार किया जा सकता है इस प्रकार रास्ते पर चलनेवालों को मार डालना किसी अंश तक सन्दिग्ध राजनैतिक सम्बन्धों के कारण क्षम्य है किन्तु एक अँगरेज अफसर जो उस विजय की यात्रा में सेना के साथ था, लिखता है कि—“अम्बाले से दिल्ली तक रास्ते की जनता के ऊपर अँगरेजी सत्ता का दबदबा फिर से स्थापित करने के लिये असंख्य ग्रामों में असंख्य निरपराध ग्राम-निवासी अत्यन्त कठोर यातनाएँ दे देकर मार डाले गये। उनके सरों से एक एक कर बाल उखाड़े जाते थे, उनके शरीरों को संगीनों से बाँधा जाता था और सब से

अन्त मे, नही, नहीं, मृत्यु से पहले, भालों और नुकीली संगीनों के द्वारा इन सब हिन्दुस्तानी ग्राम-निवासियों के मुँह मे गाय का मॉस रूस दिया जाता था ।”

एक ओर उन्हे ये यातनाएँ दी जाती थी और दूसरी ओर उनकी आँखों के सामने फॉसियों तैयार की जाती थीं । फॉसियाँ तैयार हो जाने के बाद उन्हे इस अधमरी अवस्था मे उन फॉसियों पर लटका दिया जाता था । यद्यपि यह सभी जानते थे कि इनमे से अधिकांश ग्राम-निवासियों ने कभी भी अँगरेजी राज्य के विरुद्ध हथियार नहीं उठाये थे फिर भी इन निरपराध ग्राम-निवासियों को दण्ड देने से पहले दिखावे के लिए एक फौजी अदालत बैठाई जाती थी । जो फौजी अफसर उस अदालत के जज बनाये जाते थे उनसे पहले ही इस बात की कि वे एक भी कैदी को फॉसी से न बचने देगे, शपथ ले ली जाती थी । इसके बाद ग्राम-निवासियों को दूर तक कतार मे खड़ा कराया जाता था और फिर उन्हे बात की बात मे मौत की सजा का फैसला सुना दिया जाता था ।

मेरठ की सेना, जो १० मई सन् १८५७ को कर्तव्य-विमूढ़ हो गई थी, अब जनरल बर्नार्ड की सेना के साथ मिल जाने के लिए मेरठ से बढ़ी । इन दोनों से मेल होने से पहले ही दिल्ली की विप्लवकारी सेना ने आगे बढ़ कर हिन्दन नदी के तट पर ३० मई को मेरठ की अँगरेजी सेना पर धावा बोल दिया । जब संग्राम होने लगा तब विप्लवकारी सेना की बाईं ओर का भाग थोड़ा-सा कमजोर पड़ गया । उस ओर उनकी पाँच तोप थीं और अँगरेजी सेना ने उन तोपों पर अपना अधिकार करना चाहा । विप्लवकारी सेना उस ओर से पहले ही हट चुकी थी,

केवल एक सिपाही तोपों के बीच में किसी प्रकार छिपा हुआ रह गया था। ठीक उसी समय जब कि कई अंगरेज अफसर और सिपाही तोपों पर अधिकार करने के लिये पहुँचे, इस भारतीय सिपाही ने चुपके से मैगजीन में आग लगा दी। उस भारतीय सिपाही के साथ-साथ कई अंगरेज वही जलकर राख के ढेर बन गए।

इतिहास-लेखक के इस अज्ञात सिपाही की सूझ और उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए लिखता है—“इससे हमें यह शिक्षा मिली कि विप्लवकारियों में इस प्रकार के वीर और साहसी लोग मौजूद थे, जो राष्ट्रीय हित के लिये उसी समय प्राण देने को तैयार थे।”

उस दिन दिल्ली की विप्लवकारी सेना पीछे लौट गई। दूसरे दिन ३१ मई को वह मेरठ की अंगरेजी सेना का सामना करने के लिए फिर दिल्ली नगर से निकली। सामना होते ही दोनों ओर से गोलेबारी होने लगी। लिखा हुआ मिलता है कि उस दिन अंगरेजी सेना के बहुत से सिपाही मारे गये। संध्या के समय दिल्ली की विप्लवकारी सेना अंगरेजी सेना को एक बार तितर-बितर करके फिर दिल्ली की ओर सकुशल लौट गई।

इस सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात् १ जून को मेजर रीड के अधीन एक गोरखा पलटन मेरठ की अंगरेजी सेना की सहायता के लिये रणभूमि के मौके पर पहुँच गई। अम्बाले से जनरल बर्नार्ड के अधीन अंगरेज और सिख सेना भी ७ जून को इस सेना से आकर मिल गई। दिल्ली नगर को ब्यूह बना कर घेर लेने के लिये बहुत-सा सामान महाराजा नाभा की ओर से इन लोगों के पास पहुँच गया। इसके बाद यह विशाल सेना संयुक्त

हो कर दिल्ली के निकट अलीपुर तक पहुँच गई। दिल्ली की विश्वकारी सेना फिर एक बार इस विशाल अँगरेजी सेना का सामना करने के लिये निकली।

बुन्देले की सराय के समीप ८ जून सन् १८५७ को सबेरे से संध्या तक भयकर संग्राम हुआ। विप्लवकारी सेना का सेनापति उस समय सम्राट बहादुरशाह का एक पुत्र मिर्जा मुगल था, जीवन में जिसने शायद कभी भी लड़ाई का मैदान न देखा था। दूसरी ओर एक से एक बढ़कर योग्य सेनापति उस पर सिख और गोरखा सिपाहियों की सहायता। संध्या समय तक दिल्ली की विप्लवकारी सेना को फिर नगर के अन्दर लौट जाना पड़ा। उनकी कई तोपे शत्रु के हाथ आ गईं और कम्पनी की सेना दिल्ली की दीवार के नीचे तक निर्विघ्न पहुँच गई।

उस समय दिल्ली नगर के अन्दर एक विचित्र प्रकार का उत्साह था। भिन्न-भिन्न प्रान्तों से सिपाहियों का समूह और खजाना आकर दिल्ली में जमा हो रहा था। दूर-दूर से सम्राट बहादुरशाह के नाम वफादारी के पत्र आ रहे थे। नगर के अन्दर बारूद बनाने और अस्त्र-सस्त्र ढालने के लिये अनेक कारखाने खुल गये थे, जिनमें अनेक तोपे रोजाना ढलती थीं और हजारों मन बारूद तैयार होती थी। सम्राट बहादुरशाह का एक सेवक जहीर अपनी पुस्तक 'दास्ताने गदर' में लिखता है कि अकेले चूड़ी वालों के मुहल्ले के एक कारखाने में सात सौ मन बारूद रोजाना तैयार होती थी। सम्राट बहादुरशाह प्रायः हाथी पर सवार होकर नगर में निकला करता था और जनता तथा सिपाहियों को प्रोत्साहित करता था। ऐलान किया जा चुका था जो मनुष्य गो-हत्या के अपराध का भागी होगा उसके

हाथ कलम करवा लिये जायेंगे या उसे गोली से उड़ा दिया जायगा ।

वास्तव में गो-हत्या के विषय में उस प्रकार की आज्ञा सम्राट बाबर के समय से चली आती थी । धर्मान्ध या अदूरदर्शी सम्राट औरङ्गजेब तक ने इस हितकर आज्ञा पर अमल कायम रखा था किन्तु कम्पनी का राज्य स्थापित होने के समय से ही गोरी सेना के आहार के लिए दिल्ली और उसके आस पास के इलाके में फिर से गो-हत्या शुरू हो गई थी । मथुरा और दोआब में जो भयङ्कर असन्तोष उत्पन्न हो गया था उसका कम्पनी के द्वारा गो-हत्या का होना ही बताया जाता है । कुछ भी हो अंगरेजों द्वारा गो-हत्या होने के कारण ही सम्राट बहादुर शाह को वास्तविक सत्ता हाथ में लेते ही फिर एक बार उस तीन सौ वर्ष की पुरानी आज्ञा को दोहराना पड़ा । विश्व के प्रारम्भ में अर्थात् दिल्ली के स्वाधीन होते ही सम्राट बहादुरशाह की ओर से एक घोषणा समस्त भारत में प्रकाशित की गई थी जिसके कुछ वाक्य इस आशय के थे—

‘ऐ हिन्दुस्तान के फरजन्दों ! अगर हम इरादा कर ले तो बात की बात में दुश्मन का खातमा कर सकते हैं ! हम दुश्मन का नाश कर डालेंगे और अपने धर्म अपने देश को जो हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं खतरे से बचा लेंगे ।’

इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट बहादुरशाह की ओर से एक दूसरी घोषणा प्रकाशित हुई जिसकी प्रतियाँ समस्त भारत के अन्दर यहाँ तक कि दक्षिण के बाजारों और छावनियों में भी हाथों हाथ बँटती हुई पाई गईं । इस घोषणा में लिखा हुआ था—

“तमाम हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम—हम महज अपना धर्म समझ कर ही जनता के साथ शामिल हुए हैं। इस मौके पर जो कोई कायरता दिखायेगा या भोलेपन के कारण दगाबाज फिरंगियों के वादों पर एतबार करेगा, वह शीघ्र शर्मिन्दा होगा और इंगलिस्तान के साथ अपनी वफादारी का उसे वैसा ही इनाम मिलेगा जैसे लखनऊ के नवाबों को मिला। इसके अलावा इस बात की जरूरत है कि इस जग में तमाम हिन्दू और मुसलमान मिल कर काम करे और किसी समझदार नेता की हिदायतों पर चलकर इस तरह का व्यवहार करे कि जिससे अमनो अमन कायम रहे और गरीब लोग सन्तुष्ट रहे और उनका अपना रुतबा और उनकी शान बढ़े। जहाँ तक मुसकिन हो सकता है, सब को चाहिये कि इस एलान की नकल करके किसी आम जगह पर लगा दे × × ×”

इसके बाद एक और तीसरी घोसणा सम्राट बहादुरशाह की ओर से बरेली में प्रकाशित हुई। उसमें लिखा था—“हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों, उठो! भाइयों उठो! खुदा ने जितनी बरकतें इन्सान को अता की हैं उनमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। क्या वह जालिम नाकस जिसने धोखा दे देकर यह बरकत हमसे छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रख सकेगा? क्या खुदा की मरजी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है? नहीं नहीं। फिरंगियों ने इतने जुल्म किये हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है। यहाँ तक कि अब हमारे पाक मजहब को नाश करने की नापाक स्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है। क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा अब यह नहीं चाहता कि तुम खामोश

रहो, क्योंकि उसने हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में अंगरेजों को अपने मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है और खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादुरी के प्रताप से जल्दी ही अंगरेजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में उनका जरा भी निशान न रह जायगा। हमारी इस फौज में छोटे और बड़े की तमीज भुला दी जायगी और सबके साथ बराबरी का बर्ताव किया जायगा, क्योंकि इस पाक जग में अपने धर्म की रक्षा के लिए जितने लोग तलवार खींचेंगे वे सब एक समान यश के भागी होंगे। वे सब भाई भाई हैं, उनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। इसलिए मैं फिर नमाम हिन्दू भाइयों से कहता हूँ, उठो और ईश्वर के बताए हुए इस परम कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ो।”

कहा जाता है कि सम्राट बहादुरशाह के असली ऐलान उर्दू में थे और यहाँ के इतिहास लेखकों को उन सब की उर्दू प्रति लिपि नहीं मिल सकी। सन् १८५७ के स्वाधीनता के इस युद्ध के सम्बन्ध के इसी प्रकार के सब पत्रों और ऐलानों को अंगरेजी के ही अनुवादों अथवा प्रतिलिपियों से हिन्दी के लेखकों को अनुवाद करना पड़ा है। कुछ भी हो इस स्थल पर हम पाठकों से इतना ही निवेदन करेंगे कि वे सब मूल घटना पर ही विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम उस समय का वर्णन करते चले आ रहे हैं जिस समय दिल्ली का नगर पूर्ण रूप से विप्लवकारियों के अधिकार में था।

बुन्देले की सराय की लड़ाई के बाद ही कम्पनी की सेना ने दिल्ली से पश्चिम में ‘पहाड़ी’ पर अधिकार कर लिया। यह ऐसा

स्थान था जहाँ से बड़ी सुगमता के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया जा सकता था फिर भी काफी समय तक कम्पनी के अँगरेज अफसर परस्पर आक्रमण करने का परामर्श ही करते रहे क्योंकि विप्लवकारियों से वे इतना भयभीत हो चुके थे कि सहसा दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस अँगरेज सेनापतियों को न हो सका। इतने ही समय में दिल्ली की विप्लवकारी सेना ने बाहर निकल कर अँगरेजी सेना पर बार-बार आक्रमण करना आरम्भ कर दिया।

सब से पहले १२ जून को दिल्ली की विप्लवकारी सेना ने अँगरेजों पर आक्रमण किया। इतिहास लेखक के लिखता है कि—“उस दिन के युद्ध में कम्पनी की एक वह हिन्दुस्तानी सिपाहियों की टोली जिसकी वफादारी पर अँगरेजों को पूर्णरूप से विश्वास था विप्लवकारियों की सेना से जा मिली। अँगरेजी सेना को काफी नुकसान पहुँचाने के बाद दिल्ली की विप्लवकारी सेना फिर से नगर के अन्दर लौट गई।”

इस युद्ध के बाद अँगरेजी सेना को दिल्ली में प्रवेश करने का साहस न हो सका। वह जिस स्थान पर थी वही बनी रही और इधर विप्लवकारी सेना प्रायः प्रतिदिन प्रातःकाल शहर से निकल कर अँगरेजी सेना पर आक्रमण करने लगती थी और सन्ध्या समय तक अँगरेजी सेना को काफी नुकसान पहुँचा कर फिर नगर में वापस चली जाती थी। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक नियम यह भी था कि जो पलटन बाहर से दिल्ली में आती थी, वह अपने आने के अगले दिन सबेरे तक एक बार अँगरेजी सेना पर अवश्य चढ़ाई करती थी। इन चढ़ाइयों में १७, २० और

२३ जून की चढ़ाइयों और लड़ाइयों अधिक भयङ्कर थीं। जिस बहादुरी के साथ विप्लवकारी सेनाओं ने इन लड़ाइयों में अँगरेजों, सिखों और गोरखों की सम्मिलित सेनाओं पर आक्रमण किया, उन्हें बार-बार अपने स्थानों से हटा दिया और उनके अनेक अफसरों और सैनिकों को समाप्त कर दिया उस बहादुरी की लार्ड राबर्ट्स और अन्य अँगरेज अफसरों ने अपनी रिपोर्टों में मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। कमाण्डर इन-चीफ बर्नार्ड ने अब निश्चय कर लिया कि जब तक और अधिक सेना सहायता के लिए पंजाब से न आये, तब तक दिल्ली पर आक्रमण करना और सफलता के साथ विजय प्राप्त कर सकना सर्वथा असम्भव है।

२३ जून प्लासी की शताब्दी का दिवस था। उस दिन के आक्रमण के लिए दिल्ली में विशेष रूप से तैयारियाँ हो रही थीं। ज्यों ही प्रातःकाल हुआ त्यों ही शहरपनाह की तोपों ने अँगरेजी सेना के ऊपर गोले बरसाने आरम्भ कर दिये। विप्लवकारी सेना शहर से बाहर निकली और सम्मिलित अँगरेजी सेना पर भयानक रूप से टूट पड़ी। अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ। उस दिन के घनघोर युद्ध के विषय में मेजर रीड लिखना है—

“लगभग बारह बजे विप्लवकारियों ने हमारी समस्त सेना के ऊपर एक अत्यन्त भयानक आक्रमण किया। कोई भी मनुष्य उतना अच्छा नहीं लड़ सकता था जितना अच्छा कि विप्लवकारियों का प्रत्येक सैनिक लड़ता था। उन्होंने हमारी समस्त पलटनों पर बार-बार आक्रमण किया और एक बार मुझे ऐसा मालूम होता था कि हम मैदान खो बैठे।”

इस प्रकार की भावना को लेकर जिस समय अँगरेज हिम्मत

हारने वाले थे, ठीक उसी समय उनके सौभाग्य से उनका सङ्कट दूर करने वाली एक और नई सेना पंजाब से उनकी सहायता के लिए आ पहुँची। अब विप्लवकारियों के लिए कार्य भी कुछ सरल न रहा, फिर भी सन्ध्या समय तक वे सब युद्ध के मैदान में डटे रहे। अन्त में दोनों ओर की सेनाएँ थककर युद्ध के मैदान से पीछे हट गईं। इसमें सन्देह नहीं कि टक्कर बराबर का था इसलिए दोनों ओर की सेनाओं के दिलों में एक दूसरे की वीरता के लिए स्वाभाविक ढग से आदर उत्पन्न हो गया।

यदि सिखों ने अंगरेजों का साथ न दिया होता और नयी पंजाबी सेना समय पर अंगरेजों की सहायता के लिए न पहुँची होती, तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि २३ जून सन् १८५७ को दिल्ली की युद्ध-भूमि में कम्पनी की सेना का सर्वनाश हो गया होता, और फिर भारत में अंगरेजों को अपनी सत्ता स्थापित कर सकना एक प्रकार असम्भव ही था।

सन् १८५७ की १ जुलाई को मुहम्मद बख्त खॉ के अधीन रुहेलखण्ड की सेना ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। सम्राट बहादुरशाह और नगर-निवासियों की ओर से इस नवागत सेना का विशेष रूप से स्वागत किया गया। मुहम्मद बख्त खॉ ने पहुँचते ही सम्राट बहादुरशाह से भेंट की। इतने ही समय के बीच दिल्ली में जगह-जगह की सेनाओं के आने कारण प्रबन्ध की कुछ शिथिलता-सी दिखाई देने लगी थी और सेना-पति मिर्जा मुगल में सुशासन स्थापित करने की योग्यता भी नहीं दिखाई देती थी। अनेक प्रकार की शिकायतें सम्राट बहादुरशाह के कानों तक पहुँचीं। बूढ़े सम्राट ने अपने पुत्र मिर्जा मुगल को हटाकर उसके स्थान पर मुहम्मद बख्त खॉ को दिल्ली की

समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति और दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया। मुहम्मद बख्त खॉ वास्तव में अत्यन्त योग्य और वीर था। उसने सम्राट बहादुरशाह से कहा कि यदि इसके बाद कोई शाहजादा भी नगर के अन्दर शासन प्रबन्ध में बाधा डालेगा या प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अथवा अनुचित व्यवहार करेगा, तो मैं तुरन्त उसके नाक-कान कटवा डालूंगा। सम्राट बहादुरशाह ने यह सब तुरन्त स्वीकार कर लिया।

मुहम्मद बख्त खॉ की नियुक्ति को घोषणा समस्त दिल्ली नगर में करा दी गई। मुहम्मद बख्त खॉ के साथ लगभग चौदह हजार पैदल, दो या तीन सवार पलटन और अनेक तोपे थी। वह अपनी सेना को छः महीने का वेतन पेशगी दे चुका था। इसके अतिरिक्त उसने चार लाख रुपये नकद लाकर सम्राट को भेट में दिये थे। मुहम्मद बख्त खॉ ने दिल्ली नगर में सुशासन स्थापित किया और आज्ञा दे दी कि कोई नगर-निवासी बिना हथियार के न रहे। जिन लोगों के पास हथियार न थे, उन लोगों को बिना मूल्य हथियार दिये गये। इसके बाद यदि कोई सिपाही पूरी कीमत दिये किसी से कोई वस्तु लेता था तो सिपाही का एक हाथ काट दिया जाता था।

मुहम्मद बख्त खॉ की नियुक्ति के दिन ही रात को ८ बजे महल के अन्दर सम्राट बहादुरशाह, बेगम जीनत महल, सेनापति मुहम्मद बख्त खॉ तथा अन्य प्रधान-प्रधान नेताओं में सलाह हुई। ३ जुलाई को एक आम परेड हुई जिसमें लगभग बीस हजार सैनिक मौजूद थे। इतने ही समय में नये-नये ऑर्गेज अफसर और अनुभवी सेनापति पंजाब से और अधिक

सेनाएँ ला लाकर अँगरेजी सेना में सम्मिलित होते गये। फिर भी प्रधान सेनापति जनरल बर्नार्ड को दिल्ली की सेना पर आक्रमण करने का साहस न हो सका। ४ जुलाई को मुहम्मद बख्त खॉ ने अपनी सेना सहित अँगरेजी सेना पर हमला किया।

कम्पनी की सेना को दिल्ली की दीवारों के नीचे पड़े हुए एक महीने से ऊपर हो चुका था। अनेक अँगरेज अफसरों के बयानों से साबित है कि अँगरेजों को विश्वास था कि दिल्ली पहुँचने के थोड़े घण्टे बाद ही हम दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेंगे। किन्तु अब वह विश्वास नैराश्य में बदला हुआ सा दिखाई दे रहा था। इस नैराश्य में ही ५ जुलाई सन् १८५७ को जनरल बर्नार्ड भी हैजे से मर गया। जनरल रीड ने उसका स्थान लिया। इस प्रकार विस्वव के आरम्भ होने से अब तक कम्पनी के दो प्रधान सेनापति (कमाण्डर-इन-चीफ) मर चुके थे। जनरल रीड तीसरा सेनापति था किन्तु अभी तक अँगरेज दिल्ली को नहीं जीत सके थे और दिल्ली की विस्ववकारी सेना अँगरेजी सेना पर बराबर आक्रमण करती रही।

९ जुलाई को मुहम्मद बख्त खॉ के अधीन दिल्ली की विस्ववकारी सेना ने इतना भयानक आक्रमण किया कि अँगरेजों की सेना के सवारों को उनके सामने से भाग जाना पड़ा और अँगरेजी तोपों के मुँह तुरन्त बन्द हो गये। इतना ही नहीं, उस दिन के भयानक संभ्राम में अनेक अँगरेज अफसर मारे भी गये। इतिहास लेखक के लिखता है कि—“उस दिन की हार पर अँगरेज सिपाही इतने लज्जित और कुपित हुए कि उन्होंने अपने कैम्प में जाकर अपने निरपराध गरीब भिश्तियों और अनेक काले नौकरों को मार डाला। अपने इन हिन्दुस्तानी नौकरों

की बफादारी और उनकी सेवाओं का उन सबों ने कुछ भी ख्याल नहीं किया, क्योंकि “इन गोरे सिपाहियों के हृदयों में समस्त काले एशिया निवासियों के प्रति प्रचण्ड घृणा भड़क रही थी।”

१४ जुलाई के आक्रमण में अँगरेजों की इससे भी अधिक बुरी हालत हुई। उस आक्रमण की भयानकता और उसके कारण परिस्थिति का बिगड़ जाना, साथ ही साथ सर्वापेक्षा अधिक दुर्दशा होना, इन सब बातों से जनरल रीड के भी हृदय में धड़कन होने लगी और वह शीघ्र ही बीमार पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि अपने पद से इस्तीफा देकर वह १५ जुलाई को स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पहाड़ पर चला गया। उसके स्थान पर जनरल विलसन नियुक्त किया गया। अँगरेजी सेना का यह चौथा प्रधान सेनापति अर्थात् कमाण्डर-इन-चीफ था।

दिल्ली की मीनारों के ऊपर स्वाधीनता की पताका को लहराते हुए दो महीने हो चुके थे। भारत भर में अनेक अँगरेज यह कहने लगे थे कि “जो सेना दिल्ली को घेरने के लिए नित्य प्रयत्न किया करती है, आश्चर्य की बात यही है कि वह स्वतः दिन प्रतिदिन अपने शत्रुओं द्वारा घिरती चली आ रही है।

इस स्थल पर ध्यान देने योग्य बात इतनी ही है कि अँगरेजी सेना केवल दिल्ली की पश्चिमी दीवार के नीचे थी, शेष तीनों ओर से विप्लवकारियों के सहायक और शुभचिन्तकों के लिए आने-जाने का मार्ग नित्य के समान खुला हुआ था। उस समय अँगरेजी सेना में बहुत से आदमी बड़ी गम्भीरता के साथ यह विचार कर रहे थे दिल्ली-विजय करने का विचार छोड़ कर थोड़े से समय के लिए किसी दूसरी ओर ध्यान दिया जाय। सच बात

तो यह थी कि अंगरेजी सेना के समस्त सैनिक हिम्मत हार चुके थे। मुहम्मद बख्त खॉ ऐसे दक्ष सेनापति के अधीन जितनी भी विप्लवकारी सेना थी वह सब तरह से समर्थ थी। उसके भयानक आक्रमणों से अंगरेजी सेना का जो अब तक पूर्ण रूप से ह्वास नहीं हो सका था, वह सब उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात थी। इधर सम्राट बहादुरशाह अपने प्रधान सेनापति मुहम्मद बख्त खॉ से इतना प्रसन्न था कि उसके किसी भी प्रबन्ध में टीका-टिप्पणी करना भी उसे प्रिय न था। सम्राट से उत्साहित और सम्मानित मुहम्मद बख्त खॉ पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहा था, इसीलिए अंगरेजी सेना अपनी सफलता की आशा छोड़ चुकी थी।

इलाहाबाद और कानपुर की घटनाएँ

कुछ देर के लिए उचित होगा कि हम अपना ध्यान दिल्ली की ओर से हटा लें और अन्य विप्लव के केन्द्रों की ओर दृष्टिपात कर यह समझाने का प्रयत्न करें कि उस समय उन सब केन्द्रों में क्या हो रहा था। इस स्थल पर यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरह सिखों ने अँगरेजी सेना को पूर्ण रूप से सहायता पहुँचा कर भारतीय स्वाधीनता के प्रयत्नों को बहुत बड़ी हानि पहुँचाई थी उसी तरह अनेक राजपूत तथा मराठा नरेशों ने भी अपनी अनिश्चितता द्वारा हानि पहुँचाई।

जिन दिनों भारत भर में अँगरेजों को भगा देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे थे, उन्हीं दिनों जयाजीराव सींधिया ग्वालियर की गद्दी पर था। उसकी समस्त भारतीय सेना जो अत्यन्त सन्नद्ध थी, राष्ट्रीय योजना में भाग ले रही थी। १४ जून को ग्वालियर की सेना ने कम्पनी के विरुद्ध विप्लव का झण्डा खड़ा कर दिया। उन सबों ने ग्वालियर में रहने वाले अँगरेजों के मकान जला दिये और अँगरेज अफसरों तथा नगर के अन्य अँगरेजों को मार डाला किन्तु इतना सब करने पर भी उन सबों ने किसी अँगरेज स्त्री अथवा बच्चे को छुआ तक नहीं। इन सब को उन्होंने केवल गिरफ्तार कर लिया। कुछ अँगरेज आगरे की ओर भाग निकले। ग्वालियर की समस्त

रियासत में कम्पनी का प्रभाव और प्रभुत्व दोनों ही समूल नष्ट कर दिये गये।

फिर भी महाराज सीधिया अपनी अनिश्चितता के कारण सङ्कोच में पड़ा रहा। निःसन्देह महाराज सीधिया उस समय कम्पनी के साथ मित्रता निबाहने के स्थान पर यदि खुल कर विप्लवकारियों का साथ दे बैठता और अपनी विशाल सेना के साथ (जो इस समय नेता न होने के कारण निकम्मी थी) दिल्ली पर चढ़ाई कर देता तो दिल्ली के भीतर की विप्लवकारी सेना और बाहर से सीधिया की सेना इन दोनों के बीच में पिस कर कम्पनी की सेना वहीं समाप्त हो गई होती और विप्लवकारियों के पक्ष को भारत भर में अनन्त बल प्राप्त हो जाता।

करीब करीब ग्वालियर के ही समान स्थिति इन्दौर के महाराजा होलकर की भी थी। १ जुलाई को सआदत खॉ के अधीन इन्दौर की सेना ने इन्दौर की रेजिडेन्सी पर हमला किया। वहाँ पर जितने अंगरेज थे, उन सबों को प्राणों की भिक्षा दे दी गई। वे तुरन्त इन्दौर छोड़ कर भाग गये किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि अंगरेज इतिहास लेखक भी इस बात का निश्चय नहीं कर पाते कि महाराज होलकर की सहानुभूति वास्तव में अंगरेजों के साथ थी या विप्लवकारियों के साथ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के अवसरों पर जब कि भारतीय नरेश अन्त तक अपना निश्चय न कर सके, रियासतों की सेनाओं और कम्पनी की हिन्दुस्तानी सेनाओं ने हर जगह देश का साथ दिया। ठीक ऐसी ही स्थिति कच्छ और राजपूताने की रियासतों की भी थी। इतिहास

लेखक मालेसन लिखता है कि—“जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि जाकर अंगरेजों की सहायता करो, किन्तु सिपाहियों और उनके अफसरों ने तुरन्त उस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया।”

भरतपुर और अन्य कई रियासतों की भी ठीक यही हालत थी। ५ जुलाई को विप्लवकारी सेना ने आगरे पर आक्रमण किया। उस समय आगरे में थोड़ी-सी गोरी सेना मौजूद थी। भरतपुर के राजा ने अंगरेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना से कहा। कुछ समय तक तो भरतपुर की सेना मौन रही किन्तु जब राजा ने उन सबों को भेजना निश्चय कर लिया तब भरतपुर की सेना ने जाने से साफ इन्कार कर दिया और कहा, “हम अपने देशवासियों के विरुद्ध न लड़ेगे।”

जनरल पालवेल की गोरी सेना और विप्लवकारियों में एक भयानक सभ्राम हुआ, जिसमें दिन भर की लड़ाई के बाद गोरी सेना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा। ३ जुलाई को आगरे के नगर के ऊपर हरा भण्डा फहराने लगा। उसी दिन वहाँ का शहर कोतवाल, समस्त पुलिस और हिन्दू-मुसलमानों ने मिल कर हरे भण्डे का एक बहुत बड़ा जलूस निकाला और ऐलान कर दिया कि आज से आगरे के ऊपर अंगरेजी राज्य के स्थान पर दिल्ली के सम्राट का आधिपत्य फिर से स्थापित हो गया। किन्तु इन भारतीय नरेशों की उस समय की अनिश्चितता और अदूरदर्शिता ने विप्लव को अधिक नुकसान पहुँचाया, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इन नरेशों से अधिक समझदार उनके सैनिक ही कहे जा सकते हैं।

यहाँ तक देशी नरेशों के सम्बन्ध में अपने पाठकों को

बतला चुकने के बाद अब हम फिर कानपुर और इलाहाबाद की ओर आते हैं। इलाहाबाद के शहर और किले पर अंगरेजों का अधिकार फिर से हो चुका था। उत्तरी भारत में विप्लव को दमन करने की दृष्टि से इलाहाबाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसलिए लार्ड कैनिंग जब कलकत्ते से इलाहाबाद आ गया और जब तक विप्लव को शान्त नहीं किया जा सका तब तक इलाहाबाद को ही अपनी राजधानी बनाये रखना निश्चय कर लिया।

इधर कानपुर में अंगरेजों की जो दशा हुई थी उसका समाचार जिस समय इलाहाबाद पहुँचा और जब यह भी विदित हुआ कि कानपुर में अंगरेजों की मुसीबतों का वर्णन कर सकना साधारण-सी बात नहीं है अर्थात् वहाँ के अंगरेजों पर परमात्मा के कोप से मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है, उस समय इलाहाबाद की रक्षा के लिए थोड़ी-सी सेना रख कर शेष सेना को मेजर रिनाड के अधीन कानपुर के अंगरेजों की सहायता के लिए जनरल नील ने भेज दी। जनरल नील की स्थापित की हुई मर्यादा के अनुसार दोनों ओर के ग्रामों में आग लगाती हुई यह सेना कानपुर की ओर बढ़ी।

जून के अन्त में हैबलाक नाम का एक दूसरा जनरल इलाहाबाद में आ पहुँचा। इतने ही समय के अन्दर कानपुर में अंगरेजों की पराजय और सतीचौरा घाट के हत्याकाण्ड का समाचार भी इलाहाबाद में आ गया। जनरल हैबलाक भी अब अंगरेज और सिख सेना तथा तोपखाने के साथ कानपुर की ओर तुरन्त बढ़ा। आगे चलकर हैबलाक और रिनाड की सेनाएँ एक साथ हो गईं। इसके बाद रास्ते के गाँवों को गाँवों

मे रहने वालों के साथ जलाने का काम पहले के ही समान होता रहा। कम्पनी की सेना की इस अत्याचारी यात्रा के विषय में सर चार्ल्स डिक नामक एक इतिहास लेखक इस प्रकार लिखता है—

“सन् १८५७ में जो पत्र इंग्लैण्ड पहुँचे उनमें एक ऊँचे दर्जे का अफसर, जो कानपुर की ओर बढ़ने वाली अँगरेजी सेना के साथ था, लिखता है कि, “मैंने आज की तारीख में बहुत से शिकार मारे और विप्लवकारियों को उड़ा दिया।” यह स्मरण रखना चाहिए कि जिन लोगों को इस तरह फौसी दी गई या तोप से उड़ाया गया वे हथियारबन्द विप्लवकारी न थे। बल्कि गावों के रहने वाले थे और जिन्हें केवल ‘सन्देह पर’ पकड़ लिया जाता था। इस यात्रा में गाँव के गाँव इस निर्दयता के साथ जला डाले गये और निर्दयता के साथ निरपराध ग्राम-निवासियों का संहार किया गया कि जिस देखकर एक बार मुहम्मद तुगलक भी लज्जित हो जाता।”

अँगरेजी सेना के कानपुर की ओर बढ़ने का समाचार पाकर नाना साहब ने ज्वालाप्रसाद और टीकासिंह के अधीन कुछ सेना कम्पनी की सेना का सामना करने के लिए तुरन्त भेज दिया। १२ जुलाई को फतहपुर के निकट दोनों सेनाओं में एक सभ्राम हुआ जिसमें कानपुर की विप्लवकारी सेना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा। इसके बाद अँगरेजों ने फतहपुर के नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया।

इसके कुछ समय बाद पहले फतहपुर का नगर अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर चुका था। वहाँ पर भी थोड़े से अँगरेज अफसर मारे जा चुके थे किन्तु विप्लवकारियों ने वहाँ

के मजिस्ट्रेट शेरर को प्राणों की भिन्ना दे दी थी और फतहपुर से सकुशल चले जाने के लिए उसे आज्ञा भी दे दी थी। वही शेरर इस समय हैवलाक की सेना के साथ था। हैवलाक और शेरर ने इस अवसर पर नगर-निवासियों से पूरा बदला लिया। सब से पहले कम्पनी के सिपाहियों को नगर लूटने की आज्ञा दी गई। उसके बाद लिखा हुआ मिलता है कि अंगरेज सेनापति की आज्ञा से फतहपुर नगर और नगर-निवासियों को उसी के अन्दर जला कर राख का ढेर बना दिया गया।

इस रोमोँचकारी अत्याचार का समाचार नाना साहब के कानों तक पहुँच गया। कानपुर के नेताओं और नगर-निवासियों का क्रोध चरम सीमा तक पहुँच गया। नाना साहब ने स्वयं सेना लेकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसी समय अंगरेजों के कई जासूस गिरफ्तार होकर नाना साहब के सामने पेश किए गए। इन जासूसों से विदित हुआ कि बीबीगढ़ की कोठी में जो अंगरेज स्त्रियों नजरबन्द थीं, उनमें से कई नाना साहब के विरुद्ध इलाहाबाद के अंगरेजों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर रही थीं।

इस घटना के दूसरे ही दिन एक ऐसी भयानक घटना हुई जो विप्लवकारियों के नाम पर एक अमिट कलंक बन कर ही रहेगी। कहा जाता है कि कानपुर के १२५ अंगरेज कैदी स्त्रियाँ और बच्चे कत्ल कर डाले गए और दूसरे दिन सबेरा होते ही उनकी लाशों को एक कुएँ में डाल दिया गया। कानपुर की इस हृदय-विदारक घटना के सम्बन्ध में अंगरेज इतिहास लेखक अनेक प्रकार की टीका टिप्पणियाँ कर चुके हैं। केवल एक इसी।

के आधार पर नाना साहब को निर्दय, हत्यारा साबित करने का घोर प्रयत्न किया गया है। इस प्रसंग के 'सिलसिले' में हमें यह कहना ही पड़ता है कि जिस समय हम इतिहास की उन पुस्तकों में विशेषकर, स्कूलों और कॉलेजों की इन पाठ्य पुस्तकों में जनरल नील, जनरल हैबलाक, जनरल ऐनसन, जनरल बर्नार्ड इत्यादि के भारती-प्रजा पर घोर अमानुषिक अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं पाते और कानपुर की इस वीभत्स हत्या और कानपुर में कुएँ का उल्लेख अवश्य पाते हैं, उस समय हमें अत्यधिक कष्ट होता है। इस सम्बन्ध में केवल दो बातें कह देना भी हम अपने कर्तव्य की दृष्टि से आवश्यक समझ रहे हैं।

पहली बात तो यह है कि जिन अँगरेजी पुस्तकों में इन सब घटनाओं का वर्णन किया गया है उनमें प्रायः इन सब घटनाओं के साथ कई और भी अधिक भयानक और अमानुषिक बातों को जोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए यह कि अँगरेज स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने के लिए शहर के कसाई बुलाये गये थे। हत्या करने से पूर्व इन लोगों को निर्दयता के साथ धीरे-धीरे अँग-भंग किया गया और स्त्रियों की हत्या करने से पहले उनकी वेइज्जती की गई; इत्यादि। इन सब रोमांचकारी बातों के सम्बन्ध में हम केवल विप्लव के सब से अधिक प्रमाणिक इतिहास लेखक सर जान के के कुछ वाक्यों को पाठकों के सामने पेश कर देना उचित समझते हैं। इतिहास लेखक सर जान के एक स्थल पर इस प्रकार लिखता है—

“उस समय के कई इतिहासों में बयान किया गया है कि भीषण हत्याकाण्ड के साथ कई तरह की परिष्कृत क्रूरताये और

अकथनीय लज्जाजनक बातें की गई थीं। वास्तव में ये क्रूरताएँ और उस प्रकार की लज्जाजनक बातें कुछ लोगों ने क्रोध के आवेश में आकर केवल अपने कल्पना-शक्ति से गढ़ ली थीं। अन्य लोगों ने बिना जाँच किये उन पर सहज ही में विश्वास कर लिया और बिना सोचे-समझे उनका प्रचार करना आरम्भ कर दिया। X X X जून और जुलाई के हत्याकाण्डों के विषय में सरकारी कमीशन से मंत्रियों ने प्रत्येक बात की अत्यन्त परिश्रम के साथ जाँच की और उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह विचार प्रकट किया है कि किसी को भी अग-भग नहीं किया गया और न किसी की इज्जत ली गई।

एक दूसरा विद्वान अंगरेज लन्दन के 'टाइम्स' पत्र का सम्बाद्धाता सर विलियम रसल, जो विप्लव के समय भारत में मौजूद था, कानपुर के हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में लिखता है—
“अनेक जालसाजों और अत्यन्त नीच बदमाशों ने लगातार कोशिश करके इस मामले के साथ अनेक भीषण घटनाएँ जोड़ दीं। ये कल्पित घटनाएँ केवल इस आशा से गढ़ी गई थीं कि उनसे अंगरेजों के दिलों में क्रोध और बदला लेने की प्रचण्ड इच्छा भड़क उठे। मानों केवल घृणा इस क्रोध और बदला लेने की इच्छा को भड़काने के लिये काफी न थी।”

दूसरी बात यह है कि एक सज्जन, जिन्हें ऐतिहासिक घटनाओं की खोज और जाँच का शौक है प्रयाग नगर के स्वनामधन्य पंडित सुन्दरलाल जी से कहते थे कि उन्होंने कानपुर के कसाइयों के मुहल्ले में जाकर पूछ-ताछ की तो वहाँ के बूढ़े लोगों से मालूम हुआ कि बीबीगाढ़ की हत्या के लिये कम से कम कसाइयों को बुलाया जाना बिलकुल भूठ है।

कलकत्ते के ब्लैकहोल के सर्वथा भूटे किस्से का वर्णन इतिहास की असंख्य पुस्तकों में पाया जाता है और कलकत्ते में ब्लैकहोल की जगह बनी हुई है। इससे पता चलता है कि कानपुर में 'कुएँ' का होना विशेष रूप से यह साबित नहीं करता कि यह घटना सर्वथा सच्ची है। इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट का एक सदस्य लेयार्ड इस तरह की अनेक घटनाओं की जाँच करने के लिए स्यय उन्हीं दिनों में भारत आया। अपनी जाँच के बाद लेयार्ड लिखता है—

“निहायत गौर के साथ जाँच पड़ताल के बाद अच्छे से अच्छे और सब से अधिक विश्वसनीय जरियों से जो सूचनाएँ मुझे मिली हैं, उनसे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जो अनेक भयङ्कर अत्याचार कहा जाता है कि देहली, कानपुर, भौंसी तथा अन्य स्थानों पर अंगरेज स्त्रियों और बच्चों पर किये गये, वे प्रायः एक एक कर सब के सब कल्पित हैं जिनके गढ़ने वालों को लज्जा आनी चाहिए।”

अन्य निष्पक्ष अंगरेजों के इससे भी अधिक जोरदार वाक्य इस कथन के समर्थन में उद्धृत किये जा सकते हैं। इसीसे प्रमाणित है कि बीबीगढ़ के हत्याकाण्ड की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ ही अभी तक मान लेना भी कठिन हो रहा है कि इस बीबीगढ़ के हत्याकाण्ड के किस्से की जड़ में सच्चाई क्या और कितने अंश तक थी। इस विषय में अभी बहुत अधिक निष्पक्ष खोज की आवश्यकता है। यदि समय ने साथ दिया तो यह कार्य भी निकट भविष्य में पूरा हो जायगा।

यदि कानपुर में १२५ अंगरेज स्त्रियों और बच्चों को निरपराध मार डाला गया तो हम यह भी जानते हैं कि जनरल नील ने अपने ही बयान के अनुसार कम से कम हजारों भारतीय स्त्रियों और बच्चों को जीवित ही जला दिया। किन्तु एक अत्याचार दूसरे अत्याचार को किसी भी दशा में उचित नहीं बना सकता। यदि बीबीगढ़ के हत्याकाण्ड में कुछ भी सच्चाई है और यदि यह घटना किसी अंश तक सच्ची भी है और जिस अंश तक भी यह सच्ची है तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि विप्लवकारियों के नाम पर यही एक बहुत बड़ा कलङ्क है।

इस समय इस प्रसंग से सम्बन्ध रहने वाला एक प्रश्न यह भी उठता है कि यदि बीबीगढ़ की हत्या का किस्सा सच है तब उस दशा में भी उसके लिये नाना साहब को कहीं तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सर जार्ज फारेस्ट लिखता है—

“गवाहियों से यह साबित होता है कि जो सिपाही इन कैदियों के ऊपर पहरा दे रहे थे, उन्होंने उनकी हत्या करने से इन्कार कर दिया। यह गन्दा “जुल्म एक वेश्या के उकसाने पर नाना की गारद के पोंच बदमाशों ने किया! इस क्रूर हत्या के लिए सारी कौम को अपराधी ठहराना अनुदार भी है और असत्य भी।”

इतिहास लेखक सर जार्ज कैम्पबेल लिखता है—“कानपुर की हत्या और कुएँ के ऊपर भयङ्कर दृश्य के पाप को कम करने वाली कोई बात कहना कठिन है, फिर भी हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली यह कि हत्या किसी ने पहले से तय

करके नहीं की, बल्कि जिस समय हैबलाक विप्लवकारियों को पीट कर चला आ रहा था उस समय क्षणिक क्रोध और निराशा के बश यह कार्य किया गया। दूसरी बात यह कि हमारी सेना के लोगों ने कानपुर की ओर बढ़ते समय जो जो अत्याचार किये उनके द्वारा हमने स्वयं लोगों को इस प्रकार के कार्य करने के लिए काफी उत्तेजित कर दिया था। कुछ समय बाद इस हत्या-काण्ड के सम्बन्ध की परिस्थिति की बड़ी सावधानी के साथ जाँच पड़ताल की गई, और हमें कोई बात ऐसी नहीं मिली जिससे मालूम हो कि किसी ने पहले से इस हत्या का इरादा कर रखा हो या किसी हत्या के लिए किसी को आज्ञा दी हो X X X।”

इससे मालूम होता है कि कानपुर में अंगरेज स्त्रियों और बच्चों की हत्या के किस्से में यदि कुछ सच्चाई भी है तो वह हैबलाक के अत्याचारों से दुःखित कुछ विप्लवकारियों के क्षणिक क्रोध का परिणाम था, किसी ने उसके लिए किसी को आज्ञा न दी थी और नाना साहब को उसके लिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है।

१० जुलाई को जनरल हैबलाक अपनी विशाल सेना के साथ कानपुर के निकट पहुँच गया। नाना साहब ने स्वयं सेना लेकर हैबलाक का सामना किया। दोनों ओर की तोपों ने गोले बरसाने आरम्भ कर दिये किन्तु अन्त में नाना साहब की सेना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा। नाना साहब ने फिर एक बार अपने सिपाहियों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि फिर एक बार घमासान युद्ध हुआ किन्तु अन्त में फिर हैबलाक की विशाल

सेना के सामने नाना की सेना को हार कर बिदूर की ओर चला जाना पड़ा। १७ जुलाई को हैवलाक की विजयी सेना ने कानपुर के प्रसिद्ध नगर में पूर्ण उल्लास के साथ प्रवेश किया और इसी घटना से अंगरेजी राज्य के इतिहास में हैवलाक का नाम अमर हो गया।

कानपुर नगर में प्रवेश करने के बाद जनरल हैवलाक ने जो कुछ किया उस सम्बन्ध में चार्ल्स बाल लिखता है—“जनरल हैवलाक ने सर ह्यू वहीलर को मृत्यु के लिए भयङ्कर बदला चुकाना आरम्भ कर दिया। हिन्दुस्तानियों के गिरोह के गिहोह फॉसी पर चढ़ा दिये गये। मृत्यु के समय कुछ विप्लवकारियों ने जिस प्रकार चित्त की शान्ति और अपने व्यवहार में अजोष का परिचय दिया वह उन लोगों के सर्वथा योग्य था जो कि किसी सिद्धान्त के नाम पर शहीद होते हैं।”

विप्लवकारियों में से जिन लोगों को फॉसी दी गई थी उनमें से एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए चार्ल्स बाल लिखता है कि—“वह बिना तनिक सी भी घबराहट के ठीक इस प्रकार फॉसी के तख्ते पर चढ़ गया जिस प्रकार एक योगी अपनी समाधि में प्रवेश करता है।”

कानपुर में प्रवेश करते ही समस्त अंगरेजी सेना और सिख सेना के सिपाहियों को सब से पहले नगर के लूटने की आज्ञा दी गई। उसके बाद फॉसियों का कार्य बड़ी तत्परता के साथ किया जाने लगा। लिखा है कि बीबीगढ़ में जमीन के ऊपर खून का एक बड़ा धब्बा था। सन्देह होता था कि यह खून अंगरेज स्त्रियों और बच्चों का है। कानपुर नगर के अनेक प्रतिष्ठित वंश

के ब्राह्मणों को लाकर विशेषतया जिन पर सन्देह था कि उन्होंने विसव मे भाग लिया है, उन सबों को उस खून को जीभ से चाटने और फिर भाड़ से धोकर साफ करने की आज्ञा दी गई इसके बाद उन सबों को फॉसी के तख्तों पर तुरन्त चढ़ा दिया गया। उस समय के एक अंगरेज अफसर ने इस अनोखे दंड का कारण इस तरह बयान किया है—

“मै जानता हूँ कि फिरंगियों के खून को छूने और फिर उसे मेहतर की भाड़ से साफ करने से एक उच्च जाति का हिन्दू धर्म से पतित हो जाता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि चूँकि मै यह जानता हूँ इसीलिए मै उनसे ऐसा कराता हूँ। जब तक हम उन्हें फॉसी देने से पहले उनके समस्त धार्मिक भावों को पैरों तले न कुचलेंगे तब तक हम पूरा बदला नहीं ले सकते, ताकि उन्हें यह सन्तोष न हो सके कि हम हिन्दू धर्म पर कायम रहते हुए मरे।”

यह हम पहले ही बता चुके हैं ति सतीचौरा घाट पर जिन अंगरेजों की हत्या की गई थी उन्हें कम से कम मरने से पहले इञ्जील का पाठ करने की इजाजत दी गई थी और विजयी होने पर भी अंगरेजों ने हिन्दुओं पर ऐसे अत्याचार किये। एक तो गलत इतिहास स्कूल और कालेज मे पढ़ा-पढ़ा कर वास्तविक ज्ञान से दूर रखा गया और यदि किसी ने किसी भी प्रकार वास्तविक इतिहास को तैयार करके प्रकाशित भी कराया तो वह जनता के सामने आने तक न पाया।

कुछ भी हो, इस सम्बन्ध में और अधिक न कहकर हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। कानपुर में हैवलाक के प्रवेश करने के थोड़े दिनों बाद कुछ और सेना लेकर जनरल नील

कानपुर पहुँचा। उसके पहुँचने पर हैबलाक दो हजार अंगरेजी सेना और दस तोपों के साथ २५ जुलाई को कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ा और जनरल नील कानपुर की रक्षा के लिये कानपुर में ही रह गया। इधर नाना साहब भी अंगरेजी सेना से पराजित हो जाने के कारण बिठूर छोड़ कर अपने खजाने और कुछ सेना के साथ गंगा पार कर फतहगढ़ की ओर चला गया। अब हम कुछ देर के लिए नाना साहब और हैबलाक को यहीं छोड़ कर राजधानी दिल्ली की ओर फिर चल कर वहाँ की घटनाओं का वर्णन करेंगे।

पंजाब की एक घटना

इसमें सन्देह नहीं कि हमें राजधानी दिल्ली की ओर फिर चलना है किन्तु इस समय उचित यह भी समझ रहे हैं कि दिल्ली को बीच में ही छोड़कर एक बार पंजाब को भी फिर देख ले क्योंकि वहाँ भी एक छोटी सी घटना ऐसी हो चुकी है जिसका कि वर्णन कर देना हम आवश्यक समझ रहे हैं। उस घटना के वर्णन से पाठकों को यह भी विदित हो जायगा कि जिस समय अंगरेजी सेना दिल्ली में विजय-लाभ करने का स्वप्न देख रही थी उस समय पंजाबियों को भयभीत करने और उन पर अपनी धाक जमाये रखने के लिए पंजाब के अंगरेज शासकों ने किस किस प्रकार के उपाय तैयार किये थे।

मई के महीने में लाहौर के अन्दर चार देशी पलटनों से हथियार रखाये जा चुके थे और इन लोगों पर सिखों और गोरों का कड़ा पहरा था इनमें से किसी को भी छावनी से बाहर जाने की इजाजत न थी। ३० जुलाई की रात को इनमें से २६ नम्बर पलटन के अधिकांश सिपाही छावनी से निकल पड़े। इन सिपाहियों के पास न तो हथियार थे और न इनमें से किसी ने किसी प्रकार के विद्रोह में हाथ बँटाया था। केवल इतना ही चाहते थे कि दूसरे दिन रावी नदी को पार करके निकल जायँ। उन सबों को रोकने के लिए सब तरह से प्रयत्न किया गया परन्तु वे रावी के किनारे-किनारे अमृतसर की ओर बढ़े।

सर राबर्ट माण्टगुमरी ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि उन सबों का पीछा किया जाय। अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर माण्टगुमरी का खास आदमी था। उसे भी सूचना भेज दी गई। इधर २६ नम्बर पलटन के ये हिन्दुस्तानी सिपाही थके हुए, भूखे और निहत्थे अमृतसर की एक तहसील अजनाले से ६ मील दूर रावी के तट पर खड़े हुए थे। अजनाला अमृतसर से १६ मील दूरी पर है। इसके बाद अजनाले में जो अमानुषिक घटना हुई उसे फ्रेडरिक कूपर ने अपनी पुस्तक “दी क्राइसिस इन दी पंजाब” में बड़े अभिमान के साथ वर्णन किया है। इस घटना को हम ठीक कूपर के ही वर्णन के अनुसार और उसी के भावार्थक शब्दों में वर्णन कर देना चाहते हैं। यहाँ यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा वर्णन जहाँ तक सम्भव है, सक्षिप्त ही होगा।

३१ जुलाई को दोपहर के समय कूपर को विदित हुआ कि २६ नम्बर के निहत्थे सिपाही अपनी छावनी से चलकर रावी के किनारे किनारे बढ़ रहे हैं। ऐसा विदित होते ही अजनाले के तहसीलदार को कुछ हथियारबन्द सिख सिपाहियों के साथ उन्हे घेरने के लिये भेज दिया गया। लगभग ४ बजे सन्ध्या को कूपर स्वयं ८० या ९० सवारों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गया। उसके पहुँचते ही उन थके हुए और भूखे सिपाहियों पर गोलियाँ चलाई गईं। उन सिपाहियों की संख्या लगभग पाँच सौ के थी। इनमें से लगभग डेढ़ सौ गोलियों से घायल होकर पीछे की ओर मुड़े और रावी में डूब गये। कूपर लिखता है कि भूख और थकावट के कारण वे सब इतने शक्तिहीन थे कि रावी नदी की धार में क्षण भर भी न ठहर

सके। रावी नदी का जल उनके रक्त से लाल हो गया। शेष सिपाहियों ने पानी से निकल कर कुछ भागते हुए और पानी में ही तैरते हुए नदी के चढ़ाव की ओर एक मील की दूरी पर एक टापू में आश्रय लिया। दो नावे उस स्थान पर मौजूद थीं। हथियारबन्द तीस सवार इन नावों में बैठ कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजे गये। लगभग साठ बन्दूकों के मुँह उन लोगों की ओर कर दिये गये। दूर से बन्दूकों को देख कर आपत्ति से घिरे हुए उन सिपाहियों ने हाथ जोड़ कर अपनी निर्दोषिता प्रकट की और प्राणदान चाहा। इसी समय उनमें से पचास के करीब नैराश्य के कारण पानी में कूद पड़े और फिर दिखाई न दिये।

शेष सिपाहियों को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़े थोड़े करके उन्हें नावों में बैठाकर किनारे तक पहुँचा दिया गया। किनारे पर उन सबों के पहुँचते ही उनके गलों में जो मालाएँ आदि थी वे सब तुरन्त काट कर फेंक दी गईं उन सिपाहियों को अलग-अलग गिरोंहों में अच्छी तरह बंध दिया गया और सिख सवारों की देख रेख में धीरे धीरे अजनाले पहुँचा दिया गया। उस समय बड़े जोरो की वर्षा हो रही थी।

गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों की संख्या लगभग २८२ थी जिनमें कई अफसर भी थे। लगभग आधी रात के समय पानी में भीगते हुए वे सब अजनाले के थाने पर पहुँच गये। इन सब को फौसी देने के लिए रस्सियों और गोली से उड़ाने के लिए पचास हथियारबन्द सिख सिपाहियों का प्रबन्ध अजनाले के थाने में कूपर ने पहले से ही कर रखा था। किन्तु वर्षा हो रही थी इसलिए यह सब कार्य दूसरे दिन के लिये स्थगित

कर दिया गया। गिरफ्तार किये जाने वाले सिपाहियों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे पुलिस के मकान में नहीं आ सकते थे। समीप ही तहसील की नई इमारत बन कर तैयार थी। कैदी सिपाहियों में से अधिकांश को प्रातःकाल तक के लिए पुलिस के थाने में बन्द कर दिया गया और ६६ कैदी सिपाहियों को तहसील की नई इमारत में एक छोटे से गुम्बद में बन्द कर दिया गया। कहा जाता है कि यह छोटा सा गुम्बद बहुत ही तंग था। उतने आदमी उसमें आ ही न सकते थे उस पर भी उसके दरवाजे चारों ओर से बन्द कर दिये गये थे।

दूसरे दिन पहली अगस्त को बकरीद थी। प्रातःकाल होते ही उन सब भाग्य-हीनों को दस-दस करके बाहर लाया गया। कूपर थाने के सामने बैठा हुआ था। दस सिख सिपाही एक एक ओर बन्दूके लिए खड़े रहते थे। शेष चालीस सिख सिपाही सहायता के लिए उनके आस-पास रहते थे। जब वे कैदी सिपाही दस-दस की टोली में सामने आते तब उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है।

उनमें से अधिकांश सिपाही हिन्दू थे। लिखा है कि मरते समय उनमें से कुछ ने सिखों को गंगाजी की दुहाई देकर लानत मलामत की। जब थाने के कैदी समाप्त हो गये तब गुम्बद के कैदियों को बाहर निकाला गया किन्तु अभी तो केवल २३७ ही सिपाही गोली से उड़ाये गये थे, अर्थात् गुम्बद में से केवल २१ सिपाही बाहर निकाले गये थे कि कूपर को सूचना दी गई कि शेष कैदी गुम्बद से बाहर निकलने से इन्कार करते हैं। इस मौके पर कूपर स्वयं लिखता है कि पहले उन सबों को दुरुस्त करने का प्रबन्ध किया गया। फिर भीतर जाकर देखा

गया तो ४५ सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई मिली। यह हो सकता है कि उनमें से कुछ अभी तक सिसकियों भी लेते रहे हों। इस पर कूपर के ये शब्द हैं—“अनजाने ही हालवेल के ब्लैकहोल का हत्याकाण्ड फिर से दुहराया गया।”

यहाँ पर यह दुहराने की आवश्यकता नहीं कि हालवेल के ब्लैकहोल का किस्सा सरासर भूठा था किन्तु कूपर का अजनाला ब्लैकहोल तो एक सच्ची ही घटना थी! रात को वे बेचारे कैदी सिपाही पानी और हवा के लिए चिल्लाये होंगे किन्तु कूपर लिखता है कि बाहर के शोर के कारण उनकी आवाजे सुनाई न दी।

४५ लाशें उन लोगों की जो थकावट, गर्मी और हवा की कमी के कारण भीतर घुट कर मर गये, बाहर घसीट कर डाल दी गईं। किन्तु एक कठिनाई अभी शेष थी। उन २८२ लाशों को दफन करने का प्रश्न। अजनाले के थाने से लगभग सौ गज के अन्दर एक गहरा पुराना कुआँ था। ये सब लाशें मेहतरों से विसटवा-विसटवा कर उस कुएँ में डलवा दी गईं फिर उस कुएँ को मिट्टी से भर दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी का एक इतना ऊँचा ढेर लगा दिया गया कि एक टीला सा बन गया।

इस कुएँ के विषय में फ्रेडरिक कूपर बड़े अभिमान के साथ लिखता है—“एक कुआँ कानपुर में है, किन्तु एक कुआँ अजनाले में भी है।”

इस प्रकार २६ नम्बर पलटन के लगभग पाँच सौ सैनिकों को २४ घंटे के अन्दर परलोक पहुँचा दिया गया। उस पलटन के जो शेष से थोड़े सिपाही लाहौर से अथवा रावी के किनारे से इधर-उधर भाग निकले थे, उन सब को दो-चार दिन के अन्दर

गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ सैनिक को लाहौर में और कुछ सैनिकों को अमृतसर में तोप के मुँह से उड़ा दिया गया।

दूसरे दिन चीफ कमिश्नर सर जान लारेन्स और जुडीशल कमिश्नर राबर्ट माण्टगुमरी ने समस्त घटना का समाचार पाकर कूपर को अत्यन्त प्रशंसा के पत्र लिखे, जो कूपर की पुस्तक में छपे हुए हैं। हिन्दू तहसीलदार और सिख घातकों को बड़ी-बड़ी रकमें इनाम में दी गई।

यदि फ्रेडरिक कूपर ने अपनी पुस्तक के अन्दर अजनाले की भीषण और वीभत्स घटना का वर्णन न किया होता तो प्रत्येक मनुष्य के लिए उस घटना पर विश्वास कर सकना बड़ा ही कठिन हो जाता। किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि अभी तक अजनाले की उस घटना का जो वर्णन किया गया है वह सब कूपर के ही शब्दों को अपनी भाषा में समझ लेना चाहिये।

वह कुञ्जों जिसके अन्दर २८२ सिपाहियों की लाशें फेंकी गई थी, अभी तक मौजूद है। उसके ऊपर मिट्टी का एक ऊँचा टीला अब भी है। अजनाले में इसे अभी तक 'काल्योदा-खूह' कहते हैं। पुलिस का थाना भी जिसके सामने सिपाहियों को मारा गया था और तहसील की वह इमारत, जिसके गुम्बद में ४५ सिपाही घुट कर मर गये, अभी तक मौजूद है। इस गुम्बद को अभी तक वहाँ के लोग 'काल्योदा बुर्ज' कहते हैं। अजनाले के कुछ लोगों का कहना है कि उस समय के तहसीलदार का नाम प्राणनाथ था और उसका काम प्राण लेना था। इतना ही नहीं

जो लोग कुँ के अन्दर एक दूसरे के ऊपर डाले जाते थे, उनमें से कुछ जीवित भी थे और वे चिल्ला भी रहे थे, किन्तु उन बेचारों पर राक्षसों ने कुछ भी दया न की। वास्तव मे अजनाले की यह घटना बड़ी ही शोकजनक है। यही से हम इसका वर्णन बन्द कर रहे हैं और अब अपने लक्ष्य अर्थात् राजधानी दिल्ली की ओर बिना किसी रोक-टोक के तुरन्त चलते हैं।

दिल्ली का शेष वृत्तान्त

राजधानी दिल्ली के अन्दर अब विप्लवकारी समुदाय के लिए मुख्य कार्य इतना ही था कि वे बार बार नगर से निकल कर कभी दाहिनी ओर से और कभी बाईं ओर से अँगरेजों की सेना पर आक्रमण करते थे और उस प्रकार आक्रमण करके अँगरेजों की सेना को विशेष रूप से हानि पहुँचा देते थे किन्तु इतना सब करने पर भी अन्त में वे सब पीछे को ही हटते जाते थे और अँगरेजों की सेना उनका पीछा किया करती थी। उन सबों का पीछा करते करते जब अँगरेजी सेना शहरपनाह की दीवारों के ठीक नीचे आ जाती थी तब दीवारों के ऊपर की तोपें उन पर ऐसे भयानक ढग से गोले बरसानी थी कि अँगरेजी सेना के सैनिक दीवार के नीचे चनों के समान भुनने लगते थे। इस प्रकार के आक्रमणों और आक्रमण करने वालों को भगा कर पीछा करने में जब अँगरेजी सेना के इतने अधिक सैनिक मारे गये तब जनरल विलसन ने विवश हो कर आज्ञा निकाल दी कि किसी भी दशा में विप्लवकारी सेना का पीछा भविष्य में न किया जाय क्योंकि इस समय अँगरेजों की सेना की दशा अधिक चिन्ताजनक थी।

उन दिनों कम्पनी की अँगरेजी सेना को दिल्ली नगर में घुसने का साहस न होता था और न विप्लवकारियों की सेना को ही इस बात का साहस हो रहा था कि वह एक

बार पूर्ण रूप से संगठित होकर दिल्ली नगर से बाहर निकल जाती और मैदान में डटकर अंगरेजी सेना को समाप्त कर देती। विप्लवकारियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि विप्लवकारियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो चुकी थी। उनकी सेना में, वीरता, धीरता, साहस अथवा सामान आदि की किसी प्रकार भी कमी नहीं थी किन्तु दिल्ली नगर के अन्दर कोई ऐसा योग्य और प्रभावशाली नेता नहीं था जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आनेवाली सेनाओं को सफलता के साथ अनुशासन में रख सकता और उन सब को मिला कर एक निर्णायक युद्ध के लिए आगे बढ़ा सकता। यही एक सब से बड़ी कमी थी और इसी कमी के कारण दिल्ली नगर पर आक्रमण करनेवाले अंगरेज सैनिक अभी तक नगर के बाहर किसी न किसी प्रकार जीवन धारण कर विजयी होने का स्वप्न देख रहे थे और समय की प्रतीक्षा कर रहे थे।

सम्राट बहादुरशाह बहुत बूढ़ा हो चुका था और स्वयं सेनापतित्व ग्रहण कर सके इस योग्य सामर्थ्य उसमें नहीं था। शाहजादा मिर्जा मुगल पहले ही अयोग्य साबित हो चुका था। सेनापति मुहम्मद बख्त खॉं उस समय विप्लवकारी सेनापतियों में सबसे अधिक योग्य और समझदार था किन्तु वह एक साधारण सेनापति था। वह किसी शाही घराने में पैदा नहीं हुआ था और ऊँचे वंश में जन्म लेने का अभिमान अभी तक भारतवासियों में मौजूद था। दिल्ली नगर की अनेक सेनाओं के सेनापति छोटे-मोटे नरेश या राजकुलों के लोग थे।

उन लोगों पर मुहम्मद बख्त खॉं का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं, उनमें से कोई-कोई मुहम्मद बख्त

खी के साथ ईर्ष्या भी करने लगे थे और परिणाम यह हुआ कि दिन-प्रति दिन आपस की खींचतान बढ़ती ही गई। सम्राट बहादुरशाह ने सब को समझाने का प्रयत्न किया किन्तु उसे अपने इस प्रयत्न में तनिक भी सफलता न प्राप्त हुई। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय दिल्ली में योग्य और शक्तिशाली नेता की बड़ी ही आवश्यकता थी किन्तु खेद की बात तो यह थी कि जयपुर, जोधपुर, सीधिया और होलकर जैसे नरेश राष्ट्रीय विस्वकारियों का साथ देने का निश्चय उस समय तक भी न कर सकें थे अन्यथा महाराज सीधिया जैसे प्रभावशाली नरेश के लिए एक बार दिल्ली नगर में आकर इस कमी को पूरा कर सकना कोई विशेष कठिन कार्य न था।

वास्तव में दिल्ली के अन्दर की यह सब से बड़ी कमी सन् १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम की अन्तिम असफलता का एक मुख्य कारण हुई। दिल्ली नगर के अन्दर एक बार लगभग पचास हजार सुव्यवस्थित और सुशिक्षित सेना थी। युद्ध-विद्या में पारंगत होने पर भी इसे योग्य नेता न मिल सका। यदि यह विशाल सेना दिल्ली नगर को घेरनेवाली अंगरेजी सेना को समाप्त कर देती और विजय के उत्साह से पूर्ण होकर एक बार शेष भारत पर फैल जाती तो इसमें सन्देह नहीं था कि इसके बाद विस्वकारियों का दूसरा ही रंग दृष्टिगोचर होता और सफलता प्राप्त करने में कुछ भी विलम्ब न होता।

इस कमी का कुपरिणाम क्या होगा इसे सम्राट बहादुरशाह पूर्ण रूप से समझ रहा था इसी लिए इस भयानक कमी को दूर करने के लिए उसने अनेक उपाय किये किन्तु सब व्यर्थ सिद्ध हुए। उसने अपने बेटे मिर्जा मुगल को हटा कर दिल्ली

की सेनाओं का प्रधान नेतृत्व मुहम्मद बख्त खॉ को सौंप दिया किन्तु इससे भी सन्तोष जनक कार्य न हो सका। विश्वकारी सेनाओं की सुव्यवस्था और अनुशासन के सभी कार्य शिथिल होते गये। कोई दूसरा उपाय न देख कर अन्त में सम्राट बहादुरशाह ने नीचे लिखा पत्र स्वयं अपने कोंपते हुए हाथ से लिख कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और अन्य अनेक राजाओं के पास अपने विशेष दूतों द्वारा भेजा।

“मेरी यह दिली ख्वाहिश है कि जिस जरिये से भी और जिस कीमत पर भी हो सके, फिरंगियों को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया जाय। मेरी यह जबर्दस्त ख्वाहिश है कि तमाम हिन्दुस्तान आजाद हो जाय। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जो विश्वकारी-सम्राट शुरू कर दिया गया है वह उस समय तक फतहयाब नहीं हो सकता जिस समय तक कि कोई ऐसा शख्स जो इस तमाम तहरीक के भार को अपने ऊपर उठा सके, जो कौम की मुख्तलिफ ताकतों को संगठित करके एक ओर लगा सके और जो अपने तई तमाम कौम का नुमाइन्दा कह सके और मैदान में आकर इस विश्व का नेतृत्व अपने हाथों में न ले ले। अंगरेजों के निकाल दिये जाने के बाद अपने जाती फायदे के किये हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने की मुझमें जरा भी ख्वाहिश बाकी नहीं है। अगर आप सब देशी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज से अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हों, तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि अपने तमाम शाही अख्तियारात और हकूक देशी नरेशों के किसी ऐसे गिरोह के हाथों में सौंप दूँ जिसे इस काम के लिए चुन लिया जाय।”

जिन भावनाओं को लेकर यह पत्र लिखा गया था उससे हम यह कह सकते हैं कि इसमें सन्देह नहीं कि यह पत्र दिल्ली के अन्तिम सम्राट बहादुरशाह की समस्त भारतवर्ष के प्रति सदभिलाषा और उसकी विशाल उदारता, इन दोनों का ही दर्पण था किन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदिग्ध हृदय भारतीय नरेशों पर इसका उतना प्रभाव न पड़ा जितना कि पड़ना चाहिए था।

ठीक ऐसे ही समय में अंगरेजी सेना की सहायता के लिए जनरल निकल्सन के अधीन एक और नई सेना पञ्जाब से दिल्ली नगर में आ गई। इस सेना के आते ही कम्पनी की सेना में फिर से नवजीवन का सञ्चार होने लगा। इस प्रसंग के सिलसिले में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इस समय कम्पनी की जो सेना दिल्ली के बाहर थी, उसमें अंगरेज सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों की ही संख्या कई गुनी अधिक थी। इन भारतीय सैनिकों में अधिकतर सिख गोरखे और कुछ अन्य पञ्जाबी थे। फिर भी अगस्त के अन्त तक विप्लवकारी सेना बार-बार कम्पनी की सेना पर आक्रमण करती रही किन्तु कम्पनी की सेना जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर डटी रही। न पीछे हटी और न आगे बढ़ सकी।

२५ अगस्त को सेनापति मुहम्मद बख्श खॉं ने फिर एक बार अपनी पूरी शक्ति से अंगरेजी सेना पर आक्रमण किया। उस समय राजधानी दिल्ली नगर के अन्दर दो सेनाये मुख्य थी। एक बरेली की और दूसरी नीमच की इन दोनों सेनाओं के सैनिक साहसी वीर और रण बॉकुरे यादवा थे किन्तु विसवकारियों के दुर्भाग्य से इन दोनों सेनाओं के सैनिकों

मे विशेष रूप से वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी। सेनापति मुहम्मद बख्त खॉ ने इन दोनों सेनाओं के सैनिकों को एक साथ मिलाकर रखने का प्रयत्न किया। २५ अगस्त को ठीक उस समय जब कि सेनापति मुहम्मद बख्त खॉ ने इन दोनों सैन्य दलों को लेकर अंग्रेजी सेना के मुख्य स्थान नजफगढ़ पर हमला किया नीमच की सेना ने सेनापति मुहम्मद बख्त खॉ की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस सेना के सैनिकों ने उस स्थान को छोड़कर जहाँ पर कि मुहम्मद बख्त खॉ ने उन्हें ठहरने के लिए कहा था, पास के दूसरे गाँव में डेरे जमा दिये। इतना ही नहीं, वे सब विसवकारियों की शेष सेना से भी अलग हो गये। इस समाचार को पाते ही जनरल निकल्सन ने सब से पहले उन्ही सैनिकों पर आक्रमण किया और एक अत्यन्त भयानक घमासान युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि उस युद्ध में नीमच की सेना का एक एक सैनिक धीरता के साथ युद्ध करता हुआ परलोक को सिधार गया और कम्पनी की सेना ने विजय प्राप्त कर ली। इसी के साथ मुहम्मद बख्त खॉ को भी अपनी शेष सेना सहित पीछे लौट आना पड़ा।

अंगरेज इतिहास लेखकों ने भी मुक्तकण्ठ से नीमच की सेना की बहादुरी की प्रशंसा की है किन्तु राजनीति के क्षेत्र में युद्ध-विद्या विशारदों का यह भी कथन है कि बिना सेनापति की अनन्य आज्ञा-पालन नीति के सप्सार की कोई भी सेना विजय प्राप्त करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकती क्योंकि पूर्णव्यवस्था ही सभ्राम की सफलता का सब से अधिक आवश्यक साधन है। यही एक कारण था कि १६ मई के बाद वह पहला दिन था जब कि राजधानी दिल्ली नगर के अन्दर नैराश्य की

घटा दिखाई देने लगी थी। कम्पनी की सेना में हर्ष और उत्साह की छटा लहराने लगी थी।

उस समय कम्पनी की सेना में साढ़े तीन हजार अंगरेज, पाँच हजार सिख, गोरखे, पंजाबी, ढाई हजार, काश्मीरी और स्वयं भीम का महाराज और उनकी सेना थी। इधर सब तरह के प्रयत्न करने पर भी दिल्ली नगर के अन्दर अव्यवस्था बढ़ती ही चली गई। सितम्बर महीने के आरम्भ में अंगरेजी सेना को धीरे-धीरे राजधानी दिल्ली नगर पर आक्रमण करने का कुछ कुछ साहस होने लगा। इतिहास लेखक फारेस्ट लिखता है कि :—
“कम्पनी की ओर के भारतीय सिपाही उस समय अपने प्राणों पर खेल कर असाधारण वीरता और साहस के साथ अपने सेनापतियों के आदेशों का पालन करने में तत्पर हो रहे थे।”

इतने ही समय के अन्दर कम्पनी की ओर गुप्तचरो का विभाग भी विशेष रूप से उन्नति कर चुका था। इस विभाग का प्रधान अफसर हडसन था। दिल्ली नगर के अन्दर बहुत से विश्वासघातक तैयार किये जा चुके थे। जिनमें मुख्य सम्राट बहादुरशाह का समर्थी मिरजा इलाही बख्श भी एक था। मिर्जा इलाहीबख्श प्रायः सम्राट बहादुरशाह के ही साथ रहता था और महल की समस्त बातों और सलाहों की खबरें मेजर हडसन तक किसी न किसी प्रकार पहुँचाता रहता था।

किसी प्रकार सितम्बर महीने का पहला सप्ताह समाप्त होने को आया। ७ सितम्बर से कम्पनी की सेना ने दिल्ली नगर के अन्दर प्रवेश करने के लिए जी तोड़ कर प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये। ७ सितम्बर से १३ सितम्बर तक उन्हें प्रति-

दिन अनेक सैनिकों को खोकर पीछे हट जाना पड़ा किन्तु इसी बीच में कम्पनी की तोपों के कारण नगर की रक्षा करने वाली दीवारों में स्थान-स्थान पर दरारें पड़ गई थी। १४ सितम्बर को कम्पनी की सेना ने दिल्ली नगर में प्रवेश करने का अन्तिम और सबसे अधिक शक्तिपूर्ण प्रयत्न किया। वास्तव में उस दिन का दिल्ली का सभ्राम विश्व के सब से अधिक भयङ्कर सभ्रामों में से था।

उस दिन सबेरा होते ही जनरल विल्सन ने कम्पनी की सेना को पाँच दलों में बाँट दिया। एक दल ब्रिगेडियर जनरल निकल्सन के अधीन, दूसरा कर्नल कैम्पबेल के अधीन, तीसरा ब्रिगेडियर जोन्स के अधीन, चौथा मेजर रीड के अधीन और पाँचवाँ ब्रिगेडियर लांगफील्ड के अधीन। पहले तीन दलों ने मिलकर जनरल निकल्सन के प्रधान सेनापतित्व में काश्मीरी दरवाजे की ओर से प्रवेश करना चाहा, चौथे दल ने मेजर रीड के अधीन काबुली दरवाजे और सब्जी मंडी की ओर से बढ़ना चाहा। सबसे पहले सूर्योदय के थोड़ी ही देर बाद निकल्सन अपने दल-बल के साथ शहरपनाह की दीवार की ओर बढ़ा। भीतर से विप्लवकारियों ने उन पर तोपों से गोले बरसाने आरम्भ कर दिये। परिणाम यह हुआ कि दीवार के नीचे अँगरेज और सिख सैनिकों की लाशों के ढेर लग गये, फिर भी उन्हें रौंदते हुए निकल्सन और उसके कुछ साथी दीवार तक पहुँच गये। पिछले सात दिनों के प्रयत्नों के कारण दीवार का कुछ भाग टूट चुका था। उसी टूटे भाग के समीप सीढ़ी लगा दी गई। निकल्सन पहला अँगरेज वीर था, जिसने गोलियों और गोलों की बौछार के अन्दर काश्मीरी दरवाजे के समीप शहरपनाह की

दीवार पर चढ़ कर विजय का विगुल बड़ी ही निर्भीकता के साथ बजाया।

इसी प्रकार मरते-मारते हुए दूसरा दल एक ओर से शहर-पनाह की दीवार पर चढ़ कर शहर के भीतर प्रवेश कर गया। तीसरा दल भी पूर्ण वीरता और उत्साह के साथ काश्मीरी दरवाजे की ओर बढ़ा। कुछ अफसरों ने आगे बढ़ कर दरवाजे को बाहर से उड़ा देना चाहा। दीवारों और खिड़कियों से धुआँ धार गोलियों बरसने लगी। कई अंगरेज और देशी अफसर इसी प्रयत्न में मारे गये। अन्त में एक ने दरवाजे तक बारूद पहुँचा दी और दूसरे कप्तान बरगेस ने मरते-मरते फलीता दिखा दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते काश्मीरी दरवाजे का एक भाग उड़ गया। कर्नल कैम्पबेल ने अपने दल के सैनिकों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और गोलियों की बौछार में भी बढ़ कर कैम्पबेल और उसके कुछ साथी काश्मीरी दरवाजे के अन्दर प्रवेश कर गये। अपनी इस आशातीत सफलता पर कैम्पबेल और उसके साथी अपने जीवन को धन्य समझने लगे।

चौथे दल ने मेजर रीड के अधीन काबुली दरवाजे की ओर से बढ़ना चढ़ा। सब्जीमंडी के समीप दिल्ली की सेना से उनका आमना-सामना हुआ। पहले ही बार में मेजर रीड घायल होकर गिर पड़ा। उसके घायल होकर गिरने के कारण एक बार उनकी सेना पीछे हटी किन्तु ऐसे ही समय में होप आइट अपने कुछ सवारों के साथ तुरन्त आगे बढ़ा। उसके इस प्रकार बढ़ते ही पीछे हटने वाली सेना सन्हल कर फिर आगे बढ़ी। भयानक युद्ध होने के कारण दोनों ओर से रक्त की नदियाँ बहने लगीं। होप आइट के अधिकतर सवार हिन्दुस्तानी थे। उस संग्राम में दोनों

पक्ष के सिपाहियों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया किन्तु परिणाम यह हुआ कि अन्त में अंगरेजी सेना को ही फिर से पीछे हट जाना पड़ा। इस प्रकार चौथे दल ने हार खाई।

शेष तीनों दलों ने निकल्सन, कैम्पबेल और जोन्स के अधीन काश्मीरी दरवाजे से प्रवेश कर शहर पर चढ़ाई कर दी। जिस-जिस मकान या मीनार को ये लोग जीत लेते थे उस पर तुरन्त सूचना के लिए अंगरेजी झण्डा गाड़ देते थे। एक-एक मकान के सामने युद्ध होता जाता था और जीतने पर झण्डा फहराया जाता था। इस प्रकार लड़ते-लड़ते ये तीनों दल काबुली दरवाजे की ओर बढ़े। बर्न वैस्टियन के समीप पहुँच कर इन सबों को एक सकरी गला में से निकलना पड़ा। इसी गली के दोनों ओर की खिड़कियों छज्जो और छतों पर से गोलियों की भयङ्कर वर्षा होने लगी।

गली के अन्दर रक्त की नदी बह चली। कोई यह नहीं कह सकता था कि वह रक्त की नदी नहीं थी। विवश होकर अंगरेजों की समस्त सेना को पीछे हट जाना पड़ा। गली के अन्दर और अधिक बढ़ने का साहस किसी भी सैनिक में न रहा। अपने सैनिकों की इस साहस-हीनता की दशा को देखकर निकल्सन एक सच्चे वीर के समान आगे बढ़ा। यह गली लगभग दो सौ गज लम्बी थी किन्तु १४ सितम्बर के दिन इस छोटी-सी गली ने जो अभूत पूर्व साहस और आशा से अतीत अद्भुत कार्य कर दिखाया उसने स्वाधीनता के इस संग्राम में अपने नाम को चिरकाल के लिए इतिहास लेखकों के समक्ष अमर कर दिया। इसी गली की अमर वीरता के ही कारण आगे बढ़ने वाले वीर निकल्सन को भी पीछे हटना पड़ा। निकल्सन जैसे ही पीछे

हटा जैसे ही भेजर जैकब आगे बढ़ा और तुरन्त घायल होकर वही पर गिर पड़ा। अपने मन में फिर से नये साहस का सञ्चार करता हुआ निकल्सन फिर आगे बढ़ा किन्तु परिणाम यह हुआ कि इस बार आगे बढ़ते ही वह भी घायल होकर वही धरती पर गिर पड़ा। अन्त में जब सफल होने की कुछ भी आशा न रही तब अंगरेजी सेना को गली छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। राजधानी दिल्ली नगर की वह अमर गली लाशों से भर गई। कम्पनी की सेना को पीछे हटकर काश्मीरी दरवाजे पर लौट आना पड़ा।

जिस समय बर्न वैस्टियन की ओर निकल्सन बढ़ रहा था उसी समय कर्नल कैम्पबेल के अधीन एक दल जामे मस्जिद की ओर भेज दिया गया था। मस्जिद तक पहुँचने में इन सबों को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। बिना किसी प्रकार की रुकावट के ये सब जामे मस्जिद तक पहुँच गये किन्तु उस समय मस्जिद में कई हजार मुसलमान जमा थे। उन सब मुसलमानों को इस बात का पता चल गया था कि अंगरेज मस्जिद को बारूद से उड़ा देना चाहते हैं इसलिये मस्जिद की रक्षा करने के लिए वे सब तैयार थे किन्तु इन सबों के पास केवल तलवारें थी, बन्दूक किसी के पास भी न थी। अंगरेजों के पहुँचते ही ये सब लोग अपनी तलवार हाथ में लेकर मस्जिद से निकल पड़े। सब से पहले उन्होंने अपनी तलवारों के म्यान काट कर फेंक दिये ! उन सबों को मस्जिद के बाहर देखते ही अंगरेजी सेना ने उन पर बन्दूकों की एक बाढ़ चलाई। उनमें से दो सौ आदमियों की लाशें तुरन्त मस्जिद की सीढ़ियों पर गिर पड़ी किन्तु शेष मुसलमान इस शीघ्रता के साथ तलवारें हाथ में लिये आगे बढ़े

कि अंगरेजी सेना को दुबारा बन्दूकें भरने या सम्हालने तक का अवकाश न मिल सका। बन्दूकों को छोड़ कर दोनों ओर से तलवारों की लड़ाई शुरू हो गई। कैम्पबेल घायल हो गया। अंगरेजी सेना के इस दल को भी विवश होकर काश्मीरी दरवाजे की ओर भाग जाना पड़ा। कैम्पबेल ने बाद में कहा भी था कि यदि मुझे उस समय सहायता मिल जाती और समय पर बारूद के थैले मेरे पास आ जाते तो मैं उस दिन दिल्ली नगर की जामे मस्जिद को अवश्य उड़ा देता। इस प्रकार राजधानी दिल्ली में १४ सितम्बर का सग्राम समाप्त हुआ।

दिल्ली में अंगरेजी सेना के प्रवेश का यह पहला दिन था। पहले ही दिन उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनसे उनके दौत खट्टे हो गये थे क्योंकि उस दिन का सग्राम अत्यन्त भयानक रहा। अंगरेजी सेना और विश्वकारियों की सेना ने बड़े साहस और अभूतपूर्व वीरता के साथ रण भूमि में एक एक इञ्च भूमि के लिए अपने और शत्रु दोनों के रक्त को पानी के समान बहा देने में कुछ भी सङ्कोच न किया। अंगरेजों की ओर के चार मुख्य सेनापतियों ने कुछ भी सङ्कोच न किया जिनमें सब से अधिक वीर सेनापति निकल्सन २३ सितम्बर को अस्पताल में मर गया। कम्पनी के ६६ अफसर और १०४ सैनिक उस दिन के सग्राम में मारे गये। कहा जाता है कि विश्वकारियों की ओर लगभग १५०० आदमी मरे किन्तु इतने पर भी चार महीने तक घेरा डाले रहने के बाद राजधानी दिल्ली नगर की दीवार के अन्दर कम्पनी की सेना ने साहस और वीरता के साथ प्रवेश कर ही लिया। फिर उन्हें कोई भी रोक सकने में समर्थ न हुआ। उन सबों को रोकने के लिये

जितने भी प्रयत्न और युद्ध किये गये वे सब दुर्भाग्य के कारण विप्लवकारियों के अनुकूल न होकर प्रतिकूल ही होते गये। जिन अंगरेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न किया जा रहा था वही अंगरेज विजयी होकर हर्ष और उत्साह के साथ नित्य आगे बढ़ने लगे।

इसलिये इस घटना के बाद दिल्ली में और जितने संग्राम हुए उन सब सभ्रामों का वर्णन अधिक विस्तार के साथ करने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही समझ लेना चाहिए कि इसके बाद विप्लवकारियों की ओर अधिक अव्यवस्था बढ़ने लगी। कुछ सेना तुरन्त दिल्ली छोड़ कर चली गई और कुछ १५ सितम्बर से २४ सितम्बर तक दिल्ली नगर की एक-एक इञ्च भूमि के लिए देश के शत्रु अंगरेजों की सेना से नित्य सभ्राम करती रही। इन सभ्रामों में भी कम्पनी की सेना के लगभग चार हजार सैनिक मारे गये। कहा जाता है कि इन सभ्रामों में विप्लवकारियों के हताहतों की संख्या अंगरेजी सेना के हताहतों से कुछ अधिक ही थी।

धीरे-धीरे राजधानी दिल्ली नगर का तीन चौथाई भाग कम्पनी के अधिकार में आ गया। अब विप्लवकारियों के लिए बड़ा ही भयानक समुद्र उपस्थित हो गया। न विजय की आशा रही और न जीवन की आशा की जा सकती थी। जो जिस स्थान पर रह गया था उसी स्थान से अपने जीवन की घड़ियों को गिनने लगा था। जिधर दृष्टि जाती थी उधर ही दिल्ली नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ भी हो दिल्ली के तीन चौथाई भाग पर अंगरेजों का अधिकार होते ही १९ सितम्बर

की रात को मुहम्मद बख्त खॉ सम्राट बहादुरशाह से भेंट करने के लिये गया। जाते ही उसने सम्राट को हिम्मत दिलाई और इस प्रकार कहा—

“दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी हमारा कुछ अधिक नहीं बिगड़ा। तमाम मुल्क मे आग लगी हुई है आप अंगरेजों से हार स्वीकार न कीजिये। आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिये। सामरिक दृष्टि से दिल्ली की अपेक्षा कई अन्य स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। इनमे से किसी पर भी जम कर हमे युद्ध जारी रखना चाहिये। मुझे विश्वास है कि अन्त मे हमारी विजय होगी।”

मुहम्मद बख्त खॉ की इन बातों से सम्राट बहादुरशाह कुछ अशक तक सहमत हो गया था और दूसरे दिन सबेरे फिर मिलने के लिये उसे बुलाया। दूसरी ओर अंगरेजों ने अपने गुप्त सहायक मिर्जा इलाहीबख्श पर इस बात के लिए जोर दिया कि तुम किसी प्रकार बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक लो। इस कार्य के लिये मिर्जा इलाहीबख्श से बहुत बड़े इनाम का वादा किया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि जब तक भारत मे अंगरेजी शासन रहा तब तक मिर्जा इलाही बख्श के वंशजों को बारह सौ रुपये माहवार पेन्शन मिलती रही।

मुहम्मद बख्त खॉ के चले जाने के बाद अंगरेजों के पदाये हुए पाठ के अनुसार मिर्जा इलाहीबख्श ने सम्राट बहादुरशाह को समझाते हुए कहा—“विप्लव के सफल होने की अब कोई आशा नहीं हो सकती इसलिए बख्त खॉ के साथ जाने मे

सिवाय कष्टों और हानि के आपको और कुछ न मिलेगा और यदि आप यहाँ रह जायेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि अगरेजो से मिलकर सब बातों की सफाई करा दूँगा, आप और आपके कुटुम्बियों पर किसी प्रकार की आँच न आने पायेगी ।”

दूसरे दिन सवेरा होते ही सम्राट बहादुरशाह हुमायूँ के मकबरे में गया । उसने मुहम्मद बख्त खॉ को वही पर मिलने के लिए अपने दूत से बुला भेजा । मकबरे से पूर्व की ओर यमुना नदी के रेती में बख्त खॉ को सेना पड़ी हुई थी । पूर्व दिशा की ओर के दरवाजे से ही मुहम्मद बख्त खॉ सम्राट बहादुरशाह से मिलने के लिए मकबरे में आया । सम्राट बहादुरशाह से मिलने पर मुहम्मद बख्त खॉ ने उसे फिर समझाने का प्रयत्न किया । लिखा है कि मुहम्मद बख्त खॉ सम्राट बहादुरशाह को अपने साथ ले जाना चाहता था और सम्राट बहादुरशाह भी मुहम्मद बख्त खॉ के साथ जाना चाहता था किन्तु अगरेजो का गुप्त सहायक सम्राट बहादुरशाह का विश्वासघातक ममधी मिर्जा इलाहीबख्श सम्राट बहादुरशाह को रोक लेने के लिए तरह-तरह के ढाँव पेच खेल रहा था ।

अन्त में मिर्जा इलाहीबख्श ने जब देखा कि और कोई ढाँव-पेच नहीं चल सकता तब उसने मुहम्मद बख्त खॉ पर यह दोषारोपण किया कि मुहम्मद बख्त खॉ चँकि पठान है इसलिए वह मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और छल करके सम्राट बहादुरशाह को जाल में फँसाना चाहता है । इस पर बात की बात में यहाँ तक बात बढ़ी कि निरपराध मुहम्मद बख्त खॉ ने सम्राट बहादुरशाह के समधी

मिर्जा इलाहीबख्श पर अपनी तलवार खीच ली। किन्तु स्वयं सम्राट बहादुरशाह ने उसका हाथ रोक लिया। इसमें संदेह नहीं कि मिर्जा इलाहीबख्श का कोई न कोई तीर नेक किन्तु बूढ़े तथा निर्बल सम्राट बहादुरशाह पर अवश्य चल गया। अन्त में सम्राट बहादुरशाह ने मुहम्मद बख्त खॉ से इस प्रकार के शब्दों में कहा—

“बहादुर ! मुझे तेरी हर बात का यकीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसन्द करता हूँ। मगर जिस्म की कूबत ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूँ। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दे और बिस्मल्लाह कर ! यहाँ से जा और कुछ काम करके दिखा ! मैं नहीं, मेरे खान्दान में से नहीं, न सही, तू या और कोई हिन्दुस्तान की लाज रखे ! मेरी फिक्र न कर, अपने फर्ज को अंजाम दे !”*

इस स्थल पर यदि यह मान लिया जाय कि सन् १८५७ में होनेवाले दिल्ली नगर के समस्त स्वाधीनता-संग्रामों का मुकुट सम्राट बहादुरशाह था और हाथ पैर हजारों हिन्दू तथा मुसलमान वीर सिपाही थे तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि दिल्ली के उन समस्त स्वाधीनता-संग्रामों का दिल और दिमाग मुहम्मद बख्त खॉ था। कहने की आवश्यकता नहीं की सम्राट बहादुरशाह के इस उत्तर से मुहम्मद बख्त खॉ का दिल टुकड़े-टुकड़े होकर चूर-चूर हो गया। उसने सम्राट बहादुरशाह से कुछ भी

*ख्वाजा हसन निजामी रचित “देहली की जॉकनी” नामक पुस्तक से।

न कहा और चुपचाप गर्दन नीची करके मकबरे के पूर्वी दरवाजे से बाहर निकल गया।

मुहम्मद बख्त खॉ के जाते ही विश्वासघातक मिर्जा इलाहीबख्श ने दूसरी ओर मुँह फेर लिया और मकबरे के पश्चिमी दरवाजे से बाहर निकल कर तुरन्त अँगरेजों को सूचना दे दी कि इसी समय चुपके से पश्चिमी दरवाजे पर आकर सम्राट बहादुरशाह को गिरफ्तार कर लिया जाय। सूचना के पाते ही तुरन्त कप्तान हडसन पचास सवार लेकर मकबरे के पश्चिमी दरवाजे पर पहुँच गया। लिखा है कि जिस समय सम्राट बहादुरशाह को मालूम हुआ कि हडसन उसे गिरफ्तार करने आया है उस समय उसने एक बार मिर्जा इलाहीबख्श की ओर घूर कर देखा और कहा—“तुमने मुझको बख्त खॉ के साथ जाने से रोका। × × ×” इस पर मिर्जा इलाहीबख्श ने कुछ भी उत्तर न दिया केवल सर झुकाये चुपचाप खड़ा रहा। कही-कही यह भी लिखा हुआ है कि सम्राट बहादुरशाह ने फिर इरादा किया कि किसी को भेजकर मुहम्मद बख्त खॉ को बुलाया जाय किन्तु समय हाथ से निकल चुका था।

सम्राट बहादुरशाह, बेगम जीनतमहल और शहजादे जवाँबख्त को चुपचाप पूर्वी दरवाजे से गिरफ्तार करके लाल किले में कैद कर दिया गया और राजधानी दिल्ली का नगर १३४ दिन के कठिन परिश्रम और युद्ध के बाद फिर से पूरी तरह अँगरेजों के अधिकार में आ गया। इसके बाद मुहम्मद बख्त खॉ अपनी समस्त सेना के साथ यमुना को पार कर किसी और तरफ निकल गया और आज तक किसी को उसका या उसकी सेना का कुछ भी पता न चल सका।

जनरल विल्सन और कप्तान हडसन की राय थी कि सम्राट बहादुरशाह को तुरन्त मार डाला जाय किन्तु अभी तक अधिकांश विस्वकारी और भारत अंगरेजो के अधिकार में न आया था, इसलिए अनेक अंगरेज अफसरों की राय इसके विरुद्ध थी। अन्त में बड़े सम्राट बहादुरशाह को केवल कैद कर दिया गया।

सम्राट बहादुरशाह की गिरफ्तारी के बाद उसके दो बेटे मिर्जा अखजर सुलतान और एक पोता मिर्जा अबूबकर हुमायूँ के ही मकबरे में बाकी रह गये थे। कुछ अंगरेज इतिहास लेखकों का कथन है कि इन लोगों ने विस्व के आरंभ के दिनों में अंगरेज औरतो और बच्चों की हत्या में भाग लिया था। मिर्जा इलाहीबख्श ने हडसन को सूचना दी कि ये लोग अभी तक हुमायूँ के मकबरे में मौजूद हैं। सूचना को पाते ही हडसन तुरन्त मकबरे की ओर फिर लौटा। बात कि बात में तीनों शहजादों को कैद कर लिया। मिर्जा इलाहीबख्श ने शाहजादों को समझाकर इस कार्य में पूरी सहायता दी। शाहजादों को रथों में सवार करा कर हडसन अपने सवारों, मिर्जा इलाहीबख्श और उसके दो मुसाहिबों सहित शहर की ओर चला।

जब शहर एक मील रह गया तब हडसन ने रथों को रोक देने के लिए कहा। उसके आदेश को सुनते ही रथ रोक दिये गये। रथों के रुकते ही तीनों शहजादों को रथों से उतरने के लिए कहा गया, उनके कपड़े उतरवाये गये और फिर अचानक समीप के अपने एक सैनिक के हाथ से बन्दूक लेकर हडसन ने उन तीनों को तीन फायर में वहीं पर समाप्त कर दिया। गोलियाँ तीनों शहजादों की छाती में लगी और वे “हाय दगा”

कह कर वहीं पर ठण्डे हो गये। मिर्जा इलाहीबख्श ने तीनों शाहजादों से वादा कर लिया था कि मैं जनरल विल्सन से कह कर तुम्हारे प्राणों की भिन्ना दिलवा दूँगा।

इसके बाद शाहजादों के मस्तक काटकर सम्राट बहादुरशाह के सामने लाये गये। मस्तकों को सामने रखते हुए हडसन ने सम्राट बहादुरशाह से कहा, “कम्पनी को और से यह आपके लिए भेट है जो वर्षों से बन्द थी।” ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है कि सम्राट बहादुरशाह ने जवान बेटों और जवान पोते के कटे हुए मस्तक देखे तो आश्चर्यजनक धैर्य के साथ मुँह फेर लिया और कहा—अलहम्दोलिल्लाह ! तैमूर की औलाद ऐसे ही सुखरू होकर बाप के सामने आया करती थी।” अर्थान् खुदा की तारीफ है। तैमूर की औलाद इसी प्रकार मुख उज्ज्वल करके बाप के सामने आया करती थी।

इसके बाद शाहजादों के कटे हुए मस्तक खूनी दरवाजे के सामने लाकर लटका दिये गये और धड़ कोतवाली के सामने टाँग दिये गये। अगले दिन इन तीनों लाशों को यमुना में फेंकवा दिया गया।

शाहजादों की हत्या के सम्बन्ध में एक और इससे भी कहीं अधिक भयङ्कर घटना का वर्णन दिल्ली में किया जाने लगा था। पहली बात तो यह थी कि जिन शाहजादों को धोखा देकर हडसन ने इस प्रकार मारा था उनकी सख्या तीन न होकर चार थी। चौथा जिसका नाम नहीं लिया गया है वह शाहजादा अब्दुल्ला था। दूसरी मुख्य और विभत्स बात यह थी कि हत्यारे हडसन ने शाहजादों को गोली से मार कर तथा उनके मस्तकों को काटकर तुरन्त अपने चुल्लू में भर कर उनका गर्म गर्म रक्त पान

किया था और उसने कहा था कि यदि मैं इनका रक्त न पीता तो पागल हो जाता ।

यद्यपि इस प्रकार की वीभत्स और दानवी घटनाओं का वर्णन अंगरेजी इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता तथापि ख्वाजा हसन निजामी ने इसे अपनी उर्दू पुस्तक “देहली की जॉकनी” में लिख दिया है । इतना ही नहीं, इस सम्बन्ध में ख्वाजा हसन निजामी साहब का यह दावा है कि यह घटना बिल्कुल सच्ची है । ख्वाजा हसन निजामी का कथन है—“मैंने दिल्ली के सैकड़ों लोगों के मुँह से इस बात को सुना और इसके अलावा मिर्जा इलाहीबख्श के उन दो खास मुसाहिबों में से एक ने, जो मौके पर मौजूद थे और जिन्होंने इस घटना को अपनी आँखों से देखा था, खुद मेरे पिता से आकर यह तमाम वाकया सुनाया ।”

जहाँ तक हो सका, हमने दिल्ली के शेष वृत्तान्त को पाठकों के सामने साधारण रीति से रख दिया और आशा है कि इन सब वर्णनों से पाठकों के लिए विश्व के इतिहास का ज्ञान स्पष्ट हो जायगा और राजनीति का मार्ग भी प्रकाशपूर्ण हो जायगा ।

दिल्ली-निवासियों पर अंगरेजों के अत्याचार

दिल्ली नगर में अंगरेजों का अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली-निवासियों के ऊपर कम्पनी की सेना ने किस किस प्रकार के अत्याचार किये उन सब का वर्णन करना हमारे लिए शेष रह गया है किन्तु हम यह नहीं चाहते कि उन सब घटनाओं का वर्णन विस्तार के साथ किया जाय। आशा है कि हमारे पाठक भी हमारे इस विचार से अवश्य सहमत होंगे अतएव हम कम्पनी की सेना के अत्याचारों का वर्णन संक्षेप में कर रहे हैं—

इन अत्याचारों के सम्बन्ध में लार्ड एलफिन्सटन ने सर जान लारेन्स को लिखा था— (दिल्ली-नगर को घेरने और जीतने के बाद अर्थात्) “मोहासरो के खत्म होने के बाद से हमारी सेना ने जो अत्याचार किये हैं उन्हें सुन-सुन कर हृदय फटने लगता है। मित्र अथवा शत्रु में भेद किये बिना ये लोग सब से बदला ले रहे हैं। जूट में तो वास्तव में हम नादिरशाह से भी बढ़ गये।”

मोहासरे के दिनों में किले के छतों में बीमार और घायल सिपाहियों का एक अस्पताल था। कम्पनी की सेना जिस समय किले के अन्दर घुसी, उस समय जितने घायल और बीमार अस्पताल के अन्दर दिखाई दिये उन सब को उसने अपनी बन्दूक की गोलियों से सदा के लिए रोगमुक्त कर दिया। और

भी अनेक स्थानों में जहाँ घायल और बीमार पाये गये, तुरन्त मार डाले गये ।

माण्टगुमरी मार्टिन लिखता है—“जिस समय हमारी सेना ने शहर में प्रवेश किया उस समय जितने नगर-निवासी शहर की दीवारों के भीतर पाये गये, उन्हें उसी स्थान पर संगीनों से मार डाला गया । आप समझ सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी अधिक रही होगी, जब मैं आपको यह बताऊँ कि एक एक भकान में चालीस-चालीस और पचास आदमी छिपे हुए थे । ये लोग विल्वकारी न थे, बल्कि शहर के रहने वाले थे जिन्हें हमारी दयालुता और क्षमाशीलता पर विश्वास था । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन अत्याचारों से उनका भ्रम दूर हो गया ।”

इसी से यह अनुमान किया जा सकता है कि किस प्रकार निरपराध नागरिकों को अंगरेजी सेना ने दिल्ली में मौत के घाट उतारा और किस प्रकार अपने दानवता के कार्यों का बीभत्स प्रदर्शन किया । इसके बाद एक दूसरा अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है—“दिल्ली के निवासियों के कत्लेआम का खुले एलान कर दिया गया । यद्यपि हम जानते थे कि उनमें से बहुत से हमारी विजय चाहते हैं ।” ऐसे उस समय की कम्पनी के अंगरेज अफसर अत्याचारी थे ।

दिल्ली नगर की इस भयंकर परिस्थिति और निर्मम हत्याकांड के दिनों में केवल एक दिन के दृश्य का वर्णन करते हुए लार्ड राबर्ट्स लिखता है—“प्रातःकाल हम लाहौरी दरवाजे से चढ़नी चौक गये, तो हमें शहर वास्तव में मुर्दों का शहर दिखाई पड़ता था । हमारे घोड़ों की टापों के सिवाय कोई

दूसरी आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। कोई जीवित मनुष्य नहीं दिखाई पड़ा। सभी ओर मुर्दों का विछौना बिछा हुआ था, जिसमें से कुछ मरने से पहले पड़े सिसक रहे थे। हम चलते हुए बहुत धीरे-धीरे बातें करते थे और इस डर से कि कहीं हमारी आवाज से मुर्दें न चौंक पड़े। एक ओर मुर्दों की लाशों को कुत्ते खा रहे थे और दूसरी ओर लाशों के आस-पास गिद्ध जमा थे जो उनके मांस नोच-नोच कर स्वाद लेते हुए खा रहे थे और हमारे चलने की आवाज से उड़-उड़ कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते थे। सारांश यह कि इन मुर्दों की दशा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकना बड़ा कठिन काम है। जिस प्रकार इनको देखने से हमें डर लगता था उसी प्रकार हमारे घोड़े इन्हें देख कर डर से बिचकते और हिनहिनाते थे। लाशें पड़ी सड़ रही थीं। उनके उस प्रकार पड़े रहने और सड़ने से (दिल्ली की) हवा में बीमार करने वाली दुर्गन्ध फैल रही थी।”

ख्वाजा हसन निजामी साहब लिखते हैं कि—“इस दिल्ली के कत्लेआम में पुरुष, स्त्री अथवा छोटे-बड़े की कोई तमीज न की जाती थी। इनमें से अनेक मनुष्यों को भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाएँ दे देकर मारा गया।” लेफ्टिनेन्ट माजेण्डी ने अपनी आँखों देखी एक घटना का वर्णन करते हुए कहा है कि—“सिखों और गोरों ने मिलकर एक घायल मनुष्य के चेहरे को पहले अपनी संगीनों से बार-बार बीधा और फिर धीमी आँच के ऊपर उसे जिन्दा भून दिया। उसका मांस चटका, लपटों में काला हो गया और जलते हुए मांस की भयानक दुर्गन्ध ने ऊपर उठ कर हवा की विषैला बना दिया।”

टाइम्स पत्र के संवाददाता सर विलियम रसल ने लिखा है कि “मैंने एक आदमी की जली हुई हड्डियाँ कई दिनों के बाद मैदान में पड़ी हुई देखी।”

मावरे टामसन ने सर हेनरी काटन से कहा था कि—“दिल्ली में मुसलमानों को नंगा करके जमीन से बाँधकर सिर से पाँव तक जलते हुए ताँबे के टुकड़ों से अच्छी तरह दाग दिया गया था।”

इन लोगों को मारने से पहले कभी कभी उनको धर्मभ्रष्ट करने की घृणित क्रिया भी की जाती थी। एक अँगरेज पाद्री की विधवा ने लिखा है कि बहुत से मनुष्यों को पकड़कर पहले उनसे संगीनों के बूते गिरजा में भाड़ू दिलवाई गई और बाद में सबको फौसी दे दी गई।

रसल लिखता है कि “कभी-कभी मुसलमानों को मारने के पहले उन्हें सुअर की खालों में सी दिया जाता था, उन पर सुअर की चर्बी मल दी जाती और फिर उनके शरीर जला दिये जाते थे और हिन्दूओं को बल-पूर्वक धर्मभ्रष्ट किया जाता था।”

इन रोमाँचकारी घटनाओं के सम्बन्ध में अधिकता के साथ डड्डरण देना हमारे लिए अत्यन्त खेद उत्पन्न करने वाला विषय हो रहा है केवल इतना ही समझ लेना चाहिये कि अँगरेजों द्वारा किये गये अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि एक बार समस्त दिल्ली नगर खाली और वीरान हो गया, बल्कि उन इने गिने घरानों को छोड़कर जिनसे कम्पनी की सेना को सहायता मिलती रही, शेष समस्त नगर-निवासियों को, जो कत्ल अथवा फौसी से बच सके, बल-पूर्वक नगर से बाहर निकाल दिया गया। इतिहास लेखक होम्स लिखता है—

“दिल्ली के निवासियों ने विप्लकारियों के अपराधों का कई

गुना अधिक प्रायश्चित्त कर डाला। हजारों की सख्या में पुरुष स्त्री और बच्चे बिना घर-द्वार के इधर-उधर के इलाके में घूम रहे थे, जिन्होंने कि कोई अपराध नहीं किया था। अपना जो कुछ माल असबाब नगर में अपने पीछे छोड़ गये थे, उससे वे सदा के लिये हाथ धो चुके थे क्योंकि (अंगरेजी सेना के) सिपाहियों ने गली-गली और घर-घर जाकर प्रत्येक मूल्यवान वस्तु को खोज कर निकाल लिया था और जो कुछ सामान वे उठा कर न ले जा सकते थे उसे उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर डाला था।”

दिल्ली नगर पर अधिकार करने के बाद तीन दिन तक कम्पनी की सेना के सब सिपाही नगर भर में लूट करते रहे। इसके लिए अंगरेज अफसरों की ओर से उन्हें पहले ही माफी मिल चुकी थी। उसके बाद ‘प्राइज ऐजेन्सी’ नाम से सरकारी मुहकमा खोल दिया गया, जिसका काम यह था कि शहर के तमाम घरों के हर तरह के माल-असबाब को एक स्थान पर इकट्ठा करके उसे नीलाम या गोदामों में रखे और रुपया फौज में बाँट दे। इस मुहकमे ने मकानों के अन्दर की किताबें, बर्तन चारपाई, चक्की, गड़ा हुआ माल वा दौलत, यहाँ तक कि मकानों के किवाड़ और उनके अन्दर का लोहा और पीतल तक अर्थात् कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ी।

ख्वाजा हसन निजामी साहब ने लिखा है कि “कर्नल बर्न को शहर का फौजी गवर्नर नियुक्त किया गया, उसने एक दस्ता फौज का इस काम के लिए नियुक्त किया कि जहाँ कहीं आबादी पाओ मर्द, औरत और बच्चों को घरों के असबाब के साथ गिरफ्तार करके ले आओ। आगे-आगे मर्द असबाब के गट्टर सर पर रखे हुए पीछे-पीछे उनकी औरतें रोती हुई पैदल और

बच्चों को साथ लिए हुए चल रही थीं। जिन औरतों को कभी पैदल चलने की आदत न थी वे ठोकरे खा-खाकर गिरती थी, बच्चे गोद से गिरे जाते थे और सिपाही क्रूरता के साथ उन्हें आगे चलने के लिये धक्के देते थे।

जब वे लोग कर्नल बर्न के सामने पेश होते तब हुक्म दिया जाता कि असबाब में जितनी कीमती चीजे हैं ढूँढ़ कर जव्त कर लो, व्यर्थ चीजे वापस दे दो। यह हो चुकने पर दूसरा हुक्म यह दिया जाता है कि इनको सिपाहियों की देख रेख में लाहौरी दरवाजे तक ले जाओ और शहर से बाहर निकाल दो। ऐसा ही किया जाता और वे लोग लाहौरी दरवाजे के बाहर धक्के देकर निकाल दिये जाते।

दिल्ली शहर के बाहर इस प्रकार हजारों मर्द, औरते और बच्चे असहाय नंगे पाँव नंगे सर और भूखे प्यासे फिर रहे थे। × × × सैकड़ों बच्चे भूख-भूख चिल्लाते हुए माताओं की गोद में मर गये। सैकड़ों माताएँ छोटे बच्चों का दुःख न देख सकने के कारण उन्हें अकेला छोड़कर कुएँ में डूब मरी।

नगर के भीतर हजारों औरतें ऐसी थीं कि जिस समय उन्होंने सुना कि कम्पनी की सेना आती है उस समय बेइज्जती और मुसीबतों से बचने के लिए कुओं में गिरने लगी और इतनी अधिक गिरी कि डूबने को पानी तक न रहा। अनेक कुएँ औरतों की लाशों से भर गये।

सेना के एक अफसर का बयान है कि—“हमने इस प्रकार की सैकड़ों औरतों को कुओं से निकाला जो लाशों के ढेर के कारण डूबी न थी और जिन्दा पड़ी थी अथवा बैठी थी। जिस समय

हमने उन्हें निकालना चाहा उस समय वे चीखने लगीं कि खुदा के लिए हमको हाथ न लगाओ और गोली से मार डालो हम शरीफ बहू-बेटियों हैं, हमारी इज्जत खराब न करो। X X X”

दिल्ली की स्त्रियों का यह भय कारण से शून्य न था। उनको यह भय था कि कहीं हमारी इज्जत पर हमला न किया जाय, उचित कारणों से ही युक्त था। ख्वाजाहसन निजामी साहब लिखते हैं कि “फराशखाने के किसी कुएँ से दो औरते जिन्दा निकाली गईं। एक जवान किन्तु अन्धी और दूसरी बुढ़िया। बुढ़िया ने बयान किया कि मेरे एक ही बेटा था, उसे घर में घुस कर कत्ल कर दिया गया। जब वह कत्ल किया जा रहा था, कुछ सिपाहियों ने उसकी अन्धी बहिन के सतीत्व पर हमला करना चाहा, किन्तु वह अपने घर के कुएँ से परिचित थी दौड़ कर उसमें गिर पड़ी, उसके साथ ही मैं भी कुएँ में कूद पड़ी। हम दोनों पानी में गोते खा रहे थे कि किसी ने अन्दर आकर हमें निकाल लिया।” दिल्ली में ऐसे भी लोग थे जिनके घर की स्त्रियों की आबरू पर जिस समय हमला होने लगा उस समय उन्होंने अपने हाथ से अपनी बहुओं और अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली।”

दिल्ली नगर के रहने वालों के धार्मिक भावों को आघात पहुँचाने के लिए जिस प्रकार मन्दिरों और मस्जिदों को नष्ट किया गया उसके सम्बन्ध में ख्वाजाहसन निजामी साहब अपनी पुस्तक दिल्ली की ‘जॉकनी’ में लिखते हैं कि :—

“अंगरेजी सेना के मुसलमान सिपाही हिन्दुओं के मन्दिरों में घुस गये और उनको भ्रष्ट कर डाला और हिन्दू सिपाहियों ने

मस्जिदों को नष्ट कर दिया। दिल्ली की बड़ी जामे मस्जिद में सिख सिपाहियों की बारिग बनाई गई। पाखाने और पेशाबखाने भी इसी के अन्दर थे। मीनारों के नीचे हलवे पकाये जाते थे और सुअर भी काट कर पकाये जाते थे। अंगरेजों के साथ कुत्ते अन्दर पड़े फिरते थे। एक मस्जिद जीनतुल मस्जिद को गोरों का मिसकौट घर बनाया गया और नवाब हमीदअली खॉ की मशहूर मस्जिद में गधे बंधे जाते थे। किले के नीचे एक बड़ी आलीशान मस्जिद अकबराबादी थी जो गिरा कर बिलकुल जमीन के बराबर कर दी गई। इसी तरह और बहुत सी छोटी छोटी मस्जिदों का खात्मा हुआ।”

जब कम्पनी की सेना के अत्याचारों से दिल्ली नगर उजड़ गया तब फिर उसे नये ढंग से बसाने के उपाय किये जाने लगे। चूँकि अंगरेजों ने सभी को दिल्ली से निकाल दिया था इसलिए किसी में इतना साहस न था कि वह अपनी इच्छा से दिल्ली नगर में आबाद हो सकता। एक तो उन सबों ने यह सब अपनी आँखों से देख लिया था कि अंगरेज कितने कठोर और अत्याचारी थे। दूसरे कत्लेआम और फॉसी की सजाओं से भी वे भयभीत हो चुके थे। तीसरे उन्होंने यह भी देख लिया था कि जिन लोगों का भरोसा अंगरेजों पर था, उन लोगों को भी कम्पनी के अत्याचारों का शिकार बनना पड़ा। चौथे वे यह समझ चुके थे कि जब तक अंगरेज दिल्ली में हैं तब तक उनकी बहू-बेटियों की इज्जत भी नहीं बच सकेगी। पाँचवें वे इस बात से भी डरते थे कि कम्पनी के सिपाहियों से सताये जाने पर भी उनकी कुछ भी सुनवाई न होगी। इसीलिए कोई भी दिल्ली में नहीं आना चाहता था।

धीरे-धीरे समय बीतता गया। अंगरेजी सेना के सिपाहियों ने अपने अत्याचारों को कुछ कम कर दिया। दिल्ली को बसाना उचित समझा जाने लगा इसलिए सब से पहले कुछ हिन्दुओं से अधिक जुर्माने ले लेकर उन्हें अपने अपने मुहल्लों में बसने की आज्ञा दे दी गई और उन पर सतर्क दृष्टि रखने को भी विशेष प्रबन्ध कर दिया गया। उन सबों के बस जाने और साधारण जीवन बिताने के ढंग समझ लेने पर दूसरे लोगों को भी बसाने के लिए उपाय किया जाने लगा। मार्च सन् १८५८ के पहले कोई भी मुसलमान दिल्ली नगर में नहीं घुसने पाता था किन्तु मार्च सन् १८५८ में मुसलमानों को पास लेकर नगर में बसने के लिए आज्ञा मिल गई। हिन्दुओं के समान मुसलमान भी आकर बसने लगे किन्तु फिर भी सन् १८५९ तक मुसलमानों के अपने सभी मकान कम्पनी की सरकार के ही अधिकार में थे और उन सब मुसलमानों पर विशेष रूप से सतर्क दृष्टि रखी जाती थी। वे एक सीमा के ही अन्दर चल-फिर सकते थे क्योंकि दिल्ली नगर में किसी भी मुसलमान को बिना किसी अफसर के पास चलना फिरना मना था।

साधारणतया यह कहावत प्रसिद्ध है कि दिल्ली किसी की नहीं है और यह कई बार उजड़ी और फिर बसी। इन सब घटनाओं से प्रमाणित है कि कहावत में सच्चाई अवश्य है। जब जब भारतवर्ष में नई राज्य-क्रान्ति अथवा नवीन विद्रोह को चरम-सीमा तक पहुँचाने का प्रयत्न सफलता के साथ किया गया तब-तब दिल्ली की यही दशा हुई। कुछ भी हो, अब हम दिल्ली के सम्बन्ध में और अधिक कहना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। केवल इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि कम्पनी की

सरकार ने जिस प्रकार दिल्ली को उजाड़ा था उसी प्रकार न सही तो कम से कम कुछ अशों में अपनी सन्दिग्ध नीति के अनुसार उसे फिर से बसाने का प्रयत्न किया और उसी प्रयत्न का फल आधुनिक दिल्ली नगर है।

इस प्रसंग को यहीं से समाप्त कर हम दूसरे प्रसंग की ओर पाठकों का ध्यान ले जाना उचित समझते हैं। वह यह है कि किस प्रकार कम्पनी की सरकार ने दिल्ली के राजवंश का अन्त किया अथवा इसे यों समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार सम्राट बाबर और सम्राट अकबर के उत्तराधिकारियों या वंशजों का अन्त हुआ।

जिस समय भारतवर्ष में कम्पनी की सरकार के विरुद्ध आन्दोलन और विद्रोह का आरम्भ हुआ उस समय दिल्ली लाल किले के अन्दर सम्राट बहादुरशाह के बन्धु-बान्धवों और कुटुम्बियों की सख्या बहुत ही बड़ी थी। इनमें से अनेक शाहजादों को पकड़ कर बिना किसी न्याय के फॉसी पर लटका दिया गया। कुछ ऐसे राजवंश के पुरुष फॉसी पर लटका दिये गये जिनसे विद्रोह का न तो कोई सम्बन्ध था और न जो किसी आन्दोलन में भाग ले सकने के योग्य ही थे। उनका यदि कुछ अपराध था तो केवल इतना ही कि वे दिल्ली के राजवंश के थे।

इस कथन के ५ माण में शाहजादे मिर्जा और कैसर का नाम लेना उचित है। शाहजादा मिर्जा कैसर सम्राट शाहआलम का एक बेटा था और इतना बूढ़ा था कि विद्रोह में किसी भी प्रकार का भाग लेना उसके लिए सर्वथा असम्भव था। उस निर्दोष बूढ़े शाहजादे मिर्जा कैसर को भी फॉसी दे दी गई।

इसी प्रकार शहजादे मिर्जा मुहम्मदशाह को फॉसी पर लटका दिया गया। शहजादा मिर्जा मुहम्मदशाह सम्राट अकबरशाह का पोता था और आजीवन गठिया का रोगी रहने के कारण सीधा खड़ा तक न हो सकता था। वह भी न्याय की दृष्टि से निरपराध था।

इनके अतिरिक्त कुछ शहजादों को जेल में रखा गया और उनसे चक्कियाँ पिसवाई गईं। जब वे शहजादे अपना काम पूरा न कर पाते थे तब उन पर कोड़ों की मार पड़ती थी। वे इतनी निर्दयता के साथ मारे जाते थे कि वे उस जीवन से मरण को ही अच्छा समझने लगे। अन्त में वही हुआ। कठोर हृदय वाले कम्पनी के अत्याचारी कर्मचारियों के अत्याचारों से वे एक प्रकार अधमरे-से हो गये। फिर भी उन पर कोड़ों की मार पड़ती ही रही। इस प्रकार वे बेचारे थोड़े ही दिनों में कोड़ों की मार खा-खाकर हमेशा के लिए जीवन को दुःखी बनाने वाली कैद से छुटकारा पा गये अर्थात् ससार को छोड़कर परलोक को सिधार गये।

सम्राट बहादुरशाह का एक बेटा मिर्जा कोयाश एक दिन दिल्ली के समीप किसी जंगल में घोड़े पर सवार खड़ा दिखाई पड़ा। उसके सिर पर टोपी न थी और चेहरे पर धूल पड़ी हुई थी। हडसन उसकी खोज में बहुत दिनों से घूम रहा था फिर भी वह उसे न पा सका। उसके बाद आज तक पता न चला कि मिर्जा कोयाश का क्या हुआ।

अनेक शहजादे और शहजादियों दिल्ली से बाहर इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। बहादुरशाह की एक बेटी राबेया बेगम थी। जब वह भूखी मरने लगी तब उसने हुसेनी नामक दिल्ली के

एक बावर्ची से शादी कर ली। बहादुरशाह की एक दूसरी बेटी फातमा सुल्तान ईसाई पादरियों के एक लड़कियों के स्कूल में नौकरी करने लगी। जो शाहजादियों अपने घरों में बैठकर हजारों रुपये की खैरात करती थी वे थोड़े ही दिनों में भीख माँगती दिखाई देने लगी।

इस प्रकार दिल्ली का राजवंश नष्ट किया गया और सम्राट बहादुरशाह, बेगम जीनतमहल और शहजादे जवाबख्त को कैद करके रंगून भेज दिया गया। रंगून में अंगरेजों की कैद में ही सन् १८६३ में सम्राट बहादुरशाह की मृत्यु हुई और उसके साथ-साथ दिल्ली के राजवंश का शेष चिन्ह संसार से मिट गया। इतना ही नहीं भारतवर्ष के लिए भी दुर्भाग्य और सौभाग्य का संघर्ष उपस्थित हो गया जो कि आज भी वर्तमान है।

रक्त का समुद्र लखनऊ

विप्लव के प्रधान केन्द्र दिल्ली के सम्बन्ध की घटनाओं का वर्णन करने से कुछ पूर्व हम अपने पाठकों को लखनऊ से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का वर्णन बता चुके हैं। जिस लखनऊ को हम दिल्ली के कारण छोड़ चुके थे उसी लखनऊ की ओर अब हम फिर अपने पाठकों को ले जाना चाहते हैं। यदि वीरता और बलिदान की दृष्टि से देखा जाय तो सन् १८५७-५८ के स्वाधीनता संग्राम में दिल्ली की अपेक्षा लखनऊ का स्थान कहीं ऊँचा दिखने लगेगा। यदि दिल्ली से लखनऊ का पद अधिक ऊँचा न होता तो यह स्वप्न में भी सम्भव न था कि दिल्ली नगर के विप्लवकारियों तथा सम्राट बहादुरशाह के पतन होने के छः महीने बाद तक अवध और लखनऊ में स्वाधीनता का झण्डा फहराता रहता और कम्पनी की सरकार के अत्याचारी अंगरेज चुपचाप यों ही बैठे रह जाते।

हमारे पाठक कदाचित् चिनहट को न भूले होंगे और यह भी भली भाँति ध्यान में रखें होंगे कि किस प्रकार विसवकारियों ने यहाँ के युद्ध में अंगरेजों को पराजित किया था। हो सकता है कि पाठकों में से कुछ ऐसे भी हों, जो चिनहट और चिनहट के संग्राम को भूल गये हो अतएव संक्षेप में पुनरावृत्ति कर देना अनुचित न होगा।

सन् १८५७ की ३१ मई और १० जून के बीच केवल लखनऊ

शहर के एक भाग को छोड़ कर शेष समस्त अवध अंगरेजी राज्य के पंजे से निकल गया था। लार्ड डलहौजी के बयान से जिस वाजिदअली शाह को अत्याचारी और प्रजा को दुःख देने वाला प्रमाणित किया जा रहा था उसी बयान को काटते हुए अवध के निवासियों ने कम्पनी के भण्डे को फाड़ कर फेंक दिया था और वाजिदअलीशाह को फिर से अवध के सिंहासन पर बैठाने का वीरोचित प्रयत्न किया था और वे सब अवध के भिन्न-भिन्न भागों से आ आकर लखनऊ की बेगम हजरत महल के भण्डे नीचे जमा होने लगे। जब कानपुर में अंगरेज हार गये और उनके हार जाने का समाचार २८ जून को लखनऊ पहुँचा तब लखनऊ के विसवकारियों ने अंगरेजों पर आक्रमण करने के लिए चिनहट नामक स्थान पर चढ़ाई की। २९ जून को लोहे के पुल के पास कम्पनी की सेना से अत्यन्त घमासान संग्राम हुआ और उस संग्राम में अंगरेजों की हार हुई।

उसी चिनहट नामक स्थान के युद्ध में विजयी होने के बाद अवध के निवासियों ने अंगरेजी कैदी नवाब वाजिदअलीशाह के पुत्र बिरजिस कदर को लखनऊ के सिंहासन पर बैठा दिया। नवाब बिरजिस कदर चूँकि उस समय नाबालिग था इसलिए अवध के शासन की बागडोर बिरजिस कदर की माँ बेगम हजरत महल के हाथों में सौंप दी गई। अवध में जितने छोटे बड़े जमींदार थे उन सबों ने और अवध की समस्त प्रजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बेगम हजरत महल को अपनी अधीश्वरी स्वीकार कर लेने में ही अपना और अपने अवध का गौरव समझ लिया।

अवध की अधीश्वरी और नवाब बिरजिस कदर की माँ बेगम हजरत की प्रशंसा करते हुए रसल लिखता है—“बेगम

में बड़ी पराक्रमशीलता और योग्यता दिखाई देती। × × × बेगम ने हमारे साथ निरन्तर युद्ध करने की घोषणा कर दी है। इन रानियों और बेगमों की पराक्रमशीलता को देखकर मालूम होता है कि जनानखानो में रहकर भी ये विशेष रूप से अधिक मात्रा में क्रियात्मक मानसिक शक्ति अपने अन्दर पैदा कर लेती हैं।

अवध के शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते ही बेगम हजरत महल ने सबसे पहले अवध के नये नबाब बिरजिसकद्व की ओर से अवध के स्वतन्त्र हो जाने का शुभ सन्देश भिन्न-भिन्न प्रकार के उपहारों के साथ सम्राट बहादुरशाह की सेवा में दिल्ली भेजा। इसके बाद उसने राजा बालकृष्णसिंह को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया और उस कठिन समय में राज्य के समस्त मुद्दों को नये सिरे से सुव्यवस्था कर एक बार समस्त अवध में शान्ति और सुशासन को स्थापित कर दिया। उसके सुशासन की सभी ओर से प्रशंसा की जाने लगी।

जिन दिनों बेगम हजरत महल के सुशासन से अवध में शान्ति का बोलबाला था उन्ही दिनों अवध में रहने वाला अंगरेजों का समूह और अवध का समस्त अंगरेजी राज्य लखनऊ की रेजिडेन्सी के अन्दर कैद किया जा चुका था। रेजिडेन्सी के बाहर समस्त अवध में कम्पनी के शासन का कोई भी चिन्ह शेष न रह गया था। इतना ही नहीं, विप्लवकारियों की सेना ने रेजिडेन्सी को भी अपने घेरे में ले लिया था।

सन् १८५७ की २० जुलाई को लखनऊ के विप्लवकारियों की सेना ने रेजिडेन्सी के ऊपर हमले करने आरम्भ कर दिये।

कई दिनों तक दोनों ओर धुआँधार गोलियों की वर्षा होती रही और कई बार रेजिडेन्सी के ऊपर का अँगरेजी भण्डा टूट कर गिर पड़ा, किन्तु प्रत्येक बार इसके स्थान पर अँगरेजों का नया भण्डा लगा दिया गया। लखनऊ की रेजिडेन्सी के अन्दर सिख सिपाही जी तोड़ कर अँगरेजों की सहायता कर रहे थे। बाहर के भारतीय सैनिकों ने रेजिडेन्सी के सिखों को अनेक बार समझा कर अपनी ओर करने का प्रयत्न किया किन्तु वे अपने प्रयत्न में असफल ही रहे।

लखनऊ के इन्हीं सत्राओं में एक दिन अवध का अँगरेज चीफ कमिश्नर सर हेनरी लारेन्स जो पंजाब के चीफ कमिश्नर सर जान लारेन्स का भाई था, विप्लवकारियों की गोली का निशाना बन गया और उसके परलोकवासी होते ही मेजर बैक्स ने तुरन्त अपने आपको आगे बढ़ाया और उसके रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए उसके स्थान को ग्रहण कर लिया। थोड़े ही दिनों के बाद मेजर बैक्स की भी वही दशा हुई अर्थात् उसको भी एक गोली लगी और वह भी ससार से चल बसा। रेजिडेन्सी के अँगरेजों में बड़ी उदासी छा गई। जीवन-रक्षा का कोई भी उपाय उन अँगरेजों की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी हो, विप्लवकारियों के हाथ में इस प्रकार पड़ जाने से युद्ध करके मरना ही रेजिडेन्सी के अँगरेजों ने उचित समझा। इसलिए जीवन और मरण, दोनों को ही समान समझकर ब्रिगेडियर इंगलिस ने मेजर बैक्स के स्थान को ग्रहण किया। लिखा है कि इतने ही समय में विप्लवकारियों ने रेजिडेन्सी की दीवार के कई भाग उड़ा दिये थे और रेजिडेन्सी के भीतर के भी अनेक मकान विप्लवकारियों की गोलियों से गिरकर

ढेर हो गये थे। यही एक मुख्य कारण था जिससे कि रेजिडेन्सी के अन्दर रहने वाले अँगरेजों की दशा बड़ी ही चिन्ताजनक हो गई थी। सभी ओर से उन्हें नैराश्य ही नैराश्य दिखाई पड़ रहा था और वहाँ पर उन अँगरेजों का कोई सहायक भी न था।

इस स्थल पर यह भी बतला देना उचित होगा कि रेजिडेन्सी में रहने वाले अँगरेजों ने सहायता के लिए बार-बार अपने गुप्तदूत कानपुर भेजे, जिनमें से कई दूत गिरफ्तार कर लिये गये। २५ जुलाई को ब्रिगेडियर इगलिस को सूचना मिली कि जनरल हैबलाक सहायता के लिए कानपुर से रवाना हो चुका है और पाँच या छः दिनों के भीतर लखनऊ पहुँच जायगा। किन्तु वह सूचना यों ही सूचना बन कर रह गई। लखनऊ के अँगरेजों की सहायता के लिए पाँच छः दिनों के अन्दर कोई नहीं आया बल्कि जनरल हैबलाक के आने के स्थान पर विप्लवकारियों ने फिर एक बार रेजिडेन्सी पर बड़े ही भयानक रूप से चढ़ाई कर दी। रेजिडेन्सी की दीवार का एक बहुत बड़ा भाग टूट कर गिर पड़ा। उसके गिर जाने पर वही रेजिडेन्सी की दीवार के ऊपर तलवारों और संगीनों की भयानक लड़ाई होने लगी। कहा जाता है कि उस दिन की लड़ाई में विप्लवकारियों ने कई अँगरेज सिपाहियों की सगीने तक छीन लीं। किन्तु इस प्रकार बड़े साहस और अपूर्व वीरता के साथ रुद्ध करने पर भी अंत में विप्लवकारी फिर शहर की ओर लौट गये।

इस लड़ाई के बाद विप्लवकारियों ने १८ अगस्त को तीसरी बार रेजिडेन्सी पर चढ़ाई की। इस समय तक कानपुर से लखनऊ के अँगरेजों की सहायता के लिए आनेवाले जनरल

हैवलाक और उनकी सेना का कहीं पता तक न था। लखनऊ की रेजिडेन्सी के अँगरेज नित्य उनकी राह देखा करते थे। इतने में ब्रिगेडियर इंगालिस को जनरल हैवलाक का एक पत्र मिला, जिसमें स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार लिखा हुआ था—“मैं अभी कम से कम २५ दिन और लखनऊ नहीं पहुँच सकता।” इस पत्र को पढ़ते ही रेजिडेन्सी के अँगरेजों की घबराहट चरम सीमा तक पहुँच गई। रेजिडेन्सी के अन्दर खाने-पीने का जितना सामान था वह सब कम हो गया था और यहाँ तक कम हो गया था कि सब को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था किन्तु इतने पर भी जीवन की कोई आशा न थी। सभी चिन्ता से अधीर होने लगे थे।

इस प्रकार परिस्थिति के अनुकूल होते हुए भी विप्लवकारी इतने समय में न तो रेजिडेन्सी पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सके और न वहाँ के समस्त अँगरेजों को कैद या खत्म कर सके। इन्हीं सब बातों की आलोचना पूर्ण रूप से कर लेने के बाद यही कहना पड़ता है कि रेजिडेन्सी और रेजिडेन्सी के अँगरेजों को जो अभी तक लखनऊ के विप्लवकारी न जीत सके इसका मुख्य कारण या तो यह था कि दिल्ली के समान लखनऊ में भी एक योग्य और प्रभावशाली सेनापति की कमी थी, या उन्हें कदाचित्त यह विश्वास था कि भोजन-सामग्री की कमी और गोलों की आग से घबराकर अँगरेज स्वयं आत्म-समर्पण कर देंगे। दूसरी ओर अँगरेज जो कि लखनऊ की रेजिडेन्सी में एक प्रकार जीवन और मरण के बीच में अपना समय बिता रहे थे, वे जनरल हैवलाक और उनकी सेना के लिए आतुर हो रहे थे। इसलिए अब हम

भी जनरल हैवलाक और उनकी सेना की ओर अपने पाठकों का ध्यान ले जाना चाहते हैं।

जनरल हैवलाक की बड़ी इच्छा थी कि वह तुरन्त लखनऊ जाकर वहाँ के अंगरेजों की सहायता करे कानपुर से लखनऊ पहुँचना कोई कठिन काम न था। इन दोनों शहरों का फासला ४५ मील से भी कम है। जनरल हैवलाक को पूरा भरोसा था कि वह दो चार दिनों में ही लखनऊ पहुँच जायगा। इसलिए लखनऊ के विसवकारियों द्वारा पराजित किये गये अंगरेजों की सहायता करने के लिए २२ जुलाई सन् १८५७ को जनरल हैवलाक कानपुर से डेढ़ हजार फौज और तेरह तोपों के साथ निकल पड़ा और बड़े उत्साह के साथ अवध में प्रवेश करने के लिए गंगा को पार किया। किन्तु जैसे ही उसने गंगा को पार किया वैसे ही उसे विपरीत लक्षण दिखाई पड़ने लगे। अवध की वीर-भूमि में पैर रखते ही जनरल हैवलाक की समझ में आ गया कि लखनऊ तक पहुँच सकना सरल नहीं है!

वास्तव में बात यह थी कि अवध की एक-एक इंच जमीन में स्वाधीनता के भावों की विकट अग्नि दहक रही थी। अवध के जमींदारों को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि लखनऊ के अंगरेजों की सहायता करने के लिए कानपुर से जनरल हैवलाक बड़े दलबल के साथ चला आ रहा है वैसे ही एक-एक जमींदार ने अपने अधीन सौ-दो सौ या अधिक मनुष्य जमा करके हैवलाक को रोकने का निश्चय कर लिया। कानपुर से लखनऊ तक जो मार्ग गया है उस मार्ग के प्रत्येक ग्राम के ऊपर स्वाधीनता का हरा झण्डा फहरा रहा था। यह सब देखकर जनरल हैवलाक

और उसके सहायक सैनिक आगे बढ़ने का साहस खोने लगे थे। किसी प्रकार वे सब उन्नाव तक पहुँचे।

प्रसंगवश पाठकों से मुझे लेखक को भी उन्नाव से सम्बन्ध रखने वाली सन् १८५७ की घटनाओं का सुना हुआ वृत्तान्त बतलाना पड़ रहा है। अभी तक सन् १८५७ के विसव का समस्त वृत्तान्त नहीं जाना जा सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि साधारणतया इतिहास के साहित्य में प्रधान-प्रधान पुरुष, प्रधान-प्रधान स्थान और प्रधान-प्रधान घटना को ही स्थान दिया जाता है और शेष पुरुष, स्थान और घटनाएँ यों ही विस्मृति के अंधकार में पड़ी रह जाती हैं।

संसार की प्रगति इतनी शीघ्रता से सृष्टि-चक्र के साथ हो जाती है कि उसे सिवा अपने भविष्य के और कुछ नहीं दिखाई देता। अपने अतीत को वह (संसार की प्रगति) इस प्रकार भूल जाना चाहती है जिस प्रकार कृतधन, विषय-लोलुप, स्वार्थी और नीचों की संगति में रहने वाला पुरुष अपने उपकारी के उपकार को, सामाजिक जीवन की साधारण लोक-भर्यादा को, शरण में आये हुए व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य को और अपने माता-पिता की सेवा करने की भावना को भूल जाता है। कुछ भी हो, जब जो वस्तु प्राप्त हो और उपयोगी हो तब उसे अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए।

अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। मेरा जन्म जिला उन्नाव तहसील पुरवा, परगना घाटमपुर, थाना बारा के अन्तर्गत एक छोटे से गाँव में हुआ है। यह गाँव कानपुर से लगभग २० मील और उन्नाव से भी लगभग २० मील की दूरी पर पूर्व की ओर है। समीप ही श्री गंगा जी की धारा प्रवाहित है। इस

गाँव के उत्तर में भीलों-चौड़ी बबूल के पेड़ों वाली हरी-भरी चरोखर जमीन है। छोटे-छोटे खेरे भी बसे हुए हैं जिनमें नरघुआ मुख्य है। दक्षिण में केवल श्री गंगा जी की धारा है। पूर्व में भागूखेरा, पिपरासर, हुडुहरा और दरियाबाद आदि गाँव में और पश्चिम में गढ़वा, चन्दनपुर, पाही, बैदरा, खरौली, सातन, बेथर, अचलगंज और उन्नाव आदि स्थान हैं। इसी प्रकार पश्चिम में ही चन्दनपुर, बोल्लुआगाड़, निबई आदि को पार कर कानपुर भी आ जाता है।

जिस भाग में मेरा जन्म-स्थान है उसे अवध में बैसवाड़ा भी कहते हैं क्योंकि अवध के इसी भाग में बैस ठाकुरों (क्षत्रियों) की ही आबादी अधिक है। जिस प्रकार बैस ठाकुर रणबाँकुरे तब थे और अब भी है उसी प्रकार वहाँ के ब्राह्मण भी रण बाँकुरे तब भी थे और आज भी है। स्वाभिमानी पुरुषों को जन्म देने वाला अवध का यही भाग है और इसी भाग में पूर्व-जन्म के संस्कार से मुझको भी जन्म लेना पड़ा। अपने जन्म के स्थान का पूरा परिचय दे चुकने के बाद भी एक बात अभी तक मैंने नहीं बतलाई। वह बात कुछ नहीं है, केवल जन्म स्थान के गाँव का नाम है, किन्तु नाम बतलाने के पूर्व एक किम्बदन्ती का उल्लेख कर देना भी आवश्यक हो रहा है।

इसी पुस्तक में एक स्थान पर कानपुर की वेश्या अजीजन का नाम आ चुका है। पाठक कदाचित् इसे न भूले होंगे। इसी वेश्या अजीजन के सम्बन्ध में हम यह भी कह चुके हैं कि सन् १८५७ के विस्रव में इसका भी नाम प्रसिद्ध हो चुका है। यह वही वेश्या है जिसके सम्बन्ध में किसी-किसी इतिहास लेखक ने

यहाँ तक लिख दिया है कि वह हथियार बाँधती थी, घोड़े पर सवार होती थी, बिजली की तरह शहर की गलियों और छावनी में दौड़ती फिरती थी। घायल सिपाहियों को दूध और मिठाई बाँटती थी। इतना ही नहीं अंगरेजी किले की ठीक दीवार के नीचे लड़ने वालों के हौसले भी बढ़ाया करती थी। ऐसी यह कानपुर की वेश्या अजीजन थी।

लोगों का कहना है कि इसी वेश्या अजीजन की कई पीढ़ी पूर्व करीमन नाम की एक वेश्या कानपुर में हो चुकी है। कानपुर के किसी बड़े रईस से उसका लगाव था। उस रईस की धर्मपत्नी को यह पसन्द न था कि उसका पति करीमन वेश्या से किसी भी प्रकार का लगाव रखे इसलिये उन दोनों में विच्छेद करने का वह नित्य नया उपाय सोचा करती थी। किसी समय उस स्त्री ने यह भी घोषणा करा दी कि जो कोई उसके पति और करीमन के बीच विच्छेद पैदा करा देगा उसे बहुत-सा धन इनाम में दिया जायगा। उसकी उस घोषणा को सुनकर एक कथा-वाचक ब्राह्मण-युवक उस रईस की स्त्री के पास गया और विच्छेद कराने का बीड़ा उठा लिया। उस ब्राह्मण युवक ने भर्तृहरि के शृंगार का वर्णन उस रईस को सुनाया। जब रईस उस ब्राह्मण-युवक पर अटूट श्रद्धा करने लगा तब उसने भर्तृहरि शतक के वैराग्य का वर्णन आरम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वह रईस विरक्त हो गया और लोक-मर्यादा के अनुसार अपने गार्हस्थ्य जीवन को बिताने लगा। इधर वेश्या करीमन कानपुर छोड़ने को तैयार हो गई। नौका पर सवार होकर वह कानपुर के पूर्व की ओर चल पड़ी। चलते-चलते वह बहुत दूर आ गई और एक ऐसे स्थान पर आ

गई जहाँ कि गंगा जी के तट पर एक ब्रह्मचारी साधु रहता था। घटनाक्रम से उसी समय स्नान करने के लिए वह ब्रह्मचारी साधु गंगा की धारा में प्रवेश कर गया और तैरने के लिए धारा की कुछ गहराई की ओर बढ़ा किन्तु प्रवाह की तीव्रता के कारण वह अपने को सम्भाल सकने में समर्थ न हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह धारा के प्रवाह में वह चला और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। ठीक ऐसे ही समय में वेश्या करीमन की नौका उसके पास पहुँच जाती है। वह ब्रह्मचारी साधु नया जीवन लाभ करता है दोनों परस्पर परिचित होते हैं। रात्रि में ब्रह्मचारी साधु की कुटी में विश्राम करने के लिए वेश्या करीमन अपने साथियों के साथ रुक जाती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मचारी साधु के उपदेशों से प्रभावित होकर वह भी वैराग्य ले लेती है और वहीं रहने लगती है। उसके पुण्य और प्रताप से उसी स्थान पर एक गाँव बस गया और उस गाँव का नाम 'करमी' रखा गया। इसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी और उसी के पास एक गाँव 'गढ़ेवा' भी है जहाँ वैस ठाकुरों की प्राचीन गद्दी थी, और जिसमें वैस ठाकुरों की संख्या अधिक थी। दोनों गाँवों में इतना मेल-जोल था कि सभी कामों में एक मत होकर लोग आगे बढ़ा करते थे। इसीलिए 'करमी-गढ़ेवा' का नाम भी सन् १८५७ के विप्लव में स्थानीय जनता के निकट विशेष महत्व का स्थान रखता है और यही गाँव मेरे जन्म का स्थान है।

इतना कहकर अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं अर्थात् कानपुर से चलकर लखनऊ की ओर बढ़नेवाले जनरल हैबलाक को रोकने के लिए उन्नाव में भिन्न मार्गों और उन्नाव

के भिन्न भागों से आ-आकर विसवकारी जमा होने लगे। जिला उन्नाव के तहसील खास और तहसील पुरवा के विसवकारी उन्नाव में आकर जमा हुए। तहसील हसनगंज और सफीपुर के आधे विसवकारी बिठूर घाट से लखनऊ जानेवाली सड़क के कई भागों में जमा होकर अपने शत्रु अंगरेजों का सामना करने की प्रतीक्षा करने लगे।

उन्नाव खास में प्रतीक्षा करनेवाले विसवकारियों में यह प्रसंग चलने लगा कि जो सबसे पहले अंगरेजों को हरा देगा उसे शुद्ध और उच्च वंश का मान लिया जायगा अन्यथा जो कायरता दिखायेगा उसे कलंकित और नीच वंश का समझा जायगा। इसीलिए सभी आगे बढ़कर मोर्चा जीतना चाहते थे।

सन् १८५७ के विषयक लेखों से प्रमाणित है कि जनरल हैबलाक को कानपुर से लखनऊ के मार्ग में सब से पहली लड़ाई उन्नाव में ही लड़नी पड़ी। बड़ी भयानक लड़ाई हुई। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों और वैस ठाकुरों ने मिलकर अंगरेजों के दौल खट्टे कर दिये। लखनऊ बढ़ने के जितने इरादे जनरल हैबलाक के मन में थे, वे सब बात की बात में समाप्त हो गये। किसी प्रकार प्राणों की रक्षा भी कर सकना कठिन हो गया। अंगरेज और अंगरेजों का साथ देने वाले सैनिक मैदान छोड़ कर भाग गये। इधर विप्लवकारी सिपाही भी अपने-अपने निश्चित स्थानों को चले गये। उन सबों के उन्नाव से चले जाने पर जनरल हैबलाक अपने छिपे हुए सैनिकों को संकेत के साथ जमाकर ज्यों-त्यों कर पुनः आगे बढ़ा। आगे बढ़कर कुछ दूर तक जाते ही बशीरतगंज में विप्लवकारी फिर मिल गये। उनके मिलते ही पुनः भयानक युद्ध होने लगा। कहा जाता है कि उन्नाव और

बशीरतगंज के ये दोनों ही सग्राम २९ जुलाई सन् १८५७ को हुए थे और इन दोनों ही सग्रामों में जनरल हैवलाक की सेना का एक छठा भाग खत्म हो गया था। इसके बाद ३० जुलाई सन् १८५७ को जनरल हैवलाक को बशीरतगंज से भी पीछे हटकर अपनी सेना सहित मगड़वारे में आकर ठहरना पड़ा।

इधर लोगों के मुंह से जब नाना साहब ने यह समाचार सुना कि जनरल हैवलाक विसवकारियों से अंगरेजों की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ लखनऊ की ओर जा रहा है तब उसने फिर एक बार कानपुर पर आक्रमण करने की तैयारी करना आरम्भ कर दिया। विवश होकर जनरल हैवलाक को अपने बचे हुए सैनिकों के साथ मगड़वारे में ४ अगस्त तक ठहर जाना पड़ा। आगे बढ़ने का कोई उपाय था ही नहीं।

इसके बाद किसी प्रकार साहस करता हुआ जनरल हैवलाक फिर लखनऊ की ओर बढ़ा। विसवकारियों ने उसे फिर बशीरतगंज में ही घेर लिया। दोनों ओर के सैनिक बड़ी बहादुरी के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। इस दिन के संग्राम में भी जनरल हैवलाक के तीन सौ सैनिक मारे गये। उसके साथ के डेढ़ हजार सिपाहियों में से अब केवल साढ़े आठ सौ शेष बच रहे। हतोत्साह होकर जनरल हैवलाक ने आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया और निरुपाय अवस्था में उसे फिर दूसरी बार गंगा की ओर पीछे लौट आना पड़ा। ऐसे उन्नाव के रहने वाले विसवकारी थे और इन्हीं विसवकारियों के साहस तथा वीरता से अवध की भूमि आज भी अपने को गौरवान्वित समझती है। उन्नाव का एक-एक बच्चा उस समय अपने देश के शत्रु अंगरेजों के लिए भयङ्कर हो रहा है। अवध की जिस

ग्रामीण जनता के पराक्रम के सम्बन्ध में इतिहास लेखक इस क्रम से कम अवध निवासियों के युद्ध को हमें स्वाधीनता का युद्ध मानना पड़ेगा ऐसा लिखता है वह ग्रामीण जनता जिला उन्नाव की ही ग्रामीण जनता थी ।

११ अगस्त को जनरल हैबलाक तीसरी बार बशीरतगञ्ज की ओर बढ़ा । इस बार उसने बड़ी वीरता के साथ बढ़ने का निश्चय कर लिया था किन्तु जैसे ही वह बशीरतगञ्ज के समीप पहुँचा वैसे ही उन्नाव की ग्रामीण जनता ने उस पर धावा बोल दिया । दशों दिशाओं में 'मारो फिरंगी को ! मारो फिरंगी को यही शब्द गूँजने लगे । ऐसी भयानक लड़ाई हुई मानो मारने वाले साक्षात् सब का संहार करने वाले प्रलयकार के ही स्वरूप बन गये हों । तीसरी बार का यह मोर्चा बढ़ा ही कठिन हो गया । उन्नाव निवासियों अथवा अवध निवासियों के साथ का यह मोर्चा जनरल हैबलाक के लिये घातक सा सिद्ध होने लगा । किसी प्रकार इस बार भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह पीछे हट आया और मगड़वारे में आकर रुक गया ।

इतने ही समय के अन्दर नाना साहब के समीप सागर, ग्वालियर आदि स्थानों की पर्याप्त सहायता पहुँच चुकी थी । सहायता को पाते ही नाना साहब ने अपने मन में फिर से नये साहस का संचार किया और नवीन पराक्रम को अपनाते हुए किसी दूसरे स्थान में गंगा को पार कर पुनः एक बार कानपुर पर आक्रमण कर दिया । जनरल नील उस समय भी कानपुर में ही था किन्तु वह नाना साहब का सामना भली भँति कर सके ऐसी शक्ति और इतनी सेना उसके पास न थी । उसने तुरन्त जनरल हैबलाक को नाना साहब के इस प्रकार आक्रमण कर

देने की सूचना भेज दी। सूचना के ही कारण अब जनरल हैवलाक के लिए लखनऊ की ओर बढ़ सकना सभी प्रकार से असम्भव हो गया इसलिए १२ अगस्त को पुनः गंगा पार कर जनरल हैवलाक को कानपुर लौट आना पड़ा।

जैसे ही जनरल हैवलाक ने गंगा को पार किया वैसे ही उन्नाव की ग्रामोण जनता ने अपने को विजयी समझ लिया। हड़हा, अचलगंज, बेथर, पड़री सतान, सिकन्दरपुर, कोल्हुआ-गाड़, खरौली, बैदरा, वरमी-गढ़ेवा दरियाबाद अलीपुर और डौंडियाखेरा आदि ग्रामों के निवासी परस्पर हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाने लगे। इतना ही नहीं, उन सबों में से कुछ विस्वकारी लखनऊ भी पहुँचकर इस शुभ समाचार को सुना आये। परिणाम यह हुआ कि जनरल हैवलाक के गंगा पार जाते ही अवध-निवासियों के हौसले कई गुने अधिक हो गये।

इतिहास लेखक इन्स लिखता है :—“अवध से हमारी सेना के लौट आने का परिणाम यह हुआ जिसका हैवलाक को निःसन्देह अनुमान तक न था। ताल्लुकदारों ने प्रकट रूप से इसका अर्थ यह समझ लिया कि अंगरेजों ने अवध का प्रान्त छोड़ दिया है। अब उन्होंने लखनऊ दरबार को यथाविधान अपनी रचनात्मक सरकार स्वीकार कर लिया और यह भी सत्य है कि उस सरकार की सहायता के लिए वे स्वयं लखनऊ नहीं पहुँचे किन्तु फिर भी लखनऊ दरबार की जिन आज्ञाओं का पालन उन सबों ने आज तक नहीं किया था, उन सभी आज्ञाओं का पालन वे सब अब करने में तत्पर हो गये थे। लखनऊ दरबार ने जितने-जितने सैनिक इन सबों से माँगे थे, उतने-उतने सैनिक को अब इन सबों ने संग्राम के लिए लखनऊ भेज दिये थे।”

इतिहास के विद्वानों का यह मत है कि अवध के ताल्लुकेदारों पर जो यह आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा था उसका सम्बन्ध श्रेय उन्नाव और बशीरतगंज में अंगरेजों को हराने वाले वीरों का ही है। यही एक कारण है कि उन्नाव की ग्रामीण जनता में साहस, पराक्रम, वीरता स्वाभिमान और निर्भीकता के गुण स्वभाव से ही अद्भुत थे ऐसा मानना पड़ेगा। लोगों का भी कहना है कि अवध के जमींदारों और ताल्लुकेदारों पर पड़ने वाला वह अभूतपूर्व प्रभाव वास्तव में उन्नाव और बशीरतगंज की ग्रामीण जनता की वीरता का ही परिणाम था।

इधर जैसे ही जनरल हैवलाक ने कानपुर में प्रवेश किया वैसे ही उसको सूचना मिली कि नाना साहब ने फिर से बिठूर पर अपना अधिकार जमा लिया है। इस सूचना को पाने पर १७ अगस्त को जनरल हैवलाक ने नाना साहब की सेना पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर के सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे ही अतएव एक घमासान युद्ध के बाद दोनों ओर की सेनाओं को पीछे हट जाना पड़ा। इस प्रकार उस युद्ध में पीछे हटने और पीछे हटने के कारणों पर पूर्ण रूप से विवेचना करने पर जनरल हैवलाक को विश्वस्त-सूत्र से पता चल गया कि यमुना के किनारे कालपी में भी नाना साहब ने एक विशाल सेना को जमा कर रखा है और वह सेना सभी प्रकार से अंगरेजों को जीत सकने में समर्थ है। इसीलिए कहना पड़ता है कि अगर जनरल हैवलाक लखनऊ की ओर चला गया होता तो नाना साहब के लिए तुरन्त कानपुर में पुनः अपना अधिकार जमा लेने में न तो कोई विशेष कठिनाई होती और न अधिक समय ही लगता। जनरल नील के पास तो कुछ था ही नहीं। जैसे ही नाना साहब अपने

सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण करते वैसे ही वह मैदान छोड़ देता ।

कुछ भी हो, यमुना के किनारे कालपी में नाना साहब की छिपाई हुई सेना का पता मालूम करते ही जनरल हैवलाक घबरा गया । घबराहट की दशा में ही उसने तुरन्त इस सदेश को कलकत्ते भेज दिया कि “हम लोग एक भयंकर आपत्ति में पड़े हुए हैं । अगर और अधिक सेना सहायता के लिए न पहुँची तो अंगरेजी सेना को लखनऊ का विचार छोड़ कर इलाहाबाद चले जाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है ।”

जब तक कालपी में नाना साहब अंगरेजों को जीतने की तैयारी कर रहा था तब तक जनरल हैवलाक के सदेशों पर चार ही सप्ताह के भीतर सर जेम्स ऊटरम और अधिक सेना लेकर जनरल हैवलाक की सहायता करने के लिए १५ सितम्बर को कलकत्ते से कानपुर पहुँच गया ।

सर जेम्स ऊटरस के कानपुर पहुँचते ही जनरल हैवलाक के जी में जी आया । नये साहस और नये विचारों का संचार भी होने लगा । उसने कानपुर की रक्षा के लिए थोड़ी-सी सेना कानपुर में ही छोड़ दी । बची हुई सेना को लेकर २० सितम्बर को उसने फिर कानपुर से लखनऊ की ओर प्रस्थान किया । पाठकों को स्मरण होगा कि सब से पहले २५ जुलाई को लखनऊ के लिये जनरल हैवलाक ने गंगा को पार किया था । दो महीने लगातार प्रयत्न करने पर भी वह उन्नाव की ग्रामीण जनता द्वारा पराजित किये जाने के कारण लखनऊ की ओर बढ़ने में सफल नहीं हो सका और विवश होकर उसे बार-बार कानपुर

की ओर लौट आना पड़ा। किन्तु इस स्थल पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि २५ जुलाई की जैसी अंगरेजी सेना थी वैसी सेना २० सितम्बर की न थी। उस समय की सेना में और इस समय की सेना में अर्थात् २५ जुलाई को लखनऊ जाने वाली अंगरेजी सेना में और २० सितम्बर को लखनऊ जाने वाली अंगरेजी सेना में बहुत अधिक अंतर था। उस समय जनरल हैवलाक अकेला ही लखनऊ की ओर बढ़ने के लिए कानपुर से चल पड़ा था किन्तु इस समय उसकी सहायता के लिए नील ऊटरम, कूपर और आयर जैसे चार-चार अनुभवी सेनापति भी उसके साथ थे। ढाई हजार अंगरेज, सिखों की एक पलटन और एक से एक अच्छी तोपें भी हैवलाक के साथ थीं।

ऐसी तैयारी के साथ कानपुर से चला था जनरल हैवलाक और इधर अवध के विचार और व्यवस्था ही दूसरे प्रकार की हो चुकी थी। वास्तव में बात यह थी कि अवध के कई सरहद्दी ताल्लुकेदारों ने यह समझ लिया था कि कम्पनी की सेना ने सदा के लिए अवध का प्रान्त छोड़ दिया है और अपने इसी विचार के विश्वास पर उन सबों ने इतने ही समय के अन्दर अपने-अपने समस्त सैन्य-दल को लखनऊ भेज दिये थे। इतने पर भी उन्नाव, बशीरतगंज इत्यादि स्थानों पर अवध के निवासियों ने पहले के ही समान एक-एक पग जमीन पर कम्पनी की सेना का विरोध किया। परन्तु विवशता इस बात की थी कि लड़ने वाले तो सभी लखनऊ चले गये थे, शेष जो ग्राम-निवासी थे, वे बिना किसी नेता के लड़ रहे थे और उस दशा में भी उसके पास हथियारों की भी बड़ी कमी थी। उन ग्राम-निवासियों का अकेलापन और हथियारों का अभाव घातक

सिद्ध होने लगा कि वे बेचारे आमीण कम्पनी की इस विशाल और हथियारों से सुसज्जित तथा सुव्यरिथित सेना का सामना करने पर भी सफल न हो सके। परिणाम यह हुआ कि कम्पनी से विरोध करने वाले जमींदारों और ग्राम के निवासियों की लाशों से समस्त मार्ग पट गया। अंगरेजों ने जिस-जिस गाँव पर स्वाधीनता के हरे झण्डे को फहराते हुए देखा उस-उस गाँव में आग लगा कर उसे राख का ढेर बना दिया। रास्ते में जितनी नदियाँ पड़ती थी वे सब दोनों ओर के सैनिक के मरने-कटने और घायल होने के कारण रक्त के रंग से लाल हो गईं। इस प्रकार मारते-काटते और आग लगाते हुए अर्थात् किसी न किसी प्रकार मार्ग को चीरते हुए २३ सितम्बर को कम्पनी की सेना लखनऊ के समीप आलमबाग नामक स्थान पर पहुँच गई। यहाँ आने पर हैबलाक ने साँस ली।

आलमबाग लखनऊ का वह स्थान था जहाँ अंगरेजों की सेना पहुँचने से पहले ही विप्लवकारियों की एक पलटन ठहरी थी। यही एक कारण था कि उस दिन अर्थात् २३ सितम्बर को दिन भर रात भर और अगले दिन भयानक रूप से घमासान संग्राम हुआ। ठीक ऐसे ही समय दिल्ली में अंगरेजों का पुनः अधिकार हो जाने का समाचार लखनऊ पहुँचा और इसी समाचार से अंगरेजों के हौसले अधिक बढ़ गये।

हर्ष और विषाद के बीच में रात बीतने लगी। इसके बाद २५ सितम्बर को प्रातःकाल हुआ। जब अंगरेजों की सेना ने यह समझ लिया कि आलमबाग के विप्लवकारी सैनिकों को जीत सकना लोहे के चने के तोड़ने से भी अधिक कठिन काम है तब

उन सबों ने आलमबाग से थोड़ी दूर हटकर कुछ चक्कर से रेजीडेन्सी की ओर बढ़ना चाहा। उनके उस अभिप्राय को समझ कर लखनऊ के विप्लवकारी सैनिकों ने मुड़कर उन सबों पर गोले बरसाने आरम्भ कर दिये। फिर भी अंगरेजी सेना गोलों की इस भयानक बौछार में से वीरता के साथ निकलती हुई चारबाग के पुल तक आ पहुँची।

पुल के दूसरे पार लखनऊ का शहर था। यही एक कारण था कि चारबाग के पुल के ऊपर विप्लवकारियों और अंगरेजों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। पुल के इस पार अंगरेजों की सेना थी और पुल के उस पार विसवकारियों की सेना थी। दोनों ही ओर से बड़े जोरों के साथ गोले बरसने लगे। दोनों ही ओर के हताहतों की संख्या अधिक ऊँची हो गई। इसी चारबाग के संग्राम में जनरल हैवलाक का एक पुत्र भी बड़ी वीरता के साथ लड़ रहा था। अंगरेजों की ओर जानों की हानि बहुत अधिक हुई फिर भी अन्त में अंगरेजी सेना अपनी और विपक्षी की लाशों के ऊपर से पुल को पार कर गई। पुल के दूसरी ओर जाने पर भी एक-एक कदम पर संग्राम होता रहा। इन्हीं संग्रामों में से एक स्थान पर अर्थात् खास बाजार में किसी विप्लवकारी की गोली जनरल नील की गर्दन में आकर लगी और उस गोली के लगते ही जनरल नील तुरन्त धरती पर गिर पड़ा और परलोक को सिधार गया। जनरल नील की मृत्यु अंगरेजी सेना के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था किन्तु अंत में अंगरेजी सेना बढ़ते-बढ़ते रेजिडेन्सी के अन्दर पहुँच गई।

जैसे ही अंगरेजी सेना ने रेजिडेन्सी के अन्दर प्रवेश किया वैसे ही रेजिडेन्सी के अन्दर जितने अंगरेज थे सभी के हर्ष की

सीमा न रही । विप्लवकारियों द्वारा ८७ दिन के लगातार घिरे रहने के कारण रेजिडेन्सी के सात सौ आदमी मर चुके थे । उस समय वहाँ लगभग पांच सौ अंगरेज और चार सौ भारतीय सैनिक मौजूद थे जिनमे से अनेक घायल थे और हैवलाक की सेना मे जो कानपुर से चली थी, रेजिडेन्सी तक पहुँचते पहुँचते ७२२ आदमी मारे जा चुके थे । फिर भी लखनऊ रेजिडेन्सी के हुताश अंगरेजों की सहायता के लिए पहुँच जाना जनरल हैवलाक और उसके साथियों के लिए कुछ कम हर्ष की बात न थी किन्तु फिर भी एक बार पुनः जनरल हैवलाक को भयानक रूप से निराश होना पड़ा ।

वास्तव मे बात यह थी कि जनरल हैवलाक और उनके साथियों के रेजिडेन्सी पहुँच जाने पर भी विप्लवकारियों द्वारा रेजिडेन्सी घिरा ही रहा । वह समाप्त नहीं हो सका बल्कि हैवलाक के रेजिडेन्सी मे पहुँचते ही लखनऊ की विसवकारी सेना ने फिर एक बार रेजिडेन्सी को उसी प्रकार चारों ओर से घेर लिया जिस प्रकार जनरल हैवलाक के आने से पहले घेर रखा था । परिणाम यह हुआ कि जनरल हैवलाक और उसकी सेना अब स्वयं रेजिडेन्सी के अन्दर कैद हो गई और इस प्रकार रेजिडेन्सी के अन्दर कैदियों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई और लखनऊ का शेष नगर तथा अवध का समस्त प्रदेश पहले के ही समान स्वाधीन रहा ।

इन्ही दिनों सर कालिन कैम्पबेल कम्पनी की सेनाओं का नया प्रधान सेनापति । (कमाण्डर-इन-चीफ) नियुक्त होकर १३ अगस्त को कलकत्ते पहुँचा । मद्रास, बम्बई, लंका और चीन से बुलाकर कलकत्ते मे नई-नई अंगरेजी पलटने जमा की गईं ।

कासिम बाजार के कारखाने में नई तोपे डाली गईं। इस प्रकार की तैयारी करने में नवीन प्रधान सेनापति सर कालिन कैम्पबेल को दो महीने का समय लग गया पूर्ण रूप से तैयारी हो गई तब २७ अक्टूबर सन् १८५७ को जनरल हैवलाक और ऊटरम जैसे सेनापतियों तथा अन्य अंगरेजों को लखनऊ की रेजिडेन्सी वाली कैद से मुक्त कराने और लखनऊ को फिर से विजय करने के लिए कैम्पबेल स्वयं कलकत्ते से लखनऊ की ओर चल पड़ा। साथ ही साथ एक जहाजी बेड़ा भी कर्नल पावल और कप्तान पील के अधीन कलकत्ते से इलाहाबाद की ओर भेजा गया। कहा जाता है कि इस बेड़े को भी कई स्थानों पर विप्लवकारियों से लड़ना पड़ा और इन्हीं लड़ाइयों के स्थानों में किसी एक स्थान पर कर्नल पावल मारा गया।

इधर ३ नवम्बर को प्रधान सेनापति सर कालिन कैम्पबेल अपने दल बल के साथ कानपुर पहुँचा गया। कानपुर पहुँचते ही कैम्पबेल ने अत्यन्त विशाल पैमाने पर सेना जमा करने का काम आरम्भ कर दिया और सेना जमा करने का यह काम विशेष रूप से ब्रिगेडियर जनरल ग्राएट के अधीन और देखरेख में होने लगा। धीरे-धीरे कलकत्ते से चलने वाला जहाजी बेड़ा भी इलाहबाद होता हुआ कानपुर पहुँच गया। दिल्ली की अंगरेजी सेना इस समय तक विप्लवकारियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी थी इसीलिए जनरल ग्रेटहेड इस सेना के साथ दिल्ली से कानपुर तक मार्ग के विप्लवकारियों का दमन करता हुआ कानपुर पहुँच गया।

एक अंगरेज इतिहास लेखक लिखता है कि—“विप्लव के आरम्भ से लेकर नवम्बर तक दिल्ली के पूर्व का समस्त प्रदेश

विप्लवकारियों के अधिकार में था किन्तु उनके उस अधिकार से जनता को कोई कष्ट न पहुँचा था। लोग न केवल खेती बारी करते ही रहे बल्कि अनेक जिलों में इतने विशाल पैमाने पर करते रहे, जिससे अधिक कि उन्होंने पहले कभी न की थीं। वास्तव में सिवाय इसके कि विप्लवकारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, वे देशवासियों पर किसी भी प्रकार का अन्याय करने का साहस न करते थे।”

किन्तु ऐसे शस्य-श्यामल, धन-धान्य से पूर्ण और सुखद प्रान्त को मानवता का विध्वंसक जनरल ग्रेटहेड ने दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा में रास्ते के समस्त ग्रामों को जलाने और निरपराध जन-साधारण का संहार करने के निर्मम कार्यों को नष्ट करके आत्याचारियों के संसार में जनरल नील को भी न्यून प्रमाणित कर दिया। इस छोर से उस छोर तक उनकी दानवी सेना ने ग्रामवासियों का पशुओं के समान शिकार किया। लोग प्राणों की रक्षा करने के लिए भागते फिरते थे और अंगरेज सैनिक उनका पीछा करके गोलियों से उनका शिकार किया करते थे। यदि कोई जंगलों में छिपता था तो उसे हिरण समझ कर मारते थे, यदि कोई पेड़ पर चढ़कर अपने प्राण छिपाता था तो उसे पक्षी समझ कर गोली का निशाना बनाते थे और यदि कोई पानी में डुबकी लगाकर बचना चाहता तो उसे मछली समझ कर गोलियों से मारते थे। वे यह नहीं समझ रहे थे कि जिन मनुष्यों का वे संहार कर रहे थे वे भी उन्हीं के समान मनुष्य थे। युद्ध के जितने नियम हैं उनका भी उल्लंघन कर अंगरेज-सैनिक अपने को वीर समझने का प्रयत्न कर रहे थे! अपने आत्याचारी को ही वे अपनी सभ्यता का

आदर्श समझने लगे थे। पापी जितना पाप कर सकता है उससे भी अधिक पाप करना ही वे दानवी अंगरेज अपना धर्म मानते थे इसीलिए निरपराध और बेहथियार की जनता पर गोली चलाने में उन्हें रंचमात्र भी क्लेश नहीं होता था। इतना कह कर हम इस दुःखद वृत्तान्त को यहीं से समाप्त करते हैं क्योंकि इससे अधिक हमें इस दुःख उत्पादक वृत्तान्त को विस्तार के साथ कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है।

इस घटना के बाद का वृत्तान्त इस प्रकार का कहा जाता है कि सब से पहले जनरल ग्रांट अपनी नई विशाल सेना के साथ लखनऊ के आलमबाग में पहुँचा। कानपुर और कालपी के बीच वाले स्थानों में नाना साहब जो कुछ प्रयत्न कर रहे थे उसके सम्बन्ध में हम इस स्थल पर कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि उसके लिए हम आगे चलकर कुछ कहना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में पाठक अधीर न होंगे, ऐसी आशा है। किन्तु इतना अवश्य ध्यान में रखना होगा कि कैम्पबेल नाना साहब के प्रयत्नों को दबाने का उपाय सोचने लगा था इसीलिए उसने अंगरेजों को थोड़ी-सी सेना और कुछ सिखों की सेना तथा कुछ तोपों को जनरल विनडम के अधीन कानपुर की रक्षा के लिए छोड़ दिया था और स्वयं जनरल ग्रांट के पीछे-पीछे गंगा पार कर ९ नवम्बर सन् १८५७ को आलमबाग पहुँच गया। यह लखनऊ के अंगरेजों के लिए विशेष संकट का समय था। विप्लवकारियों की व्यवस्था और युद्ध की प्रणाली इतनी सफल थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए रेजिडेन्सी के कैदी अंगरेजों के साथ किसी भी प्रकार से पत्र व्यवहार तक कर सकना भी संभव न था। कई दिनों तक बाहर से आकर जमा होनेवाली अंगरेजी सेना यों ही

लखनऊ में पड़ी रही। समाचार पहुँचाना और फिर समाचार लाना, वह भी रेजिडेन्सी में जाकर! बड़ा ही कठिन कार्य था। उपाय सोचते-सोचते अन्त में उपाय निकाल लिया गया। कैम्पबेल ने कैबेना नामक एक अँगरेज का मुँह काला किया। जब उसका मुँह भली भँति काले रंग में रंग दिया गया तब उसे हिन्दुस्तानी कपड़े पहनाए गये और फिर रात में अपने पक्ष के किसी एक हिन्दुस्तानी गुप्तचर के साथ रेजिडेन्सी में उसे भेज दिया। किसी प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर वे दोनों रेजिडेन्सी में पहुँच गये। कैबेना ने वहाँ से लौटकर कैम्पबेल को रेजिडेन्सी के कैदी अँगरेजों का सारा हाल कह सुनाया।

कैबेना से समस्त वृत्तान्त को सुनकर १४ नवम्बर को कैम्पबेल की सेना ने रेजिडेन्सी की ओर बढ़ना शुरू किया और इधर हैवलाक तथा ऊटरम ने भीतर से विप्लवकारी सेना पर भयानक रूप से आक्रमण कर दिया।

उधर रेजिडेन्सी के भीतर से लखनऊ के विप्लवकारी सैनिकों पर आक्रमण हुआ और उधर से कैम्पबेल की सेना ने बाहर की ओर से आक्रमण करना और दबाना आरंभ कर दिया। कम्पनी की सेना में इस समय हैवलाक, ऊटरम, पील, ग्रेटहेड, दिल्ली प्रसिद्ध हडसन, होपम्राएट आयर और प्रधान सेनापति सर कालिन कैम्पबेल जैसे युद्ध विद्या-विशारद सेनापतियों के अतिरिक्त इंग्लैण्ड और चीन आदि से आई हुई नई अँगरेजी पलटने तथा दिल्ली के अनुभवी अँगरेज, सिख और अन्य पंजाबी पलटने भी थीं। इतनी सब शक्ति के रहने पर भी कम्पनी की सेना अपनी सफलता की आशा पर सदेह ही करती थी।

१४ नवम्बर के संध्या-समय तक कैम्पवेल की सेना दिलखुश बाग पहुँची। १६ नवम्बर को इस सेना ने सिकन्दर बाग पर चढ़ाई की। इसके बाद ही एक अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में अपनी अपनी जीत के लिये विप्लवकारी सैनिकों ने और कम्पनी की ओर से लड़नेवाले सिखों ने उत्तम प्रकार की वीरता दिखाई। सब से पहले एक सिख सिपाही ही गोलों और गोलियों की बौछार के अन्दर से सिकन्दरबाग की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और उसके दीवार पर चढ़ते ही सामने से उसकी छाती में एक गोली लगी और वह साहसी सिख सैनिक उसी समय वहीं ढेर हो गया। उसके ढेर होने के बाद जनरल कूपर और जनरल लम्सडेन भी उसी दिवार पर मारे गये किन्तु इतने सब क्रूर वीरता और भय-उत्पादक कृत्यों के होने पर भी अन्त में अपने साथी सैनिकों की लाशों पर से कूदते हुए सिख और अंगरेज दोनों ही सिकन्दर बाग के भीतर प्रवेश कर गये। उन सब के प्रवेश करते ही कम्पनी की दूसरी सेना ने भी एक दूसरी ओर से बाग में प्रवेश किया। सिकन्दरबाग की हिन्दुस्तानी सेना और अंगरेजी सेना में घमासान युद्ध होने लगा। सिकन्दरबाग की विप्लवकारी हिन्दुस्तानी सेना ने जिस अनुपम और अद्भुत वीरता के साथ उस दिन सिकन्दरबाग की रक्षा की उसका वर्णन शब्दों द्वारा कर सकना संभव नहीं है। सकेत-मात्र कर देने के लिए हम इतिहास लेखक मालेसन के ही कथन को यहाँ पर उद्धृत कर देना उचित समझते हैं। इतिहास लेखक मालेसन लिखत है, “सिकन्दरबाग नाम के द्वस बाड़े पर अधिकार करने के लिए जो युद्ध हुआ वह अत्यन्त रक्त-पातात्मक था और जीवन को हथैली पर रख कर खड़ा

गया। विस्रवकारियों ने अपने जीवन पर खेल कर पूर्ण वीरता के साथ संग्राम किया। हमारी सेना रास्ता चीरती हुई अन्दर चली गई, फिर भी संग्राम बन्द नहीं हुआ। प्रत्येक कमरे के लिए, प्रत्येक सीढ़ी के लिए और मीनारों के एक-एक कोने के लिए संग्राम होता रहा। न किसी ने किसी से दया की भिक्षा की आशा की और न किसी ने किसी पर दया की। अन्त में जब आक्रमण करने वाली सेना ने सिकन्दरबाग, पर अधिकार कर लिया तब दो हजार से ऊपर विस्रलकारी सैनिकों की लाशों के ढेर उनके चारों ओर पड़े हुए थे। कहा जाता है कि जितनी सेना सिकन्दरबाग की रक्षा के लिए नियत थी उसमें से केवल चार आदमी अपनी जगह छोड़ कर निकल गये किन्तु इन चार का बाग छोड़ कर जाना भी सन्देहजनक है।”

इस प्रकार सिकन्दरबाग के संग्राम का वृत्तान्त है और सभी यह कहते हैं कि लखनऊ का सिकन्दरबाग उस दिन वास्तविक रक्त का विशाल सरोवर बना हुआ था। सिकन्दरबाग के संग्राम के बाद भी २४ घंटे तक दिलखुशबाग आलमबाग और शाहनजफ में घमासान संग्राम होते रहे। अन्त में नौ दिन के लगातार संग्राम के बाद २३ नवम्बर को सर कालिन कैम्पबेल की सेना और रेजिडेन्सी के भीतर की अंगरेजी सेना दोनों ही एक दूसरे से मिल गईं। कहा जाता है कि यदि दिल्ली का पतन न हुआ होता तो अंगरेजों के हौसले न बढ़ते और न विस्रवकारी नेताओं का उत्साह भंग होता। अतएव दिल्ली का पतन ही अबध के पतन का मुख्य कारण बन गया।

लखनऊ का समस्त शहर उस समय रक्त के सागर में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। रेजिडेन्सी के अंगरेज कैद से छुटकारा

या गये किन्तु फिर भी समस्त शहर अभी तक विसवकारियों के अधिकार मे था। इन्हीं दिनों अर्थात् २४ नवम्बर को जनरल हैबलाक की मृत्यु हो गई। सर कालिन कैम्पबेल ने रेजिडेन्सी को छोड़कर आलमबाग मे अपनी सेना और तोपों को जमा किया, ऊटरम को वहाँ का सेनापति नियुक्त किया, और लखनऊ शहर पर आक्रमण करने की तैयारियों करना आरम्भ कर दिया किन्तु नाना साहब के प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे द्वारा कानपुर की अँगरेजी सेना के हटाये जाने के समाचार से वह विचलित हो गया और लखनऊ मे ऊटरम को छोड़ कर सीधा कानपुर के लिए चल पड़ा।

तात्या टोपे और कैम्पबेल के संग्राम

जिस प्रकार रक्त के समुद्र में तैरता हुआ दिखाई देने वाला लखनऊ शहर सर कालिन कैम्पबेल के आक्रमण से थोड़े से समय के लिए बच गया उसी प्रकार वहाँ की घटनाओं का वर्णन भी रुका जा रहा है क्योंकि हमारा घटनाचक्र ही कुछ इसी प्रकार का होता-सा चला आ रहा है। लखनऊ की रेजिडेन्सी को अपने अधिकार में कर लेने के बाद कैम्पबेल की इच्छा थी कि समस्त विसवकारियों के अधिकार से लखनऊ शहर को छीनकर कम्पनी के अधिकार में कर लिया जाता और इसीलिए उटरम को वहाँ का सेनापति बना कर उसने अपनी सेना और तोपों को आलमबाग में जमा करना आरम्भ कर दिया था किन्तु अपनी ओटी होत नहीं, हरि ओटी तत्काल' वाली कहावत ही चरितार्थ हो गई। यदि इस कहावत को चरितार्थ न होना होता तो कैम्पबेल को लखनऊ में समाचार न मिलता कि नाना साहब के मराठा सेनापति तात्या टोपे ने कानपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में जब कैम्पबेल ही लखनऊ से कानपुर की ओर बढ़ने को तैयार हो गया तब हमें भी लखनऊ को छोड़ कर और जिस समय की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे उस समय से कुछ समय थोड़ा पीछे हटकर तात्या टोपे और सर कालिन कैम्पबेल के युद्धों का वर्णन करना होगा।

पाठकों को यह स्मरण होगा ही कि लार्ड कैनिंग ने उत्तरी भारत के विप्लव का दमन करने के लिए इलाहाबाद को अत्यन्त

महत्त्वपूर्ण स्थान समझ लिया था इसीलिए विप्लव के शान्त हो जाने के समय तक के लिए उसने इलाहाबाद को ही अपनी राजधानी नियत किया था। इतना ही नहीं इलाहाबाद को राजधानी नियत करने से पहले ही वह एक विशाल सेना के साथ जनरल नील को बनारस की ओर रवाना कर चुका था। जनरल नील और उसके सैनिकों ने कितने गाँव जलाये, कितने स्त्रियों और कितने बच्चों की हत्याएँ की तथा कितने प्रकार से क्रूर यातनाएँ दे-देकर निरपराध जनता के प्राण लिये, इन सब का वर्णन हम कर ही चुके हैं और यह भी बतला चुके हैं कि जनरल नील बनारस होता हुआ किस प्रकार इलाहाबाद आया तथा उसने कितने अत्याचार इलाहाबाद में भी किये। यही अत्याचारी जनरल नील इलाहाबाद से कानपुर भी गया था और उसकी सहायता के लिए जून के अन्त में इलाहाबाद पहुँचने वाला जनरल हैवलाक भी कानपुर की ओर चल पड़ा था। वह भी अत्याचार करने और गाँव को जलाने वाले कामों में जनरल नील से भी बढ़कर था।

१० जुलाई को जनरल हैवलाक अपनी विशाल सेना के साथ कानपुर के समीप पहुँच गया था। नाना साहब ने स्वयं सेना लेकर हैवलाक का सामना किया था। कदाचित् इन सब घटनाओं को पाठक भूले न होंगे। उसी जनरल हैवलाक की विशाल सेना से पराजित होकर नाना साहब अपने भाई बालासाहब, भतीजे रायसाहब, सेनापति तात्या टोपे, घर की स्त्रियों और खजाने के साथ १७ जुलाई को सबेरे बिठूर से निकल कर फतहपुर की ओर चला गया था और कुछ लोग समझने लगे थे कि वह फतहगढ़ की ओर चला गया है।

कुछ भी हो, यद्यपि नाना साहब जनरल हैबलाक की विशाल सेना से पराजित हो चुका था और यह भी समझ चुका था, कि हैबलाक के सैनिक अधिक युद्ध-विद्या में कुशल हैं फिर भी वह हतोत्साह नहीं हुआ था, इसलिए जनरल हैबलाक पर फिर से आक्रमण करने के लिए वह सेना जमा करने लगा था। सब से पहले उसने अपने प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे को शिवराजपुर भेजा।

शिवराजपुर पहुँचकर तात्या टोपे ने कम्पनी की ४२ नम्बर पलटन को अपनी ओर कर लिया। इसी पलटन की सहायता से उसने फिर एक बार बिठूर पर जाकर अधिकार जमा लिया था। इतना ही नहीं, जनरल हैबलाक की जिस विशाल सेना के सामने नाना साहब को एक बार पराजित होना पड़ा था उसी विशाल सेना पर भी आक्रमण कर दिया और उस समय जब कि जनरल हैबलाक अपने दल-बल के साथ लखनऊ जाना चाहता था। परिणाम यह हुआ कि तात्या टोपे के आक्रमण से जनरल हैबलाक विचलित सा हो गया और उसने लखनऊ जाने का विचार को छोड़ दिया और आगे न बढ़ कर पीछे ही हट जाने में अपना और अपने सैनिकों का हित समझ लिया किन्तु बदला लेने के भाव को न छोड़ सका।

नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे से बदला लेने की भावना को जनरल हैबलाक अपने मन को उसी प्रकार सेता रहा जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले में बैठकर अड़े सेते रहते हैं। तात्या टोपे पर आक्रमण करने के जितने भी उपाय वह सोचता था, सभी व्यर्थ सिद्ध होने लगे थे। अन्त में १६ अगस्त का दिन आया। किसी प्रकार मन में साहस का संचार करते हुए उसने

अपनी सेना को तात्या पर आक्रमण करने से लिए प्रोत्साहित किया। उससे उचित प्रोत्साहित होकर उसी दिन उसकी सेना ने तात्या टोपे और उसकी सहायक सेना पर भयानक रूप से अचानक आक्रमण कर दिया। उस अचानक आक्रमण से तात्या टोपे को अपने आप सम्हाल सकने का भी अवसर न मिला, सहायक सैनिकों को कौन सम्हालता ! फिर भी थोड़ी देर तक संग्राम हुआ। दोनों ही पक्ष के सैनिक हताहत हुए और अंत में १६ अगस्त को ही जनरल हैवलाक की सेना ने तात्या टोपे की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम यह हुआ कि तात्या टोपे को अपनी बची हुई सेना के साथ फिर बिठूर (कानपुर) से भाग जाना पड़ा। बिठूर से भाग कर वह नाना साहब के पास फतहपुर पहुँचा और आदि से लेकर अन्त तक अपने जय और पराजय के समाचारों को कह सुनाया।

अपने सेनापति तात्या टोपे के मुँह से युद्ध के समस्त वृत्तान्तों को सुनकार भी नाना साहब स्थिर बना रहा। इसके बाद नाना साहब के परामर्श से तात्या टोपे गुप्तरीत से फतहपुर को छोड़ कर सीधा ग्वालियर पहुँच गया। ग्वालियर-राज्य की सीमा में पहुँचते ही उसमें पुनः वीरता के भाव स्वाभाविक ढंग से उत्पन्न होने लगे। उसे यह विश्वास होने लगा कि वह अपने शत्रु अंगरेजों को अवश्य पराजित कर सकेगा। भावावेश के कारण नहीं, बल्कि ग्वालियर-राज्य की परिस्थिति का अवलोकन करने पर उसकी ऐसी धारणा होने लगी थी। अपनी इसी धारणा को लेकर वह सफलता प्राप्त करने के उपायों को सोचने लगा। सोचते सोचते उसका उदास मुख-मडल सहसा हर्ष डटपन्न होने के कारण प्रसन्न हो गया। वह चुपचाप प्रसन्नता के भावों के साथ

अपने स्थान से उठ पड़ा और ग्वालियर के निकट मुरार की जो छावनी थी, उसमें तुरन्त प्रवेश कर गया।

जिन दिनों तात्या टोपे मुरार की छावनी में गया था उन्हीं दिनों उस छावनी में सीधिया की विशाल सेना थी और उस सेना में पैदल पलटनों सवार तोपखाना था। तात्या टोपे ने जैसे ही यह सब देखा वैसे ही वहाँ के सैनिकों और सेना के अफसरों से मिला। अंग्रेजों के अधिकार से भारत को मुक्त कराना ही उस समय के प्रत्येक सैनिक का धर्म था ऐसा उसने समझाया। इसके साथ ही साथ अपने सभी प्रयत्नों और हार-जीत के युद्धों का भी वर्णन किया। नाना साहब आदि की बातें भी कह सुनाईं। अंग्रेजों के अत्याचारों का भी वर्णन किया। देशी राजाओं के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये। परिणाम यह हुआ कि तात्या टोपे ने ग्वालियर के निकट वाली मुरार की छावनी के समस्त सैनिकों को विस्रव की ओर तोड़ लिया। वे सब सैनिक तात्या टोपे की बातों से प्रभावित हो गये और उसके आदेश का पालन करने में ही अपना गौरव समझने लगे।

इस प्रकार उन सब सैनिकों को प्रभावित कर और अपनी भावनाओं के अनुकूल बनाकर उन सबों के साथ तात्या टोपे मुरार से कालपी आया। कालपी में आते ही वह रुक गया। कालपी का किला यमुना के उस पार था और वहाँ से कानपुर ४६ मील की दूरी पर था। इसलिए युद्ध की दृष्टि से कालपी का किला अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर था। यही एक कारण था कि ९ नवम्बर को तात्या टोपे ने कालपी के किले को अपने

अधिकार में कर लिया और नाना साहब आदि को भी इसकी सूचना भेज दी।

अब नाना ने कालपी को ही अपने विप्लवकारियों का केन्द्र बनाया। बालासाहब को वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया और कालपी से सेना लेकर तात्या टोपे फिर एक बार कानपुर की ओर बढ़ा। इसमें सन्देह नहीं की धैर्य पराक्रम, शीघ्रता और अन्य भारतवासियों को अपने पक्ष में करने की अद्भुत शक्ति में तात्या टोपे अपने समय में अद्वितीय था।

जनरल विनडम उन दिनों कानपुर में ही था। १९ नवम्बर के दिन सेनापति तात्या टोपे ने विनडम को घेर कर उसके पास बाहर से रसद आदि का पहुँच सकना असंभव कर दिया। विनडम अपनी सेना के साथ तात्या टोपे से यद्द करने के लिए कानपुर से निकल पड़ा। २६ नवम्बर को पांडु नदी के ऊपर तात्या और विनडम की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। कहा जाता है कि पहली बार में तात्या टोपे का ही अधिक नुकसान हुआ किन्तु मराठा सेनापति तात्या टोपे की योग्यता को स्वीकार करते हुए इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—

“विद्रोही सेना का सेनापति मूर्ख न था। विनडम ने उसे जो हानि पहुँचाई उससे डर जाने के स्थान में वह अंगरेज सेनापति की दुर्बलता को भली भाँति समझ गया। X X X तात्या टोपे ने उस समय विनडम की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं को इतनी अच्छी तरह पढ़ लिया जिस तरह कोई खुली किताब को पढ़ता है। तात्या में एक सच्चे सेनापति के स्वाभाविक गुण मौजूद थे। उसने विनडम की इन दुर्बलताओं से लाभ उठाने का इरादा कर लिया।”

दूसरे दिन तात्या टोपे की सेना ने विनढम की सेना को तीन ओर से घेर लिया और फिर पीछे हटाना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि बढ़ते-बढ़ते आधा कानपुर सेनापति तात्या टोपे के अधिकार में आ गया। इसके बाद तीन दिन के लगातार संग्राम के पश्चात् कानपुर का समस्त नगर फिर एक बार तात्या टोपे के अधिकार में आ गया और विनढम की सेना को हार पर हार खाकर मैदान से भाग जाना पड़ा। अंगरेजी सेना के अनेक अफसर भी इन तीन दिनों के संग्राम में मारे गए।

तीसरे दिन की लड़ाई और अंगरेजी सेना की पराजय के सम्बन्ध का वर्णन करते हुए एक अंगरेज अफसर ने अपने किस्मी पत्र में लिखा था कि, “आज के युद्ध का वृत्तान्त पढ़कर आपको आश्चर्य होगा। इससे आपको मालूम होगा कि किस प्रकार अंगरेजी सेना अपनी विजय-पताकाओं, अपने आदर्श वाक्यों और अपनी प्रसिद्ध वीरता के साथ पीछे हटा दी गई। इन भारतवासियों ने, जिन्हें हम तुच्छ समझ रहे हैं, और चिढ़ाते रहे हैं, अंगरेजी सेना से उसका कैम्प, उसका सामान और मैदान सब कुछ छीन लिया। शत्रु को अब यह कहने का अधिकार प्राप्त हो गया है कि फिरंगी पिटे गये। ये पिटे हुए फिरंगी अपनी खाइयों में लौट आये, उनके खेमे उलट दिये गए, असबाब छीन लिया गया, सामान ले लिया गया, ऊँट, हाथी, घोड़े, और नौकर उन्हें छोड़ कर भाग गये। यह समस्त घटना अत्यन्त शोकजनक और अपने को ही लज्जित करने वाली है।”

कानपुर की अंगरेजी सेना के इसी पराजय से सर कालिन कैम्पबेल विशेष रूप से चिन्तित हो गया और समस्त लखनऊ

शहर पर अधिकार कर लेने के विचार को छोड़कर तुरन्त लखनऊ से कानपुर की ओर उसे चल देना पड़ा था। कैम्पबेल के लखनऊ छोड़कर कानपुर की ओर आने के समाचार को पाते ही तात्या टोपे ने उसको मार्ग में ही रोकने के लिए गंगा पर बने हुए पुल को ही तोड़ दिया और गंगा के ऊपर तोपे लगा दीं। फिर भी कैम्पबेल तात्या टोपे की तोपों से बचकर और एक दूसरे ही स्थान से गंगा को पार कर ३० नवम्बर को कानपुर के निकट पहुँच गया। इस समय तक नाना साहब भी अपने सेनापति तात्या टोपे की सहायता के लिये कानपुर पहुँच गया था।

इतिहास लेखक मालेसन लिखता है कि—“सेनापति की हैसियत से तात्या टोपे की स्वाभाविक योग्यता बहुत ही अधिक थी।” गंगा के किनारे ही उसने कैम्पबेल की सेना को जाकर घेर लिया। पहिली दिसम्बर से छः दिसम्बर तक अत्यन्त घमासान सग्राम होता रहा। दोनो ओर की सेनाओं की सख्या लगभग बराबर ही थी। तात्या टोपे की दाहिनी ओर ग्वालियर की सेना थी। अंत में यह सेना अँगरेजों और सिखों के सयुक्त आक्रमणों से घबरा कर पीछे हटने लगी। मैदान सर कालिन कैम्पबेल के हाथ रहा। कानपुर के नगर पर फिर से कम्पनी का अधिकार हो गया।

तात्या टोपे अपनी रही-सही सेना को लेकर कालपी की ओर चला गया। सर कालिन कैम्पबेल ने इस बार बिठूर के महलों को गिरा कर जमीन के बराबर चौरस कर दिया अर्थात् उनके नाम व निशान तक मिटा दिये।

अवध और रहेलखण्ड में दमन

दिल्ली के पतन के बाद विप्लवकारियों की अधिकांश सेना अवध और रहेलखण्ड में इधर-उधर जमा होती जा रही थी। सच कहा जाय तो भारतवर्ष का यही प्रदेश इस समय विप्लव का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गढ़ बनता जा रहा था। विप्लवकारियों से पूर्ण इस प्रदेश को फिर से अपने अधिकार में लाने के लिए विजय करने से पूर्व आवश्यक था कि अवध के पश्चिम में दिल्ली से पूर्व के समस्त इलाके को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया जाय।

इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई अंगरेज सेनापति पृथक् पृथक् सैन्य दल लेकर दिल्ली, कानपुर इत्यादि स्थानों से भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर निकल पड़े। ग्रामीण जनता को अपने अधीन करने और उन पर अपने बल का आतंक जमाने के लिए इन अंगरेज सेनापतियों ने स्थान-स्थान पर उसी प्रकार के उपायों का उपयोग किया जिस प्रकार के उपायों का उपयोग नील, हैबलारू और प्रेटहेड जैसे अंगरेज सेनापतियों ने इनसे पूर्व किया था। दमन के इन समस्त प्रयत्नों में इटावा और फर्रुखाबाद की घटनाएँ विशेष वर्णन करने योग्य हैं।

जनरल वालपोल थोड़ी सी सेना और कुछ तोपों को अपने साथ लेकर १८ दिसम्बर को कानपुर से कुछ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। रास्ते में विप्लवकारियों के साथ कई स्थानों में छोटे

मोटे सप्राम हुए। इनमे इटावे के समीप मार्ग के ही ऊपर एक छोटा सा मकान था जिसकी छत पर और दीवारों के अन्दर सूरखों मे बन्दूके लगी हुई थी। उस मकान के भीतर केवल २५ विप्लवकारी भारतीय सैनिक थे और बालपोल के साथ एक सुशिक्षित, सुव्यवस्थित तथा अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित एक सेना और कई तोपे थीं। इतना सब होते हुए भी इन २५ विप्लवकारी भारतीय सैनिकों ने बिना युद्ध किये बालपोल को एक कदम आगे बढ़ने न दिया। उनके पराक्रम और उनकी वीरता के सामने अंगरेज सेनापति बालपोल को भी झुक जाना पड़ा। इसलिए उसने उन सबों से सुलह करना चाहा किन्तु उन वीरों ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया। जब सुलह का प्रस्ताव स्वीकार न हुआ तब बालपोल को युद्ध करना ही पड़ा। सब से पहले उन सबों को तोपों से भयभीत करने का प्रयत्न किया गया किन्तु वह सब प्रयत्न अपने उद्देश्य मे सफल न हो सका क्योंकि वे सब विप्लवकारी जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर डटे रहे। इटावे के इन २५ वीरों और वहाँ की शोष घटना के विषय मे इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—

“ये लोग गिनती मे थोड़े-से थे, इनके पास केवल साधारण बन्दूकें थीं किन्तु उनके अन्दर एक उत्साह था जो आततायियों के उत्साह से भी कहीं अधिक भयकर था—वे अपने पवित्र उद्देश्य के लिए शहीद होने का दृढ़ सकल्प कर चुके थे। × × × उनके मकान के भीतर हाथ से बम फेंके गये। बाहर भूसा जला कर उन लोगों को धुएँ मे घोट देने का प्रयत्न किया गया, जिससे वे निकल आये किन्तु सब व्यर्थ हुआ। सूरखों के भीतर से विप्लवकारी अपने आक्रमणकारियों के ऊपर लगातार और बड़ी

शीघ्रता से आग बरसाते रहे। इन्होंने उन्हें तीन घण्टे तक रोक रखा। अतः में उस मकान को उड़ा देने का निश्चय किया गया। X X X मकान के उड़ने से उनके रक्तकों को जिस यश की अभिलाषा थी, वह उन्हें प्राप्त हो गई। वे सब शहीद हो गये और सब के सब उसी मकान के खँडरों में दफन हो गये।”

इधर फर्रुखाबाद के नवाब ने अपनी स्वाधीनता का एलान कर रखा था इसलिए अंगरेजों का और से यह निश्चय हुआ कि तीन और से बालपोल, सीटन और स्वयं कैम्पबेल के अधीन तीन सैन्यदल पहुँचकर फर्रुखाबाद की राजधानी फतेहगढ़ को घेर ले। जैसा निश्चय हुआ था उसी के अनुसार कार्य भी किया गया। परिणाम यह हुआ कि फतेहगढ़ में कई दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। रक्त से धरती को रंग देने वाले युद्धों के हो जाने पर अतः में १४ जनवरी सन् १८५८ को अंगरेजों ने फतेहगढ़ को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और साथ ही साथ वहाँ के नवाब को भी कैद कर लिया गया।

इतिहास लेखक फार्न्स मिचेल लिखता है कि—“फर्रुखाबाद के मुसलमान नवाब को फौसी देने से पहले उसके समस्त शरीर पर सुअर की चर्बी मल दी गई थी।”

नाना साहब का एक मुख्य सेनापति नादिरखॉ भी इसी स्थान पर गिरफ्तार हुआ और फौसी पर चढ़ा दिया गया। इतिहास लेखक चालर्स बाल लिखता है कि—“फौसी पर चढ़ते समय नादिर खॉ ने हिन्दुस्थान के लोगों को कसम दी कि तलवार खींचकर और अंगरेजों को बाहर निकाल कर अपनी स्वाधीनता को फिर से स्थापित करें।”

इन्हीं दिनों के आस-पास की बात है कि राजधानी दिल्ली के

अन्दर फिर से नई जान कुछ अंशों में दिखाई पड़ने लगी। सहसा ऐसी अफवाह उड़ी कि नाना साहब सम्राट बहादुरशाह को कैद से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली की ओर चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में चार्ल्स बाल लिखता है कि—“इस अफवाह को सत्य मान कर बहादुरशाह के अंगरेज पहरेदारों को गुप्त आज्ञाएँ इस आशय की दे दी गई कि यदि वास्तव में नाना दिल्ली के समीप पहुँचने लगे तो तुम लोग तुरन्त बूढ़े सम्राट को गोली से उड़ा देना।”

दिल्ली से इलाहाबाद तक यमुना नदी के किनारे का प्रदेश प्रायः सब फिर अंगरेजों के अधिकार में आ चुका था। इस लिए कैम्पबेल के लिए अब रहेलखड अवध को जीतना ही शेष रह गया था। इस समय सभी ओर से देखने पर लखनऊ ही विप्लय का सबसे अधिक प्रधान केन्द्र था। १६ फरवरी सन् १८५८ को कैम्पबेल फिर कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ा। लखनऊ की इस यात्रा के समय उसके साथ २७००० पैदल, लगभग ५०० सवार और १३४ तोपे थी। अंगरेज इतिहास लेखक लिखते हैं कि इतनी विशाल सेना अवध के मैदानों में इससे पूर्व और कभी दिखाई न दी थी। इस सेना में अधिकतर अंगरेज, सिख और कुछ अन्य पंजाबी थे। रसल नाम का एक अंगरेज लिखता है कि इस सेना ने मार्ग में अनेक गाँव के गाँव बारूद से उड़ा दिये। किन्तु इतने पर भी यह विशाल सेना लखनऊ को फिर से जीतने के लिए पर्याप्त नहीं समझी गई। पश्चिम की ओर से यह विशाल सेना और पूर्व की ओर से एक विशाल गोरखा सेना सेनापति जंगबहादुर के अधीन लखनऊ की ओर शीघ्रता के साथ बढ़ी चली आ रही थी।

विप्लव के आरम्भ में ही अंगरेजों ने नेपाल के दरबार से सहायता के लिए प्रार्थना की थी। इसके कुछ समय पूर्व अर्थात् नेपाल युद्ध के समय अवध के नवाब ने कम्पनी को लगभग ढाई करोड़ रुपये की सहायता दी थी। उस समय अवध के नवाब द्वारा कम्पनी को दी गई सहायता ही संभव है कि नेपालियों के दिलों में खटकती रही हो और अवध के निवासियों से बदला चुकाने का उन्हें यह एक उचित अवसर दिखाई दिया हो।

सब से पहले अगस्त सन् १८५७ में तीन हजार गोरखा सेना पूर्व में आजमगढ़ और जौनपुर उतर आई किन्तु विसवकारियों के नेता मुहम्मद हुसेन, बेनीमाधव और नादिर खाँ ने सफलता के साथ इस सेना से लड़कर पूर्वीय अवध की रक्षा की। लिखा है कि उसके बाद जगबहादुर और अंगरेजों में कुछ विशष समझौता हो गया।

२३ दिसम्बर सन् १८५७ को ९००० नई गोरखा सेना जगबहादुर के अधीन पूर्व की ओर से लखनऊ की ओर बढ़ी। इसके अतिरिक्त उसी ओर से दो और सैन्यदल कम्पनी की सेना के एक जनरल फ्रैक्स के अधीन और दूसरी जनरल रोकफाट के अधीन लखनऊ की ओर पूर्व उत्तराह क साथ बढ़े। २५ फरवरी सन् १८५८ को ये तीनों विशाल सैन्यदल घाघरा नदी को पार कर अम्बरपुर पहुँचे।

अम्बरपुर में एक छोटा किला था, जिसमें केवल ३४ भारतीय विसवकारी सिपाही थे। इन मुट्ठी भर भारतीय सिपाहियों ने नेपाल की विशाल सेना को जो आगे थीं, युद्ध के लिए आमन्त्रित किया। नेपाली सेना ने अम्बरपुर के उस नन्हे से किले पर आक्रमण किया। उनके उस प्रकार के धर्मयुद्ध विरोधी आक्रमण

का परिणाम यह हुआ कि वे सब ३४ भारतीय वीर अपने देश के दुश्मनो से लड़ते-लड़ते मर गये किन्तु न तो पीठ दिखाई और न अपने स्थान से डिगे ही ।

कहा जाता है कि अम्बरपुर के इस युद्ध में नैपाली सेना के भी सात सैनिक मरे और ४३ सैनिक घायल हुए । इसके बाद अम्बरपुर के किले पर नैपाली सेना का आधिकार हो गया । लखनऊ की ओर बढ़ती हुई शत्रु सेनाओं का समाचार पाकर लखनऊ दरबार ने गफूरबेग को जनरल फ्रैंक्स से युद्ध करने और उसे रोकने के लिए कुछ सेना देकर तुरन्त भेजा । सुलतानपुर आदि स्थानों पर अनेक भयानक संग्राम हुए । अन्त में नैपालियों और अंगरेजों की यह सम्मिलित विशाल सेना पूर्वीय अवध पर विजय प्राप्त करती हुई आगे की ओर बढ़ी । मार्ग में एक दुर्ग दौरारे का था । अपने साथ के सैन्यदल सहित जनरल फ्रैंक्स इस दौरारे के दुर्ग को विजय करने के लिए आगे बढ़ा किन्तु बिना समझे-बूझे दुर्ग को विजय करने के लिए बढ़ने का यह फल हुआ कि जनरल फ्रैंक्स का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया । इस दौरारे के दुर्ग के मैदान में घमासान युद्ध हुआ कि अंगरेज सेनापति को अपनी छठी का दूध याद आने लगा । उसके सभी सैनिक युद्ध करते-करते हताश हो गये और अन्त में दौरारे से फ्रैंक्स को पराजित होकर पीछे हट जाना पड़ा और उसके इस पराजय के समाचार से कैम्पबेल उस पर विशेष रूप से क्रुद्ध और असन्तुष्ट हुआ । उसने उसे दंड देना निश्चित किया और तुरन्त उसकी पदवी कम कर दी । दौरारे के युद्ध के बाद दूसरी ओर से चक्कर खाकर कम्पनी की सेना लखनऊ जीतने की आशा लेकर आगे की ओर बढ़ती रही ।

इन सब घटनाओं और छोटे-बड़े सभी प्रकार के युद्धों के बाद ११ मार्च सन् १८५८ को पश्चिम की ओर से कैम्पबेल की विशाल सेना और पूर्व की ओर से गोरखा और अंगरेजी सेनाएँ सब लखनऊ के समीप आकर मिल गईं। लखनऊ शहर के अन्दर नवम्बर सन् १८५७ से मार्च १८५८ तक स्वाधीनता का संग्राम लगातार हो रहा था। अवध की अधिकांश जनता और वहाँ के लगभग सभी राजा, जमीदार और ताल्लुकदार अदम्य उत्साह के साथ स्वाधीनता के इस संग्राम में भाग ले रहे थे। लार्ड कैनिंग ने सर जेम्स ऊटरम के नाम एक पत्र में लिखा है कि—“जो राजा और ताल्लुकदार इस युद्ध में भाग ले रहे थे, उनमें से कम से अनेक ऐसे थे जिन्हें स्वयं अंगरेजी राज्य से हानि के स्थान में लाभ हुआ था फिर भी ये राजा और ताल्लुकदार अंगरेजी-राज्य के इस समय विकट शत्रु थे और नवाब बिरजिस कदर और बेगम हजरतमहल के लिए अपने सर्वस्व की आहुति दे देने में भी अपना सौभाग्य समझते थे।” इस सम्बन्ध में इतिहास लेखक होम्स लिखता है—

“अनेक राजा और छोटे-छोटे सरदार ऐसे थे जो प्रत्येक समय अंगरेज सरकार के बन्धनों से अपने आपको मुक्त करने के लिए चिन्तित रहते थे। उन्हें स्वयं कोई विशेष हानि न पहुँची थी, किन्तु अंगरेजी सरकार का अस्तित्व ही उन्हें नित्य यह याद दिलाता रहता था कि हम एक पराजित जाति के मनुष्य हैं। ××× भारत की लाखों जनता के दिलों में विदेशी सरकार की कोई सच्ची राजभक्ति न थी। ××× विप्लव के दिनों में भारत के निवासियों के व्यवहार का ठीक-ठीक अन्दाजा करने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि इन लोगों का

हमारी जैसे एक विदेशी सरकार की ओर उस प्रकार की राजभक्ति अनुभव करना, जो राजभक्ति कि केवल देशभक्ति के साथ-साथ ही चल सकती है, मानव-प्रकृति के प्रतिकूल होता। ××× उनमें एक भी मनुष्य ऐसा न था जिसे यदि एक बार यह विश्वास हो जाता कि अंगरेजी-राज्य को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, तो वह हमारे विरुद्ध न हो जाता !”

रसल का कथन है कि “अवध के निवासी अपने देश और बादशाह के लिए देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लड़ रहे थे।”

जिस अहमदशाह के सम्बन्ध में हम इससे पूर्व बहुत कुछ लिख आये हैं वही अहमदशाह लखनऊ नगर के भीतर विप्लव का सब से योग्य नेता था। उसकी योग्यता के सम्बन्ध में इतिहास लेखता होम्स लिखता है—“फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्लाह (अहमदशाह) एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने भावों और अपनी योग्यता दोनों की दृष्टि से एक महान् आन्दोलन को चला सकने और एक विशाल सेना का नेतृत्व ग्रहण करने, दोनों के योग्य था।”

इतने योग्य नेता अहमदशाह के रहने पर भी दुर्भाग्य के कारण नित्य नये रूप से अंगरेज प्रबल होने लगे। अवध की भूमि और अवध की जनता के दुर्भाग्य से लखनऊ के अन्दर भी धीरे-धीरे अव्यवस्था का सूत्रपात होने लगा था। जिस प्रकार दिल्ली की सेना में बख्तखॉ के विरुद्ध कुछ लोग खड़े हो गये थे उसी प्रकार लखनऊ की सेना में भी अहमदशाह के विरुद्ध कुछ लोग प्रतिस्पर्धा अनुभव करने लगे थे। इसी लिए ऐसे

सङ्कट के समय लखनऊ की सेना में अहमदशाह की आज्ञाओं का पालन यथेच्छ रूप से नहीं हो रहा था ।

कैम्पबेल के लखनऊ पहुँचने से पहले ही सर जेम्स ऊटरम चार हजार सेना के साथ आलमबाग में मौजूद था । अहमदशाह ने कई बार चाहा कि ऊटरम पर एक भयानक आक्रमण करके उसकी समस्त सेना को समाप्त कर दिया जाय किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे दूरदर्शी नेता अहमदशाह की बात न मानी गई । सभी अपना-अपना स्वतन्त्र राग अलापने लगे । अहमदशाह के विशेष रूप से आक्रमण करने के लिए कहने पर भी उसकी न चल सकी और प्रतिस्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कुछ लोगों के आग्रह करने पर कहा जाता है कि बेगम ने अहमदशाह को कैद कर लिया । किन्तु इतना सब विरोध तो हुआ फिर भी सेना और जनता में अहमदशाह सब से अधिक लोकप्रिय बना रहा और उसी आदर्श लोकप्रियता का प्रभाव बेगम पर इतना पड़ा कि शीघ्र ही कैद किये गये अहमदशाह को छोड़ देना पड़ा ।

इस घटना के बाद ही कैम्पबेल की सेना लखनऊ पहुँचती है । अहमदशाह ने फिर सेना का नेतृत्व ग्रहण किया । जितनी बार भारतीय सेना ने आलमबाग की अंगरेजी सेना पर आक्रमण किया मौलवी अहमदशाह अपने घोड़े या हाथी के ऊपर सवार प्रायः प्रत्येक बार सबसे युद्ध करता हुआ दिखाई पड़ा । उसके इसी साहस के कारण भारतीय सेना में भी साहस बना रहता था ।

१५ जनवरी सन् १८५८ के दिन जो संग्राम हुआ उसमें मौलवी अहमदशाह के एक हाथ में गोली लग गई । १७ जनवरी

को विप्लवकारियों का एक और मुख्य सेनापति विदेही हनुमान घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। ठीक ऐसे ही आपत्तिकाल में राजा बालकृष्णसिंह की भी मृत्यु हो गई। इधर जैसे ही हाथ का घाव कुछ अच्छा होने लगा वैसे ही १५ फरवरी को अहमदशाह फिर मैदान में उतर आया और अंगरेज सेनापतियों को बड़ी वीरता के साथ संग्राम के लिए ललकारने लगा। कुछ समय बाद स्वयं बेगम हजरत महल शत्रु से सुसज्जित हो घोड़े पर सवार होकर वीरगना के भेष में युद्ध के मैदान में उतर आई। इतना सब साहस और वीरता से पूर्ण कार्य होने पर भी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था ने लखनऊ की विप्लवकारी सेना का साथ न छोड़ा। अदूरदर्शी और मिथ्याभिमानियों ने यह न समझा कि उनकी अज्ञानता और मानसिक द्रोह का परिणाम लखनऊ के भाग्य के लिये कितना भयानक होगा।

जिस समय सर कालिन कैम्पबेल आलमबाग पहुँचा उस समय तक लखनऊ का समस्त नगर विप्लवकारियों के अधिकार में ही था। शहर के बाहर आलमबाग में अंगरेजों की सेना थी और शहर के अन्दर विप्लवकारियों की ओर तीस हजार हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास हजार सशस्त्र स्वयंसेवक जमा थे। एक एक गली और एक एक बाजार में नाकेबन्दी और मोर्चेबन्दी हो रही थी। प्रत्येक घर की दीवारों में बन्दूकों के लिए सुराख बने हुए थे। प्रत्येक मोर्चे के ऊपर तोपें लगी हुई थी। महल के चारों तरफ तोपें लगी हुई थीं। नगर के उत्तर की ओर गोमती नदी थी। शेष तीनों ओर बहुत ही मजबूत किलेबन्दी थी।

उस समय सर कालिन कैम्पबेल के अधीन अँगरेजी और हिन्दुस्तानी मिला कर लगभग चालिस हजार सेना थी जिसका प्रत्येक सैनिक सभी प्रकार के युद्धों की शिक्षा पा चुका था और सभी प्रकार के शस्त्र और अस्त्र के चलाने में अभ्यस्त था। इससे पहले अँगरेजों ने जितने आक्रमण लखनऊ पर किये थे उनमें से कोई भी उत्तर की ओर से नहीं किया गया था। सब से पहले ६ मार्च को ऊटरम ने उसी ओर से आक्रमण करने की तैयारी आरम्भ कर दी और सर कालिन कैम्पबेल के पहुँचने के बाद उत्तर और पूर्व दोनों ही ओर से आक्रमण होना आरम्भ हो गया। ६ मार्च तक भयानक रूप से घमासान संग्राम होता रहा। अब तीसरी बार लखनऊ नगर की गलियों में रक्त की धाराएँ प्रवाहित होने लगी। अन्त में जिस प्रकार दिल्ली का पतन हुआ था उसी प्रकार अवध की राजधानी लखनऊ नगर का भी पतन हो गया।

अँगरेजी सेना ने एक-एक करके दिलखुशाबाग, कदम रसूल शाहनजफ, बेगमकोठी आदि मोर्चों पर अपना अधिकार जमा लिया। १० मार्च को वह दानव हडसन, जिसने दिल्ली के शहजादों का खून पिया था, लखनऊ के इस निर्णायक संग्राम में मारा गया। १४ मार्च को अँगरेजी सेना ने लखनऊ के महल में प्रवेश किया।

इतिहास-लेखक विलसन लिखता है कि उस दिन की विजय का मुख्य श्रेय “सिखों और दस नम्बर पलटन” को मिलना चाहिए। यदि सत्य है तो हमारी समझ से सिखों और दस नम्बर पलटन को ही भारत माता को बन्धन का कारण मान लेना चाहिये।

बेगम हजरत महल और नवाब बिरजिस कद तथा मौलवी अहमदशाह तीनों ही गुप्त रूप से लखनऊ के नगर से निकल गये। थोड़ा सा हेर फेर कर और साधारण सा चक्कर देकर अहमदशाह ने अपने मुट्टी भर आदमियों के साथ फिर एक बार दूसरी ओर से लखनऊ में प्रवेश किया।

लखनऊ के मोहल्ले शहादतगञ्ज में पहुँच कर अहमदशाह ने नये सिरे से पुनः विजयी अँगरेजी सेना से मोर्चा लिया। इस समय अहमदशाह के पास केवल दो तोपे रह गई थीं और अहमदशाह का सामना करने के लिए दो पलटने कम्पनी के अँगरेज सेनापतियों ने भेजी थी। अँगरेज इतिहास लेखक लिखते हैं कि—“मौलवी अहमदशाह ने उस दिन अपूर्व वीरता के साथ युद्ध किया, शत्रु के असख्य जानों की हानि पहुँचाई और अन्त में विजय असम्भव देख वह फिर लखनऊ से निकल गया।” शहादतगञ्ज का संग्राम लखनऊ का वह संग्राम था जिससे वहाँ के सभी संग्रामों का पटाचोप होता है। इसके बाद अँगरेजी सेना ने ६ मील तक अहमदशाह का पीछा किया किन्तु फिर भी अहमदशाह उनके हाथ न आया। मैदान साफ हो जाने से लखनऊ के समस्त नगर पर अब कम्पनी का अधिकार हो गया।

अवध की राजधानी लखनऊ नगर के पतन होने के बाद कम्पनी की सेना ने लखनऊ के रहनेवालों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया वह सार्वजनिक लूटमार और सार्वजनिक संहार, इन दो शब्दों में ही इस समय कहा जा सकता है। लेफ्टिनेन्ट माजेन्डी लिखता है कि—“लखनऊ के अन्दर उस समय के कत्ले आम में किसी तरह की तमीज नहीं की गई।” लोगों की हत्या करने से पूर्व जिस प्रकार की

कठोर यातनाएँ लोगों को दी गईं उसके कई उदाहरण रसल ने अपनी पुस्तक में दे दिये हैं। वह अपनी पुस्तक में उन सब वीभत्स घटनाओं का वर्णन इस प्रकार लिखता है—

“कुछ सिपाही अभी जीवित थे और उन्हें दया के साथ ही मारा गया किन्तु इनमें से एक को खींचकर मकान से बाहर रेतीले मैदान में लाया गया। उसे टॉगों से पकड़ कर खींचा गया, एक सुविधा के स्थान पर लाया गया। कुछ अंगरेज सिपाहियों ने उसके मुँह और शरीर में सगीने भोंक कर उसे लटका रखा। दूसरे लोग एक छोटी-सी चिता के लिए ईंधन जमा करने लगे। जब सब तैयार हो गया तब उसे जीवित ही भून दिया गया! इस काम के करने वाले अंगरेज थे और कई अफसर खड़े देखते रहे किन्तु किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इस नारकी अत्याचार की वीभत्सता उस समय और भी बढ़ गई जब कि उस भाग्यहीन दुःखिया अधजली और जीवित दशा में भागने का प्रयत्न किया! अकस्मात् प्रयत्न करके वह चिता से कूद पड़ा। उसके शरीर का मॉस हड्डियों से लटक रहा था। वह कुछ गज दौड़ा, फिर पकड़ लिया गया वापस लाया गया फिर आग पर रख दिया गया और जब तक राख न हो गया तब तक संगीनों से दबा कर रखा गया।”

यह तो हुआ अंगरेजों का व्यवहार और इसकी तुलना में अंगरेज कैदियों के साथ बेगम हजरत महल का व्यवहार बिलकुल दूसरे ही प्रकार का था। प्रारम्भ के दिनों में जब कि लखनऊ के अन्दर विप्लवकारियों का पल्ला भारी था और सभी ओर उनकी धाक जमी, ई थी तब कुछ अंगरेज पुरुष और स्त्री लखनऊ में कैद कर लिये थे किन्तु ३ महीने

तक इनके जीवन पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया गया। जिस समय कम्पनी की सेना ने लखनऊ नगर में प्रवेश कर दोषी और निर्दोषी सब का एक समान संहार करना आरम्भ किया उस समय थोड़े से क्रुद्ध विसवकारियों ने महल में जाकर बेगम हजरत महल से प्रार्थना की कि वे समस्त अंगरेज कैदियों को उनके हवाले तुरन्त कर दे। बेगम हजरत महल ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सात या आठ अंगरेज पुरुषों को उनके हवाले कर दिया। उन सबों ने उन अंगरेजों को तुरन्त गोली से उड़ा दिया। इसके बाद वे क्रुद्ध विसवकारी फिर बेगम हजरत महल के पास गये और जब हठ करते हुए कैदी अंगरेज स्त्रियों को भी मार डालने का विचार प्रकट करने लगे तब बेगम हजरत महल ने उनके उस आग्रह और प्रार्थना दोनों को ही अस्वीकार कर दिया। इस सम्बन्ध में इतिहास लेखक चार्ल्स बाल लिखता है—

“स्त्रियों के विषय में बेगम ने उन लोगों की माँग को पूरा करने से जोरों के साथ इन्कार कर दिया। बेगम ने तुरन्त महल के जनानखाने के अन्दर उन अंगरेज स्त्रियों को अपने संरक्षण में ले लिया। बेगम का यह कार्य स्त्री-जाति के मान को बढ़ाने वाला था।”

लखनऊ को अपने अधिकार में कर लेने के बाद कम्पनी की सेना ने महल में भी प्रवेश कर लूट और कत्लेआम के क्रूर और बीभत्स कर्मों को जारी रखा। महल के जनानखानों के अन्दर अनेक निरपराध स्त्रियाँ मारी गईं और शेष स्त्रियाँ कैद कर ली गईं। महल की इन स्त्रियों के दिलों में भी

अपने आन्दोलन की पवित्रता और उसकी अन्तिम विजय मे पूर्ण रूप से विश्वास मौजूद था ।

हमारे इस कथन का समर्थन करने वाली एक छोटी-सी घटना कई अँगरेजी इतिहास की पुस्तकों मे दी हुई है । एक दिन कैदी बेगमों के अँगरेज पहरदारों ने हँस कर उनसे प्रश्न किया—“क्या आपका यह खयाल नहीं है कि अब जंग खत्म हो गई ?” बेगमों ने उत्तर दिया—“नहीं, इसके खिलाफ हमे पूरा यकीन है कि आखीर मे तुम्हारी ही हार होगी ।”

इसमे सन्देह नहीं कि बेगमों का विश्वास अपने स्थान पर उचित ही था । वास्तव मे बात यह थी कि लखनऊ के पतन के बाद भी अवध के कई भागों और हिन्दुस्तान के कई अन्य प्रान्तों मे स्वाधीनता का संग्राम बराबर हो ही रहा था इस-लिए उन बेगमों का वह विश्वास निराधार न था । जिस प्रकार बेगम हजरत महल वीरांगना थी उस प्रकार की वीरांगनाएँ ये सब बेगमे भी थीं ।

अब हम यहीं से अवध और रुहेलखण्ड के इस वृत्तान्त को रोक देना चाहते है क्योकि बिहार की ओर भी ध्यान देना आवश्यक हो रहा है ।



बिहार का विप्लव और अहमदशाह

सन् १८५७ में विप्लवकारियों का जैसा व्यापक संगठन अवध और दिल्ली में था, वैसा संगठन बिहार में नहीं हो पाया था, फिर भी उस प्रान्त में विप्लव के कई महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। विशेषतया पटने में एक विशाल केन्द्र था जिसकी शाखाएँ और उपशाखाएँ प्रान्त में चारों ओर फैली हुई थी। सन् १८५७ से पहले पटने में अनेक गुप्त सभाएँ हुआ करती थीं। वहाँ की पुलिस भी इस संगठन में शामिल थी। इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि उस समय पटने के केन्द्र के पास धन का कुछ भी अभाव न था। असह्य वैतनिक और अवैतनिक प्रचारक चारों ओर ग्रामीण जनता के बीच विप्लव का प्रचार करते हुए फिरने लगे थे। वहाँ के विप्लवकारी नेताओं का दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के नेताओं के साथ गुप्त रूप से पत्र-व्यवहार हुआ करता था।

जिस समय अंगरेज को यह पता चला कि पटने वालों का भी सम्बन्ध अवध के विप्लवकारियों से हो चुका है और वे भी उन्हीं लोगों के समान अंगरेजों को भारत से निकाल देना चाहते हैं तब अंगरेजों ने तुरन्त पटने की रक्षा के लिए लिए सिखों की एक सेना भेज दी। कहा जाता है कि जिस समय अंगरेजों की ओर से पटने की रक्षा करने के लिए ये सब सिख सैनिक पटने गये उस समय वहाँ के लोगों ने उनके प्रति ऐसे घृणित भावों

को प्रकट किया कि लोग उन सिखों की छाया तक से घृणा करने लगे और उनकी छाया उन सबों पर न पड़ जाय इस लिए विशेष रूप से सावधान रहने लगे। बिहार प्रान्त के निवासियों पर भी अंगरेज सन्देह करने लगे। सन्देह करने के साथ ही साथ उन्होंने दमन-चक्र को भी चालू कर दिया। जिला तिरहुत के एक पुलिस के जमादार वारिसअली को विप्लव के सन्देह पर गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी प्रकार के न्याय के उसे फाँसी भी दे दी गई। वारिसअली के पत्रों में एक पत्र गया के विप्लवकारी नेता अली करीम के नाम का पकड़ा गया। कम्पनी की सेना का एक दस्ता अली करीम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। अली करीम अपने हाथी पर सवार होकर देहात चला गया। कम्पनी की सेना ने उसका पीछा किया किन्तु आसपास के ग्राम वाले अली करीम से मिले हुए थे इसलिए उन सबों ने कम्पनी के सिपाहियों को धोखा देकर गलत रास्ता बता दिया। उन सबों के बताए हुए रास्ते पर चलते-चलते कम्पनी की सेना थक गई और अन्त में असफल होकर अपने स्थान पर लौट आई।

ऐसे ही समय में पटने के कमिश्नर टेलर को विदित हुआ कि शहर के तीन प्रभावशाली मौलवी विप्लव के सगठन में भाग ले रहे हैं। टेलर ने तुरन्त उन तीनों को ही बातचीत करने के बहाने अपने घर पर बुलाया और जब वे उसके घर आ गये तब उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया।

३ जुलाई को पटने में थोड़ा-सा विप्लव हुआ किन्तु सिख सैनिकों की सहायता से बड़ी सरलता के साथ उस विप्लव को दबा दिया गया। विसवकारियों का प्रधान नेता पीरअली फाँसी

पर चढ़ा दिया गया। उस समय के इतिहास की पुस्तको मे लिखा है कि कठोर यातनाएँ दे-देकर पीरअली को मारा गया। कमिश्नर टेलर स्वयं लिखता है कि पीरअली ने बड़ी वीरता और धार्मिक भावों के साथ यातनाओं और मृत्यु दोनों का ही सामना किया। दानापुर मे उस समय तीन हिन्दुस्तानी पलटने एक गोरी पलटन और कुछ तोपखाना था। पीरअली की मृत्यु के बाद २५ जुलाई को दानापुर की देशी पलटनों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। इसके बाद ये पलटने जगदीशपुर की ओर बढ़ी।

जगदीशपुर एक छोटी-सी पुरानी राजपूत रियासत शाहाबाद के जिले मे थी। सम्राट शाहजहाँ के दरबार से जगदीशपुर की रियासत के मालिक को राजा की उपाधि दी गई थी और उसी समय से पीढ़ी-दर-पीढ़ी बराबर चली आ रही थी। कम्पनी के शासन-काल मे यह रियासत भी लार्ड डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार हो चुकी थी। जगदीशपुर का राजा कुँवरसिंह आसपास के इलाके मे अधिक लोक प्रिय था। कुँवरसिंह की आयु उस समय ८० वर्ष से ऊपर थी। फिर भी राजा कुँवरसिंह बिहार के विसवकारियों का प्रमुख नेता और सन् १८५७ के सबसे अधिक ज्वलन्त व्यक्तियों मे से था। जिस समय दानापुर की विसवकारी सेना जगदीशपुर पहुँची उस समय बूढ़े कुँवरसिंह ने तुरन्त ही अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिये और शैघ्रता के साथ अपने महल से निकल कर उस सेना का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। इसके बाद विप्लवकारी सेना के साथ कुँवरसिंह आरा पहुँचा। आरा पहुँचकर उसने वहाँ के खजाने को अपने अधिकार मे कर लिया, जेलखाने के कैदी मुक्त कर दिये गये और अँगरेजों के दफ्तरों को गिराकर चौरस मैदान बना दिया गया। इस प्रकार

के कार्यों को समाप्त कर उसने आरा के छोटे-से किले को घेर लिया। उस किले के अन्दर थोड़े से अंगरेज और कुछ सिख सिपाही थे। इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि किले में पानी की कमी पड़ गई। किले के अन्दर के सिखों ने अंगरेजों के संकट को देखकर तुरंत २४ घंटे के अन्दर एक नया कुआँ खोद कर तैयार कर दिया। कुँवरसिंह ने कम्पनी की सेना से वादा किया कि यदि आप लोग किला हमारे सुपुर्द कर दे तो आप सब को प्राणदान दे दिया जायगा। किन्तु किले के भीतर की सेना ने स्वीकार न किया। किले के अन्दर के सिख सिपाहियों को कुँवरसिंह ने समझा बुझाकर विद्रोहकारियों के पक्ष में करना चाहा किन्तु इस कार्य में वह सफल न हुआ। क्योंकि सिख-सिपाहियों पर उनकी बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। परिणाम यह हुआ कि विद्रोहकारी तीन दिनों तक आरा के किले को घेरे रहे और उसे जीतने के लिए लगातार आक्रमण भी करते रहे।

आरा के किले का समाचार पाते ही २९ जुलाई को दानापुर के कप्तान डनबर के अधीन करीब ३०० अंगरेज सैनिक तथा १०० सिख सिपाही आरा के सैनिकों की सहायता के लिए चल पड़े। आरा के समीप ही आम का एक बाग था। उसी आम के बाग में कुँवरसिंह ने अपने कुछ सिपाही आम के वृक्षों की टहनियों में छिपा रखे थे। रात का समय था। जिस समय दानापुर की सेना ठीक वृक्षों के नीचे पहुँची, उस समय अधिकार में ही वृक्षों के ऊपर से गोलियों बरसनी आरंभ हो गई। सबेरा होते होते ४१५ आदमियों में से केवल ५० आदमी जीवित बचकर दानापुर की ओर लौट गये और कप्तान डनबर इसी आम के बाग में परलोक को सिधार गया।

कप्तान डनबर की मृत्यु और सैनिकों की हार के बाद मेजर आयर एक बड़ी सेना और तोपों के साथ आरा के किले से अंगरेजों की सहायता के लिए बढ़ा। २ अगस्त को बीबीगंज के निकट कुंवरसिंह और मेजर आयर का सामना हो गया। सामना होते ही दोनों ओर की सेनाएँ अपनी-अपनी विजय के लिए संग्राम में कूद पड़ीं। बड़े ही भयानक रूप से युद्ध होने लगा। किसकी विजय होगी इसे निश्चय कर सकना उस समय कठिन हो रहा था। एक बार अंगरेजी सेना के एक अफसर कप्तान हेस्टिंग्स ने मेजर आयर से आकर कहा कि जीत हमारे हाथों से खिसकती हुई दिखाई देती है किन्तु फिर भी अन्त में मेजर आयर की ही विजय रही। कुंवरसिंह की सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा और आठ दिनों तक विप्लवकारियों द्वारा घिरे रहने के बाद आरा का नगर और किला फिर से अंगरेजों के अधिकार में आ गया।

बीबीगंज के युद्ध में हारकर कुंवरसिंह अब जगदीशपुर की ओर लौट आया। मेजर आयर ने अपनी विजयी सेना के साथ उसका पीछा किया इसलिए कई दिनों तक संग्राम होता रहा और अन्त में मेजर आयर ने १४ अगस्त को जगदीशपुर के महल को अपने अधिकार में कर लिया।

बाहर सौ सैनिकों और अपने महल की स्त्रियों को साथ लेकर बूढ़ा कुंवरसिंह जगदीशपुर से निकल गया। उसने अब किसी दूसरे स्थान पर जाकर अंगरेजों के साथ अपना बल आजमाने का निश्चय किया।

यह वह समय था जब कि कुछ गोरी और कुछ गोरखा

सेना आजमगढ़ की ओर से अवध में प्रवेश कर रही थी। १८ मार्च सन् १८५८ को आस-पास के अन्य विप्लवकारियों को अपने साथ लेकर कुँवरसिंह ने आजमगढ़ से २५ मील की दूरी पर अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। जिस समय अंगरेजों को यह समाचार मिला उस समय वे सब तुरन्त उससे लड़ने के लिए तैयार होने लगे इसलिए मिलमैन के अधीन कुछ पैदल, कुछ सवार और दो तोपे २१ मार्च सन् १८५८ को कुँवरसिंह को युद्ध में पराजित करने के लिए पहुँची। उसी दिन अतरौलिया के मैदान में दोनों ही ओर की सेनाओं का बड़ी चोरता और साहस के साथ आमना-सामना हुआ किन्तु थोड़े ही समय के बाद कुँवरसिंह अपनी सेना के साथ बड़ी शीघ्रता से पीछे की ओर हटने लगा। अंगरेजों की सेना ने यह समझ लिया कि कुँवरसिंह हार कर मैदान से भाग गया। विजय के उत्साह से उत्साहित होकर मिलमैन ने अपनी सेना को एक आम के बगीचे में ठहरा कर भोजन करने की आज्ञा दे दी और इधर चूँकि कुँवरसिंह उस जगल की एक-एक चप्पा भूमि से परिचय था इसलिए वह भी अपने शत्रुओं के कार्यों को कहीं से छिपकर देख रहा था। इस बुढ़ापे में भी वह अत्यन्त फुर्तीला था। ठीक उसी समय, जब कि मिलमैन की सेना भोजन कर रही थी, कुँवरसिंह अपने फुर्तीलेपन के कारण अचानक उस पर आकर दूट पड़ा। थोड़ी देर के संग्राम के बाद मैदान पूर्ण रूप से कुँवरसिंह के हाथ रहा। मिलमैन के अनेक सिपाही मारे गये और शेष सिपाहियों ने अतरौलिया से भाग कर कोशिला में आश्रय लिया। कुँवरसिंह ने मिलमैन का पीछा किया। मिलमैन के साथ जितने हिन्दुस्तानी नौकर सभी ने इस समय उसका साथ

छोड़ दिया था। लिखा है कि वे कम्पनी की सेना के बैलों और गाड़ियों समेत इधर-उधर भाग गये और शेष सामान और तोपे कुँवरसिंह के हाथ लगीं। अँगरेजी सेना का अफसर मिलमैन अपने रहे-सहे आदमियों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया।

ज्यों ही मिलमैन के पराजित होने का समाचार प्राप्त हुआ त्यों ही एक दूसरी अँगरेजी सेना कर्नल डेम्स के अधीन बनारस और मिर्जापुर से चलकर मिलमैन की सहायता के लिए आजमगढ़ पहुँच गई। २८ मार्च को यह सम्मिलित सेना कर्नल डेम्स के अधीन फिर कुँवरसिंह से लड़ने के लिए निकल पड़ी। आजमगढ़ से कुछ दूरी पर कुँवरसिंह और कर्नल डेम्स में घमासान संग्राम हुआ। इस बार भी कुँवरसिंह को ही पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हुई। कर्नल डेम्स को युद्ध के मैदान से बाध्य होकर भाग जाना पड़ा। भागते-भागते वह आजमगढ़ पहुँचा और वहाँ के किले में जाकर आश्रय ग्रहण किया। विजयी कुँवरसिंह ने आजमगढ़ नगर में तुरन्त प्रवेश किया।

आजमगढ़ को विजय कर और अपनी सेना के एक दल को आजमगढ़ के किले पर आक्रमण करने के लिए छोड़ कर कुँवरसिंह अब बनारस की ओर बढ़ा। उस समय लार्ड कैनिंग इलाहाबाद में था। इतिहास-लेखक मालेसन लिखता है कि कुँवरसिंह की विजय और उसके बनारस पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई करने के समाचार को सुनकर लार्ड कैनिंग घबरा गया था।

उस समय तक कुँवरसिंह अपनी राजधानी जगदीशपुर से १०० मील से ऊपर निकल आया था और अब वह बनारस

शहर के ठीक उत्तर में था। लखनऊ से भागे हुए विप्लवकारी इस समय कुंवरसिंह की सेना में आकर शामिल हो गये। लार्ड कैनिंग ने तुरन्त सेनापति लार्ड मार्क कर को सेना और तोपों के साथ कुंवरसिंह को पराजित कर देने के लिए भेज दिया। ६ अप्रैल को लार्ड मार्क की सेना और कुंवरसिंह की सेना में संग्राम हुआ। लिखा हुआ मिलता है कि उस दिन ८१ वर्ष का बूढ़ा कुंवरसिंह अपने सफेद घोड़े पर सवार ठीक घमासान लड़ाई के अन्दर बिजली के सामान इधर से उधर लपकता हुआ दिखाई दे रहा था। लार्ड मार्क कर अन्त में हार गया। अपनी तोपों के साथ उसे पीछे हटना पड़ा। लार्ड मार्क कर को अपनी रक्षा का कोई उपाय न सूझा। विवश होकर उस समय युद्ध के मैदान से भागकर वह आजमगढ़ की ओर बढ़ा। कुंवरसिंह ने उसका पीछा किया। सम्भव है कि या तो कुंवरसिंह के विचार इस समय कुछ-कुछ बदलने लगे हों अथवा वह लार्ड मार्क की चालों में आ गया हो। इतिहास-लेखक मालेसन लिखता है कि कुंवरसिंह का इस समय बनारस आने का विचार छोड़कर आजमगढ़ की ओर लार्ड का पीछा करना उस समय के विचार से सबसे बड़ी भूल थी।

लड़ाई के मैदान से भागकर लार्ड मार्क ने युद्ध में बचे हुए अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ के किले में आश्रय लिया। आजमगढ़ का शहर विप्लवकारियों के अधिकार में था। कुंवरसिंह ने लार्ड मार्क और उसकी सेना को किले में कैद कर किले को पूर्ण रूप से घेर लेने का प्रबन्ध करना आरम्भ कर दिया। इधर पश्चिम की ओर से अब सेनापति लार्ड एक दूसरी अंगरेजी सेना के साथ लार्ड मार्क की सहायता करने के लिए

आजमगढ़ की ओर बढ़ा । कुँवरसिंह को इसका भी पता लग गया !

कुँवरसिंह ने सबसे पहले आजमगढ़ छोड़कर गाजीपुर पहुँचने और फिर वहाँ से गंगा पार कर जगदीशपुर पहुँचने और वहाँ पहुँचकर फिर अपनी पैतृक रियासत विजय करने का इरादा किया । इसके लिए कुँवरसिंह ने सुन्दर चाल चली ।

लगर्ड की सेना तानू नदी के पुल से आजमगढ़ की ओर आने वाली थी । कुँवरसिंह ने अपनी सेना का एक दल लगर्ड की सेना का सामना करने के लिए उस पुल पर भेज दिया और अपनी शेष सेना के साथ कुँवरसिंह गाजीपुर की ओर बढ़ा । उसका भेजा हुआ वह छोटा-सा सैन्य-दल बड़ी वीरता के साथ पुल के ऊपर लगर्ड की सेना का सामना करता रहा । जब कुँवरसिंह को पता लगा कि मुख्य सेना बहुत दूर निकल गई है तब वह धीरे-धीरे पीछे हट कर उस सेना से जाकर मिल गया । लगर्ड को कुँवरसिंह की इस चाल का पता तक न चला सका । इतिहास लेखक मालेसन ने कुँवरसिंह की इस चाल और तानू नदी के ऊपर लड़ने वाले कुँवरसिंह के सिपाहियों की वीरता, दोनों की ही अधिक प्रशंसा की है । इसके बाद लगर्ड की सेना ने बारह मील तक कुँवरसिंह का पीछा किया किन्तु फिर भी कुँवरसिंह हाथ न आ सका ।

इतने ही समय में थोड़ा सा चक्कर देकर स्वयं कुँवरसिंह ने अचानक लगर्ड की सेना पर आक्रमण किया । कम्पनी की सेना के कई अफसर और अनेक सैनिक उस आक्रमण में मारे गये । अन्त में कम्पनी की सेना को हार कर पीछे हट जाना पड़ा और कुँवरसिंह गंगा की ओर बढ़ा ।

कम्पनी की सेना के इस पराजय के समाचार को पाते ही एक दूसरी अंगरेजी सेना सेनापति डगलस के अधीन कुँवरसिंह को परास्त करने के लिए बढ़ी। तबई नामक ग्राम के निकट डगलस और कुँवरसिंह की सेनाओं में भयङ्कर रूप से घमासान संग्राम हुआ। इस समय कुँवरसिंह ने अपनी सेना के तीन दल किये। एक दल ने डगलस का सामना किया। दूसरे दोनों दल घूम कर आगे बढ़ गये। पहला दल बढ़ी वीरता के साथ डगलस की सेना से लड़ता रहा यद्यपि डगलस की सेना की तुलना में इस दल की संख्या कम ही थी। चार मील तक डगलस इस सेना को दबाता ही चला गया। अन्त में ज्यों ही डगलस की सेना थककर रुकी त्यों ही वे दूसरे दोनों दल अन्य मार्गों से घूम कर डगलस की सेना पर टूट पड़े। पराजित होकर डगलस को भी पीछे जाना पड़ा।

अब कुँवरसिंह की सम्मिलित सेना गंगा की ओर बढ़ी। डगलस की सेना ने फिर उसका पीछा किया किन्तु कुछ भी लाभ न हुआ। कुँवरसिंह अपनी सेना के साथ आश्चर्यजनक शीघ्र गति से चलकर सिकन्दरपुर पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसने घाघरा नदी को पार किया और फिर मनोहरपुर ग्राम में जाकर कुछ देर के लिए विश्राम करने को रुक गया। मनोहर ग्राम में भी डगलस की सेना ने फिर कुँवरसिंह पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में कुँवरसिंह के हाथी, कुछ बारूद और थोड़ी-सी भोजन-सामग्री डगलस के अधिकार में आ गई। इसके बाद कुँवरसिंह ने फिर अपनी सेना के कई छोटे-छोटे टुकड़े बना लिए और उन सब को अलग रास्तों से चलकर एक नियत स्थान पर मिलने की आज्ञा दी। डगलस के लिए इन पृथक-पृथक

दलों का पीछा कर सकना असम्भव हो गया। कुँवरसिंह की समस्त टुकड़ियाँ आगे चलकर मिल गईं और गंगा की ओर बढ़ चली।

गंगा के किनारे पहुँचकर कुँवरसिंह ने यह अफवाह उड़ा दी कि मेरी सेना बलिया के निकट हाथियों पर गंगा को पार करेगी। अँगरेजी सेना उसी स्थान पर जाकर कुँवरसिंह को रोक के लिए डट गई किन्तु कुँवरसिंह उस स्थान से सात मील नीचे शिवपुर घाट से रात्रि के समय नावों पर बैठकर गंगा को पार करने लगा था। अँगरेजी सेना को जब इस चाल का पता लगा तब वह शिवपुर पहुँच गई। उस समय तक कुँवरसिंह की समस्त सेना गंगा पार कर चुकी थी। केवल एक नाव शेष रह गई थी। कुँवरसिंह उसी नाव में था। ठीक जिस समय कुँवरसिंह की नाव बीच गंगा की धार में थी उसी समय अँगरेजी-सेना के किसी सिपाही ने ऐसा निशाना लगाकर बन्दूक चलाई कि गोली कुँवरसिंह की दाहिनी कलाई में ही आकर लगी। ८१ वर्ष के बूढ़े कुँवरसिंह ने जब यह देख लिया कि गोली लगने से दाहिना हाथ बेकार हो चुका है और गोली के कारण समस्त शरीर में विष फैल जाने का भी डर है तब बायें हाथ से तलवार खींचकर अपने घायल दाहिने हाथ को स्वयं एक ही वार में कुँहनी पर से काट कर गंगा की धारा में फेक दिया और घाव पर कपड़ा लपेट कर कुँवरसिंह ने गंगा को पार किया। अँगरेजी सेना गंगा के उस पार उसका पीछा न कर सकी।

गंगा के उस पार कुछ दूरी पर जगदीशपुर की राजधानी थी। उस दिन से आठ महीने पूर्व कुँवरसिंह को जगदीशपुर

से निकल जाना पड़ा था। इन आठ महीने तक जगदीशपुर अंगरेजों के अधिकार में रहा। २२ अप्रैल को राजा कुंवरसिंह ने फिर जगदीशपुर में प्रवेश किया। कुंवरसिंह के भाई अमरसिंह ने पहले से ही थोड़े से स्वयंसेवकों का एक दल कुंवरसिंह की सहायता के लिए जमा कर रखा था। इसलिए विशेष कोई कठिनाई नहीं रही। वीरता और साहस के प्रताप से राजधानी जगदीशपुर पर फिर से कुंवरसिंह का अधिकार हो गया।

राजधानी जगदीशपुर पर फिर कुंवरसिंह का अधिकार हो जाने के समाचार से आरा के अंगरेज अफसर चौकन्ने हो गये। २३ अप्रैल को लीग्रैण्ड के अधीन कम्पनी की सेना जगदीशपुर पर दुबारा आक्रमण करने के लिए आरा से चल पड़ी। इधर आठ महीने कुंवरसिंह और उसकी सेना का निरंतर युद्ध आक्रमण और कठिन यात्रा करने में ही बीते थे और जगदीशपुर पहुँचे भी उसे अभी २४ घण्टे भी नहीं हुए थे, साथ ही साथ कुंवरसिंह का दाहिना हाथ भी कट चुका था और उस समय उसके पास एक हजार से अधिक सेना भी न थी। उधर उसकी तुलना में लीग्रैण्ड की सेना सुसज्जित और सुव्यवस्थित तथा पूर्ण रूप से विश्राम लाभ किये हुए थी और उसके साथ सभी प्रकार के अच्छे से अच्छे हथियार तथा बड़ी से बड़ी तोपें थीं। कुंवरसिंह के पास उस समय कोई तोप न थी। ऐसी सामरिक विषम परिस्थिति में भी जगदीशपुर से डेढ़ मील की दूरी पर लीग्रैण्ड और कुंवरसिंह की सेना में वीरोचित मर्यादा की चरम सीमा तक का संग्राम हुआ। लीग्रैण्ड की सेना में थोड़े-से अंगरेज सैनिक और अधिकांश सिख सिपाही थे किन्तु

मैदान इस बार भी पूर्ण रूप से कुँवरसिंह के हाथों में ही रहा । उस दिन की पराजय को बतलाते हुए एक अँगरेज अफसर जो जगदीशपुर के इस संग्राम में शामिल था, इस प्रकार के विचारों को प्रकट करता है —

“वास्तव में इसके बाद जो कुछ हुआ उसे लिखते हुए मुझे अत्यन्त लज्जा आती है । लड़ाई का मैदान छोड़कर हमने जंगल से भागना आरम्भ किया । पीछे से शत्रु बराबर हमें पीटता रहा । हमारे सैनिक प्यासे मर रहे थे । एक निःकृष्ट गन्दे छोटे-से पोखर को देखकर वे व्याकुल होकर उसकी ओर दौड़ पड़े । इतने में कुँवरसिंह के सवारों ने हमें पीछे से आकर दबा लिया । इसके बाद हमारे अपमान की कोई सीमा न रही और हमारा संकट चरम-सीमा तक पहुँच गया । यहाँ तक कि हममें से किसी में लज्जा तक न रही । जिस ओर जिसे कुशल दिखाई पड़ी, वह उसी ओर को भागने लगा । किसी ने भी अफसरों की आज्ञाओं की कोई पर्वाह न की । व्यवस्था और अनुशासन का अन्त हो गया । चारों ओर आहों, श्रापों और रोने के अतिरिक्त कुछ भी सुनाई न देता था । मार्ग से अँगरेजों के गिरोह के गिरोह गर्मी के मारे गिर-गिर कर मर गये । किसी को दवा मिल सकना भी असम्भव था क्योंकि हमारे अस्पताल पर कुँवरसिंह ने पहले ही अधिकार जमा लिया था । कुछ वहीं गिर कर मर गये और जो शेष रहे उन्हें शत्रु ने काट डाला । हमारे कहार डोलियों रख-रख कर भाग गये । सभी घबराये हुए थे, सभी डरे हुए थे । सोलह हाथियों पर केवल हमारे घायल साथी लदे हुए थे । स्वयं जनरल लीग्रैण्ड की छाती में एक गोली लगी और वह मर गया । हमारे सिपाही अपनी जान लेकर पाँच मील से ऊपर

दौड़ चुके थे ! अब उनमें अपनी बन्दूक उठाने तक की शक्ति न रह गई थी। सिखों को वहाँ की धूप सहने की आदत थी। उन्होंने हमसे हाथी छीन लिये और हमसे आगे भाग गये। गोरों का किसी ने साथ न दिया। १९९ गोरों में से केवल ८० इस भयकर संहार से जीवित बच सके ! इस जंगल में हमारा जाना ऐसा ही हुआ जैसा पशुओं का कसाईखाने में जाना, हम वहाँ केवल वध होने के लिए गए थे।”

इतिहास-लेखक ह्वाइट लिखता है—“इस अवसर पर अंगरेजों ने पूरी और बुरी तरह से हार खाई।”

जगदीशपुर के इस युद्ध में अंगरेजी सेना की सब तोपें और सारा सामान कुँवरसिंह के हाथों में आ गया था। इस प्रकार २३ अप्रैल सन् १८५८ को विजयी कुँवरसिंह फिर से अपनी पैतृक रियासत पर शासन करने लगा। किन्तु इस समय तक कुँवरसिंह के हाथ का घाव अच्छा न हुआ। उस घाव के ही कारण २६ अप्रैल सन् १८५८ को अपने महल के अन्दर राजा कुँवरसिंह की मृत्यु हुई। कुँवरसिंह के मृत्यु के समय स्वाधीनता का हरा झण्डा उसकी राजधानी के ऊपर फहरा रहा था। राजा कुँवरसिंह ही ऐसा प्रतापी और वीर था जो अंगरेज कम्पनी के अधिकार से अपनी रियासत और प्रजा दोनों को ही पूर्ण रूप से स्वाधीन कर चुका था और स्वाधीनता के हरे झण्डे के ही नीचे स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ था।

उसके सम्बन्ध में इतिहास-लेखक होम्स लिखता है—“उस बूढ़े राजपूत की जो बृटिश सत्ता के विरुद्ध इतनी वीरता और इतनी आन के साथ लड़ा, २६ अप्रैल सन् १८५८ को मृत्यु हो गई।”

राजा कुंवरसिंह का व्यक्तिगत चरित्र अत्यन्त पवित्र था। वह बड़े ही संयम से अपने जीवन को बिताता था। यहाँ तक कहा जाता है कि उसके राज्य में कोई मनुष्य इस भय से कि कहीं कुंवरसिंह देख न ले, खुले तौर पर तम्बाकू तक न पीता था। उसकी समस्त प्रजा उसका विशेष रूप से आदर और उससे शुद्ध प्रेम करती थी। युद्ध-कौशल में वह अपने समय में सर्वश्रेष्ठ था।

जब जगदीशपुर का ऐसा प्रतापी राजा सुरपुर को सिधार गया तब उसका छोटा भाई अमरसिंह जगदीशपुर की राजगद्दी पर बैठा। अपने बड़े भाई के मरने के बाद अमरसिंह ने चार दिन भी विश्राम नहीं किया। केवल जगदीशपुर की रियासत पर अपना अधिकार बनाये रखने से ही वह संतुष्ट न रहा। उसने तुरन्त अपना सेना को फिर से जमा किया और आरा पर चढ़ाई कर दी। लीग्रैन्ड की सेना के पराजित हो जाने के बाद जनरल डगलस और जनरल लगर्ड की सेनाएँ भी गगा को पार करके आरा की सहायता के लिए पहुँच चुकी थी। ३ मई को राजा अमरसिंह की सेना के साथ डगलस और लगर्ड की सेनाओं का पहला सग्राम हुआ। उसके बाद विहिया, हतमपुर, दलीलपुर इत्यादि के अनेक स्थानों पर दोनों सेनाओं में अनेक युद्ध हुए। अमरसिंह भी ठीक उसी प्रकार की युद्ध नीति द्वारा अंगरेजी सेना को बार बार हराता और हानि पहुँचता रहा जिस प्रकार की युद्ध नीति में कुंवरसिंह निपुण था। निराश होकर जनरल लगर्ड ने इस्तीफा (त्याग-पत्र) दे दिया। लड़ाई का समस्त उत्तरदायित्व अब जनरल डगलस पर पड़ा। डगलस के साथ सात हजार सेना थी। उसने अमरसिंह को परास्त

करने की हद्द प्रतिज्ञा कर ली किन्तु जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने बीत गये फिर भी अमरसिंह परास्त न हो सका। इसी समय में विजयी अमरसिंह ने आरा में प्रवेश किया और जगदीशपुर की रियासत पर अपना आधिपत्य भी जमाये रखा। जनरल डगलस ने कई बार हार खा कर यह घोषणा करा दी कि जो मनुष्य किसी तरह भी अमरसिंह का मस्तक लाकर मेरे सामने उपस्थित होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जायगा किन्तु इससे भी काम न चल सका।

अपनी इस चाल में भी असफल होने पर जनरल डगलस ने सात विशाल सेनाओं द्वारा सात ओर से जगदीशपुर को ही घेर लेने और आक्रमण करने का उपाय निश्चित किया। निश्चित किये हुए इसी उपाय के अनुसार १७ अक्टूबर को डगलस की विशाल सेनाओं ने जगदीशपुर को चारों ओर से घेर लिया। अमरसिंह ने भी देख लिया कि इतने विशाल सैन्यदल पर विजय प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है। वह तुरन्त अपने चुने हुए थोड़े से सिपाहियों के साथ मार्ग चीरता हुआ अंगरेजी सेना के बीच से निकल गया। जगदीशपुर पर फिर से कम्पनी का अधिकार हो गया किन्तु अमरसिंह किसी के भी हाथ न आया।

अंगरेजी सेना के बीच से निकल कर जाते ही कम्पनी की सेना ने अमरसिंह का पीछा किया। १९ अक्टूबर को नौनदी नामक ग्राम में इस सेना ने अमरसिंह को घेर लिया। इस समय अमरसिंह के साथ केवल चार सौ सिपाही थे इन चार सौ में से तीन सौ ने नौनदी ग्राम के संग्राम में लड़कर अपनी जान दे दी शेष सौ सिपाहियों ने कम्पनी की सेना को एक बार पीछे हटा दिया। इतने में और अधिक सेना अंगरेजों की सहायता

के लिए पहुँच गई। उनसे भी अमरसिंह के सौ सिपाहियों ने अपनी जान हथेली पर लेकर युद्ध किया। अन्त में अमरसिंह और उसके दो और साथी युद्ध के मैदान से निकल गये। शेष ९७ वहाँ वीरों की गति को प्राप्त हो गये। नौनदी के संग्राम में कम्पनी की ओर से मरने वालों की संख्या इससे भी कहीं अधिक थी और घायलों की संख्या कितनी रही होगी यह बतलाना भी कठिन है।

अंगरेजों की सेना ने फिर अमरसिंह का पीछा किया। एक बार थोड़े से सवार अमरसिंह के हाथी तक पहुँच गये। हाथी तो पकड़ लिया गया किन्तु अमरसिंह कूद कर निकल गया। इसके बाद प्राणों की रक्षा करते हुए अमरसिंह ने कैमूर के पहाड़ों में प्रवेश किया। शत्रु ने वहाँ पर भी उनका पीछा किया किन्तु अमरसिंह ने हार स्वीकार न की इसके बाद राजा अमरसिंह का कोई पता न चला।

इधर जगदीशपुर की खियों ने भी शत्रु के हाथ में पड़ना उचित नहीं समझा। लिखा है कि जिस समय महल की डेढ़ सौ खियों ने यह देखा कि अब शत्रु के हाथों में पड़ने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है तब वे सब तोपों के मुँह के सामने खड़ी हो गईं और स्वयं अपने हाथ से फलीता लगा कर उन सबों ने अपने ऐहिक जीवन के नाटक को चिरकाल के लिए समाप्त कर दिया।

अवध के पड़ोसी प्रान्त बिहार के विप्लव का यह वृत्तान्त समाप्त कर हम फिर अवध रुहेलखण्ड की ओर लौट रहे हैं। लखनऊ के पतन के बाद विप्लवकारियों का कोई विशेष केन्द्र कहीं भी देश भर में न रह गया। कम्पनी की सेनाएं इस समय

चारों ओर फैलती जा रही थीं। पलटन पर पलटन इंग्लैण्ड से भर्ती होकर भारत में टिड्डी दल के समान चली आ रही थी। भारतवर्ष के विशाल साम्राज्य को अपने अधिकार से ढावाँडोल होते देखकर इङ्गलैण्ड के शासकों ने उस समय अपनी समस्त शक्ति सन् १८५७ वाले भारतीय बिसव को दमन करने में लगा रखी थीं। पहली अप्रैल सन् १८५८ को कम्पनी की हिन्दुस्तानी सेना और देशी रियासतों की सेनाओं के अतिरिक्त कम्पनी के पास भारतवर्ष में ९६००० गोरी सेना थी। अंगरेज-जाति के बड़े-से-बड़े अनुभवी सेनापति भारत में मौजूद थे। दूसरी ओर सिखों और गोरखों ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति से अंगरेजों का साथ दिया। इधर बिसवकारियों के अन्दर अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे केन्द्र हाथ से निकल चुके थे। इस परिस्थिति में अवध और रुहेलखण्ड के नेताओं ने इधर-उधर फैले हुए बिसवकारियों के नाम आज्ञा प्रकाशित की—

“तुम लोग विधर्मियों की बाजाबत्ता (विधर्मियों के विधान अर्थात् कानून को मान कर चलनेवाली) सेनाओं का खुले मैदान में सामना करने का प्रयत्न न करो, क्योंकि उनसे व्यवस्था हमसे बढ़कर है और उनके पास बड़ी-बड़ी तोपें हैं। उनके आने-जाने पर दृष्टि रखो, नदियों के समस्त घाटों पर अपना पहरा रखो, उनके पत्र-व्यवहार को बीच में रोक दो, उनकी रसद को रोक लो, उनकी डाक और चौकियों को तोड़ दो हमेशा उनके कैम्प के इधर-उधर फिरते रहो। फिरंगियों को बिल्कुल चैन न लेने दो।”

बिसवकारियों की इस आज्ञा के सम्बन्ध में रसल लिखता

है—“इस सार्वजनिक घोषणा से नेताओं की बुद्धिमत्ता का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि इससे अधिक भयकर युद्ध का हमें कभी भी सामना न करना पड़ा था।”

लखनऊ के पतन होने के बाद मौलवी अहमदशाह लखनऊ से लगभग तीस मील दूर बारी नामक स्थान पर था। बेगम हजरत महल छः हजार सैनिक के साथ बिटावली में थीं। होपभ्राण्ट तीस हजार सेना और तोपखाने के साथ लखनऊ से बारी की ओर बढ़ा। मौलवी अहमदशाह को इसका पता चल गया उसने बारी से चार मील दूर एक गाँव में अपनी पैदल सेना को नियुक्त किया और सवार सेना को किसी दूसरे स्थान में छिपा दिया। उसकी चाल यह थी कि कम्पनी की सेना इस गाँव पर चढ़ाई करे तो अहमदशाह की पैदल सेना उसका सामना करे और उसके सवार अचानक पीछे से आकर कम्पनी की सेना को घेर लें। मौलवी अहमदशाह स्वयं अपनी पैदल सेना के साथ रहा। सवारों से कह दिया गया था कि जिस समय तक पैदल सेना के साथ अँगरेजों की लड़ाई न होने लगे उस समय तक तुम सब अपने आपको बराबर छिपाये रखना किन्तु उन सब सवारों ने कुछ भी ध्यान न रखा और भाग्य के निर्णायक क्षण भर अधीर सवारों ने अहमदशाह की आज्ञा के विरुद्ध अँगरेजी सेना को सामने देखते ही अपने स्थान से निकल कर उस पर आक्रमण कर दिया। इस अवहेलना और अव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि थोड़े-से युद्ध के बाद अहमदशाह को उस गाँव से निकल कर भाग जाना पड़ा और बारी के युद्ध का मैदान अँगरेजों के हाथ रहा। यह ऐसा समय था जब कि कम्पनी की सेना के अनेक दल अवध और रुहेलखंड

के बिसवकारियों को उत्तर की ओर क्रमशः खदेड़ते हुए चले जा रहे थे ।

इस घटना और जीत के बाद वालपोल ने १५ अप्रैल को लखनऊ से ५० मील दूर रुइया के किले पर चढ़ाई की । रुइया के तालुकदार नरपतिसिंह के पास केवल दो सौ पचास साधारण सिपाही थे । वालपोल के साथ कई हजार सेना और तोपे थी । सामने की ओर से वालपोल के डेढ़ सौ आदमियों ने किले पर चढ़ाई की । किले की दीवारों से गोलियों की बौछार होने लगी । ४६ अंगरेज वहीं पर मर गये और जो शेष रहे उन्हें पीछे हट जाना पड़ा । वालपोल ने अपनी तोपों के साथ किले की दूसरी ओर से गोलेबारी करना आरंभ कर दिया । वालपोल के गोले किले के ऊपर से पार कर दूसरी ओर की अंगरेजी सेना पर जाकर गिरने लगे । वालपोल की इस घबराहट को देखकर जनरल होप आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही मारा गया । समस्त अंगरेजी सेना को बड़े ही अपमान के साथ हार कर किले से पीछे हट जाना पड़ा ।

जनरल होप अंगरेजों के मुख्यतम और अनुभवी सेनापतियों में से था । उसकी मृत्यु से भारत और इंग्लैण्ड के अंगरेजों को बड़ा शोक हुआ । इस विजय के बाद भी नरपतिसिंह ने जब देख लिया कि मैं इतनी विशाल अंगरेजी सेना के सामने न तो युद्ध में टिक सकूँगा और न इस छोटे-से किले में विलम्ब तक ठहरा सकूँगा, तब वह अपने मुट्ठी भर आदमियों के साथ किले के बाहर निकल गया ।

इधर नाना साहब और मौलवी अहमदशाह घूमते-फिरते शमहजड़ापुर पहुँचे । उनके पहुँचते ही कमाण्डर-इन-चीफ सर

कालिन कैम्पबेल ने शाहजहाँपुर पहुँच कर चारों ओर से नगर को घेर लिया। उसका उद्देश्य नाना साहब और मौलवी अहमदशाह को अपने वश में करना था किन्तु ये दोनों नेता अँगरेजी सेना के बीच से शाहजहाँपुर छोड़ कर निकल गये।

अभी तक खानबहादुर खॉ ने रुहेलखण्ड की राजधानी बरेली को स्वतन्त्र कर रखा था। दिल्ली का एक शहजादा मिर्जा फ़िरोजशाह, नाना साहब, मौलवी अहमदशाह, बाला साहब, बेगम हजरत महल, राजा तेजसिंह और अन्य अनेक विसवकारी नेता इस समय बरेली में थे। सर कालिन अपनी सेना के साथ बरेली की ओर बढ़ा। इधर विसवकारी नेता पहले से ही बरेली छोड़ देने और चारों ओर फैल जाने का निश्चय कर चुके थे। ५ मई को अँगरेजी सेना ने बरेली को घेर लिया। बरेली के असंख्य विसवकारी केवल ढाल तलवार लेकर लड़ने के लिए अँगरेजी सेना पर टूट पड़े और भयानक रूप से युद्ध होने लगा। दोनों ही ओर के सैनिक मारे गये। अन्त में ७ मई सन् १८५८ को खानबहादुर खॉ अन्य विसवकारी नेताओं और कुछ सेना के साथ बरेली छोड़ कर निकल गया। इसके बाद अँगरेजी सेना ने बरेली के नगर को अपने अधिकार में कर लिया।

बरेली के नगर को अपने अधिकार में लाने के लिए अँगरेजी सेना को छोटे-छोटे कई संग्राम करने पड़े थे। सर कालिन कैम्पबेल भी उन्हीं संग्रामों को जीतने में अपने सैनिकों के साथ लगा हुआ था। अभी वह बरेली को ही अपने अधिकार में लाने के प्रयत्न में था कि इतने में मौलवी अहमदशाह ने इधर-उधर घूम कर फिर से शाहजहाँपुर पर चढ़ाई कर दी और

परिणाम यह हुआ कि समस्त अंगरेजी सेना परास्त हो गई। इस प्रकार शाहजहाँपुर में फिर विप्लवकारियों का अधिकार हो गया। इस समाचार को पाते ही कैम्पबेल ने फिर शाहजहाँपुर पर आक्रमण किया। इस बार तीन दिन तक संग्राम होता रहा और मौलवी अहमदशाह के लिए बचकर निकलना भी असंभव हो गया इस लिए चारों ओर से विप्लवकारी सिपाही सहायता के लिए पहुँच गये। इतना ही नहीं बेगम हजरत-महल, शहजादा फिरोजशाह, नाना साहब आदि भी अपनी-अपनी सेनाएं लेकर १५ मई को शाहजहाँपुर पहुँचे। मौलवी अहमदशाह फिर इन सब की सहायता से शाहजहाँपुर से निकल आया। इसके बाद बहेलखंड से घूम कर मौलवी अहमदशाह ने पुनः अवध की सीमा में प्रवेश किया।

मौलवी अहमदशाह किसी भी प्रकार अंगरेजों के चंगुल में नहीं आता था इस बार अवध में प्रवेश करते ही अंगरेजों से लड़ने का उसने फिर से नया आयोजन किया और अपनी शक्ति बढ़ाने का उपाय सोचने लगा। रास्ते में पवन नाम की छोटी-सी हिन्दू रियासत थी। बेगम हजरतमहल की मुहर लगाकर मौलवी अहमदशाह ने एक पत्र पवन के राजा के पास सहायता के लिए भेज दिया। वहाँ के राजा जगन्नाथसिंह ने तुरन्त मौलवी अहमदशाह को अपने यहाँ बुला भेजा। अपने हाथी पर बैठ कर अहमदशाह पवन पहुँचा। राजा जगन्नाथ सिंह और उसके भाई से अहमदशाह की बात चीत हुई। बातचीत हो ही रही थी कि जगन्नाथसिंह के भाई ने धोखे से मौलवी अहमदशाह पर गोली चला दी। इस विस्वास घातक के वार से

अहमदशाह न बच सका । राजा जगन्नाथ सिंह ने तुरन्त अहमदशाह का सिर काट कर उसे एक कपड़े में लपेटा और स्वयं पास के अंगरेजी कैम्प में दे आया । इस प्रकार ५ जून सन् १८५८ को मौलवी अहमदशाह का अन्त हुआ । दूसरे दिन मौलवी अहमदशाह का कटा हुआ मस्तक शाहजहाँपुर की कोतवाली के सामने टॉग दिया गया । राजा जगन्नाथ सिंह को इस सेवा के बदले में कम्पनी की सरकार से पचास हजार रुपये इनाम में मिले ।

कुछ भी हो हमारे पाठक यह भली भौति समझ गये होंगे कि मौलवी अहमदशाह अपने बुद्धि-बल से उत्तरी भारत में विप्लवकारियों का सब से बड़ा योग्य नेता बन चुका था और धैर्य, साहस तथा वीरता में भी अद्वितीय था । उसके सम्बन्ध में होम्स लिखता है कि मौलवी अहमदशाह उत्तरी भारत में अंगरेजों का सब से प्रबल शत्रु था ।

एक दूसरा अंगरेज इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—
 “मौलवी एक बड़ा विचित्र पुरुष था × × × सेनापति की हैसियत से विस्मय में उसकी योग्यता के अनेक प्रमाण मिले । × × × अभिमान के साथ और कोई भी मनष्य यह नहीं कह सकता था कि मैंने दो बार सर कालिन कैम्पबेल को मैदान में परास्त किया । × × × फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह की इस प्रकार मृत्यु हुई । यदि एक ऐसे मनुष्य को जिसका जन्म-भूमि की स्वाधीनता का अन्याय से अपहरण कर लिया गया हो, और जो फिर से उस स्वाधीनता को स्थापित करने के लिए योजना करे और युद्ध करे, देशभक्त कहा जा सकता है, तो इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो

सकता कि मौलवी अहमदशाह सच्चा देशभक्त था। किसी की भी गुप्त हत्या करके उसने अपनी तलवार को कलंकित नहीं किया था, निहत्थे और निरपराध मनुष्यों की हत्या को उसने कभी पसन्द भी नहीं किया था, उसने मर्दाना वार, आन के साथ और डटकर खुले मैदान में उन विदेशियों के साथ युद्ध किया जिन्होंने उसका देश छीन लिया था। प्रत्येक देश के वीर और सच्चे लोगों को मौलवी अहमदशाह को आदर के साथ स्मरण करना चाहिए।”

ये विचार एक अंगरेज इतिहास लेखक के हैं। हमें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रकार के वीर पुरुष हो चुके हैं, जो प्राणों के रहते हुए पराधीन नहीं हुए। हमारी अपनी भी यही धारणा है कि संसार के स्वाधीनता के शहीदों में सन् १८५७ के मौलवी अहमदशाह का नाम सदा के लिए आदरणीय रहेगा।

भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई

हम अपने पाठकों को इसी पुस्तक के 'भाँसी की रानी और लखनऊ की बेगम' शीर्षक वाले भाग में बतला चुके हैं कि अँगरेजी कम्पनी वालों ने किस-किस प्रकार भाँसी की रानी को कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया था और उनके कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भाँसी की रानी ने वीरता से पूर्ण कितने प्रकार के प्रयत्न किये थे और अन्त में किस प्रकार उसने अँगरेजों को जीता था ।

जो एक बार युद्ध में पराजित होता है वह नित्य प्रतिशोध लेने का उपाय सोचता है, और जब तक वह अपने शत्रु को नहीं पराजित कर लेता अथवा स्वयं नहीं नष्ट होता तब तक वह उचित अवसर ही की प्रतीक्षा करता है। इसी विचार-धारा के अनुसार भाँसी की रानी से पराजित होने वाले अँगरेज भी प्रतिशोध लेने की भावना से उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। विसवकारी सैनिकों द्वारा पराजित अँगरेज अफसर और उनके बेतनभोगी सैनिक अपने को बलशाली बनाने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न करने लगे थे।

यमुना नदी के दक्षिण और विन्ध्याचल के उत्तर का समस्त अन्त ११ महीने तक विसवकारियों के ही अधिकार में रहा और उसका समस्त श्रेय महारानी लक्ष्मीबाई को ही है। महारानी लक्ष्मीबाई के शासन से सभी को पूर्ण रूप से सन्तोष था और

अँगरेजों की आँखों में महारानी लक्ष्मीबाई काँटों के समान खटक रही थी क्योंकि उसी कारण अँगरेजी सेना की दाल उस प्रदेश में कहीं भी गलाये नहीं गलती थी।

इसीलिए सर ह्यू रोज के अधीन एक विशाल सेना जिसमें हैदराबाद, भोपाल और अन्य रियासतों की सेनाएँ भी मिली हुई थीं, बड़ी-बड़ी तोपों के साथ उस प्रदेश को फिर से विजय करने के लिए भेजी गई।

सर ह्यू रोज मऊ से ६ जनवरी सन् १८५८ को खाना हुआ। रायगढ़, सागर, बानापुर, चदेरी, इत्यादि स्थानों पर विजय प्राप्त करती हुई उसकी विशाल सेना २० मार्च को भाँसी के निकट पहुँची। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय समस्त प्रदेश के विलायकारियों का मुख्य केन्द्र भाँसी ही था। नगर के भीतर बानापुर का राजा मर्दानसिंह और अन्य अनेक राजा तथा सरदार रानी की सहायता के लिये मौजूद थे।

कम्पनी की सेना के पहुँचने से पहले ही रानी लक्ष्मीबाई ने भाँसी के चारों ओर दूर-दूर तक के इलाके को जन्य-शून्य करा दिया था, जिससे कि आक्रमण करने वाले शत्रु की सेना को भाँसी पर आक्रमण करते समय रसद इत्यादि न मिल सके। न तो खेतों में अनाज की एक बाल थी, न कहीं पर घास का तिनका ही था और न कोई ऐसा छायादार वृक्ष ही था जिसके नीचे बैठ कर कोई क्षण भर विश्राम कर सके। किन्तु हमारे और इस देश के लिए दुर्भाग्य के कारण बनने वाले महाराज सींधिया ने और टेहरी टीकमगढ़ के राजा ने कम्पनी की सेना के लिए रसद, घास और अन्य आवश्यक वस्तुओं का इतना अच्छा प्रबन्ध कर दिया था कि उस सेना को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हुई।

जब अंगरेजों की सेना भॉसी की ओर बढ़ने लगी तब भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं विश्वकारियों का सेनापतित्व ग्रहण किया। प्रत्येक मोर्चे को उसने अपनी देख-रेख में तैयार कराया और अपने किले की सभी दीवारों पर तोपें चढ़वाईं। सर ह्यू रोज स्वयं लिखता है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ भॉसी की सैकड़ों स्त्रियों तोपखानों और मैगजीनों में आती जाती और काम करती दिखाई दे रही थी। २४ मार्च को सबेरे सब से पहले भॉसी की 'घनगर्ज' नाम की एक तोप ने अंगरेजों की सेना के ऊपर गोले बरसाने का काम आरम्भ कर दिया। उसके बाद आठ दिन तक निरन्तर संग्राम होता रहा। एक दर्शक जो उस समय भॉसी में मौजूद था; भॉसी के इस संग्राम के सम्बन्ध में लिखता है।

“२५ तारीख से घोर युद्ध आरम्भ हुआ। अंगरेजों ने समस्त दिन और समस्त रात्रि गोले बरसाये। रात्रि के समय किले और नगर के ऊपर तोपों के गोले भयंकर दिखाई देते थे। पचास अथवा तीस सेर का गोला ऐसा मालूम होना था जैसे एक छोटी सी गेंद, किन्तु अंगारे की तरह लाल। × × × २६ तारीख के दोपहर को कम्पनी की सेना ने नगर के दक्षिणी फाटक पर इतने जोर से गोले बरसाये कि उस ओर की भॉसी की तोपें ठंडी हो गईं किसी को भी वहाँ खड़े रहने का साहस न हो सका। × × × इस पर पश्चिमी फाटक के तोपची ने अपनी तोप का मुँह उस ओर फेर कर शत्रु के ऊपर गोले बरसाने आरम्भ किये। तीसरे गोले ने अंगरेजी सेना के सबसे अच्छे तोपची को उड़ा दिया। इस पर अंगरेजी तोप ठंडी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रसन्न होकर अपनी ओर से तोपची को जिसकाः

नाम गुलामगौस खॉ था, सोने का कड़ा इनाम मे दिया। X X X पांचवें या छठे दिन चार-पाँच घण्टे तक रानी की तोपों ने चमत्कार दिखाया। उस दिन अँगरेजों की ओर असख्य आदमी मारे गये और अनेक तोपे ठंडी हो गईं। फिर अँगरेजी तोपे अधिक उत्साह से चलने लगीं। भांसी की सेना का दिल टूटने लगा और उनकी तोपे ठंडी होने लगीं। सातवें दिन शाम को शत्रु के गोलों ने नगर के बाईं ओर की दीवार का एक भाग गिरा दिया और उस ओर की तोप ठंडी हो गई। कोई वहाँ पर खड़ा न रह सकता था किन्तु रात्रि के समय ११ मिस्त्री कम्बल ओढ़े दीवार तक पहुँचे और सबेरा होते-होते उस भाग की मरम्मत कर दी। सूर्य निकलने से पूर्व भांसी की तोप फिर अपना काम करने लगी। X X X कम्पनी की ओर इससे बहुत भारी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उनकी तोपे बहुत देर के लिए निकम्मी हो गईं। आठवें दिन प्रातःकाल कम्पनी की सेना शंकर किले की ओर बढ़ी। दूरबीनों की सहायता से अँगरेजों ने किले के भीतर पानी के सोतो पर गोले बरसाने आरम्भ किये। ६-७ आदमी पानी लेने के लिए पहुँचे, जिनमे से चार वहीं पर मर गये, शेष अपने बर्तन छोड़ कर भाग आये। चार घंटे तक किसी को नहाने-धोने तक के लिए पानी न मिल सका। इस पर पश्चिमी और दक्षिणी फाटकों के तोपचियों ने कम्पनी की सेना के ऊपर लगातार गोलेबारी शुरू की और कम्पनी की जो तोपे शंकर किले पर आक्रमण कर रहीं थीं, उनका मुंह फेर दिया। तब जाकर लोगों को नहाने और पीने के लिए पानी मिल सका। इमली के वृक्षों के नीचे बारूद का एक कारखाना था। X X X एक गोला इस कारखाने पर पड़ा जिससे ३० आदमी और ८

खियां मर गईं'। उसी दिन सबसे अधिक चिल्लाहट हुई। उस दिन का संग्राम भीषण था। बन्दूकों की आवाज दिलों को दहलाती थी, तोपें जोरों के साथ चल रही थीं। जगह-जगह तुरही और बिगुल की आवाज सुनाई देती थी। आसमान धुएँ और धूल से भरा हुआ था। नगर की दीवार के ऊपर कई तोपची और अनेक सिपाही मारे गये। उनकी जगह दूसरे नियुक्त कर दिये गये। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन बड़े परिश्रम के साथ कार्य करती रही। वह प्रत्येक वस्तु को स्वयं देखती थी, आवश्यक आज्ञाएँ जारी करती थी और दीवार में जहाँ कमजोरी देखती थी, तुरन्त मरम्मत कराती। रानी की इस उपस्थिति से सिपाहियों की हिम्मत बेहद बढ़ गई। वे बराबर लड़ते रहे।”

किन्तु कम्पनी की विशाल सेना और उनके सामान के सामने भ्रांसी की सेना का अकेले अधिक विलम्ब तक ठहर सकना असम्भव था।

उस समय तात्या टोपे अपनी सेना के साथ यमुना नदी के उत्तर में था। यमुना पार कर के वह अब चरखारी के राजा के यहाँ पहुँचा। उसके पहुँचने पर भी चरखारी के राजा ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने से इन्कार कर दिया था। इस पर तात्या टोपे ने चरखारी पर आक्रमण किया। उसने राजा से २४ तोपें छीनीं और तीन लाख रुपये युद्ध के खर्च के लिए वसूल किये। इसके बाद तात्या कालपी पहुँचा।

कालपी में उसे रानी लक्ष्मीबाई का एक पत्र मिला जिसमें रानी ने उससे भ्रांसी की सहायता के लिए पहुँचने की प्रार्थना की थी। पत्र को पाते ही तात्या भ्रांसी की ओर बढ़ा। लिखा:

हुआ मिलता है कि तात्या के अधीन एक विशाल सेना थी। कम्पनी की सेना एक बार संकट में पड़ गई, सामने की ओर रानी लक्ष्मीबाई और पीछे की ओर तात्या टोपे की सेना। फिर भी कम्पनी की सेना ने इस समय बड़े साहस से काम लिया और विदित होता है कि तात्या टोपे की सेना ने बड़ी कायरता दिखाई। १ अप्रैल को अँगरेजी सेना ने साहस के साथ पीछे की ओर मुड़कर तात्या की सेना पर आक्रमण किया। तात्या के लगभग डेढ़ हजार आदमी मारे गये और उनकी तोपे अँगरेजों के अधिकार में आ गईं।

अब तो भाँसी की दशा और भी अधिक निराशाजनक हो गई फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने साहस को नहीं खोया। ३ अप्रैल को अँगरेजी सेना ने भाँसी पर एक बार और आक्रमण किया। यही अन्तिम बार का आक्रमण था। सभी ओर से एक ही साथ आक्रमण होने लगा। रानी अपने घोड़े के ऊपर सवार सिपाहियों और अफसरों के हौसले बढ़ाती हुई, उनमें जंवर और इनाम बाँटती हुई, बिजली के समान इधर से उधर फिर रही थी। शत्रु ने सब से पहले नगर के उत्तर की ओर सदर दरवाजे पर जोर दिया। आठ स्थानों पर सीढ़ियाँ लग गईं। रानी की तोपों ने अपना काम जारी रखा। अँगरेज अफसर डिक और मिर्चलजान ने सीढ़ियों पर चढ़ कर अपने साथियों को ललकारा, किन्तु तुरन्त दो गोलियों ने इन दोनों बहादुर अँगरेजों को वहीं पर ढेर कर दिया। बोनस और फाक्स ने उनके स्थान को ग्रहण किया और वे दोनों भी मार डाले गये। आठों सीढ़ियाँ टूट कर गिर पड़ी। इतिहास लेखक लो लिखता है कि भाँसी की दीवारों से गोलों और गोलियों की बौछार

उस दिन बहुत ही भयानक थी, जिसके कारण अंगरेजी सेना को पीछे हट जाना पड़ा।

किन्तु फिर भी जब कि उत्तर की ओर सदर दरवाजे की यह दशा थी कहा जाता है कि किसी भारतीय विश्वासघातक की सहायता से कम्पनी की सेना दक्षिणी दरवाजे से नगर में घुस आई। इसके बाद कम्पनी की सेना एक स्थान के बाद दूसरे स्थान को विजय करती हुई महल की ओर बढ़ी। किले की दीवार के ऊपर से रानी ने नगर-निवासियों के सहार और उनकी दुर्दशा को देखा। वह तुरन्त एक हजार सैनिकों के साथ अंगरेजी सेना की ओर लपकी। दोनों ओर से बन्दूकों को फेक कर तलवारों की लड़ाई होने लगी। दोनों ओर असंख्य सैनिक मारे गये। कुछ दूर तक कम्पनी की सेना को फिर पीछे हटना पड़ा।

ठीक ऐसे ही समय में किसी ने आकर रानी को यह सूचना दी कि सदर दरवाजे का रक्षक सरदार खुदाबख्श और तोपखाने का अफसर सरदार गुलाम गौस खॉं, दोनों ही मारे गये, जिसका तात्पर्य यह था कि उत्तर की ओर का दरवाजा अब शत्रु के लिए खुल गया। इस सूचना को सुनते ही रानी का दिल टूट गया। उसने एक बार किले के मैगजीन में अपने हाथ से आग लगाकर उसके साथ प्राण दे देने का विचार किया। किन्तु फिर अधिक सोच समझ कर उसने भॉंसी से बाहर कहीं और पहुँचकर स्वाधीनता-संग्राम में सहायता देने का निश्चय किया। इसके बाद ही भॉंसी के नगर पर अंगरेजी सेना का अधिकार हो गया।

रानी लक्ष्मीबाई ने उसी दिन रात को सदा के लिए भॉंसी

छोड़ दिया। हथियार बाँधे हुए, मर्दाना भेष में, अपने दत्तक पुत्र दामोदर को कमर से कसे हुए वह किले की दीवार के ऊपर से एक हाथी की पीठ पर कूद पड़ी, फिर वह अपने प्यारे सफेद घोड़े पर सवार हुई, १० या १५ सवार भी उसने अपने साथ लिये और कालपी की ओर चल पड़ी।

उसी समय लेफ्टिनेन्ट बोकर ने कुछ चुने हुए सवार लेकर रानी का पीछा किया। रानी और उसके साथियों ने अपने घोड़ों को सरपट छोड़ दिया। बोकर और उसके साथी सवार बराबर पीछा करते रहे। सबेरा होते-होते रानी एक क्षण भरके लिए भाण्डेर नामक ग्राम के समीप रुकी। गांव से दूध लेकर उसने दामोदर को पिलाया। अंगरेजी सैन्यदल यहाँ भी पीछा करता हुआ आ पहुँचा। रानी तुरन्त अपने साथियों के साथ फिर घोड़े पर चढ़कर कालपी की ओर बढ़ी। लेफ्टिनेन्ट बोकर का घोड़ा रानी के घोड़े के पास आ पहुँचा। रानी ने तुरन्त अपनी तलवार खींच ली। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के एक ही वार में घायल हो बोकर अपने घोड़े से गिर पड़ा। इतने में ही रानी के सवारों में और बोकर के साथ के सवारों में तलवार के हाथ होने लगे। अन्त में घायल बोकर और उसके साथी सवार हार कर पीछे रह गये। रानी और उसके साथियों ने फिर अपने घोड़ों को सरपट छोड़ दिया। सुबह से दोपहर हो गया और फिर दोपहर से तीसरा पहर हुआ किन्तु कहीं भी रानी को ठहरने का अवकाश न मिल सका। चलते-चलते शाम हो गई, धीरे-धीरे नीले आसमान में तारे छिटकने लगे किन्तु फिर भी रानी न रुकी। अन्त में लगभग आधी रात के समय अपने बच्चे दामोदर को कमर से बाँधे हुए भाँसी से कालपी

तक १०२ मील से ऊपर का रास्ता तय करके रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में प्रवेश किया। कालपी पहुँचते ही रानी का प्यारा घोड़ा मर गया। शेष रात रानी ने कालपी में विश्राम किया। प्रातःकाल होने पर नाना साहब के भतीजे राव साहब, सेनापति तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई में परस्पर बातें हुईं।

जिस प्रकार सर ह्यू रोज मऊ से भोंसी की ओर रवाना हुआ था उसी प्रकार जनरल ह्विटलाक १७ फरवरी सन् १८५८ को जबलपुर से सागर इत्यादि फिर से विजय करने के लिए निकला था। ह्विटलाक के साथ भी पर्याप्त गोरी और देशी पलटनें थीं। ओरछा का राजा ह्विटलाक के साथ हो गया। सागर के बाद ह्विटलाक बाँदा की ओर बढ़ा। बाँदा के नवाब ने अनेक अंगरेजों को अपने महल में आश्रय दे रखा था, उनके साथ उसका व्यवहार बहुत ही उदार था किन्तु यह सब होते हुए भी वह अपने प्रान्त के विप्लवकारियों का एक मुख्य नेता था। आरम्भ में ही उसने बाँदा से अंगरेजी-राज्य के चिन्ह उखाड़ कर सम्राट् बहादुरशाह का हरा झण्डा नगर के ऊपर फहरा दिया था।

इसलिए ह्विटलाक को अपनी ओर बढ़ते देखकर नवाब सामना करने को तैयार हो गया। कई लड़ाइयाँ हुईं और अन्त में नवाब को ही हारना पड़ा। विजयी ह्विटलाक ने १९ अप्रैल को बाँदा में प्रवेश किया। नगर छोड़कर अपनी थोड़ी-सी सेना के साथ नवाब कालपी की ओर निकल गया।

नवाब को जीत लेने और बाँदा में प्रवेश करने के बाद ह्विटलाक ने करवी के राव माधोराव पर चढ़ाई की। उस समय माधोराव दस वर्ष का बालक था। उसकी नाबालिगी के

के दिनों में रियासत का प्रबन्ध कम्पनी द्वारा नियुक्त किये हुए एक कारबारी के हाथों में था। इतना ही नहीं, करवी के राव ने सन् १८५७ के विल्लव में किसी प्रकार का भाग भी नहीं लिया था। जिस समय उसने ह्मिटलाक के आने का समाचार सुना उसी समय वह उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। बिना किसी प्रकार के रोक-टोक के ह्मिटलाक और उसकी सेना ने नगर में प्रवेश किया और राजधानी के महल में पहुँचते ही बालक माधोराव को गिरफ्तार कर लिया, महल को गिरा दिया; राजधानी को लूट लिया और रियासत को कम्पनी के राज्य में मिला लिया। करवी की इस घटना के सम्बन्ध में इतिहास-लेखक मालेसन लिखता है—

“ह्मिटलाक की सेना के ऊपर वहाँ किसी ने एक गोली भी नहीं चलाई थी फिर भी ह्मिटलाक ने इरादा कर लिया कि बालक राव के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय जैसा किसी ऐसे मनुष्य के साथ किया जाता है जो अंगरेजी सेना के विरुद्ध लड़ा हो। इस बेइमानी और अन्याय का कारण यह था कि करवी के महल में माल भरा हुआ था जिससे सिपाहियों को अनेक कठिन संग्रामों और गर्मी की कष्टकर यात्राओं के लिए इनाम दिये जा सकते थे। करवी के महल के तहखानों और खजानों में सोना, चाँदी, जवाहरात और कीमती हीरे भरे हुए थे। × × × ह्मिटलाक को इस धन का लोभ था।”

करवी की ऐसी दुर्दशा करने के बाद ह्मिटलाक महोबा पहुँचा। वहाँ से उसने सभी ओर अपनी सेना भेज कर आस-पास के विप्लवकारियों का दमन करना आरम्भ कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, रावसाहब, तात्या टोपे, बाँदा का:

नवाब, शाहगढ़ और बानापुर के राजा तथा अन्य अनेक विसवकारी नेता उस समय अपनी-अपनी सेना के साथ कालपी में मौजूद थे।

इस विशाल सैन्यदल के लिए शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना कोई विशेष कठिन कार्य न था किन्तु इन सब विसवकारियों में कोई ऐसा योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति न था जो शेष सब को अपने अनुशासन अथवा आज्ञा के अधीन कर सकता। निस्सन्देह माँसी की रानी लक्ष्मीबाई उन सबों में अधिक योग्य थी किन्तु वह स्त्री थी और उस समय उसकी उम्र केवल २२ वर्ष की थी। तात्या टोपे वीर और दक्ष-सेनापति था किन्तु वह एक साधारण घराने में उत्पन्न हुआ था। वह एक ऐसा समय था जब कि प्राचीन प्रतिष्ठित वंश के नरेशों का किसी स्त्री के या साधारण परिवार में उत्पन्न हुए मनुष्य के अधीन काम करना इतना सरल न था जितना कि इस समय सरल समझा जा रहा है।

यहाँ पर भी यह वही दोष था जो दिल्ली के पतन का मुख्य कारण हो चुका था और अवध के विसवकारियों को भी इसी दोष के कारण अपने प्रयत्नों में असफल होना पड़ा। इतना सब होते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी-सी सेना लेकर कालपी से ४२ मील दूर तक कंचगाँव पहुँची। कंचगाँव में फिर सर ह्यूरोज की सेना से लक्ष्मीबाई की सेना का आमना-सामना हुआ और उधर विसवकारी नेताओं में मतभेद और अव्यवस्था बनी ही रही। किसी ने भी रानी लक्ष्मीबाई की भरपूर सहायता नहीं की। उसका कुपरिणाम यह हुआ कि कंचगाँव में फिर विसवकारियों को पराजित होना पड़ा। इतिहास-लेखक मालेसन

बड़ी प्रशंसा के साथ लिखता है कि पराजय के बाद विप्लवकारी सेना आश्चर्यजनक व्यवस्था के साथ कालपी की ओर लौट आई। किन्तु इस स्थल पर हमें यही कहना पड़ता है कि यह व्यवस्था उनमें पराजय के बाद पैदा हुई होगी अथवा ऐसा भी हो सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की योग्यता के कारण ही व्यवस्था बनी रही होगी।

कचगॉव में विजयी होते ही सर ह्यू रोज ने तुरन्त कालपी पर चढ़ाई कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर अपनी पराजित सेना को प्रोत्साहित किया। वह अपने सवारों के साथ स्व. सर ह्यू रोज का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। भयानक और प्रचण्ड रूप से कालपी के मैदान में संग्राम होने लगा। उस संग्राम में भी रानी लक्ष्मीबाई ऐसी वीरता के साथ लड़ी कि एक बार अंगरेजी सेना के दाहिने भाग को पीछे हट जाना पड़ा। कम्पनी के तोपची अपनी तोप छोड़ कर भाग गये। लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सब से आगे थी। इसके बाद सर ह्यू रोज बाईं ओर से मुड़कर लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। अन्त में मैदान सर ह्यू रोज के हाथों रहा। २४ मई को कम्पनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया। कालपी के किले में अंगरेजों को लगभग सात सौ मन बारूद और अनेक अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य बहुत सा सामान मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई राव साहब और बॉदा के नवाब तथा थोड़ी-सी सेना के साथ कालपी छोड़कर निकल गईं।

हम मानते हैं कि कालपी के संग्राम में विप्लवकारियों की हार से भारत पर दुर्दिन के बादल और भी भयानक रूप से छा जाने लगे किन्तु साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ता है

कि सर हूँ रोज जो इस समय तक लगभग एक हजार मील की कठिन यात्रा कर, पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार कर, बड़ी-बड़ी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका था और नर्मदा से यमुना तक का प्रदेश कम्पनी के लिए फिर से विजय कर चुका था, कम्पनी के अत्यन्त योग्य और वीर सेनापतियों में से था।

कालपी के युद्ध में पराजित होने के बाद विसवकारियों के पास न तो सामान था, न कोई योग्य सेना ही थी और न कोई सुदृढ़ किला ही उनकी रक्षा के लिए था फिर भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने साहस ज्यों का त्यों बना ही रहा। गुप्त रूप से कालपी से निकल कर तात्या टोपे ग्वालियर पहुँचा। ग्वालियर में उसने महाराजा सींधिया की सेना और प्रजा को अपनी ओर कर लिया। नई सेना को साथ लेकर वह फिर पीछे की ओर मुड़ा। गोपालपुर में तात्या, लक्ष्मीबाई, बोंदा के नवाब और रावसाहब की फिर भेंट हुई। लक्ष्मीबाई, ने अब रावसाहब को सब से पहिले ग्वालियर विजय करने की सलाह दी जिससे कि विप्लवकारियों का फिर से एक नया केन्द्र बन सके। २८ मई सन् १८५८ को सब विप्लवकारी सेना अपने अपने नेताओं के साथ ग्वालियर के समीप पहुँच गई। विप्लवकारी नेताओं ने मिलकर महाराजा सींधिया के पास निम्न लिखित पत्र को भेज दिया—

“हम लोग आपके समीप मित्र के भाव से आ रहे हैं आप हमारे और अपने पूर्व सम्बन्ध को स्मरण कीजिए। हमें आपसे सहायता की आशा है ताकि हम दक्षिण की ओर बढ़ सकें।”

इसी प्रकार की कुछ और बातें उस पत्र में थी। किन्तु

जयाजीराव सींधिया इन लोगों की ओर मित्रता के भावों को दिखाने के स्थान पर १ जून सन् १८५७ को अपनी सेना और तोपों के सामने उनका सामना करने के लिए निकल पड़ा। सींधिया के इस भाव को देख कर तीन सौ सवारों के साथ रानी लक्ष्मीबाई सींधिया की तोपों पर टूट पड़ी। उधर सींधिया की अधिकाँश सेना पहले ही तात्या को बचन दे चुकी थी। ये लोग तुरन्त अपने अफसरों के साथ विसूचकारियों की ओर आकर मिल गये। ऐसे ही अवसर पर ग्वालियर की समस्त तोपे ठंडी हो गईं।

ग्वालियर के राजा जयाजीराव और उसके मंत्री दिनकरराव को मैदान छोड़कर आगरे की ओर भाग जाना पड़ा। ग्वालियर की प्रजा ने हर्ष और उल्लास के साथ विजयी विसूचकारियों का स्वागत किया। ग्वालियर की सेना ने पेशवा नाना साहब के प्रतिनिधि रावसाहब को ही पेशवा मानकर तोपों की सलामी दी। सींधिया के अर्थ-मंत्री अमरचन्द भाटिया ने सींधिया का सारा खजाना विसूचकारी नेताओं के हाथों में दे दिया।

३ जून सन् १८५८ को फूलबाग में एक बहुत बड़ा जलसा और दरबार हुआ। समस्त सामन्तों, सरदारों और अमीरों ने भी अपना-अपना स्थान ग्रहण किया। अरब, रुहेला, राजपूत और मराठा पलटने अपनी अपनी वर्दियों पहने दरबार में जमा हो गईं। पेशवा का शिरयाना और कलगी तुरा रावसाहब के मस्तक पर रखा गया। समस्त दरबार ने रावसाहब को पेशवा स्वीकार किया पेशवा के मंत्री भी नियुक्त किये गये। तात्या टोपे प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। बीस लाख रुपये सेना में बाँट दिये गये और अत में तोपों की सलामी हुई।

इस प्रकार तात्या टोपे और भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के स्थान पर सन् १८५७-५८ के विद्रोहकारियों को एक नया और महत्वपूर्ण केन्द्र प्रदान किया। तात्या टोपे और भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस कारनामे का वर्णन करते हुए इतिहास-लेखक मालेसन लिखता है—

“इस प्रकार जो बात असंभव मालूम होती थी, वह हो गई। × × × सर ह्यू रोज समझ गया कि अब विलम्ब करने से कितना बड़ा नुकसान अवश्यम्भावी है। यदि ग्वालियर तुरन्त विद्रोहकारियों के हाथों से नहीं छीन लिया गया तो कोई यह पहले से नहीं कह सकता कि परिणाम कितना अधिक बुरा हो सकता है। यदि विद्रोहकारियों को अवकाश मिल गया तो तात्या टोपे जिसका राजनैतिक और सैनिक बल ग्वालियर पर अधिकार हो जाने के कारण बेहद बढ़ गया है और जिसके पास इस समय ग्वालियर के समस्त जन वहाँ का धन और सामान मौजूद है। कालपी की पराजित सेना के अवशेषों पर एक नई सेना खड़ी कर लेगा और समस्त भारत के अन्दर एक मराठा विद्रोह उत्पन्न कर देगा। तात्या टोपे इस काम में बड़ा चतुर था। ऐसी दशा में सम्भव है कि वह पेशवा भूटा फहराकर दक्षिण में महाराष्ट्र के जिलों को भड़का दे। उन जिलों में अंगरेजी सेना शेष नहीं रह गई है। यदि मध्य भारत में विद्रोहकारियों को प्रयाप्त सफलता मिल गई तो संभव है कि दक्षिण के निवासी फिर से पेशवा की उस सत्ता के लिए खड़े हो जायें जिसके लिए उनके पूर्वज संग्राम कर चुके थे। और अपना रक्त बहा चुके थे।”

इधर ज्यों ही ग्वालियर विलवकारियों के अधिकार में आ गया और वहाँ उन सबों ने अपना शासन स्थापित कर लिया त्यों ही रानी लक्ष्मीबाई ने इस बात पर जोर दिया कि और सब काम छोड़ कर सेना को तुरन्त इकट्ठी और व्यवस्थित कर मैदान में लाया जाय। राव साहब और अन्य नेताओं ने रानी की इस सलाह को उपेक्षा को दृष्टि से देखा और विशेष ध्यान नहीं दिया। निमन्त्रणों और उत्सवों में अमूल्य समय नष्ट किया जाने लगा। इतने में सर ह्यू रोज अपनी सेना के साथ आ पहुँचा और बड़े ही वेग के साथ ग्वालियर पर दूट पड़ा। सर ह्यू रोज ने महाराज सीधिया को अपने साथ रखा और इस बात की घोषणा करा दी कि कम्पनी की सेना केवल सीधिया को ग्वालियर की गद्दी पर फिर से स्थापित करने के लिये आक्रमण करने आई है।

इस पर कम्पनी की सेना और सर ह्यू रोज का सामना करने के लिए तात्या टोपे आगे बढ़ा। इस आक्रमण से पहले ही एक बार ग्वालियर की सेना कम्पनी की सेना से उत्तर भारत के युद्ध में हार खा चुकी थी। इसलिए थोड़ी ही देर के सग्राम में ग्वालियर की सेना में उथल-पुथल मच गई। रावसाहब घबरा गया लक्ष्मीबाई ने फिर एक बार बिखरी हुई सेना में नये जीवन का संचार किया। उसने फिर से सेना की दृढ़ व्यूह रचना की और ग्वालियर नगर के पूर्वीय फाटक की रक्षा का भार स्वयं अपने कंधों पर ले लिया।

इस प्रकार भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई पुनः सग्राम के मैदान में उतर पड़ी। उस समय उसके साथ उसकी दो सहेलियाँ

मन्दरा और काशी घोड़ों पर सवार वीरता के साथ शत्रुओं पर शस्त्र चला रही थीं। कम्पनी की सेना का प्रसिद्ध सेनापति जनरल स्मिथ अब लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए बढ़ा। कई बार स्मिथ की सेना ने पूर्वीय फाटक पर आक्राण किया किन्तु प्रत्येक बार उसे हार कर पीछे हट जाना पड़ा। कई बार रानी लक्ष्मीबाई ने फाटक से निकल कर बाहर की सेना पर हमला किया और अनेक शत्रुओं को मैदान में समाप्त कर फिर अपने फाटक को आ सम्भाला। इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कि लक्ष्मीबाई उस दिन सबेरे से शाम तक घोड़े पर सवार बिजली के समान उधर से उधर जाती हुई दिखाई देती रही। अन्त में जनरल स्मिथ को उस ओर का प्रयत्न छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। १७ जून सन् १८५८ का मैदान भोसी की रानी लक्ष्मीबाई के ही हाथों रहा। १८ जून को जनरल स्मिथ और अधिक सेना लेकर फिर उसी फाटक पर पहुँचा। उस दिन अँगरेजी सेना ने कई ओर से ग्वालियर के किले पर हमला किया। जनरल स्मिथ के साथ सेनापति सर ह्यू रोज भी रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए पूर्वीय फाटक के सामने दिखाई दिया। बहुत सबेरे, जब कि लक्ष्मीबाई अपनी दोनों सहेलियों के साथ शर्बत पी रही थी, सूचना मिली, कि कम्पनी की सेना बढ़ी चली आ रही है। तुरन्त शर्बत का कटोरा फेंक कर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई मर्दाना भेष में थी। एक अँगरेज दशक लिखता है—

“तुरन्त सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गई। सर ह्यू रोज की सेना के मुकाबले में उसने दृढ़ता के साथ अपनी सेना को

खड़ा किया। प्रचंड बेग के साथ उसने बार-बार सर ह्यू रोज की सेना पर आक्रमण किया। रानी की सेना कई स्थानों में शत्रु के गोलों से बिंध गई। उसके सैनिकों की संख्या निरन्तर कम होती चली गई। फिर भी रानी सर्वदा सब के आगे दिखाई देती थी। बार बार वह अपनी बिखरी सेना को जमा करती रही और पर्वपर्व पर अलौकिक वीरता का परिचय देती रही। किन्तु इस सब से भी काम न चला। स्वयं सर ह्यू रोज ने अपने सौदनी सवारों के साथ आगे बढ़कर रानी लक्ष्मीबाई की अतिम व्यूह रचना को तोड़ डाला। इस पर भी वीर और निर्भीक रानी अपने स्थान पर डटी रही।”

उस समय जब कि रानी लक्ष्मीबाई अपने इस अलौकिक वीरता के साथ सर ह्यू रोज का सामना कर रही थी, तब शेष अंगरेजी सेना अन्य विप्लवकारी दलों को चीरती हुई पीछे की ओर से रानी पर आकर टूट पड़ी। अब तो रानी दोनों ही ओर से घिर गई। ग्वालियर की तोपें ठंडी हो गईं। मुख्य सेना तितर-बितर हो गई। विजयी अंगरेजी सेना चारों ओर से रानी के अधिक समीप बढ़ी चली आ रही थी। रानी के केवल उनकी दोनों सहेलियाँ और १५ या २० सवार बाकी रह गये। रानी ने अपने घोड़े को सरपट छोड़ा और शत्रु की सेना को चीरते हुए दूसरे ओर की विप्लवकारी सेना से जाकर मिलना चाहा। उसी समय अंगरेज सवारों ने उसका पीछा किया। लक्ष्मीबाई अपनी तलवार से मार्ग काटती हुई आगे बढ़ी।

अचानक एक गोली उसकी सहेली मन्दरा के आकर लगी। घोड़े से गिर कर मन्दरा चिरकाल के लिए सुरपुर को सिधार गई। तुरन्त रानी ने मुड़कर अपनी तलवार से उस गोरे सवार

पर वार किया, जिसकी गोली ने मन्दरा को सुरपुर भेजा था। सवार कट कर गिर पड़ा, रानी फिर आगे बढ़ी। सामने एक छोटा-सा नाला था। एक छल्लोंग के बाद अंगरेज सवारों का रानी लक्ष्मीबाई को छू सकना असम्भव हो जाता किन्तु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा नया था। पिछले संभ्रामों में भयानक युद्ध करते-करते उसके कई प्यारे घोड़े उसकी सवारी में समाप्त हो चुके थे। घोड़ा बजाय छल्लोंग मारने के नाले के इस पार चक्कर खाने लगा। अंगरेज सवार अब और अधिक निकट आ पहुँचे। रानी चारों ओर से घिर गई और उस समय वह बिलकुल अकेली ही थी। सहायता के लिए उसके साथ कोई नहीं था यहाँ तक कि घोड़ा भी धोखा दे चुका था।

कुछ भी हो, रानी में साहस अटूट था और वीरता के भावों की भी कमी न थी। इसलिए उसने अकेले ही उन सब का अपनी तलवार से सामना किया। शत्रु की ओर के एक सवार ने पीछे से आकर रानी के सिर पर वार किया। उसके वार करते ही रानी के मस्तक का दहिना भाग अलग हो गया। दाहिनी आँख भी निकल कर बाहर आ गई, फिर भी लक्ष्मीबाई घोड़े पर डटी हुई अपनी तलवार चलाती रही। इतने में एक वार रानी की छाती पर हुआ। सिर और छाती दोनों से खून का फव्वारा छूटने लगा। अचेत होते होते रानी ने अपनी तलवार से उस गोरे सवार को जिसने सामने से रानी पर वार किया था, काट कर गिरा दिया! किन्तु इसके बाद लक्ष्मीबाई की भुजा में और अधिक बल न रह गया। सारी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होने लगी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई का एक विश्वासपात्र सेवक रामचन्द्रराव देशमुख रानी के

समीप ही था। घटना-स्थल के निकट बाबा गंगादास की कुटिया थी। रानी को उठाकर रामचन्द्रराव उस कुटिया में ले गया। बाबा गंगादास ने रानी को पीने के लिए ठंडा पानी दिया और उसे अपनी कुटिया में लिटा दिया। थोड़े ही समय के अन्दर रानी लक्ष्मीबाई का शरीर ठंडा पड़ गया और इस संसार में अपने जीवन की अमर कहानी और वीरता से पूर्ण निर्मल कीर्ति को छोड़ कर परमधाम को शान्ति लाभ करने के लिए चली गई।

रानी की अन्तिम इच्छा के अनुसार रामचन्द्रराव ने शत्रु से छिपाकर घास की एक छोटी-सी चिता बनाई और उस पर रानी लक्ष्मीबाई के मृत शरीर को लिटा दिया। थोड़ी देर में ही आग की लपटों में लक्ष्मीबाई के शरीर की केवल अस्थियाँ शेष रह गईं और यह सब सांसारिक कथानक रह गया।

इसमें सन्देह नहीं कि भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तिगत समस्त जीवन जितना पवित्र और कलंकहीन था, उसकी परलोक-यात्रा भी उतनी ही प्रशंसनीय और विरोचित थी। संसार के इतिहास और सामरिक क्षेत्रों में कदाचित् विरले ही उदाहरण इस प्रकार की वीर और पवित्र स्त्रियों के मिलेंगे जिन्होंने इतनी कम आयु में इस प्रकार शुद्ध जीवन व्यतीत करने के बाद भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान अलौकिक वीरता और असाधारण युद्ध कौशल के साथ कसी भी देश की स्वाधीनता के लिए संग्राम किया हो अथवा इस प्रकार अपने आदर्श के लिए लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में परमधाम को लाभ कर लिया हो।

इतिहास लेखक विन्सेण्ट स्मिथ ने जो भारतवर्ष के आदर्शों

या भारतवर्ष के रहनेवालों के मनुष्योचित अधिकारों का अधिक पक्षपाती नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई को “स्वाधीनता-संग्राम के नेताओं में सब से अधिक योग्य नेता” स्वीकार किया है। आज भी भारतीय जनता “खूब लड़ी मर्दानी, वह तो भौंसी वाली रानी थी।” हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के इन्हीं वाक्यों के साथ नित्य भौंसी की रानी लक्ष्मीबाई को बड़ी श्रद्धा के भावों से स्मरण करती रहती है।

मध्यप्रान्त और दक्षिणी भारत की घटनाएँ

अभी तक जिन सब घटनाओं का वर्णन करते हुए हम चले आ रहे हैं उन सब से यह प्रमाणित है कि सन् १८५७ के विद्रोह का मुख्य क्षेत्र उत्तरी भारत ही था। यदि विन्ध्याचल से लेकर दक्षिण भारत का समस्त भाग उसी प्रकार इस विद्रोह में संगठित हो जाता जिस प्रकार उत्तरी भारत का भाग संगठित हो चुका था तो मद्रास और बम्बई वाली अंगरेजी सेनाओं का उत्तरी भारत की ओर बढ़ कर बिहार, बनारस, इलाहाबाद, अवध और रुहेलखण्ड के वीर विद्रोहकारियों को फिर से विजय कर सकना असम्भव हो जाता और सन् १८५७ के विद्रोह का अन्तिम परिणाम कुछ दूसरा ही होता। यह सत्य है कि उत्तरी भारत के विद्रोह-प्रचारक दक्षिण भारत में पहुँच चुके थे और उनके प्रचार से वहाँ के अनेक स्थानों में कुछ हुआ भी किन्तु वह सब इतने कम समय में और इतने अव्यवस्थित ढंग से हुआ कि अंगरेजों के लिए उसे दबा देना अत्यन्त सरल हो गया और वहाँ के विद्रोहकारियों को उससे किसी भी प्रकार का विशेष लाभ न पहुँच सका।

लन्दन के अन्दर रंगो बापू जी और अजीमुल्ला खॉ की भेंट का वर्णन हम इसी पुस्तक के प्रारम्भ में ही कर चुके हैं। पाठक भी कदाचित् इसे भूलें न होंगे। वही रंगो बापूजी सतारा में बैठ कर नाना साहब के साथ पत्र व्यवहार करता रहा और वहाँ से दक्षिण भारत के अनेक सरदारों और नरेशों को विद्रोह

के पक्ष में करने का विशेष रूप से प्रयत्न करता रहा। परिणाम यह हुआ कि १३ जुलाई सन् १८५७ को कोल्हापुर की देशी पलटन अंगरेजों के विरुद्ध बिगड़ खड़ी हुई। सिपाहियों ने अपने कई अंगरेज अफसरों को मार डाला और खजाने पर अधिकार जमा लिया किन्तु इस घटना के थोड़े ही महीनों के भीतर अंगरेजों ने वहाँ के विद्रोहकारियों को दबा लिया और जितने विद्रोहकारी थे सभी शान्त होकर बैठ गये। १५ दिसम्बर को महाराजा के छोटे भाई चिमना साहब की सहायता से कोल्हापुर के नगर में फिर से विद्रोह होने लगा। नगर के फाटक बन्द कर दिये गये, नगर की दीवारों पर तोपें चढ़ा दी गईं और स्वाधीनता का डंका सभी ओर बजवा दिया गया। इतने ही पर वहाँ अंगरेजी सेना पहुँच गई और भयानक घमासान संग्राम होने लगा। बड़ी देर तक संग्राम होता रहा और अन्त में विजय अंगरेजों की ही रही। विजयी होते ही अंगरेज दानवता का प्रदर्शन करने लगे और उसी प्रदर्शन को सफल बनाने के लिये कोल्हापुर के निवासियों को तोपों के मुँह के पास खड़ा करके उड़ाने लगे। कितने मरे, कितने घायल हुए और कितने निरपराध तोपों के मुँह से उड़ाये गये, इसका वर्णन कर सकना कठिन है।

जिस प्रकार कोल्हापुर की देशी पलटन में विद्रोह के लक्षण आने लगे थे उसी प्रकार अगस्त सन् १८५७ में बेलगाँव की देशी पलटन में विद्रोह के लक्षण दिखाई देने लगे थे किन्तु तुरन्त ही वहाँ के विद्रोहकारी नेताओं को तोपों के मुँह से उड़ा दिया गया। बेलगाँव और धारवाड़ को भी शान्त कर दिया। इधर रंगो बापूजी का एक बेटा फौसी पर लटका दिया गया। सतारा राजकुल के दो व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया गया। रंगो

बापूजी सतारा से हट गया। उसको पकड़ने के लिए बड़े-बड़े इनामों की घोषणा की गई और अनेक गुप्तचर नियुक्त किये गये किन्तु फिर भी उसका पता न चल सका।

विल्लव के दिनों में ही बम्बई की कई देशी पलटनों ने निश्चय कर रखा था कि पहले बम्बई शहर में विप्लव के कार्यों को आरम्भ किया जाय और फिर पूना पर आक्रमण करके वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया जाय। यदि पूर्णरूप से अधिकार जम गया तो नाना साहब को पेशवा मानकर उसकी घोषणा कर दी जाय। इसी प्रकार के परामर्शों में ही बम्बई के सिपाही बहुत सा समय नष्ट करने लगे और अंगरेजों को उनके सभी इरादों का पता चलता गया। ऐसी दशा में वही हुआ जो होना चाहिये था अर्थात् कुछ सिपाहियों को फाँसी दे दी गई, कुछ को देश से निर्वासित कर दिया गया और विप्लव की जो अग्नि जलने वाली थी उसे जलने से पहले ही शान्त कर दिया।

नागपुर के समीप की छावनी में कुछ देशी सिपाहियों ने १३ जून सन् १८५७ के दिन विप्लव करने का निश्चय कर लिया था। वहाँ के और आस-पास के बड़े-बड़े नागरिक और दूसरे वर्ग के मुख्य-मुख्य व्यक्ति विप्लव की इस योजना में सम्मिलित होने का वचन भी दे चुके थे। सभी प्रकार की तैयारियों हो चुकी थीं किन्तु १६ जून से पहले ही नागपुर पहुँच कर मद्रास की देशी पलटनों ने विप्लवकारियों को ऐसा दबाया कि वे कुछ कर भी न सके और बड़ी सरलता से ठीक कर लिये गये।

जबलपुर प्रान्त का गोंड राजा शंकरसिंह और उसका पुत्र ये दोनों ही सच्चे देशभक्त, स्वाधीनता के प्रेमी और विप्लव के पक्के साथी थे। उन्होंने जबलपुर की ५२ नम्बर देशी पलटन

को बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ अपनी ओर कर लिया था किन्तु दुर्भाग्य से कुछ ऐसे देशद्रोही गुप्तचर पीछे लग गये थे, जिनके कारण अंगरेजों को सारा हाल मालूम होता चला गया । जब जबलपुर की देशी पलटन और वहाँ का गोंड राजा तथा राजकुमार विप्लव की भयानक अग्नि जलानेवाले थे तब अंगरेजों ने गोंडराजा और उसके पुत्र को तुरन्त कैद कर लिया । इसके बाद वही दानवता का नंगा चित्र जनता के सामने दिखाने का प्रयत्न किया जिसे वे भारत के सभी स्थानों में दिखाते चले आ रहे थे अर्थात् १८ सितम्बर सन् १८५७ के दिन अंगरेजों ने राजा शंकर-सिंह और उसके पुत्र को तोप के मुंह से उड़ा दिया । इस क्रूर और वीभत्स घटना का प्रभाव ऐसा पड़ा कि ५२ नम्बर की देशी पलटन बिगड़ खड़ी हुई । परिणाम यही हुआ कि वहाँ का एक अंगरेज अफसर तुरन्त मार डाला गया और ५२ नम्बर पलटन के थोड़े-से सिपाहियों ने अन्य स्थानों पर जाकर विप्लव में भाग लिया । दिल्ली के शाहजादे फीरोजशाह ने रियासत धार में, महीदपुर में, गोरिना में और इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में विप्लव की योजनाएँ की किन्तु कहीं भी विशेष सफलता न हो सकी ।

अब हम चाहते हैं कि पाठक दक्षिण हैदराबाद की ओर भी कुछ देर के लिए घूम पड़ें । सन् १८५७ के विप्लव में यहाँ का निजाम अफजलुद्दौला और उसका वजीर सर सालारजंग किस विचारधारा का था, यह भी जान लेना आवश्यक है ।

रियासत हैदराबाद की नीति सदा से विचित्र रही है । इसे नित्य इस बात का अभिमान रहा है कि भारतवर्ष में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । उसके इस अभिमान का कारण यही है

है कि यह रियासत जन-संख्या के विचार से अब भारतवर्ष की रियासतों में सब से बड़ी है और सब से अधिक धनवान भी है। इस रियासत का क्षेत्रफल ८२६९८ वर्ग मील है। यहाँ की ८२ प्रतिशत जनता अब भी हिन्दू है और राजवंश मुसलमान हैं। शासक 'निजाम' के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के विचार से इस देश की सबसे बड़ी रियासत काश्मीर है किन्तु काश्मीर का अधिक भाग पहाड़ी है इसलिए वहाँ की आबादी हैदराबाद की आबादी से कहीं कम है। थोड़े में यों समझ लेना चाहिए कि काश्मीर की आबादी से हैदराबाद की आबादी चौगनी है और हैदराबाद की भूमि उपजाऊ और धन-धान्य से पूर्ण होने के कारण यह भारतवर्ष की प्रमुख रियासत हो गई है। यह रियासत तीन भागों में विभक्त है। आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये तीनों भाग भाषा और संस्कृत के विचार से आज भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं किन्तु समीप के प्रान्तों के इसी प्रकार के भागों से इनका गहरा और प्राकृतिक सम्बन्ध है अतएव इस स्थल पर समझ लेना चाहिए कि रियासत हैदराबाद भिन्न-भिन्न प्रकार के तीन भागों का समुदाय मात्र है।

जनता से नहीं है। रियासत की अधिकतर आबादी हिन्दुओं की ही है इसलिए यहाँ का निजाम-वंश अँगरेजों की ही मित्रता के पक्ष में रहा है और यहाँ पर सर्वदा अँगरेज अफसरों का बोलबाला रहा है। सन् १८५३ में निजाम ने बरार प्रान्त, उस्मानाबाद और रायपुर जिले कम्पनी को इसलिए दिये थे कि इनकी आमदनी से हैदराबाद में रहनेवाली कम्पनी की सेना का खर्च चले और जो रकम बच रहे वह निजाम को दे दी जाया करे। सन् १८५७ के विसव में निजाम ने अँगरेजों की बड़ी सहायता की थी और सहायता करने के कारण ही उस्मानाबाद और रायपुर के जिले उसे लौटा दिये गये थे। इन्हीं सब कारणों से हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि १८५७ के विप्लव की सफलता और असफलता का उतरदायी तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दक्षिणी भारत का हैदराबाद अवश्य था।

एक अँगरेज इतिहास लेखक लिखता है—“तीन महीने तक हिन्दुस्तान का भाग्य निजाम अफजलुद्दौला और उसके वजीर सर सालारजंग के हाथों में था।” इसमें संदेह की कुछ भी बात नहीं है कि यदि हैदराबाद का निजाम उस समय के स्वाधीनता प्रेमी विप्लवकारियों का साथ दे जाता तो समस्त दक्षिण भारत में विप्लव की भयंकर अग्नि जल उठती जिसे शान्त कर सकना अँगरेजों के लिए असंभव हो जाता।

जून और जुलाई सन् १८५७ में दक्षिण हैदराबाद के नगर-निवासियों के अन्दर विप्लव की ओर अधिक उत्तेजना के भाव दिखाई पड़े। बड़े-बड़े मौलवियों ने अँगरेजों के विरुद्ध फतवे निकाले। विप्लव का समर्थन करने और जनता के भावों को विप्लव के अनुकूल बनाने के लिए असंख्य पत्र-पत्रिकाएँ बाँटी

गईं। मस्जिदों में बड़ी-बड़ी सभाएँ हुईं और कुछ मुसलमान सिपाही विप्लव की अग्नि को उत्तेजित करने के लिए मैदान में उतर भी आये किन्तु दक्षिण हैदराबाद के निजाम अफजलु-द्दौला और उसके वजीर सालारजंग ने भारत माता के वीर सपूतों को गुलामों के जजीर में जकड़ देने के लिए दानवी कृत्य करने वाले अंगरेजों का ही सच्चा: साथ दिया। हाँ हाँ, कहीं भी कोई विप्लवकारी अथवा विप्लव के आन्दोलन को चलाने वाला कोई नेता वहाँ मिल गया तुरंत उसे पकड़ कर अंगरेजों के हवाले कर दिया और कभी-कभी ऐसा भी किया कि कम्पनी की दानवी सेना की सहायता से स्वयं विप्लवकारी सिपाहियों को कटवा डाला और अपने हैदराबाद राज्य को बचाये रखा।

इसी दक्षिण हैदराबाद के समीप एक दूसरी छोटी सी रिशासत थी। वह उस समय जोरापुर की रिशासत के नाम से प्रसिद्ध थी। रिशासत जोरापुर का राजा छोटी उम्र का होने पर भी विप्लव के पक्ष में था। अंगरेजों से लड़ने के लिए उसने अरब और रूहेले पठानों की एक सेना जमा कर ली थी। फरवरी सन् १८५८ में वह हैदराबाद आया। सर सालारजंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तुरंत अंगरेजों के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद भी इस बालक राजा का व्यवहार अत्यंत प्रशसनीय और वीरोचित रहा। एक अंगरेज अफसर मीडोज टेलर के साथ वह अधिक मेल-जोल रखता था और उसे 'अप्पा' कहा करता था। जेलखाने में मीडोज टेलर उससे मिलने गया। राजा पहले के ही समान बड़े आदर से मिला। मीडोज टेलर ने उससे बड़ी देर तक बातें की और बातों ही बातों में उससे अन्य विसलकारी नेताओं के नाम पूछे। इस सम्बन्ध में मीडोज

लिखता है—राजा ने बड़े अभिमान के साथ अकड़कर कहा, “नहीं अप्पा, यह मैं कभी नहीं बतलाऊंगा ! आप मुझे इस बात की सलाह देते हैं कि मैं रेजीडेन्सी से जाकर मिलूँ किन्तु मैं यह नहीं करूंगा। कदाचित् उसे यह आशा होगी कि मैं अपने प्राणों की भिन्ना माँगूँगा किन्तु अप्पा ! मैं दूसरे की भिन्ना पर कायर के समान जीना पसंद नहीं करता और न मैं कभी अपने देशवासियों का नाम प्रकट करूँगा।”

इस घटना के बाद वही अँगरेज अफसर मीडोज टेलर एक दिन फिर राजा के पास मिलने के लिए गया। जाते ही उसने उस बालक राजा से कहा, “यदि तुम दूसरे विसवकारी नेताओं के नाम बतला दोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जायगा।” मीडोज टेलर के ऐसा कहते ही उस बालक राजा ने कहा, “X X X क्या ? जब कि मैं मृत्यु के मुख में जाने को तैयार हूँ तब क्या मैं विश्वासघात करके अपने देश निवासियों के नाम प्रकट करूँगा। नहीं, नहीं तोप, फॉसी कालापानी इनमें से कोई भी इतना भयकर नहीं है जितना कि विश्वासघात !” बालक राजा के उत्तर निस्सन्देह प्रशंसनीय और विशेष रूप से वीरोचित मर्यादा के अनुसार ही थे। मीडोज टेलर ने राजा को सूचना दी, तुम्हें प्राणदंड दिया जायगा।” इस सूचना को सुन लेने पर भी उस वीर बालक राजा ने उत्तर देते हुए कहा—“किन्तु अप्पा ! मुझे एक प्रार्थना करनी है। मुझे फॉसी न देना, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तोप के मुंह से उड़ाना। फिर देखना कि मैं कितनी शान्ति के साथ तोप के मुंह पर खड़ा रह सकता हूँ।”

उस वीर बालक राजा के उन उत्तरों से मीडोज टेलर मुग्ध हो गया। अन्य दानवी अँगरेजों का अनुकरण करना वह भूल

गया। उसने हैदराबाद के रेजिडेन्ट से उस वीर बालक राजा के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया। किसी भी प्रकार उसे प्राणदंड न दिया जाय इस बात का आग्रह भी किया। उसके विशेष रूप से कहने-सुनने का फल इतना ही हुआ कि उस वीर बालक राजा को प्राणदण्ड के स्थान पर कालेपानी की सजा दी गई। जब उस वीर बालक राजा को कालेपानी लिये जा रहे थे, तब उस वीर बालक राजा ने अपने किसी अंगरेज पहरेदार से खेल-खेल में पिस्तौल ले ली और अवसर पाकर अपने ऊपर गोली दाग ली। इस घटना से पूर्व उसने एक दिन कहा था—
“मैं कालेपानी से मृत्यु को अधिक पसन्द करता हूँ! कैद और कालापानी? मेरी प्रजा में तो तुच्छ पहाड़ी भी जेल में रहना पसन्द न करेगा। फिर मैं तो उन सब का राजा हूँ।”

इस वीर बालक राजा का वृत्तान्त और उसके शब्द जो कुछ भी हमने इस पुस्तक में दिये हैं वे सब उसी वीर बालक राजा के मिलने वाले उसी अंगरेज अफसर मीडोज टेलर की लिखी हुई अंगरेजी पुस्तक “स्टोरी आफ लाइफ” नाम की पुस्तक से ही लिये गये हैं।

जोरापुर के वीर बालक राजा की घटना के बाद एक दूसरी घटना का वर्णन कर देना भी आवश्यक हो रहा है। वह घटना भी किसी भी प्रकार उक्त घटना से कम रोमाञ्चकारी नहीं है। इस घटना से पाठकों को यह भली भँति ज्ञात हो जायगा कि किस प्रकार अपना ही भाई अपने लिए शत्रु का रूप धारण कर लेता है और व्यक्तिगत स्वार्थ की संकुचित सीमा से ही वह उज्ज्वल होने वाले राष्ट्र के भविष्य को घोर अधकारमय बना देता है।

जोरापुर के राजा का एक साथी था। वह भी नारगुण्ड नाम की रियासत का राजा था। वह भास्करराव बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध था। बाबा साहब की रानी वीरता के भावों से ओत-प्रोत थी। स्वाभिमान और स्वाधीनता ये दोनों ही उसके जीवन के मुख्य ध्येय थे। वह किसी विदेशी शक्ति के अधीन जीवित रहना अपना और अपने वंश का न मिटने वाला कलंक समझती थी। इसीलिए वह अंगरेजों के लिए साक्षात् मृत्यु का स्वरूप बनने को तैयार रहा करती थी। वह नित्य अपने स्वामी भास्करराव बाबा साहब को अंगरेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए उत्तेजित किया करती थी किन्तु बाबा साहब भी उसकी बातों को एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। कुछ दिनों के बाद रानी ने हठपूर्वक राजा से अंगरेजों को मार भगाने के लिए कहा। लिखा है कि बहुत दिनों तक सोचने विचारने में ही राजा का समय बीत गया। अन्त में रानी के विशेष रूप से आग्रह करने पर २५ मई सन् १८५८ को बाबा साहब ने भी अंगरेजों के विरुद्ध संग्राम की घोषणा कर दी। बाबा साहब के सैनिक हथियार बाँधकर तैयार हो गये। इधर बाबा साहब की युद्ध-घोषणा को सुनते ही कम्पनी की एक सेना को लेकर मानसन नाम का एक अंगरेज तुरन्त नारगुण्ड की ओर चल पड़ा। उधर बाबा साहब ने भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ मानसन को रात्रि के समय नारगुण्ड के समीप एक जंगल में जाकर घेर लिया। फिर क्या था ? दोनों ही ओर के सैनिकों ने अपने-अपने हथियार सम्हाल लिये। जंगल में ही भयानक रूप से संग्राम होने लगा और परिणाम यह हुआ कि मानसन संग्राम में ही मार डाला गया और उसका सिर तुरन्त

काट लिया गया बचे हुए धड़ को जला दिया गया। कम्पनी की जितनी सेना बाबा साहब को जीतने के लिए आई हुई थी उसमे से अनेक सैनिक मारे गये और जो शेष रहे वे सब अपने-अपने प्राणों को लेकर भाग गये। दूसरे दिन सबेरा होते ही मानसान का कटा हुआ मस्तक नारगुण्ड की दीवार पर लटका दिया गया। समस्त नारगुण्ड रियासत मे बाबा साहब की वीरता और विजय की प्रशंसा होने लगी किन्तु बाबा साहब का सौतेला भाई इस प्रशंसा से खिन्न होने लगा। वह गुप्त रूप से अंगरेजों के साथ मिल गया और किस प्रकार अंगरेज बाबा साहब को परास्त कर सकेगे, उसका भेद बतलाने लगा। उससे सारा भेद मालूम होने पर अंगरेजी सेना ने नारगुण्ड पर फिर से आक्रमण किया। इस बार के आक्रमण मे बाबा साहब की सेना हार गई। बाबा साहब स्वयं निकल कर भाग गया। किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद बाबा साहब गिरफ्तार कर लिया गया और १२ जून सन् १८५८ को वह फाँसी पर लटका दिया गया। उसकी रानी और माता दोनों ने मालप्रभा नदी मे कूद कर चिर-शान्ति लाभ कर ली।

स्वाधीनता के पुजारी कोमल द्रुग के भीमराव ने खानदेश के भीलों और उनकी स्त्री ने तीर-क्रमान लेकर अंगरेजों से युद्ध किया था किन्तु ये सब प्रयत्न समय निकल जाने के बाद ही हुए इसीलिए सरलता से दमन कर दिये गये। इसी प्रकार समय निकल जाने पर रंगून और बरसा के अन्य प्रान्तों मे थोड़ा-सा विद्रोह हुआ था किन्तु कुछ भी लाभ न हो सका।

नाना साहब और बेगम हजरत महल

मध्य-प्रान्त और दक्षिणी भारत की घटनाओं का वर्णन समाप्त कर हम फिर उसी अवध की ओर आते हैं जिसे हम यह मान चुके हैं कि सन् १८५७ के विसव का वही एकमात्र सब से बड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि मौलवी अहमदशाह की हत्या कराने से पहले ही लार्ड कैनिंग ने समस्त अवध में यह घोषणा करा दी थी कि जो लोग हथियार रख देंगे उन्हें कम्पनी की ओर से क्षमा कर दिया जायगा और जिन लोगों की जागीरे आदि जब्त कर ली गई हैं वे सब लौटा दी जायँगी। किन्तु फिर भी इस घोषणा का कोई विशेष सन्तोषजनक प्रभाव विप्लवकारी जनता पर पड़ता हुआ दिखाई न पड़ा। इसके बाद ही ५ जून सन् १८५८ को अहमदशाह की हत्या की गई। इस अमानुषिक हत्याकाण्ड से अवध-निवासियों का क्रोधानल फिर एक बार भयानक रूप से भड़क उठा। परिणाम यह हुआ कि निजामअली खॉं ने पीलीभीत पर आक्रमण कर दिया। पीलीभीत में कम्पनी की जितनी भी सेना थी उससे सम्हलते भी न बना। खानबहादुर खॉं ने तुरन्त चार हजार सैनिकों की सेना तैयार कर ली। उनमें वीरता के भावों को लाकर फिर से अंगरेजों के विरुद्ध लड़ने का साहस संचार किया। हतोत्साह के कारण जितनी कायरता आ चुकी थी, उसे बात की बात में दूर कर दिया और फिर उसी

सेना को लेकर खानबहादुर खॉं फिर से स्वाधीनता-संग्राम के मैदान में उतर आया ।

जब निजामअली खॉं और खॉंनबहादुर खॉं के मैदान में उतरने का समाचार फर्रुखाबाद पहुँचा तब वहाँ भी पाँच हजार सिपाही नये साहस और नये उत्साह के साथ फिर से जमा हो गये । स्वाधीनता-लाभ करने के लिए पागल बननेवाला विप्लवकारी जी-जान से अंगरेजों के विरुद्ध हथियार बाँधकर मैदान में युद्ध की पतीक्षा करने लगे । नाना साहब, बाला साहब विलायत-शाह और अलीखॉं मेवाती के अधीन हजारों विप्लवकारी सैनिक आ-आकर जमा होने लगे । उन सबों के लिए अंगरेजों का भारत में रह जाना ही बड़े दुःख का विषय हो रहा था । जितनी शीघ्रता से सम्भव हो सके उतनी ही शीघ्रता से भारत से अंगरेजों को निकाल देना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो रहा था । घाघरा नदी के किनारे चौक घाट में बेगम हजरत महल और सरदार मामू खॉं की सेना इकट्ठी हो चुकी थी । वह एक क्षण भी विलम्ब करने को तैयार न थी । जिस प्रकार आंखों के लिये शूल दुःख देने वाले माने गये हैं उसी प्रकार उन सबों की आंखों में अंगरेज खटक रहे थे । शाहजादा फीरोजशाह भी इस समय अवध में ही था । इन सब के अतिरिक्त रुइया का राजा नरपतसिंह, राजा रामवर्षा, बहुनाथसिंह, चन्द्रसिंह, गुलाबसिंह, भूपालसिंह हनुमन्तसिंह आदि अनेक बड़े-बड़े जमींदार अपने-अपने सैन्यदल लेकर अवध को फिर से अंगरेजों के अधिकार से छीन लेने के प्रयत्नों में लग गये । बूढ़े राजा बेनीमाधव ने फिर से लखनऊ पर चढ़ाई करने की तैयारी

आरम्भ कर दी। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उन सबों में नई उत्तेजना आ चुकी थी।

जिस समय अंगरेजों ने विप्लवकारियों और उनके नेताओं को इन सब तैयारियों का समाचार सुना उस समय वे सब किंकर्तव्य-विमूढ़ से हो गये। उनकी समझ में यही न आया कि विप्लवकारियों में यह सब वीरता का भाव किस प्रकार फिर से आ गया। कौन ऐसी शक्ति उन सबों की सहायता करने लगी है जिससे कि वे सब फिर से अंगरेजों को तुच्छ समझकर लड़ने का विचार करने लगे हैं! बढ़े ही आश्चर्य का विषय है। १३ महीने तक तो लगातार संग्राम होते रहे और छः महीने ऊपर तक लखनऊ में ही रक्त की नदियाँ बहती रही। किसी प्रकार प्राणों की रक्षा करने वाले और लखनऊ छोड़कर भाग जानेवाले विप्लवकारी नेता अब क्या सोचकर फिर से युद्ध का प्रयत्न करने लगे हैं! क्या अब भी उन सबों में कोई ऐसा पुरुष रह गया है जिसने अंगरेजों से हार न खाई हो और जो इस समय वीरता के साथ लखनऊ पर आक्रमण करने का साहस कर रहा है! कुछ भी हो, विप्लवकारियों की सेना इस बार लखनऊ के समीप नवाबगंज में आकर जमा हुई। १३ जून सन् १८५८ को सेनापति होपम्राएट के अधीन कम्पनी की सेना ने, जिसमें कई हिन्दुस्तानी पलटने शामिल थीं, अचानक इन सब विप्लवकारियों पर आक्रमण किया। उस दिन के संग्राम का वृत्तान्त सेनापति होपम्राएट इस प्रकार लिखता है।

“हम लोगों पर उनके आक्रमण असफल रहे, किन्तु वे आक्रमण अत्यन्त शक्तिशाली थे और हमें उनका सामना करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। असंख्य सुन्दर और साहसी

जमींदारों ने दो तोपें खुले मैदान में लाकर पीछे की ओर से हम पर आक्रमण किया। मैंने हिन्दुस्तान में बहुत से मैदान संग्राम के देखे हैं और बहुत से बहादुरों को इस दृढ़ता के साथ लड़ते देखा है कि या तो विजय प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे किन्तु मैंने इन जमींदारों के व्यवहार से बढ़कर शानदार कभी कोई दृश्य नहीं देखा। पहले उन्होंने हमारी एक सवार पलटन पर आक्रमण किया। हमारे सवार उनके सामने न ठहर सके और इतने विचलित हो गये कि हमारी दो तोपें जो उस पलटन के साथ थीं बड़े संकट में पड़ गईं। मैंने एक दूसरी सात नम्बर पलटन को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उनके साथ चार और तोपें थीं। ये तोपें शत्रु से पाँच सौ गज की दूरी पर लगा दी गईं उन पर गोले बरसाने आरंभ किये गये। वे इस बुरी तरह कट-कट कर गिरने लगे जिस प्रकार हसिये से घास। उनका नेता एक लम्बा-चौड़ा आदमी था उसके गले में एक घेघा था। वह तनिक भी नहीं घबराया। उसने अपनी तोपों के पास दो हरे झण्डे गड़वा कर उनके नीचे अपने आदमियों को इकट्ठा किया किन्तु हमारे गोले इतनी बुरी तरह बरस रहे थे कि जो लोग तोपों के पास तक पहुँचते थे, वहीं मर कर गिर पड़ते थे। इनके बाद दो और नई पलटने हमारी सहायता के लिए पहुँच गईं। तब हम बाकी बचे शत्रुओं को पीछे हटा सके। इस पर भी वे अपनी तलवारे और भाले हमारी ओर घुमाते जाते थे। केवल उन दोनों तोपों के आस-पास हमें १२५ लाशें मिलीं। तीन घंटे के घमासान संग्राम के बाद विजय हमारी ओर रही।”

समस्त अवध में इसी प्रकार के घमासान संग्राम चारों ओर होने लगे। जिस प्रकार अंगरेजी सेना के सैनिक वीरता के साथ

लड़कर भारत को गुलाम बनाना चाहते थे उसी प्रकार विसव-कारी सेना के सैनिक वीरता के साथ लड़कर भारत को स्वाधीन बनाना चाहते थे। समय और परिस्थिति की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर किसी का भी बश नहीं है अथवा उस समय भारत का भविष्य कुछ और ही हो जाता। कुछ भी हो भारतीय वीर अपना कार्य कर ही रहे थे।

अक्टूबर सन् १८५८ में कमाण्डर-इन-चीफ (प्रधान सेना-पति) सर कालिन कैम्पबेल ने नये सिरे से असंख्य अंगरेजी और हिन्दुस्तानी पलटनों को जमा किया और चारों ओर से अवध के विसवकारियों को घेर कर ऐसा प्रबल आक्रमण किया कि वे सब अधिक समय तक युद्ध के मैदान में न ठहर सके। दक्षिण की ओर भागने का रास्ता था ही नहीं इसलिए उत्तर की ही ओर भागने लगे। वे उत्तर की ओर भागते जाते थे और अंगरेजी सेना उनका पीछा करती जा रही थी। ऐसा ज्ञात होता था मानों अंगरेजी सेना उन्हें खदेड़े लिये जा रही हो। विसव-कारी भागते जाते थे और कभी कभी कहीं रुककर युद्ध भी करते जाते थे। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं वे अंगरेजी सेना को ऐसा खदेड़ते थे कि उसे रास्ता ही नहीं मिलता था। कहना पड़ता है कि नये सिरे से अवध के निवासियों ने एक-एक इंच जमीन के लिए विकट से विकट संग्राम किये। अपने कर्तव्य से वे डिगे नहीं।

राजा बेनीमाधव के निवास स्थान शंकरपुर पर तीन सेनाओं ने एक ही साथ तीन ओर से चढ़ाई की। उस समय अंगरेजों की शक्ति बहुत कुछ बढ़ी-चढ़ी हुई थी और शंकरपुर के राजा

बेनीमाधव के पास सेना और सामान दोनों की ही कमी थी फिर भी स्वाधीनता का पुजारी वीर राजा बेनीमाधव ने अंगरेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कमाण्डर-इन-चीफ सर कालिन कैम्पबेल ने राजा बेनीमाधव के पास सन्देशा भेजा, “अब आप को विजय की आशा करना व्यर्थ है। यदि आप वृथा रक्तपात नहीं चाहते तो अंगरेज सरकार की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। आपको क्षमा कर दिया जायगा और आपकी समस्त जमोदारी आपको लौटा दी जायगी।”

राजा बेनीमाधव ने तुरन्त उत्तर दिया, “इसके बाद किले की रक्षा कर सकना मेरे लिये असम्भव है, इसलिए मैं किले को छोड़ रहा हूँ। किन्तु मैं अपना शरीर कदापि आपके सुपुर्द न करूँगा। क्योंकि मेरा शरीर मेरा अपना नहीं, बल्कि मेरे बादशाह का है।”

इनमें सन्देह नहीं कि ‘बादशाह’ शब्द से राजा बेनीमाधव का तात्पर्य अवध नरेश नवाब बिरजिस कदर और दिल्ली के सम्राट बहादुरशाह से था। देश-भक्ति और राजभक्ति के साथ साथ स्वाभिमान और स्वाधीनता के भावों का कितना अपूर्व ज्वलन्त उदाहरण है! अवध! तू धन्य है!

सन् १८५७ के विश्व को आरम्भ हुए पूरा डेढ़ वर्ष बीत चुका था। इस समय वह घटना हुई जो भारतीय ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भ में एक विशेष सीमा चिन्ह मानी जाती है। विप्लव के प्रारम्भ में ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि भारत से अंगरेज कम्पनी का राज्य उठ जायगा। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह भविष्यवाणी सच हुई क्योंकि पहली नवम्बर सन्

१८५८ से कम्पनी का राज्य भारतवर्ष से हटा लिया गया। इंग्लैण्ड के शासकों ने उस समय कम्पनी की एक सौ साल की सत्ता को समाप्त कर देना ही अपनी कुशल के लिए विशेष रूप से आवश्यक समझा इसलिए पहली नवम्बर से ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के स्थान पर इंग्लैण्ड की मलका विक्टोरिया का राज्य भारत पर स्थापित कर दिया गया।

उस समय लार्ड कैनिंग इलाहाबाद में था। पहली नवम्बर को 'भारतीय नरेशों और भारतीय प्रजा के नाम' मलका विक्टोरिया की एक घोषणा भारतवर्ष में प्रकाशित की गई। उसी दिन लार्ड कैनिंग ने स्वयं इलाहाबाद में दारागंज के समीप क्लिफे के नीचे इस घोषणा को असंख्य मनुष्यों के सामने पढ़ कर सुनाया। इस घोषणा में मलका विक्टोरिया की ओर से भारत के निवासियों को सूचना दी गई कि—

“कम्पनी का राज्य अब से समाप्त हुआ और उसके स्थान पर भारत के शासन की बाग हमने (अर्थात् मलका विक्टोरिया) अपने हाथों में ले ली है, सिवाय उन लोगों के जो हमारी अंगरेजी प्रजा की हत्या में भाग लेने के अपराधी हैं, शेष जो लोग भी हथियार रख देंगे उन सब को क्षमा कर दिया जायगा। भारत के निवासियों की गोद लेने की प्रथा भविष्य में उचित समझी जायगी और दत्तक पुत्रों को पिता की सम्पत्ति और गद्दी का अधिकारी माना जायगा। किसी के धार्मिक विश्वासों या धार्मिक रीति रिवाज में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जायगा। देशी नरेशों के साथ कम्पनी ने इस समय तक जितनी सन्धियों की हैं उन सब शर्तों का भविष्य में ईमानदारी के साथ पालन किया जायगा। इसके बाद किसी भारतीय नरेश की

रियासत या उसका कोई अधिकार नहीं छीना जायगा। समस्त भारत निवासियों के साथ ठीक उसी प्रकार व्यवहार किया जायगा जिस प्रकार का व्यवहार अंगरेजों के साथ किया जा रहा है। इसी प्रकार की और भी अन्य सूचनाएँ थीं।

किन्तु अभिमान के साथ कहना पड़ता है कि कम से कम उस समय अवध के निवासियों पर मलका विक्टोरिया की इस घोषणा का कुछ भी प्रभाव सन्तोष-जनक रूप से न पड़ा। इंग्लैण्ड की मलका की ओर से इस घोषणा के प्रकाशित होते ही बेगम हजरत महल की ओर से एक घोषणा इसके जवाब में अवध की समस्त प्रजा के नाम प्रकाशित हुई। यह घोषणा हिन्दुस्तानी भाषा में थी किन्तु उसी रूप में यह हमें नहीं मिल सकी है। यहाँ हम जो कुछ दे रहे हैं वह सब अंगरेजी से ही अनुवाद करके दे रहे हैं क्योंकि उस समय के जितने पत्र और घोषणा आदि हैं सभी का अनुवाद अंगरेजी में ही हो चुका था और अब वे सब पत्र आदि नहीं मिल रहे हैं। बेगम हजरत महल ने अपनी उस घोषणा में लिखा था कि,

“××× पहली नवम्बर सन् १८५८ की घोषणा जो हमारे सामने आई है बिलकुल स्पष्ट है। ××× इसलिए हम ××× बहुत सोच समझ कर अपनी यह घोषणा प्रकाशित करते हैं जिससे कि पूर्वीय घोषणा के मुख्य-मुख्य असली उद्देश्य प्रकट हो जायँ और हमारी प्रजा सावधान हो जाय।

उस घोषणा में लिखा है कि भारतवर्ष का देश जो अभी तक कम्पनी के शासन में था अब मलका ने अपने शासन में ले लिया है और भविष्य में मलका के कानून को माना जायगा।

हमारी धर्मनिष्ठ प्रजा को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कम्पनी के कानून, कम्पनी के अगरेज कर्मचारी, कम्पनी के गवर्नर जनरल और कम्पनी की अदालतें आदि सब ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। तो फिर वह नई बात कौन सी हुई जिससे जनता को लाभ हो या जिस पर वह विश्वास कर सके।

उस घोषणा में लिखा है कि कम्पनी ने जो वादे और सधियाँ की हैं मलका उन्हें स्वीकार कर लेगी। लोगों को चाहिए कि इस चाल को ध्यान से देख ले। कम्पनी ने समस्त भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया है और अगर यह बात बनी रही तो फिर इसमें नई बात क्या हुई? कम्पनी ने भरतपुर के राजा को पहले अपना बेटा बतलाया और फिर उसका इलाका ले लिया। लाहौर के राजा को वे लन्दन ले गये और फिर कभी उसे भारत लौटने न दिया। नवाब शम्सुद्दीन खॉ को एक ओर उन्होंने फौसी पर लटका दिया और दूसरी ओर से सलाम किया। पेशवा को उन्होंने पूना और सतारा से निकाल दिया और आजीवन बिठूर में कैद कर दिया। बनारस के राजा को उन्होंने आगरे में कैद कर दिया। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के नरेशों का उन्होंने नाम व निशान तक नहीं छोड़ा। स्वयं हमारे कदीम इलाके कन्होंने हमसे यह बहाना करके ले लिये कि फौज को तनखाहे देनी हैं और हमारे साथ जो सन्धि की उसकी सातवीं धारा में उन्होंने यह कसम खाई कि हम आपसे और अधिक कुछ न लेंगे। इसलिए यदि जो-जो प्रबन्ध कम्पनी ने कर रखे हैं वे सब स्वीकार किये जायें तो इससे पहले की दशा में और अब इस नई दशा में क्या अन्तर हुआ? ये सब तो

पुरानी बातें हैं किन्तु हाल में भी कसमों और संधि-पत्रों को तोड़कर और यह बात जानते हुए भी कि अंगरेजों ने हमसे करोड़ों रुपये कर्ज ले रखे थे उन्होंने बिना किसी कारण के, केवल यह बहाना लेकर कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और आपकी प्रजा असंतुष्ट है, हमारा देश और करोड़ों रुपये का माल हमसे छीन लिया। यदि हमारी प्रजा हमारे पूर्वाधिकारी नवाब वाजिअलीशाह से असंतुष्ट थी तो वह हमसे सतुष्ट कैसे हुई! और कभी किसी भी नरेश के लिए प्रजा ने अपने जान और माल को इस तरह न्योछावर करके अपनी राज-भक्ति का परिचय नहीं दिया जिस तरह कि हमारी प्रजा ने हमारे साथ किया है! फिर क्या कमी है कि वे हमारा देश हमें वापस नहीं देते? इसके अतिरिक्त उस घोषणा में लिखा है कि मलका को अपना इलाका बढ़ाने की इच्छा नहीं है, फिर भी वह इन देशी रियासतों को अपने राज्य में मिला लेने से दूर नहीं रह सकती। × × ×

उस घोषणा में लिखा है कि ईसाई धर्म सच्चा है किन्तु और किसी धर्मवालों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जायगा और सब के साथ एक समान कानूनो व्यवहार किया जायगा। न्याय-शासन से किसी धर्म के सच्चे अथवा भूठे होने से क्या सबन्ध है? × × × सुअर खाना और शराब पीना, चर्बी के कारतूस दाँत से काटना और आटे तथा मिठाइयों में सुअर की चर्बी मिलाना, सड़कें बनाने के बहाने मदिरों और मस्जिदों को गिराना, गिरजा बनाना, गलियों और कूचों में ईसाई मत का प्रचार करने के लिए पादरियों को भेजना × × ×

इन सब बातों के होते हुए लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उनके धर्म में हस्तक्षेप न किया जायगा ? × × ×

उस घोषणा में लिखा है कि × × × जिन लोगों ने हत्याएँ की हैं अथवा हत्याओं में सहायता पहुँचायी है उन पर किसी प्रकार भी दया न की जायगी, शेष सब को क्षमा कर दिया जायगा। एक मूर्ख मनुष्य भी समझ सकता है कि इस घोषणा के अनुसार दोषी और निर्दोषी कोई मनुष्य भी नहीं बच सकता। × × × एक बात उसमें स्पष्ट कही गई है, वह यह है कि किसी भी दोषी मनुष्य को न छोड़ा जायगा, इसलिए जिस गाँव अथवा इलाके में हमारी सेना ठहरी है उसके निवासी नहीं बच सकते। उस घोषणा को पढ़ कर जिसमें कि स्पष्ट शत्रुता के भाव भरे हुए हैं हमें अपनी प्यारी प्रजा की दशा पर अधिक दुःख है। अब हम एक स्पष्ट और विश्वस्त आदेश प्रकाशित करते हैं कि हमारी प्रजा से जिन जिन लोगों ने मूर्खता करके गाँव के मुखियों की हैसियत से अपने लिए अँगरेजों के सामने पेश किया है वे ? जनवरी सन् १८५९ से पहले हमारे कैम्प में आकर उपस्थित हों। निस्सन्देह उनका अपराध क्षमा कर दिया जायगा। × × × आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि अँगरेजों ने किसी का अपराध क्षमा किया हो। हमारी प्रजा में से कोई अँगरेजों की घोषणा के धोखे में न आये। यह सब चार्ल्स बाल की पुस्तक से लिया गया है।

इस घोषणा के प्रकाशित होने के छः महीने बाद तक अवध के अन्दर स्वाधीनता का संग्राम निरन्तर होता रहा। इस सम्बन्ध में चार्ल्स बाल लिखता है—“मलका विक्टोरिया की घोषणा के बाद भी अवध के अन्दर आश्चर्य-जनक संग्राम

निरंतर होता रहा। विप्लवकारियों के इन सब दलों के साथ उनके देशवासियों की सहानुभूति थी और इस सहानुभूति से उन्हें इतना अधिक बल और इतनी अधिक उत्तेजना प्राप्त हुई जिसका कि अनुमान भी नहीं किया जा सकता। ये विप्लवकारी बिना किसी प्रबन्ध के जहाँ चाहे चले जा सकते थे। साथ में भोजन सामग्री ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि लोग सब जगह उन्हें भोजन पहुँचा देते थे। वे बिना पहरे के अपना सामान जहाँ चाहे छोड़ सकते थे, क्योंकि लोग उनके सामान पर आक्रमण नहीं करते थे उन्हें सदा अपनी और अंगरेजों की स्थिति का ठीक-ठीक पता रहता था क्योंकि लोग उन्हें घण्टे-घण्टे भर के अन्दर आकर सूचना देते रहते थे। हम उनसे अपनी कोई योजना छिपाकर नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमारी प्रत्येक खाने की मेज के पास और अंगरेजी सेना के प्रायः प्रत्येक खेमे में उनसे गुप्त सहानुभूति रखने वाले लोग खड़े रहते थे। हमारे लिए उन पर अचानक आक्रमण कर सकना एक अलौकिक-सी बात थी, क्योंकि हमारे चलने की अफवाह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, हमारे सवारों से अधिक तेजी के साथ उन तक पहुँच जाती थी।”

इन्हीं सब कारणों से मलका विक्टोरिया की घोषणा के ६ महीने के बाद तक भी वीरता और स्वाभिमान के भावों से ओत-प्रोत अवध का विप्लवकारी प्रान्त अंगरेजों के वश में न आ सका था। समय-समय पर शंकरपुर, डौड़ियाखेड़ा* रायबरेली

*डौड़ियाखेड़ा—अंगरेज इतिहाक लेखक सर जान के, जस्टिस मैक्काथी, मैडले चार्लस बाल और मालेसन आदि ने अवध के उन

उसी पत्र में अंगरेजों के अन्यायों को दिखाते हुए लिखा था कि, सीतापुर इत्यादि स्थानों पर बराबर संग्राम होते रहे। अन्त में अप्रैल सन् १८५९ तक अवध के समस्त विद्रोहकारी नैपाल की सीमा के उस पार निकाल दिये गये।

इस सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि लगभग साठ हजार पुरुष, स्त्री और बच्चों ने नाना साहब, बाला साहब, बेगम हजरत महल और नवाब बिरजिस कदर के साथ नैपाल में प्रवेश किया। नाना साहब और महाराजा जंगबहादुर में कुछ समय तक पत्र-व्यवहार होता रहा। नाना साहब ने पहले नैपाल दरबार से अंगरेजों के विरुद्ध सहायता के लिए प्रार्थना की उसके बाद केवल भारतीय निर्वासितों के लिए नैपाल में रहने की स्वीकृति चाही। महाराजा जंगबहादुर ने इसमें से कोई भी बात स्वीकार नहीं की, बल्कि अंगरेजी सेना को नैपाल में प्रवेश करने और इन भारतीय निर्वासितों का संहार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। इन निर्वासित भारतीयों में से अनेक हथियार फेंक कर भारत लौट आये और अनेक जंगलों तथा पहाड़ों में समा गये। ऐसे ही समय में नाना साहब और जनरल होप ग्रायट के बीच थोड़ा सा पत्र-व्यवहार हुआ। जब कोई विशेष लाभ न हुआ

स्थानों का नाम जहाँ कि विद्रोहकारी नेता रहते थे, चाहे जिस प्रकार तोड़-मरोड़ कर लिखा हो किन्तु चूँकि इस पुस्तक का लेखक अवध का ही है और वहाँ के कई स्थानों से परिचित भी है इसलिए ढुंढिया खेड़ा न लिखकर ढौंढियाखेड़ा लिख रहा है। यह स्थान जिला उन्नाव में गंगा के तट पर है। सन् १८५७ के विद्रोह से इसका नाम भी प्रसिद्ध हो चुका है। परगना ढौंढियाखेड़ा अब भी प्रसिद्ध है।

तब नाना साहब ने अन्तिम पत्र होप ग्राण्ट के समीप भेजा और उसी पत्र में अंगरेजों के अन्यायों को दिखाते हुए लिखा था कि,

“आपको हिन्दुस्तान पर अधिकार करने का और मुझे दंडनीय घोषित करने का क्या अधिकार है ? हिन्दुस्तान पर राज्य करने का अधिकार आपको किसने प्रदान किया ? क्या आप फिरंगी लोग बादशाह है और हम इस अपने देश में रह कर भी चोर हैं ?”

इस पत्र-व्यवहार के बाद पता नहीं कि नाना साहब का क्या हुआ। बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कदर को कुछ दिनों के बाद नेपाल दरबार ने अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया।

अवध प्रान्त के इस विप्लव के सम्बन्ध में इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—“जिस विप्लव को उन सिपाहियों ने आरम्भ किया था, जिनमें से कि अधिकांश अवध के ही निवासी थे, उस विप्लव में समस्त अवध-निवासियों ने सम्मिलित होकर स्वाधीनता के लिए संग्राम किया। × × × हिन्दुस्तान के किसी दूसरे भाग ने इतनी दृढ़ता के साथ डटकर और इतनी अधिक देर तक हमारा सामना नहीं किया जितना कि अवध ने। इस समस्त युद्ध में उस अन्याय को याद करके जो अन्याय सन् १८५६ में उनके साथ किया गया था, अवध-निवासियों के हृदय अधिकाधिक सबल और उनका संकल्प अधिकाधिक दृढ़ होता रहता था। × × × अन्त में जब कमाण्डर-इन-चीफ सर कालिन कैम्पबेल लार्ड (क्लाइड) ने समस्त अवध में से बचे हुए विप्लव-कारियों को बिन-बिन कर नेपाल के जंगलों में आश्रय लेने के लिए विवश कर दिया तब इन लोगों ने प्रायः हार मानने की

अपेक्षा भूखों मर जाना अधिक पसन्द किया । किसानों ने, ताल्लुकदारों ने, जमींदारों ने, व्यापारियों ने बहुत दिनों के निरन्तर युद्ध के बाद केवल उस समय हार स्वीकार की जिस समय कि उन्होंने देख लिया कि अब सब कुछ हो चुका ।”

अवध के पतन की घटनाओं का अन्त अब यही से होता है । इस सम्बन्ध में और कुछ लिखना व्यर्थ है । पाठक स्वयं विचार कर देख सकते हैं कि समस्त भारतवर्ष से विदेशी शासन को हटा देने के लिए जो महान् और व्यापक प्रयत्न किये गये वे सब किस प्रकार निष्फल गये और भारतवर्ष में अँगरेजी शासन की जड़ कुछ समय के लिए अधिक दृढ़ हो गई ।

तात्या टोपे का अन्त

जहाँ तक सम्भव हो सका है, वहाँ तक हमने सन् १८५७ के समस्त वृत्तान्त का वर्णन कर दिया है। यदि कुछ शेष रह गया है तो वह तात्या टोपे का ही अंतिम वर्णन रह गया है अतएव इस विषय की ओर भी ध्यान देना आवश्यक हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि पाठक यह जानना चाहते होंगे कि प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे के अंतिम प्रयत्न कैसे थे ? विषय को पूर्ण करने के लिए हम भी तात्या टोपे के अन्तिम प्रयत्नों का वर्णन करने का प्रयत्न करना उचित समझ रहे हैं।

पाठक यह जानते ही होंगे कि नाना साहब, बाला साहब और भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई यही सब तात्या टोपे के मुख्य साथी थे किन्तु इनमें से अब कोई शेष नहीं रह गया था तथा भारत में फिर से अंगरेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। साथ ही साथ न तो तात्या टोपे के पास अब कोई कुशल सेना थी और न युद्ध करने के योग्य विशेष सामान ही था। कुछ भी हो, तात्या टोपे वीर, साहसी और बौद्धा था, इसलिये उसने आशा न छोड़ी। २० जून सन् १८५८ को ग्वालियर :से निकल कर तात्या टोपे ने राव साहब, बाँदा के नवाब और मुट्टी भर बचे हुए सैनिकों के साथ नर्मदा की ओर बढ़ना चाहा। उस समय तात्या टोपे का उद्देश्य नर्मदा नदी को पार कर पेशवा के नाम पर दक्षिण भारत के नरेशों और उनकी प्रजा को फिर से विश्व के लिए तैयार

करने का था। २२ जून को अंगरेजी सेना ने उसे जौरा अलीपुर में जा घेरा। अंगरेजों की सेना से घिर जाने पर भी तात्या टोपे वहाँ से बच कर निकल गया। इस समय किसी भी प्रकार नर्मदा को पार कर जाना ही उसका ध्येय था और अंगरेज यह चाहते थे कि वह किसी भी प्रकार नर्मदा को पार न कर सके।

समय और परिस्थिति पर विचार करते हुए वीर मराठा सेनापति तात्या टोपे ने सबसे पहले भरतपुर की ओर जाने का विचार किया। उसके उस विचार को समझ लेने पर तुरन्त एक शक्तिशाली अंगरेजी सेना उसको फॉसने के लिए भरतपुर की ओर न बढ़ कर जयपुर की ओर मुड़ गयी। जयपुर की प्रजा और सेना दोनों ही उससे सहानुभूति रखती थी। उन सबों को तैयार रहने के लिए तात्या टोपे ने सूचना दे दी। इधर अंगरेजों को भी इसका पता चल गया। फिर क्या था! नसीराबाद से जयपुर के लिए तुरन्त एक प्रबल अंगरेजी सेना भेज दी। तात्या भी तुरन्त सावधान हो गया और अब वह दक्षिण की ओर मुड़ा।

कर्नल होम्स के अधीन एक सेना ने उसका पीछा किया। युद्धविद्या में पारंगत तात्या टोपे ने दूसरी चाल चली। अंगरेजी सेना उसका पीछा करती ही रही और वह उससे आँख बचाकर टोंक पहुँच गया। टोंक पहुँचते ही टोंक के नवाब ने नगर के फाटकों को बन्द करा लिया। किसी प्रकार वहाँ तक पहुँच जाने पर भी उसे रक्षा का स्थान न मिल सका। स्थान मिलना तो दूर रहा, उस पर दूसरा ही संकट आ पहुँचा। टोंक के नवाब ने चार तोपों के साथ अपनी कुछ सेना उसका सामना करने के

लिए भेज दिया और किसी भी प्रकार तात्या टोपे को टोंक से निकाल देने का आदेश भी कर दिया। वह सब सेना तुरंत तात्या टोपे का सामना करने के लिए चल पड़ी किन्तु आश्चर्य की बात यह हुई कि नवाब के आदेश का उल्लंघन कर वह सेना सामने आते ही तात्या टोपे से जाकर मिल गई और युद्ध का सारा सामान उसके हाथों में दे दिया। अपनी उस नई सेना और सामान के साथ तात्या टोपे अब इन्द्रगढ़ की ओर बढ़ा। उन दिनों वर्षा जोरों के साथ हो रही थी और पीछे से कर्नल होम्स अपनी सेना के साथ उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था और राजपूताने की ओर से सेनापति राबर्ट्स के अधीन एक दूसरी सेना तात्या टोपे पर आक्रमण करने के लिए बढ़ी आ रही थी। उस समय चम्बल नदी तात्या टोपे के सामने थी और खूब चढ़ी हुई थी।

उन तीनों आपत्तियों से बचकर तात्या टोपे पूर्व और उत्तर के कोने की ओर बढ़ा उसका विचार बूंदी पहुँचने का हो रहा था। चलते-चलते नीमच नसीराबाद प्रान्त में वह भीलवाड़ा नामक एक ग्राम में जाकर ठहरा। इस समाचार को पाते ही ७ अगस्त सन् १८५८ को जनरल राबर्ट्स ने तात्या टोपे पर चढ़ाई की। दिन भर घमासान संग्राम होता रहा। रात्रि के समय अपनी सेना और तोपों के साथ तात्या टोपे उदयपुर रियासत में कोटरा ग्राम की ओर निकल गया। कोटरा में भी १४ अगस्त को फिर अंगरेजी सेना ने उसे घेर लिया। घिर जाने पर फिर घोर युद्ध हुआ किन्तु इस बार तात्या टोपे को अपनी तोपें मैदान में छोड़ कर पीछे हट जाना पड़ा। ज्यों-ज्यों वह पीछे हट रहा था त्यों-त्यों अंगरेजी सेना उसका पीछा करती जा रही

थी। किसी ओर से मार्ग न पाकर वह वीर मराठा सेनापति फिर चम्बल की ओर बढ़ा।

इसी समय एक अंगरेजी सेना पीछे से तात्या की ओर बढ़ी चली आ रही थी, दूसरी सेना दाहिनी ओर से बढ़ी शीघ्रता के साथ बढ़ी चली आ रही थी, और तीसरी सेना ठीक उसके सामने पहले से ही चम्बल के किनारे तैयार खड़ी थी। फिर भी वह वीर योद्धा साहस के साथ आगे बढ़ा और पूर्ण राजनीति का अचलम्बन कर किसी को धोखा देते हुए और किसी से अपने को बचाते हुए चम्बल तक पहुँच गया। इतना ही नहीं, आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ अंगरेजी सेना से कुछ ही दूरी पर चम्बल नदी को पार कर गया। अब तो वह चम्बल नदी तात्या टोपे और अंगरेजी सेना के बीच में पड़ गई। चूँकि उस समय तात्या टोपे के पास न रसद थी और न तोपें थीं इसलिए वह कहीं भी न रुक कर सीधे भालरापट्टन की ओर बढ़ा और उधर वहाँ का राजा अपनी सेना और तोपों के साथ उस पर आक्रमण करने के लिए निकला किन्तु उसका सामना होते ही भालरापट्टन की समस्त सेना थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर तात्या टोपे से जाकर मिल गई। अब तो तात्या टोपे को सेना, सामान और रसद आदि सब कुछ मिल गया। जिस समय वह भालरापट्टन की ओर बढ़ रहा था उस समय उसके पास एक भी तोप न थी किन्तु अब उसके पास ३२ तोपें हो गईं। विजयी तात्या ने तुरन्त भालरापट्टन के राजा से युद्ध के खर्च के लिए पन्द्रह लाख रुपये वसूल किये। पाँच दिनों तक तात्या वहीं ठहरा रहा। उसने अपनी सेना को वेतन दिया। रावसाहब और बाँदे का नवाब बराबर तात्या के साथ थे। तीनों ने मिलकर फिर नर्बदा नदी को,

पार करने का विचार किया। इन लोगों को रोकने और फॉसने के लिए अँगरेजों ने अपनी समस्त सेनाओं का एक विस्तृत जाल-सा बिछा दिया किन्तु इससे अब होता क्या है? क्योंकि तात्या टोपे के पास भी इस समय सामना कर सकने के लिए पर्याप्त युद्ध की सामग्री थी। वह अब इन्दौर की ओर बढ़ा।

यह वह समय था जब कि छः बड़े-बड़े अँगरेज सेनापति राबर्ट्स, होम्स, पार्क, मिचेल, होप और लौरबार्ट सभी ओर से तात्या को घेर लेने का प्रयत्न कर रहे थे। कई बार तात्या और उसकी सेना अँगरेज की सेना को सामने दिखाई तक दे जाती थी किन्तु उस दशा में ही तात्या बच कर निकल जाता था। उसे घेर सकना अँगरेजी सेना के लिए कठिन होने लगा किन्तु इतना सब होने पर भी अँगरेजी सेना निरंतर पीछा करने लगी। सहसा रायगढ़ के निकट मिचेल की सेना तात्या टोपे पर बड़े ही भयानक रूप से टूट पड़ी। थोड़ी देर तक सम्राम होता रहा फिर तीस तोपे मैदान में छोड़ कर तात्या टोपे अपने को बचाता हुआ निकल गया। रास्ते में एक स्थान पर उसे चार तोपे और मिल गईं।

इन सब घटनाओं के बाद उत्तर की ओर बढ़कर तात्या ने सींधिया के नगर ईशागढ़ पर आक्रमण किया और वहाँ से आठ और तोपें प्राप्त कीं। जिसे किसी भी प्रकार हो, वह नर्बदा नदी को पार करने की धुन में था और अँगरेजों की विशाल सेना चारों ओर से घेर कर उसे रोकना चाहती थी तात्या टोपे की इस समय वाली समस्त यात्राओं, चालों, विजयों और पराजयों की घटनाओं का वर्णन कर सकना असम्भव है। उसके सम्बन्ध में एक अँगरेज लेखक इस प्रकार लिखता है—

“इसके बाद तात्या के बचने और भाग जाने का वह आश्चर्यजनक सिलसिला आरम्भ होता है जो दस महीने तक निरन्तर चलता रहा और जिससे मालूम होता था कि हमारी विजय निष्फल हो गई। इस सिलसिले के कारण तात्या का नाम समस्त यूरोप में हमारे अधिकांश अंगरेज सेनापतियों के नामों की तुलना में भी कहीं अधिक प्रसिद्ध हो गया। तात्या के सामने समस्या सरल नहीं थी। × × × उसे अपनी अव्यवस्थित सेना को लगातार इतनी शीघ्रातिशीघ्र गति से ले जाना पड़ता था कि जिससे न केवल उसका पीछा करने वाली सेनाएँ ही, बल्कि वे सेनाएँ भी, जो कभी दाहिनी ओर से और कभी बाईं ओर से अचानक उस पर आक्रमण करने लगती थीं, वे सभी हाथ मलती रह जाती थीं। एक ओर वह इस प्रकार पागल के समान अपनी सेना को भगाता हुआ लिये जाता था, दूसरी ओर वह दर्जनों शहरों पर अधिकार कर लेता था, अपने साथ नया सामान जमा कर लेता था, इधर-उधर से नई तोपें साथ ले लेता था और इन सब के अतिरिक्त अपनी सेना के लिए इस प्रकार के नये रगरूट स्वयंसेवक के रूप में भर्ती करता जाता था जिन्हें कि साठ मील रोजाना के हिसाब से लगातार भागना पड़ा था। अपने थोड़े साधनों से तात्या ने जो कुछ कर दिखाया, उससे सिद्ध होता है कि उसकी योग्यता साधारण नहीं थी। × × × वह उस श्रेणी का मनुष्य था जिस श्रेणी का कि हैदरअली था। कहा जाता है कि तात्या नागपुर से होकर मद्रास पहुँचना चाहता था। यदि वह वास्तव में मद्रास पहुँच जाता तो वह हमारे लिए उतना ही भयानक सिद्ध होता जितना कि हैदरअली किसी समय हो चुका था। उसके लिए नर्मदा इतनी ही बड़ी

रुकावट साबित हुई जितनी कि इंग्लिश चैनल नैपोलियन के लिए। तात्या सब कुछ कर सका किन्तु नर्बदा को पार न कर सका। × × × प्रारम्भ में अंगरेजी सेनाएँ इतने ही धीरे-धीरे आगे बढ़ीं जितने धीरे चलने की उन्हें आदत थी किन्तु फिर लाचार होकर उन्होंने शीघ्र गति से चलना सीख लिया। जनरल पार्क और कर्नल नेपियर की अन्तावली कोई-कोई यात्राएँ इतनी ही तेज थीं जितनी तात्या की औसत आधी यात्राएँ। फिर भी तात्या बच कर निकल जाता रहा। गर्मियाँ निकल गईं, सारी बरसात निकल गई, सारी सर्दियाँ निकल गई और फिर समस्त गर्मी निकल गई, किन्तु फिर भी तात्या निकला चला जा रहा था। उसके साथ कभी दो हजार थके हुए अनुयायी होते थे और कभी पन्द्रह हजार।”

इतना सब हो जाने के बाद तात्या टोपे ने अपनी सेना के दो टुकड़े कर डाले। एक को अपने अधीन रखा और दूसरे को राव साहब के अधीन कर दिया। दोनों दल दो ओर से आगे बढ़े। कई स्थानों में अंगरेजी सेना से सग्राम करते हुए वे दोनों दल ललितपुर में जाकर फिर मिल गये यहाँ पर दक्षिण में मिचेल की सेना, पूर्व में कर्नल लिडेल की सेना, उत्तर में कर्नल मोड की सेना, पश्चिम में कर्नल पार्क की सेना और चम्बल की ओर से जनरल रावर्ट्स की सेना—पौँच ओर से पौँच अंगरेजी सेनाओं ने तात्या टोपे को घेर लिया। अंगरेजी सेना को धोखा देने के लिए तात्या ने अब दक्षिण की यात्रा छोड़कर शीघ्रता के साथ उत्तर की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया। अंगरेजों ने भी समझ लिया कि तात्या ने दक्षिण जाने का विचार छोड़ दिया ऐसा समझ लेने पर वे सब अपने प्रयत्नों में शिथिल पड़

गये। उन सबों के शिथिल पड़ते ही तात्या उत्तर में जहाँ तक पहुँच पाया था, वहीं रुक गया। जब उसे विश्वस्त-शूत्र से ज्ञात हो गया कि अँगरेजी सेना के सभी अफसर उसकी ओर से निश्चित हो चुके हैं और उसे घेरने के प्रयत्नों को भी शिथिल करने लगे हैं तब वह उत्तर की ओर थोड़ा-सा और बढ़कर अचानक मुड़ पड़ा और बड़ी शीघ्रता के साथ बेतवा नदी को पार कर गया।

जैसे ही वह बेतवा नदी को पार कर आगे की ओर बढ़ा वैसे ही कजूरी नास के एक स्थान पर अँगरेजी सेना ने उसे घेर लिया। फिर क्या था ? तुरन्त सग्राम होने लगा और किसी प्रकार वहाँ से बच कर वह रायगढ़ पहुँचा और फिर सीधा तीर की तरह दक्षिण की ओर लपका। उसकी इन सब चालों से अँगरेज घबरा गये। जनरल पार्क एक ओर से लपका, मिचेल पीछे से लपका और बेचर सामने से तात्या टोपे की ओर बढ़ा किन्तु वह अपनी सेना सहित नर्बदा नदी के तट पर पहुँच गया और होशंगाबाद के समीप बड़े-से बड़े युद्ध-विद्या-विशारदों को चकित कर अपनी समस्त सेना के साथ नर्बदा नदी को सकुशल पार कर गया।

इस घटना के सम्बन्ध में इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—“जिस दृढ़ता और धैर्य के साथ तात्या ने अपनी इस योजना को सफल बनाया उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है।”

लन्दन ‘टाइम्स’ के सम्वाद-दाता ने लिखा—“हमारा अत्यन्त अद्भुत मित्र तात्या टोपे इतना कष्ट देने वाला और

चालाक शत्रु है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। पिछले जून के महीने से उसने मध्य भारत में तहलका मचा रखा है, उसने हमारे स्थानों को रौंद डाला है, खजाने को लूट लिया है और हमारे मैगजीनों को खाली कर दिया है। उसने सेनाएँ जमा कर ली हैं और खो दी है। लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हार खाई हैं। देशी-नरेशों से तोपें छीन ली हैं और उन तोपों को खो दिया है। फिर और तोपे प्राप्त की हैं, उन्हें भी खो दिया है। इसके बाद उसकी यातनाएँ बिजली के समान प्रतीत होती हैं। अठवाड़ों वह तीस-तीस और चालीस-चालीस मील प्रति दिन चला है कभी नर्मदा के इस पार और कभी उस पार। कभी वह हमारे सैन्य दलों के बीच से निकल गया है, कभी पीछे से और कभी सामने से। ×××कभी पहाड़ों पर से कभी नदियों पर से, कभी खाइयों में से और कभी घाटियों में से, कभी दल-दलों में से, कभी आगे से और कभी पीछे से, कभी एक ओर से और कभी घूम कर, ×××फिर भी वह हाथ न आया।”

इस प्रकार अंगरेजी सेना से लड़ता और बचता हुआ अंत में अक्टूबर सन् १८५८ में तात्या टोपे अपनी सेना सहित राब साहब और बर्खा के नवाब को साथ लिये हुए नागपुर के निकट पहुँच गया। लार्ड कैनिंग और उसके साथी विशेष रूप से घबरा गये। उस दशा में उन सब को क्या करना चाहिए था, यही उनकी समस्या में नहीं आ रहा था। तात्या टोपे के नागपुर के निकट पहुँच जाने के समाचार से अंगरेज फिर से अपनी असफलता का स्वप्न देखने लगे और उनके लिए भविष्य कितना बीभत्स और भयानक होगा इसकी भी जो कुछ कल्पना कर सके

उससे भी अधिक भयभीत होने लगे। इस सम्बन्ध में इतिहास लेखक मालेसन इस प्रकार लिखता है—

“जिस मनुष्य को महाराष्ट्र—अन्तिम पेशवा का न्याय-युक्त उत्तराधिकारी स्वीकार करता था उसी का भतीजा (तात्या टोपे) सेना के साथ महाराष्ट्र की भूमि पर जा पहुँचा। ××× निजाम हमारा वफादार था किन्तु वह समय बड़ा विचित्र था। ××× इससे पहले भी इस प्रकार की मिसालें हो चुकी थी जब कि यदि किसी नरेश ने राष्ट्र के भावों के विरुद्ध कार्य किया तो प्रजा ने अपने उस नरेश के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। सींधिया के विरुद्ध भी इस प्रकार का विद्रोह हो चुका था। हमें यह भय होना आवश्यक था कि कहीं ऐसा न हो कि तात्या की सेना समस्त महाराष्ट्र को हमारे विरुद्ध शस्त्र उठा लेने के लिए उत्तेजित कर दे और फिर जब समस्त महाराष्ट्र जाति विदेशियों के विरुद्ध हथियार उठा ले तब इसे देख कर दक्षिण (अर्थात् निजाम-हैदराबाद के इलाके) के लोग भी रोके न रुक सकें।”

इसी-प्रकार की सैकड़ों बातें सोच-सोच कर उस समय के लार्ड कैनिंग और अनेक अंगरेज अफसर दिन-रात चिन्तित रह जाते थे। दिन में न तो उन सबों को भूख लक्ष्मी थी और न रात में नींद आती थी। प्रत्येक समय उन सबों के नेत्रों के सामने तात्या टोपे का चित्र ही घूमा करता था। भविष्य किंधर पलटा खाता है इसे समझ सकने में उस समय के बड़े बड़े राज-नीतिज्ञ असमर्थ हो रहे थे। अंगरेजों के सामने तो केवल यही एक प्रश्न था कि यदि तात्या टोपे के साथ समस्त महाराष्ट्र जाति हो गई और उनसे उत्तेजित होकर अंगरेजों के विरुद्ध

हथियार उठा लिया तो फिर भारत में रहने वाले अँगरेजों का क्या होगा ? इसी प्रश्न को लेकर वे परस्पर परामर्श करते और भयभीत होते थे यह सभी के निकट स्पष्ट होने लगा था कि तात्या को अपने आधीन कर सकना अँगरेजों के लिए बड़ी ही कठिन समस्या है ।

इसमे सन्देह नहीं कि यदि यही घटना एक साल पहले होती तो फिर यह भी सम्भव था कि शेष भारतीय इतिहास की गति दूसरी ओर ही पलट जाती किन्तु इस स्थल पर यह भी मानना पड़ेगा कि उस समय के पिछले एक वर्ष के अन्दर भारतवासियों का उत्साह विशेष रूप से भंग हो चुका था । उत्तरी भारत में जिस तात्या को लोग स्वयं आ-आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रसद पहुँचाते थे उस तात्या के समीप नागपुर की महाराष्ट्र जनता अब आने तक से भी डरने लगी ।

तात्या टोपे ने वहाँ की परिस्थिति को समझ लिया फिर कुछ दिनों तक उसकी सेना वहीं ठहरी रही । इतने में ही अँगरेज सेना ने फिर उसे चारों ओर से घेरना आरम्भ कर दिया । उस समय तात्या के दक्षिण और उत्तर दोनों ही दिशाओं में अँगरेजों की विशाल सेनाएँ थीं । उत्तर की ओर से अँगरेजी सेना नर्बदा पार कर बड़ी चली आ रही थी और इधर नागपुर से तात्या को कोई सहायता न मिल सकी । जब बचाव का कोई दूसरा उपाय समझ में न आया तब फिर विवश होकर तात्या ने बड़ौदा की ओर बढ़ने का विचार किया ।

अपने इस विचार को लेकर जैसे ही तात्या टोपे आगे बढ़ा वैसे ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने देखा कि नर्बदा के प्रत्येक घाट पर दोनों ओर अँगरेजों की सेना पड़ी हुई है । फिर भी

साहस करता हुआ वह आगे की ओर बढ़ा और उसके बढ़ते ही मेजर सण्डरलैन्ड भी अपनी सेना के साथ उसकी ओर लपका। दोनों ही ओर से सैनिक लड़ने लगे। थोड़ी देर तक संग्राम होता रहा अन्त में तात्या तोपे ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि सब तोपे पीछे छोड़ कर नर्बदा नदी में कूद पड़े। तात्या और उसकी सेना एक पल भर में नर्बदा के दूसरे पार दिखाई देने लगी। इतिहास लेखक मालेसन लिखता है—“संसार की किसी भी सेना ने कभी कहीं पर इतनी शीघ्रता के साथ कूच नहीं किया जितनी शीघ्रता के साथ कि तात्या की भारतीय सेना इस समय कूच कर रही थी।”

नर्बदा को पार कर तात्या अपनी सेना के साथ राजपुरा पहुँचा वहाँ के सरदार से उसने घोड़े और कुछ धन वसूल किया। दूसरे दिन वह छोटा उदयपुर पहुँचा। यहाँ से बड़ौदा केवल ५० मील की दूरी पर था। इतने में पार्क के अधीन अंगरेजी सेना छोटा उदयपुर आ पहुँची। तात्या को बड़ौदा जाने का विचार छोड़ देना पड़ा। अब वह फिर उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक ऐसे ही समय में निराश होकर बाँदा के नवाब ने मलका विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार हथियार रख दिये। तात्या और राव साहब अकेले रह गये। मालेसन लिखता है—“किन्तु ये दोनों नेता इस कठिन आपत्ति के समय भी इतने शान्त, वीर और चतुर बने रहे जितने कि वे पहले किसी भी समय रह चुके थे।”

निस्सन्देह उन दोनों ने उस समय भी बड़े साहस के साथ अपने कदम बढ़ाये। बाँदा के नवाब के हथियार रख देने पर भी

वे अपने विचार पर अटल बने रहे। अंगरेजों ने कदाचित् यह समझ लिया कि तात्या टोपे और राव साहब भी अपने साथी बाँदा के नवाब का ही अनुकरण करेगे किन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। तात्या टोपे ने उदयपुर की ओर बढ़ना चाहा। जैसे ही वह उदयपुर की ओर बढ़ने लगा वैसे ही अंगरेजों की कई सेनाएं उस पर प्रबल वेग से टूट पड़ीं। तुरंत वह मुड़कर समीप के जंगल में प्रवेश कर गया। किन्तु वहाँ भी उसके लिए बच सकना असम्भव-सा दिखाई देने लगा। क्योंकि वहाँ भी जंगलों में अंगरेजी सेना डटी हुई थी। जिधर तात्या जाता था उधर ही उसे अंगरेज सैनिक मिल जाते थे। किसी प्रकार रात्रि का समय आया। जब रात अधिक हुई और जंगल में उसे फँसने वाले अंगरेज सैनिकों को दूर की वस्तु अंधकार के कारण न दिखाई पड़ने लगी तब वह उन सबके सामने से ही छाया के समान निकल गया। अंगरेज सैनिक उसे देखकर भी न देख सके।

इस घटना के बाद एक दिन तात्या टोपे और राव साहब, लगभग चार बजे शाम को प्रतापगढ़ की ओर बढ़े। सामने से आकर मेजर राक ने उन दोनों का मार्ग रोक लिया। मेजर राक की सेना को परास्त करता हुआ तात्या आगे निकल गया, और २५ दिसम्बर सन् १८५८ को तात्या बॉसवाड़ा के जंगल से निकला। वहाँ भी उसे अंगरेज सैनिकों ने घेर लेना चाहा। जंगल में अंगरेज सैनिकों को देखकर तात्या रुक गया और रात्रि के अन्धकार में एक अंगरेज को मारकर और उसकी सेना को तितर-बितर कर वह वहाँ से निकल कर एक सुरक्षित स्थान में आकर ठहर गया। ठीक इसी समय दिल्ली के राजकुल का प्रसिद्ध शाहजादा फीरोजशाह, जो अवध के संग्रामों में भाग ले

चुका था अपनी सेना के साथ तात्या की सहायता के लिए चला आ रहा था। जिस प्रकार शाहजादे फीरोजशाह ने अपनी सेना के साथ गंगा और यमुना को पार किया और फिर तात्या से जाकर भेट की, उसका कथानक भी बड़ा विचित्र है। १३ जनवरी सन् १८५९ को इन्द्रगढ़ में फीरोजशाह, तात्या और राव साहब में भेंट हुई। सींधिया का एक सरदार मानसिंह भी उस समय इन लोगों में आकर मिला गया।

यह ऐसा विकट समय था जब कि वीर तात्या टोपे फिर बुरी तरह चारों ओर से घिरने लगा था। नेपियर उसके उत्तर में था, शावर्स उत्तर-पश्चिम में, सोमरसेट पूर्व में, स्मिथ दक्षिण-पूर्व में मिचेल और बैनसग दक्षिण में और बॉनर दक्षिण-पश्चिम में। ये सब तात्या को घेर लेने के लिए शीघ्र गति से बढ़े चले आ रहे थे। बढ़ते-बढ़ते तात्या देवास पहुँचा। १६ जनवरी सन् १८५९ को सवेरे देवास में तात्या, राव साहब, और फीरोजशाह तीनों एक ही स्थान पर बैठे बात-चीत कर रहे थे। अचानक किसी अंगरेज अफसर का हाथ तात्या की कमर पर पड़ा और तुरन्त ही अंगरेजी सेना ने उन तीनों पर आक्रमण कर दिया। उस परिस्थिति में ऐसा ज्ञात हुआ, मानों तात्या पकड़ गया, किन्तु फिर भी ये तीनों विसवकारी सैनिकों के नेता अचानक अंगरेजी सेना के सैनिकों के चंगुल से निकल गये। चारों ओर खोज की गई किन्तु कोई भी अंगरेज सैनिक अथवा अंगरेज जासूस उन तीनों का पता न लगा सका।

२१ जनवरी को ये तीनों अलवर के निकट शिखरजी में दिखाई पड़े। अंगरेजी सेना निरंतर उन्हें घेरने के लिए प्रयत्न कर ही रही थी अतएव फिर एक स्थान पर मुठभेड़ हो गई।

दोनों ओर के सैनिक संग्राम के मैदान में उतर पड़े। घमासान युद्ध होने लगा। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों ओर के सेनापति युद्ध-विद्या में पारंगत थे और वे अपनी-अपनी सेनाओं का सञ्चालन उचित समय के अनुसार उचित ढंग से कर रहे थे। दोनों की ही योग्यता और रण-कुशलता समान थी। यदि तात्या पक्ष में कोई कमी थी तो वह सैनिकों और सामान की ही हो सकती थी। कुछ भी हो, दोनों ही ओर के सैनिकों में उत्साह था और विजय-लाभ की कामना भी थी। तात्या के पक्ष से जितने सैनिक लड़ रहे थे वे सब अपनी विजय में अपने देश की स्वतन्त्रता की रूप-रेखा को देख रहे थे और अंगरेजी सेना के सैनिक अपनी विजय में अपने देश की शासन नीति और शोषण-ग्रणाली की सत्ता से भारतवर्ष को तबाह कर देने का सुनहला स्वप्न देखने लगे थे और अंगरेजी सेना के वेतनभोगी सैनिक अपनी विजय में अपने स्वामी और कम्पनी की दयालुता के लिए बड़ी-बड़ी आशाओं का महल बनाने की कल्पना करने लगे थे।

उस भयानक युद्ध का परिणाम यह हुआ कि स्वतन्त्रता के पुजारी सैनिकों के सामने कम्पनी की सेना का पैर उखड़ने लगा। अंगरेजी सेना के सेनापति लज्जित होने लगे। किसी प्रकार उत्साह दिलाने और उत्तेजित करने पर अंगरेजी सेना के सैनिक फिर आगे बढ़ने का साहस करने लगे। उनका दुबारा साहस करना ही उनके लिए विजय का कारण बन गया। वास्तव में यद्यपि इस प्रकार हुई कि तात्या टोपे का विश्वासपात्र सहायक सामन्त घोड़पदे भी घायल हो चुका था। वह बीर केशरी शिवाजी का वंशज था। उसके गिरते ही तात्या की समस्त

आशाएं टुकड़े-टुकड़े हो गईं फिर भी वह युद्ध के मैदान में डटा रहा। जब विजय की आशा जाती रही तब वह अंगरेजी सेना से बच कर तुरन्त जंगल में जाकर छिप गया किन्तु परिस्थिति और समय शीघ्रता के साथ उसके प्रतिकूल होता चला जा रहा था।

तात्या टोपे ने जिस जंगल में जाकर आश्रय लिया था, उसी के समीप वाले जंगल में सींधिया का सरदार मानसिंह भी छिपा हुआ था। तात्या ने फीरोजशाह और रावसाहब को सेना के साथ उसी जंगल में छोड़ दिया और स्वयं तीन आदमियों के साथ मानसिंह से मिलने के लिए चल पड़ा। मानसिंह इतने ही समय में अंगरेजों से मिल चुका था और अंगरेजों ने उसे जागीर देने का वादा कर लिया था। इसलिए तात्या टोपे को गिरफ्तार करा देने के लिए वह बड़े उत्साह से कार्य करने लगा था किन्तु इस गुप्त षड्यन्त्र को तात्या नहीं जान सका था। इधर फीरोजशाह ने तात्या को वापस अपने पास बुलाना चाहा और उधर मानसिंह ने उसे रोक लिया और ७ अप्रैल सन् १८५९ को ठीक आधी रात के समय सोते हुए तात्या को भारत के शत्रु अंगरेजों के हवाले कर दिया।

यहाँ पर पाठक यह प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं कि ऐसा रण-कुशल वीर सेनापति क्योंकि मानसिंह के जाल में फंसा? इस प्रश्न के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि मानसिंह जो सींधिया का सरदार था, ऐसा विश्वासघात करेगा इसकी कल्पना भी तात्या ने नहीं की थी और करने की कोई आवश्यकता भी न थी। पहले से ही साथ था, विश्वासघात का कोई भी कार्य उसने नहीं किया था। जिस प्रकार तात्या एक जंगल से दूसरे

जंगल में जाकर छिपता और शत्रु पर आक्रमण करता था उसी प्रकार मानसिंह भी उसका साथ देता था। जिस समय तात्या मानसिंह से मिलने गया था उस समय भी उसे विश्वास था कि भारत से अंगरेजों को भगाने वाले स्वाधीनता-संग्राम में वह भी उसी के समान अपने आपको अर्पित कर चुका है इसीलिए वह उससे भविष्य के कार्यक्रम पर परामर्श करने चला गया था। अपने ही विश्वासपात्र व्यक्ति यदि विश्वासघात करें तो फिर कोई क्या कर सकता है! संसार के सभी कार्य एक दूसरे के भरोसे पर ही सफल हुआ करते हैं।

१८ अप्रैल सन् १८५९ तात्या टोपे के लिए फॉसी का दिन नियत हुआ। चारों ओर फौज का कड़ा पहरा था। लिखा है की फौज के चारों ओर टीलों पर खड़े हजारों ग्राम-निवासी तात्या को दूर से बड़ी श्रद्धा के साथ नमस्कार कर रहे थे। तात्या धैर्य और साहस के साथ फॉसी के तख्ते पर चढ़ा, उसकी बेड़ियों काटी गईं। तात्या ने हंसते हुए अपने हाथ से फॉसी का फन्दा गले में डाल लिया फिर चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। फिर जननी जन्म-भूमि का ध्यान मन ही मन करने लगा। इतने में ही तख्ता खींचा गया। संध्या समय तक तात्या का शव फॉसी पर लटकता रहा। सन्ध्या समय अनेक अंगरेज दर्शकों ने दौड़ कर तात्या के मस्तक के दो-दो चार-चार केश तोड़ लिये और वीर तात्या की स्मृति-चिन्ह स्वरूप उन्हें अपने पास रख लिया।

वीर तात्या टोपे के बाद भी रावसाहब और शाहजादा फीरोजशाह एक महीने तक जी तोड़ कर लड़े। इसके बाद भेष बदल कर वे दोनों जगलों में निकल गये। फीरोजशाह सन्

१८६४ तक भारत के जगलों में घूमता रहा उसके बाद अरब चला गया जहाँ वह सन् १८६६ में अन्य असंख्य देश से निकाले गये भारतीय विसवकारियों के संग फकीर के भेष में देखा गया। तीन साल के बाद रावसाहब भी पकड़ा गया और २० अगस्त सन् १८६२ को कानपुर में फाँसी पर लटका दिया गया।

अब पाठक समझ गये होंगे कि किस प्रकार भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने का सब से महान् और व्यापक प्रयत्न निष्फल गया और देशद्रोहियों के कारण अँगरेजी-सत्ता की जड़ एक काल के लिए और अधिक दृढ़ता के साथ इस देश में जम गई।

विश्वकी असफलता और उसके बाद

सन् १८५७ के विश्व का समस्त वृत्तान्त हम बतला चुके हैं। साथ ही साथ यह भी बतला चुके हैं कि किन-किन कारणों से यह विश्व सफल होते होते असफल ही रह गया। कुछ भी हो पाठकों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए हम बतलाए हुए वृत्तान्त के अधार पर पुनः एक बार दृष्टिपात करना उचित समझ रहे हैं। सन् १८५७ के विश्व को असफल बनाने वाले कारण हमें साधारणतया पाँच ही दिखाई पड़ते हैं। वे कारण संक्षेप में इस प्रकार के कहे जा सकते हैं—

पहला कारण—चर्बी के कारतूसों और विशेषकर मेरठ की घटना के कारण विश्वकारियों ने स्वाधीनता के संग्राम को निश्चित समय से पहले ही आरम्भ कर दिया। विश्व के वृत्तान्त को बतलाते हुए हमने मालेसन, विलसन ह्वाइट जैसे अंगरेज इतिहास लेखकों की सम्मति को भी उचित स्थान पर लिख दिया है। उनका भी यही विचार है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार ३१ मई सन् १८५७ को एक ही साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का यह व्यापक और महान संग्राम आरम्भ हुआ होता तो कम्पनी के अंगरेज शासकों के लिए भारतवर्ष को फिर से विजय कर सकना किसी भी प्रकार सम्भव न होता।

दूसरा कारण—सन् १८५७ के स्वाधीनता संग्राम के विरुद्ध भारतवर्ष के सिखों और गोरखों ने कम्पनी के अंगरेजों की

सहायता करके उनके लिए दिल्ली और लखनऊ जैसे विसव के महान केन्द्रों को फिर से विजय कर सकना सम्भव बना दिया। इस विषय में पञ्जाब प्रान्त के चीफ कमिश्नर सर जान लारेन्स के कथन का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यदि पटियाला, नाभा और भींद ने विसव के सफल होने वाले क्षण में अंगरेजों की सहायता न की होती तो कम्पनी के अंगरेज स्वप्न में भी भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली को अपने अधिकार में नहीं ला सकते थे। दिल्ली के विप्लवकारी सैनिक और उनके नेता ऐसा कुछ कर दिखाते कि अंगरेजों की हड्डियाँ भी भारतवर्ष के किसी कोने में न दिखाई पड़ती। यह सभी स्वीकार करते हैं कि यदि दिल्ली की विसवकारी सेना विजय प्राप्त कर पूर्व और दक्षिण में उतर आती तो सन् १८५७ के विसव के बाद का समस्त मान चित्र ही बदल जाता। यह भी मानी हुई बात है कि विसवकारियों का संगठन सुन्दर व्यवस्थित और सभी दृष्टिकोणों से प्रशसनीय था फिर भी कम से कम असंख्य सिख और गोरखे जैसे भारतवासी अपने देशवासियों के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार से अंगरेजों की सहायता कर रहे थे। इस सम्बन्ध में रसल नाम का एक अंगरेज इस प्रकार लिखता है—

“फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अंगरेज चाहे कितने भी बहादुर क्यों न हों, यदि समस्त भारतवासी पूर्ण रूप से हमारे विरुद्ध हो जाते तो भारत में अंगरेजों का निशान तक कहीं शेष न रह जाता। हमारे किलों के अन्दर की सेनाओं ने जिस प्रकार जी तोड़ कर अपने स्थानों की रक्षा की है; निस्सन्देह वह सब वीरोचित ही था। किन्तु इस वीरता में

भारतवर्ष के निवासी भी शामिल थे और उन्हीं की सहायता और उपस्थिति के कारण उन स्थानों की रक्षा करना हमारे लिए सम्भव हो सका। यदि पटियाला और भींद के राजा हमारे साथ मित्रता के भाव न प्रदर्शित करते और यदि सिख हमारी पलटनों में न भर्ती होते और उधर पंजाब को शान्त न रखते तो दिल्ली को घेर लेना हम लोगों के लिए सर्वदा असम्भव हो जाता। लखनऊ में भी सिखों ने हमारी बड़ी सहायता की और प्रत्येक स्थान पर जिस प्रकार भारतवासी हमारी सेनाओं में भर्ती होकर लड़ाई में हमारी शक्ति को बढ़ाते थे, उसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर भारतवासी ही हमारी घिरी हुई सेना की सहायता भी करते थे, हमें भोजन पहुँचाते थे और हमारी सेवा करते थे। इस क्षण भी यहाँ इस कैम्प में हमारी और सब की दशा क्या है? देशी फौजे ही सब से आगे रह कर हमारी रक्षा कर रही हैं, देशी लोग हमारे घोड़ों के लिए घास काट रहे हैं, वे ही हमारे सईस हैं, वे ही हमारे हाथियों को चारा देते हैं वे ही हमारी बारबरदारी का प्रबन्ध करते हैं, कमसरियट में वही हमारे भोजन का प्रबन्ध करते हैं, वे ही हमारे गोरे सिपाहियों का खाना पकाते हैं, वे ही हमारे कैम्प की सफाई करते हैं, वे ही हमारे डेरू गाड़ते हैं और उन्हें इधर उधर ले जाते हैं, वे ही हमारे अफसरों का सब काम करते हैं और वे ही अपने पास से रुपये उधार देते हैं। जो गोरा सिपाही मेरे साथ लिखने-पढ़ने का काम करता है, वह कहता है कि बिना हिन्दुस्तानी नौकरों, डोली उठानेवालों, अस्पताल के आदमियों और अन्य भारतवासियों के, उसकी पलटन एक सप्ताह भी जीवित न रह सकती।” जिस प्रकार सिखों की सहायता के बिना दिल्ली

को जीत सकना असम्भव था उसी प्रकार गोरखों की सहायता के बिना लखनऊ पर कम्पनी के अंगरेजों का अधिकार हो सकना असम्भव था ।

तीसरा कारण—जिस समय कम्पनी की अंगरेजी सेना ने दिल्ली को घेर लिया था उस समय दिल्ली में आये हुए विस्वकारियों में कोई ऐसा योग्य शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता न था जो नगर के अन्दर की समस्त शक्तियों को अपने अनुशासन में कर उन्हें एक महान् प्रयत्न के लिए आगे बढ़ा सकता । यही एक मात्र मुख्य कारण था कि राजधानी दिल्ली के अन्दर की विशाल विस्वकारी सेना बाहर निकल कर नगर के बाहर की अंगरेजी सेना को, जिसकी संख्या उनकी तुलना में कहीं कम थी, महीनों तक न समाप्त कर सकी और न हरा सकी । ऐसी ही त्रुटि किसी सीमा तक अवध की राजधानी लखनऊ में भी थी और इसी कारण कभी-कभी ठीक आपत्ति काल में ही विस्वकारियों में व्यवस्था और आज्ञा-पालन की कमी विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती थी ।

चौथा कारण—सीधिया, होलकर और राजपुताने के नरेशों का केवल संकोच और विस्वकारियों की सफलता पर अविश्वास के कारण उस महान् और व्यापक राष्ट्रीय विस्व में भाग न ले सकना भी विप्लव की असफलता का एक विशेष कारण था । यदि महाराजा जयाजीराव सीधिया अथवा कोई प्रसिद्ध राजपूत नरेश उचित समय पर अपनी सेना के साथ भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में पहुँच जाता तो कम्पनी की सेना के लिए दिल्ली और दिल्ली के आस-पास वाले स्थानों में अधिक

समय तक ठहर सकना असंभव हो जाता। इतना ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में भी उन्हें कोई स्थान न प्राप्त होता, साथ ही साथ राजधानी दिल्ली के अन्दर प्रभावशाली और योग्य नेता का अभाव भी दूर हो जाता। सम्राट बहादुरशाह ने इन सबों को विश्व के पक्ष में लाने का भरसक प्रयत्न किया था किन्तु इन सबों ने उस ओर तनिक भी ध्यान न दिया परिणाम यह हुआ कि राजधानी दिल्ली का पतन होते ही समस्त भारतवर्ष के विश्व का प्रयत्न शिथिल पड़ने लगा।

पॉचवाँ कारण—जिस उत्साह के साथ विन्ध्याचल से उत्तर के भाग ने स्वाधीनता-संग्राम को सफल बनाने के लिए विश्व मे भाग में लिया था उसी उत्साह के साथ विन्ध्याचल से नीचे के भाग ने विश्व का साथ नहीं दिया। इसमें सन्देह नहीं कि उस भाग से लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं किन्तु सभी आशाओं पर पानी फिर गया था। कहा जाता है कि उस भाग के लोगों ने उत्तरी भाग के लोगों की तुलना में शतांश भी विश्व के प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया था। यदि बम्बई, मद्रास, और माहाराष्ट्र जैसे दक्षिणी-प्रान्तों में उत्तरी भारत के साथ-साथ उसी प्रकार का युद्ध आरम्भ हो गया होता तो उन प्रान्तों से उत्तर की ओर सेना भेज सकना अंगरेजों के लिए असंभव होता। जनरल नील, जनरल हैवलाक इत्यादि कलकत्ते तक भी न पहुँच पाते और बनारस, इलाहाबाद कानपुर और अन्त में लखनऊ विजय कर सकना अंगरेजों के लिए किसी भी दशा में संभव न होता। आगे चलकर परिणाम यह होता कि भारत में रहनेवालों को दास बनाने वाले अंगरेज

जिस रास्ते से भारत में आये थे, उसी रास्ते से चुपचाप लौट भी जाते ।

सन् १८५७ के विप्लवकारियों द्वारा चलाये गये स्वाधीनता-संग्राम की असफलता के ये पाँचों कारण इस प्रकार के हैं कि यदि इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित होता तो शेष चारों के होने पर भी कदाचित् यह स्वाधीनता का संग्राम अथवा सन् १८५७ का महान् और व्यापक विश्व असफल न होता और समस्त संसार में भारतवर्ष का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता । सन् १८५७ के विश्व की असफलता से हम भारतवासियों को जैसे दुर्दिन देखने पड़े हैं वैसे दुर्दिन कदाचित् किसी दूसरे देशवासियों को कभी देखने पड़े हों । ऐसे दुर्दिन ईश्वर शत्रु को भी न दिखाये ।

सन् १८५७ के विप्लव को असफल बनाने वाले अँगरेजों ने विप्लव के बाद से ही जिन-जिन उपायों का अवलम्बन किया उनका भी वर्णन कर देना इस स्थल पर अनुचित न होगा ।

यह सभी मानते हैं कि सन् १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम से अँगरेज राजनीतिज्ञों की आँखें खुल गईं । वे यह अनुभव करने लगे कि जितनी शीघ्रता के साथ वे कुछ समय पूर्व भारत की देशी रियासतों को हड़प कर देश के समस्त मानचित्र को लाल रंग से रंग देने के प्रयत्न में लगे हुए थे वह अँगरेजी सत्ता की स्थिरता के लिए कल्याण करने वाली नहीं थी । वे यह भली भाँति समझ गये कि अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाने की अपेक्षा अब उसकी दृढ़ता के उपाय करना अधिक आवश्यक है । उन्हें अपनी लगभग एक सौ साल की शासन-नीति पर फिर से ध्यान देने के

आवश्यकता जान पड़ी। सन् १८५७-५८ के अन्दर भारत और इंग्लैण्ड के अँगरेजी समाचार पत्रों और राजनीति के केन्द्रों में इस विषय के अधिक तक-वितर्क हुए। अन्त में जो मुख्य-मुख्य उपाय अधिक महत्वपूर्ण समझे गये और जिनके ऊपर अधिक अश तक सन् १८५७ के बाद भारत में अँगरेजी सत्ता की राजनीति ढाली गई उनका वर्णन इस प्रकार है—

सन् १८५८ तक ब्रिटिश भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में था। सन् १६०० ईसवी में इङ्गलैण्ड की मलका एलिजेबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की थी और फिर प्रति बीस साल के पश्चात् इङ्गलैण्ड की पार्लिमेण्ट एक नये 'चारटर एक्ट' के द्वारा भारत के अन्दर कम्पनी के अधिकार को सुदृढ़ करती रहती थी। जिसका अभिप्राय यह था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी वास्तव में पार्लिमेण्ट की केवल एक एजेण्ट थी।

धूर्त और उच्छृङ्खल क्लाइव के आने से पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी का काम भारतवर्ष में केवल व्यापार करना था। अँगरेज जाति का नाम कलंकित करने वाले क्लाइव के समय से ही भारत के कुछ इलाके के ऊपर कम्पनी का शासन शुरू हुआ। उसके बाद वारन हेस्टिंग्स ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वारन हेस्टिंग्स ही के समय में इङ्गलैण्ड के एक मंत्री फाक्स ने पार्लिमेण्ट के सामने यह तजवीज रखी कि भारत के अन्दर जो कुछ इलाका कम्पनी के अधिकार में आ गया है उसके शासन का प्रबन्ध कम्पनी के हाथों से लेकर इङ्गलैण्ड के शासक और इङ्गलैण्ड के मंत्रिमंडल के हाथों में दे दिया जाय। हाउस आफ कामन्स ने फाक्स के इस तजवीज को स्वीकार कर लिया किन्तु हाउस आफ लार्डस पर ईस्ट इण्डिया

कम्पनी के धनी हिस्सेदारों का असर अधिक था, इसलिए हाउस आफ लार्डस ने फाक्स की तजवीज को अस्वीकार कर दिया।

सन् १७८३ में प्रधान मंत्री विलियम पिट ने यह तजवीज पेश की कि इङ्ग्लैण्ड के मंत्रिमंडल के अधीन एक नया विभाग स्थापित किया जाय और उसका नाम 'बोर्ड आफ कन्ट्रोल' रखा जाय। मंत्रियों में से एक इस बोर्ड का प्रधान रहे और कम्पनी के संचालक अपने भारतीय राज्य के शासन की जो कुछ व्यवस्था करें वह सब इस बोर्ड की देख रेख में करें। सन् १७८४ से लेकर सन् १८५८ तक इङ्ग्लैण्ड का यह सरकारी विभाग और कम्पनी के संचालक, दोनों मिल कर ब्रिटिश भारत में अपनी शासन नीति चलाते रहे। इसे हम यों भी समझ सकते हैं कि लगभग प्रारंभ से ही भारत में अँगरेजी राज्य की वास्तविक बागडोर इङ्ग्लैण्ड के शासक और इङ्ग्लैण्ड की पार्लिमेण्ट के हाथों में रही और ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस विषय में उनकी केवल एक एजेंट थी।

सन् १७८३ के पश्चात् सन् १८१३ में एक नई बात यह की गई कि उस समय से भारत के साथ व्यापार करने का महत्वपूर्ण अधिकार भी पार्लिमेण्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ले लिया और प्रत्येक अँगरेज अथवा प्रत्येक अँगरेज कम्पनी को इस देश के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि इङ्ग्लैण्ड और भारत के बीच का व्यापार बहुत बढ़ गया था और समस्त अँगरेज जाति उससे लाभ उठाने के लिए लालायित थी। राजनीति के विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत के प्राचीन उद्योग धन्धों के सर्वनाश और भारत की

वर्तमान दरिद्रता का असली कारण सन् १८१३ का 'चारटर' एक्ट था।

प्रत्येक नये चारटर एक्ट में अँगरेज जाति और अँगरेज व्यापारियों के मुख्य उद्देश्य पर पर्दा डालने के लिए कोई न कोई वाक्य इस प्रकार का जोड़ दिया जाता था। जिससे यही साबित होता था मानों इन विदेशी व्यापारियों का मुख्य ध्येय केवल भारतवासियों का हित करना ही है। उदाहरण के लिए सन् १८१३ के चारटर एक्ट में लिखे हुए वाक्य को ही हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं—(भारत के) “अँगरेजी इलाकों में रहने वालों के सुख और उनके हित को बढ़ाना (इङ्गलैण्ड का) कर्तव्य है।”

इसी प्रकार सन् १८३३ के चारटर एक्ट में लिखा है—“इन इलाकों के किसी निवासी को या इन इलाकों में रहने वाली बादशाह की किसी प्राकृतिक प्रजा को केवल उसके धर्म अथवा जन्म किम्बा स्थान या नसल अथवा रंग के कारण से कम्पनी के अधीन किसी नौकरी, पदवी या ओहदे के योग्य न समझा जायगा।”

सन् १८३३ से सन् १८५३ तक भारत के अन्दर अँगरेजी राज्य की सीमाएं इतनी अधिक हो चुकी थीं कि फिर १८५३ के चारटर एक्ट में इस प्रकार के किसी परोपकार-सूचक वाक्य की आवश्यकता उचित न समझी गई। सन् १८५३ के चारटर एक्ट के स्वीकृत होने के समय अँगरेज शासकों ने गवाहियाँ पार्लिमेन्ट की सिलकट कमेटी के सामने दी उनसे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भारत के अँगरेज शासकों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार हो सके इस देश से धन चूसकर इङ्गलैण्ड को धनी बना दिया जाय और अँगरेजी शिक्षा

तथा ईसाई-मत प्रचार के द्वारा भारत के राष्ट्रीय चरित्र को निर्बल कर सदा के लिए इसे अँगरेज जाति का गुलाम बना कर रखा जावे ।

सन् १८५७ से कुछ पहले ही इङ्गलैण्ड के अन्दर इस बात के लिए फिर प्रबल आन्दोलन होने लगा था कि कम्पनी के विशाल भारतीय साम्राज्य का प्रबन्ध कम्पनी के हाथों से लेकर पार्लिमेण्ट के हाथों में दे दिया जाय । इस आन्दोलन के मुख्य कारण दो थे ।

पहला कारण यह था कि भारत ही की और विशेषकर बंगाल की 'लूट' के प्रताप से उन्नीसवीं सदी के अंतिम दिनों से इङ्गलैण्ड के पिछड़े हुए उद्योग-धंधे तेजी के साथ बढ़ने लगे और परिणाम यह हुआ कि लंकाशायर आदि स्थानों में कारखाने खुल गये । इन नये कारखानों के मालिकों को एक ओर तो रुई जैसे कच्चे माल की आवश्यकता थी और रुई इङ्गलैण्ड में न हो सकती थी । प्रारंभ में कुछ रुई अमरीका से इङ्गलैण्ड मंगवाई गई किन्तु वह बहुत मंहगी पड़ती थी । दूसरी ओर उद्योग-धंधों के बढ़ने के साथ ही साथ इङ्गलैण्ड की अनुपजाऊ भूमि में गल्ले की उपज भी और कम होती जा रही थी और वहाँ के निवासियों को भोजन पहुँचाने के लिए बाहर से गल्ले को भी मंगाना आवश्यक था । इसके लिए राजनैतिक भाषा में एक नया वाक्य "डेवलपमेण्ट आफ दि रिसोर्सेज आफ इण्डिया" (भारतवर्ष की भूमि की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देना) तैयार किया गया । उद्देश्य यह था कि विशाल भारत भूमि में इस प्रकार की व्यवस्था दी जाय, इस प्रकार के रास्ते बनाये जायँ और सुविधाएँ की जायँ जिनसे इस देश से माल और धन के खींचने में सुविधा

हो । यहाँ के अंगरेजी इलाके की सीमा के भीतर रुई की खेती को बढ़ाया जाय तथा रेलों आदि के द्वारा रुई, गल्ला और दूसरे कच्चे माल के जगह-जगह से जमा होकर इङ्गलैण्ड भेजे जाने और इङ्गलैण्ड के नये कारखानों में बने हुए माल को भारत के शहरों और गाँवों में पहुँचाने की सुविधाएँ पैदा की जावे लेकिन यह सब काम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रहते पूरी तेजी के साथ भारत में नहीं हो सकता था ।

दूसरा कारण यह था कि इङ्गलैण्ड के अनेक निवासी भारतवर्ष के उपजाऊ मैदानों में आ-आकर बसना और इस देश को आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और अमरीका आदि के समान इङ्गलैण्ड का एक उपनिवेश बना देना चाहते थे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस प्रकार के उपनिवेश बनाने के विरुद्ध थी ।

वास्तव में बात यह थी कि कम्पनी के सचालक और हिस्सेदार चाहते थे कि भारत के व्यापार, भारत की हुकूमत और भारत की लूट का समस्त लाभ उन्हीं को मिलता रहे किन्तु इङ्गलैण्ड में उनके वैभव को देख-देख कर उनके असख्य प्रतिस्पर्धी उत्पन्न हो चुके थे । लोग चाहते थे कि जो लाभ भारत से केवल कम्पनी को ही रहा है वह अब समस्त अंगरेजी जाति को हो । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तोड़े जाने का यही सब से बड़ा कारण था ।

पाठकों को विदित हो गया होगा कि क्यों ईस्ट इण्डिया कम्पनी से इङ्गलैण्ड के निवासी असंतुष्ट थे और किस लिए कम्पनी के तोड़े जाने तथा ब्रिटिश भारत के शासन को इङ्गलैण्ड के शासक और इङ्गलैण्ड की पार्लिमेण्ट के हाथों में दिये जाने के लिए बहुत दिनों से प्रबल आन्दोलन कर रहे थे । सन् १८५७

के विप्लव से इङ्ग्लैण्ड के आन्दोलनकारियों को अच्छा मौका मिल गया। सन् १८५८ में पार्लिमेण्ट के सामने कम्पनी के तोड़ देने की तजवीज पेश की गई! इसके बाद उत्तर में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के संचालकों ने एक लम्बा आवेदन-पत्र लिखकर फरवरी सन् १८५८ में पार्लिमेण्ट के सामने पेश किया। कम्पनी के संचालकों ने इस लम्बे आवेदन-पत्र में अपने सौ साल के शासन के लाभ को दिखाते हुए प्रार्थना की कि शासन की बागडोर कम्पनी ही के हाथों में रहने दी जाय। सन् १८५७ के विप्लव की ओर संकेत करते हुए और अपने शासन की सफलता को पूर्ण रूप से दिखाते हुए कम्पनी के संचालकों ने इस आवेदन-पत्र में लिखा था—

“हम लोगों को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हाल की दुर्घटना में यदि देशी नरेश बजाय विप्लव को दमन करने में हमें सहायता देने के, विप्लव के मार्ग-प्रदर्शक बन जाते अथवा यदि देश की सर्वसाधारण जनता विप्लव में सम्मिलित हो जाती तो इस दुर्घटना का अन्तिम परिणाम कदाचित् कितना विपरीत होता।”

इसी आवेदन-पत्र में कम्पनी के संचालकों ने यह भी लिखा था कि, “जिस सिद्धान्त का इस समय इङ्ग्लैण्ड में बड़े जोरों के साथ प्रचार किया जा रहा है वह यह है कि भारत पर शासन करने में हमें विशेष दृष्टि इसी बात पर रखनी चाहिए कि जो अँगरेज वहाँ रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार लाभ हो।”

इतना ही नहीं अपने इस आवेदन-पत्र में कम्पनी के संचालकों ने विस्तार के साथ पार्लिमेण्ट को यह भी सलाह दी कि भारत के भावी शासन में किन-किन बातों

पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, किन्तु अँगरेज-जाति की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना अब असंभव था। कम्पनी की प्रार्थना अब किसी भी प्रकार स्वीकार हो न सकती थी। एक तो बहुत दिनों से इङ्ग्लैण्ड के निवासी कम्पनी के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे, दूसरे भारत में भी भयानक विश्व हो चुका था इसलिए भारतवासियों के दिलों को भी किसी नवीन और गंभीर परिवर्तन द्वारा अपनी ओर करने की आवश्यकता भी इङ्ग्लैण्ड की पार्लिमेण्ट द्वारा उचित समझी जाने लगी थी। सन् १८५८ में ही भारत के अन्दर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया गया। भारत में कम्पनी में जिस राज्य को स्थापित किया था उससे शासन का अधिकार इङ्ग्लैण्ड की पार्लिमेण्ट ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। हाउस आफ कामन्स ने १६ मार्च सन् १८५८ को एक नई कमेटी नियुक्त की। नीचे लिखे शब्दों में इस कमेटी का काम निश्चित किया गया—

“जाँच की जाय कि भारत में विशेषकर देश के पहाड़ी जिलों और अधिक स्वास्थ्य-जनक स्थानों में यूरोपियनों की बस्तियाँ बसाने और उपनिवेश बढ़ाने के लिए तथा साथ ही मध्य एशिया के साथ हमारे व्यापार को उन्नति देने के लिए क्या-क्या किया जा चुका है, क्या-क्या किया जा सकता है और उसके क्या-क्या सर्वोत्तम साधन हैं?”

सर चार्ल्स मेटकाफ ने यह सलाह देते हुए कि भारत का शासन कम्पनी के हाथों से लेकर पार्लिमेण्ट के हाथों में दे दिया जाय लिखा कि—“यद्यपि मालूम होता है कि भारत के निवासी इस सम्बन्ध में बिलकुल उदासीन हैं कि भारत के ऊपर कम्पनी

द्वारा शासन किया जाय अथवा इङ्गलैण्ड के मन्त्रियों द्वारा, तथापि भारत की दूसरी प्रजा इस सम्बन्ध में उदासीन नहीं है अर्थात् जो यूरोपियन भारत में रहते हैं और जो कम्पनी के नौकर नहीं हैं तथा इनके अतिरिक्त आमतौर पर वे सब लोग जो दोगली नसल के हैं, वे अब कभी भी कम्पनी के शासन से सन्तुष्ट न होंगे।”

इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि इस परिवर्तन में भारतवासियों की इच्छा का इतना गम्भीर प्रश्न न था जितना कि अँगरेजों की इच्छा का था। इसके बाद किसी को भी इस विषय में लेश-मात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से छीन कर इङ्गलैण्ड के मन्त्री-मण्डल के हाथों में सौंपने का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को लाभ पहुँचाना अथवा उनके हितों की रक्षा करना न था, बल्कि भारत के सर्वोत्तम प्रदेशों में यूरोप निवासियों के उपनिवेश बनाकर भारतवासियों को अपने गोरे स्वामियों के लिए “लकड़ी चीरने वालों और पानी भरने वालों” की अवस्था तक पहुँचा देना था। इसीलिए कम्पनी के शासन को अन्त कर देने में ही अँगरेज राजनीतिज्ञों को भारतवर्ष में अँगरेजी राज्य की स्थिरता और उसका भावी हित दिखाई पड़ता था।

विप्लव के पूर्ण रूप से शान्त होने से पहले ही भारत का शासन कम्पनी के हाथों से लेकर इङ्गलैण्ड की सरकार को सौंप दिया गया था। मलका विक्टोरिया उस समय इङ्गलैण्ड के सिंहासन पर थी। भारतवर्ष के राजाओं, रईसों, सरदारों और समस्त प्रजा के नाम मलका विक्टोरिया की ओर से घोषणा प्रकाशित की गई। सार रूप में इस घोषणा के अन्दर नये

अधिकार परिवर्तन की सूचना दी गई थीं, और भारतवासियों को सलाह दी गई थी कि मलका विक्टोरिया, उसके उत्तराधिकारियों और उनके द्वारा नियुक्त किये गये अफसरों के वफादार रहे। लार्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया, देशी राजाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि जो संधियाँ और अहदनामे आप लोगों के साथ इस समय तक किये जा चुके हैं, इंग्लैण्ड की सरकार उन पर कायम रहेगी। भारतीय प्रजा को विश्वास दिलाया गया कि तुम्हारे धर्म में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा और अंत में लोगों से विप्लव को शान्त करने की प्रार्थना की गई।

मलका विक्टोरिया की घोषणा में यह भी कहा गया था कि “जब ईश्वर की दया से देश में फिर से शान्ति स्थापित हो जायगी, तब हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारतवर्ष की कारीगरी को तरक्की दी जाय, ऐसे-ऐसे काम बढ़ाये जायं जिनसे सर्व-साधारण को लाभ हो और उनकी उन्नति हो तथा शासन इस प्रकार चलाया जाय जिससे भारत में रहने वाली हमारी समस्त प्रजा को लाभ हो। प्रजा की खुशहाली में ही हमारी शक्ति है, उनके संतोष में ही हमारी कुशलता है, और उनकी कृतज्ञता हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमें और हमारे मातहत अफसरों को बल दे, ताकि हम अपनी इन इच्छाओं को अपनी प्रजा के हित के लिए पूरा कर सकें।”

इसमें संदेह नहीं कि ऊपर का लिखा हुआ वाक्य इस घोषणा का सब से अधिक चित्ताकर्षक वाक्य है। जिनमें राजनीति की चालों का ज्ञान नहीं है ऐसे अनेक भोले-भाले भारतवासियों के लिए छल और कपट से भरी हुई इस घोषणा के ये

शब्द अधिक सान्त्वना देनेवाले साबित हुए और उन पर भरोसा करके सन् १८५७ के भयानक विद्रोह में समाप्त हो जाने वाले प्राचीन मुगल साम्राज्य के स्थान में उन्होंने अपना ही रक्त चूसने वाले अंगरेजों को प्रिय समझ कर अपना लिया, इतना ही नहीं, उनके राज्य में ही अपना सुख मान लिया। यदि राजनैतिक दृष्टिकोण से इस घोषणा की आलोचना की जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इस घोषणा का मूल्य इस प्रकार की अन्य राजनैतिक घोषणाओं से किसी भी अंश अधिक न था और न इस घोषणा में इस बात का ही उल्लेख था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी से इंग्लैण्ड के शासक ने भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया है अथवा इस समय तक भारत के प्रति अंगरेजों की जो शासन-नीति चली आ रही थी उसमें किसी प्रकार के भी मौलिक परिवर्तन होने का लक्षण ही सूचित होता था। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य था, स्वाधीनता-संप्राम में असफल भारतवासियों के दिलों को किसी प्रकार शान्त करना और निःसंदेह इस उद्देश्य में अंगरेजों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

प्रसिद्ध अंगरेज इतिहास लेखक फ्रीमैन ने बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की घोषणाओं के सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट करते हुए लिखा है—“किन्तु जब हम विद्रोहियों और घोषणाओं की ओर आते हैं ××× तो हम झूठ के चुने हुए खास मैदान में पहुँच जाते हैं, ××× इसमें सन्देह नहीं कि जो मनुष्य पार्लिमेण्ट के हर काम या हर कानून पर विश्वास कर लेता है वह बालक के समान भोला है।”

इस प्रकार के जितने वादे इंग्लैण्ड ने भारत के साथ किये

हैं उन सब को मारक्विस आफ सैलिसबरी ने स्पष्ट रूप से "राजनैतिक छल" स्वीकार किया है।

भारत सरकार के प्रसिद्ध और सुयोग्य ला मेम्बर सर जेम्स टीफेन ने मलका विक्टोरिया की इस प्रसिद्ध घोषणा के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा था कि, (यह घोषणा) "केवल एक रसमी पत्र था। यह कोई प्रतिज्ञा न था जो भारत अँगरेज शासकों के ऊपर किसी प्रकार का भी बन्धन हो। इस घोषणा की कोई भी कानूनी कीमत नहीं है।"

इङ्गलैण्ड की राज्य-व्यवस्था के अनुसार भी मलका विक्टोरिया को इस प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त न था और न इङ्गलैण्ड के किसी भी बादशाह को प्राप्त है, जिससे इङ्गलैण्ड की पार्लिमेण्ट या वहाँ के मंत्री बादशाह की किसी घोषणा के अनुसार अमल करने के लिए बाध्य किये जा सकें। पहली नवम्बर सन् १८५८ को लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इस घोषणा को पढ़कर सुनाया। भारत के अँगरेज शासकों ने उस समय से आज तक व्यवहार में इस घोषणा के वादों की कभी कुछ भी पर्वाह नहीं की।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि लार्ड डलहौजी का उद्देश्य भारत के समस्त मानचित्र को अँगरेजी राज्य के रंग में रंग देना था। पंजाब, नागपुर, अवध, संतारों भौंसी इत्यादि पर अधिकार किया जा चुका था। १८ अप्रैल सन् १८५६ को पार्लिमेण्ट के सामने भाषण करते हुए सर अर्सकाइन पेरी ने कहा था— "इसके बाद अब निजाम के राज्य की बारी है। उसके बाद मालवा की उपजाऊ भूमि पर अधिकार किया जायगा। जहाँ की काली मिट्टी में रुई और अफीम बहुत अच्छी पैदा हो सकती है।

फिर गुजरात जो उससे भी अधिक उपजाऊ है। X X X राज-पूताने और बाकी ६ करोड़ देशी प्रजा को इसके बाद विजय किया जायगा।”

किन्तु अगले ही साल विप्लव ने यह सारा नकशा बदल दिया। अंगरेजों की आँखें खुल गईं। वे समझ गये कि लार्ड डलहौजी की अपहरण नीति ही विप्लव का एक मुख्य कारण थी। उन्हें अब अपना हित और अपने साम्राज्य की स्थिरता भारतवर्ष की शेष देशी रियासतों के बनी रहने में ही दिखाई देने लगी। इसमें सन्देह नहीं कि विप्लव के बाद भी और विप्लव के ऐन दिनों में भी कुछ ऐसे अंगरेज थे जो भारत की बची हुई देशी रियासतों को हड़प कर अंगरेजी राज्य में मिला लेने के पक्ष में थे। सन् १८५८ में लंदन में “इंडियन पालिसी” (भारतीय नीति) नामक एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के अंगरेज शासकों को यह सलाह दी गई कि प्रत्येक देशी नरेश के मरने पर वे उसके राज्य पर अपना अधिकार कर ले किन्तु जो विचार-शील अंगरेज थे वे इस अनुचित सलाह के मानने में अपने साम्राज्य का हित नहीं देख रहे थे।

यही एक कारण है कि विप्लव के बाद से अब तक बर्मा को छोड़कर किसी नई देशी रियासत पर अधिकार नहीं किया गया। निःसंदेह अंगरेज शासकों ने देशी नरेशों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया है उसका परिणाम यह है कि धीरे-धीरे भारतवर्ष की लगभग सब देशी रियासतें विदेशी अंगरेजी शासन की स्थिरता में किसी प्रकार का भय नहीं मानती थी और ब्रिटिश साम्राज्य की पोषक विशेष रूप से बन चुकी थीं।

सन् १८५७ से लेकर भारत छोड़ने तक अंगरेजों द्वारा भारत

की सैकड़ों छोटी-बड़ी रियासतों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है; जिस प्रकार अंगरेज रेजीडेण्टों, पोलिटिकल एजेंटों आदि का कदम कदम पर देशी नरेशों के साथ न्याय-पूर्ण अधिकारों में हस्तक्षेप होता रहा है, जिस प्रकार भारतीय राजकुमारों की शिक्षा पर अंगरेज नीतिज्ञों ने सदा अपना ही प्रमुख अधिकार बनाये रखा, जिसमें कभी-कभी उन कुमारों के अभिभावकों और स्वयं गद्दीनशीन नरेशों तक को हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं समझा गया, जिस प्रकार अनेक राजकुमारों के चरित्र का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से सत्यानाश किया है, और फिर कभी-कभी उसी चरित्र-हीनता को ही उनकी अयोग्यता का प्रमाण मान लिया गया है, ये सब लम्बे और दुख उत्पन्न करने वाले कथानक ससार के साम्राज्यों के इतिहास में अपना विशेष ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि हम ऐसे साम्राज्य-विस्तार के कलंकित आदर्श के दूसरे उदाहरण को खोजना चाहे तो हमें आज से चार-पाँच हजार साल पहले के मिथी साम्राज्य और उसके दो तीन हजार साल बाद के रोमन साम्राज्य के इतिहास के पृष्ठों को उलटना पड़ेगा किन्तु यह सब विषय हमारे उपस्थित विषय से भिन्न हैं इसलिए इस सम्बन्ध में अधिक लिखना प्रसंग के अनुसार उचित नहीं है।

पाठकों को केवल इतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक भारत में अंगरेज रहे हैं तब तक देशी रियासतों को नित्य पंगुल बनाने के प्रयत्न करते रहे हैं। जब कभी कोई बात अंगरेजों के अनुकूल न हुई तब तुरन्त ऐसे कुत्सित और अन्यायपूर्ण उपायों को काम में लाया गया है जिससे कि देशी रियासत का अधिकारी किसी भी योग्य न रह जाय। हमेशा से ही एक

नियम-सा चला आ रहा था कि देशी रियासत के अधिकारी अपनी रियासत में भी कुछ न करने पायें। यही एक कारण समझ में आ रहा है कि देशी नरेशों की इच्छा न रहने पर भी अँगरेजों की देशी फौजों के सिपाही प्रायः देशी रियासतों से ही भर्ती किये जाते हैं और ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोह को दमन करने में वे ही अधिक उपयोगी साबित होते हैं।

भारतवर्ष में अँगरेजों के उपनिवेश अर्थात् अँगरेजों की बस्तियाँ बसाने की चर्चा वारन हेस्टिंग्स के समय से चली आती थी किन्तु इस विषय पर अँगरेज राजनीतिज्ञों में नित्य बड़ा मतभेद रहा। असंख्य अँगरेज उन दिनों इस प्रकार के उपनिवेशों को बढ़ने देने के विरुद्ध थे। वारन हेस्टिंग्स की कौंसिल के सदस्य मानसन की राय थी कि अँगरेज भारत में खेती इत्यादि का कार्य सुचारु रूप से न कर सकेंगे और यदि करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन-सहन भारतीय प्रजा की अपेक्षा इतना महँगा होगा कि उसके कारण सरकार की आमदनी में बड़ी कमी पड़ जायगी। ७ नवम्बर सन् १७९४ को कार्नवालिस ने इङ्ग्लैण्ड के भारत मंत्री डंडास को लिखा है कि “ब्रिटेन के हित के लिए यह बात महत्व की है कि यूरोप निवासियों को जहाँ तक हो सके, हमारे भारतीय इलाकों में उपनिवेश बनाने और बसने से रोका जाय।” ४ फरवरी सन् १८०१ को डाइरेक्टरों ने भारत में इस तरह के उपनिवेशों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया।

सन् १८१३ में समस्त इङ्ग्लैण्ड निवासियों के लिए भारत आने और व्यापार करने का मैदान खोल दिया गया और इसके बाद दक्षिण और उत्तर के कई नये पहाड़ी इलाके अँगरेजी राज्य में मिलाये गये। इसलिए इङ्ग्लैण्ड के कुछ लोगों ने कम्पनी के

डाइरेक्टरों की सम्मति के विरुद्ध भारत में अपने उपनिवेश बनाने के लिए आन्दोलन आरंभ किया। इन आन्दोलनकारियों की मुख्य दलील यह थी कि इस प्रकार के उपनिवेशों की सहायता से भारत में अधिक दिनों तक अंगरेजी राज्य कायम रह सकेगा। अन्य अंगरेज राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त सर फ्रेडरिक शोर भी इस प्रकार उपनिवेशों को बसाने के पक्ष में था। उसका कथन था—

“अंगरेजी सत्ता के उलट जाने से इस प्रकार के नये बसे हुए (यूरोपियन) लोगों को कोई लाभ न होगा, बल्कि उन्हें हर तरह से हानि ही होगी, इसलिए भारतवासियों की ओर से किसी भी उपद्रव या बगावत के समय ये लोग अपना समस्त प्रभाव (अंगरेज) सरकार के पक्ष में लगा देगे और अपने देशी नौकरों, साथियों आदि को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करेगे, इसके विपरीत अंगरेज सरकार के भारतवासियों के भाव इस प्रकार के हैं कि जब कभी कोई विद्रोह होता है तब जो लोग विद्रोह में भाग नहीं लेते हैं वे भी कम से कम तटस्थ रहते हैं किन्तु सरकार को प्रायः कोई सहायता नहीं देता।”

सर चार्ल्स मेटकाफ और लार्ड विलियम बैण्टिन्क भी भारत में अंगरेजी उपनिवेश बनने के पक्ष में थे। उनकी भी दलीलें ठीक इसी प्रकार की थीं। परिणाम यह हुआ कि सन् १८३३ के चारटर एक्ट में उन अंगरेजों के लिए कई प्रकार की नवीन सुविधाएँ कर दी गईं, जो भारत में आकर बसना चाहते थे। नैपाल के रेजिडेण्ट ब्रायन हाटन हाजसन ने दिसम्बर सन् १८५६ में हिमालय की उपजाऊ घाटियों में

यूरोपियनों के उपनिवेश बनाने के पक्ष में एक अत्यन्त प्रभाव-शाली पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा—“× × × हिमालय में अपने उपनिवेश को बढ़ाना अँगरेज सरकार के सर्वोच्च और सब से अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों में से एक है।”

हाजसन की राय में भारत के अन्दर ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाने के लिए सबसे बड़ा, सब से सुदृढ़, सबसे निःशंक और सब से सरल राजनैतिक उपाय भारत के अन्दर अँगरेजों के उपनिवेश ही हो सकते थे। हाजसन यह चाहता था कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के किसानों को मुफ्त जमीन देकर भारत में बसने के लिए उत्साहित किया जाय।

सन् १८५७ के बाद इस विषय का आन्दोलन इंग्लैंड में और अधिक होने लगा। इसी के साथ-साथ अनेक उपायों से उस समय के अँगरेज शासकों ने अपने देशवासियों और विशेषकर अँगरेज पूजीपतियों को भारत में आकर बसने के लिये उत्साहित करना आरंभ किया। आसाम और कुमायूँ में अँगरेज सरकार ने भारतीयों के खर्च पर चाय की कारत में तजुर्बे किये और स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी कि इन तजुर्बों के सफल होने पर चाय के सरकारी खेत उन अँगरेजों को दे दिये जायेंगे जो इस काम के लिए आसाम और कुमायूँ में बसना चाहेंगे तजुर्बों का समस्त व्यय भारतीयों के मत्थे मँदा गया और बाद में दोनों स्थानों के चाय के खेत अँगरेजों को सौंप दिये गये।

भारतीयों के ही व्यय पर कई अँगरेजों को इसलिए चीन भेजा गया कि वे चीन से चाय के बीज लायें, चीनी खेती के तरीकों को सीखें और वहाँ से चीनी विशेषज्ञ साथ लाकर भारत में अपने धंधे की तरक्की दें। पिछले डेढ़ सौ वर्ष से ऊपर के

ब्रिटिश शासन में कभी किसी भारतीय व्यापार को सफल बनाने के लिए अंगरेज सरकार ने इस प्रकार के प्रयत्न नहीं किये। यूरोपियन पूँजीपतियों की बचत को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय मजदूरों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने इस प्रकार के कानून पास किए जिनमें असंख्य भारतवासी इन लोगों के कानूनी गुलाम बन गये। इस कानूनी गुलामों के साथ अंगरेज पूँजीपतियों और उनके नौकरों का व्यवहार ब्रिटिश भारतीय इतिहास का अत्यन्त कलुषित और पाशविक अत्याचार-पूर्ण अध्याय है।

ठीक इसी प्रकार धन आदि की सहायता कुमायूं में लोहे का धधा करने वाले अंगरेजों को दी गई। नील की खेती करने वाले उन अंगरेजों को भी भारतीयों के धन से समय-समय पर सहायता दी गई जिन्होंने भारतीय मजदूरों के साथ नित्य अमानुषिक व्यवहार किया है। रेलों, सड़कों और उनके विचित्र नियमों द्वारा भी इन अंगरेजों को अपने कार्य में हर प्रकार की सहायता दी गई।

सन् १८५८ की कमेटी के सामने गवाही देने वाले गवाहों में से कुछ की राय थी कि भारत के पहाड़ी इलाके पर अंगरेज किसानों और मजदूरों को बसा दिया जाय और भारत के मैदानों में इस प्रकार के अंगरेज पूँजीपतियों को आबाद किया जाय जो अपने अधीन भारतीय किसानों और मजदूरों से काम ले सकें। कुछ लोगों की राय तो यहाँ तक थी कि एलजीरिया (उत्तर-अफ्रीका) के समान समस्त भारत में अंगरेज पूँजीपतियों से लेकर अंगरेज किसानों और मजदूरों तक को बसाया जावे। इतना ही

नहीं, अँगरेजों को भारत में जमींदारी करने के लिये अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाने की सलाह भी हुई और भारत में कई स्थानों पर विशेष रूप से कई उपजाऊ पहाड़ी इलाकों में अँगरेजों की बस्तियाँ बसाने के प्रबल प्रयत्न किये जाने लगे किन्तु संसार के अन्य देशों के समान भारतवर्ष में अँगरेजों की बस्तियाँ आबाद न हो सकीं इसका मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष प्राचीन, विशाल और अत्यन्त घना बसा हुआ देश है। अँगरेजों के लिए यहाँ की करोड़ों जनता की हत्या करने पर ही ऐसा संभव न होता कि वे अपनी बस्तियाँ बसा लेते। सन् १८५७ के विप्लव से वे समझ गये कि यहाँ की करोड़ों जनता को मिटाकर उनकी जगह ले सकना इतना सरल नहीं है जितना कि पहले समझे हुए थे।

सन् १८१३ के 'चार्टर एक्ट' में एक धारा यह भी थी कि जो अँगरेज ईसाई पादरी भारतवासियों के "धार्मिक उद्धार" के लिए अर्थात् उन्हें ईसाई बनाने के लिए "भारत जाना चाहें और वहाँ रहना चाहें" कानून के द्वारा हर प्रकार की सुविधा दी जाय। इसके बाद से ही "ईसाई धर्म-प्रचार का एक सरकारी विभाग (एक्लेजिएस्टिकल डिपार्टमेन्ट)" भारत में खोल दिया गया और उसका खर्च भारतवासियों के सिर पर मढ़ दिया गया। सन् १८५७ के विप्लव के बाद अँगरेज नीतिज्ञों में इस विषय पर बड़े तर्क वितर्क हुए। मार्च सन् १८५८ की अँगरेजी पत्रिका "दी कैलकटा रिव्यू" में एक अँगरेज का लिखा हुआ नीचे लिखा वाक्य मिलता है जिससे यह पता चलता है कि उस समय अँगरेज नीतिज्ञों को क्या क्या बातें सूझ रही थीं। वह अँगरेज लिखता है—

“हमें चारों ओर × × इस समय की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिनमें जोरों के साथ यह सलाह दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिये। कोई कहता है, भरत को अवश्य ईसाई बना लेना चाहिए। कोई कहता है ‘भरत भर में अँगरेजों को बसाना चाहिए’ कोई कहता है ‘हमें हिन्दुस्तानी भाषा को समाप्त कर देना चाहिए’ और उसके स्थान पर अपनी मातृभाषा (अँगरेजी) प्रचलित कर देनी चाहिये। ये इनमें से केवल थोड़ी सी आवाजें हैं।”

सन् १८५७ के बाद अधिकांश नीतिज्ञ इस बात को और अधिक जोरों के साथ अनुभव करने लगे थे कि भारतवासियों के दिलों से राष्ट्रीयता के रहे सहे भावों को मिटा देना और भविष्य में इस तरह के भावों को पनपने न देना अँगरेजी साम्राज्य की दृढ़ता के लिए आवश्यक है। इसलिए इस काम को सफल बनाने के दो मुख्य उपाय उस समय सोचे गये। पहला उपाय था भारत में ईसाई मत का प्रचार और दूसरा उपाय था भारत में अँगरेजी शिक्षा का प्रचलन। मलका विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में यह वादा किया था कि धर्म के सम्बन्ध में अँगरेज सरकार किसी प्रकार का पक्षपात न करेगी किन्तु विश्व के केवल अगले ही साल इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री लार्ड पामर्सटन ने ही ईसाई पादरियों के एक डेपुटेशन के उत्तर में कहा—

“मालूम होता है कि अन्तिम लक्ष्य के विषय में हम सबों का ही एक मत है। समस्त भारत में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ईसाई मत के फैलाने में जहाँ तक हो सके सहायता देना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि इसी में हमारा लाभ है।”

सन् १८५७ के विद्रोह पर आलोचना करते हुए अनेक अंगरेज पादरियों ने कहा—“हमारे शत्रु वे मुसलमान थे जिनके धर्म की प्रशंसा करके हमने उन्हें फुला दिया और वे हिन्दू थे जिसके अन्ध विश्वासों को हमने पुष्ट किया, किन्तु हमारे सच्चे मित्र वे हिन्दुस्तानी थे जिन्हें हमारे पादरियों ने ईसाई बना लिया था।”

इन सबों के ईसाई-मत के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना था। विलियम एडवर्ड्स विप्लव के दलों में कम्पनी का नौकर था और वह फिर आगरा हाईकोर्ट का एक जज हुआ। उसकी राय थी—“हम विदेशी आक्रमण करने वाले और विजंता समझे जाते हैं और उसी प्रकार सर्वदा समझे जायेंगे। X X X हमारे लिए अपनी रक्षा का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम देश को ईसाई बना लें। X X X देशी ईसाइयों की बस्तियाँ जब देश में इधर उधर फैल जायंगी तब वे अनेक वर्षों तक हमारी दृढ़ता के लिए स्तम्भों का काम देंगी, क्योंकि जब तक अधिकांश जनता मूर्ति-पूजक अथवा मुसलमान रहेगी, तब तक ये ईसाई लोग अवश्य राजभक्त रहेंगे।”

लार्ड विलियम बैंटिन्क के प्रयत्नों और पंजाब की ईसाई बताने की योजनाओं के सम्बन्ध में हम पहले ही कह चुके हैं। जो उद्देश्य भारतवासियों को ईसाई बनाने अथवा मुसलमानों को दबाने से था वह भारत में अंगरेजी शिक्षा के प्रचार से था। लार्ड बैंकाले इस शिक्षा का सबसे अधिक प्रवर्धक था। भारत की विचित्र स्थिति में समस्त देश को ईसाई बनाने का प्रयत्न

अधिक दिनों तक सफलता के साथ न चल सका और न अधिक खुले तौर पर उसे शासन-नीति का एक अंग बनाया जा सका किन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अंगरेजी शिक्षा ने एक अच्छी श्रेणी ऐसे लोगों की पैदा कर दी जो अपनी जीविका के लिए अंगरेजी राज्य पर भरोसा करने लगे थे और उस राज्य के विशेष स्तम्भ बन रहे थे और जिनके रहन-सहन तथा भारती जनता के रहन-सहन में बड़ा अन्तर अब भी दृष्टिगोचर होता है और आज दिन भी जिनमें सामूहिक दृष्टि से राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय मान के भावों का अभाव-सा है।

आधुनिक यूरोपियन राजनीति में किसी देश पर शासन करने का मतलब ही उस देश से अधिकाधिक धन खींचना है जिसे हम उनकी आर्थिक शोषण नीति भी कह सकते हैं। भारत की मनमानी लूट से ही इंग्लैण्ड के और विशेष रूप से लंका शायर के कारखाने चले। सन् १८५७ के बाद “भारत की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देने” की विशेष चर्चा सुनी जाने लगी। इसके छः मुख्य-मुख्य उपाय सोचे गये।

पहला मुख्य उपाय भारत में रेलों का प्रचलन करना था। भारत से रेलें उसी धन से चालू की गईं जिस धन को अंगरेजों ने भिन्न-भिन्न उपायों द्वारा भारत से ही कमाया था। इस पर भी पार्लिमेण्ट के एक सदस्य स्विफ्ट सैकनील ने १४ अगस्त सन् १८९० को कहा था—“यह हिसाब लगाया जा चुका है कि जितना धन भारत में रेलों पर खर्च किया जाता है, उसमें से प्रति शिलिंग पीछे आठ पेंस (अर्थात् दो तिहाई) इंग्लैण्ड चला आता है।”

इन रेलों के मुख्य कार्य परतंत्र भारत में इतने ही थे कि भारत से गेहूँ, कपास आदि इङ्गलैण्ड को भेज दें, इङ्गलैण्ड का बना हुआ माल भारत के कोने-कोने में पहुँचा दें और आवश्यकता पड़ने पर (भारतीयों के स्वाधीनता-आन्दोलन को दबाने के लिए) इधर से उधर तक सेनाओं को ले जाया करें। निःसन्देह जब हम पराधीन स्थिति में थे तब ये रेलें भारतवासियों के धन उनके धंधों और स्वास्थ्य तीनों के लिए नाशक और असंख्य प्रार्थों का उजाड़ देने वाली साबित हुई थीं।

दूसरा मुख्य उपाय रुई की खेती था। अपने कपड़े के धन्धे को चलाने के लिए इङ्गलैण्ड पहले मंहगे दामों पर अमरीका से रुई लिया करता था। भारत में बरार, सिन्ध और पंजाब अपनी अच्छी रुई के लिए प्रसिद्ध था। इन देशों पर अँगरेजों के अधिकार करने का एक विशेष अर्थ यह था कि इङ्गलैण्ड के कारखानों को सस्ती रुई भेजी जा सके। सन् १८५७ के विप्लव के बाद इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्न किये गये। एक नई 'ईस्ट इण्डिया काटन कम्पनी' बनाई गई और रुई की खेती तथा उसकी उपज को इङ्गलैण्ड भेजने की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इङ्गलैण्ड भारत के सम्बन्ध का सब के मुख्य रूप उस समय के बराबर कच्ची रुई का भारत से इङ्गलैण्ड जाना और इङ्गलैण्ड के बने हुए कपड़ों का भारत में आकर बेचा जाना था। सच कहा जाय तो इङ्गलैण्ड की जनता के लिए जीविका का सबसे बड़ा आधार यही रहा है। लेखक की यह धारणा है कि स्वाधीन में जितने भी कपड़े के कारखाने इस समय चल रहे हैं उनका ठीक ठीक प्रबन्ध भारत सरकार

और प्रजा के सहयोग से होता रहे तो वे ही कुछ दिनों में संसार की दृष्टि में इङ्ग्लैण्ड आदि देशों के कारखानों से कहीं अधिक उन्नति कर सकेंगे किन्तु कारखाने वालों के लिए भी आवश्यक है कि वे भारत की जनता के साथ कदापि विश्वासघात न करें।

तीसरा मुख्य उपाय अँगरेज पूँजीपतियों को सुविधाएँ देना था। भारत में आकर धंधा करने वाले अँगरेज पूँजीपतियों को आरम्भ से विशेष सुविधाएँ मिलती रही हैं। चाय, नील इत्यदि की खेती करने वाले अँगरेजों के साथ बड़ी-बड़ी रियायतें की जाती थीं। इन अँगरेज पूँजीपतियों के लाभ के लिए चाय के बागीचों और नील के खेतों के लाखों मजदूरों के साथ जो अमानुषिक बर्ताव किया गया वह सभ्यताभिमानी अँगरेज जाति के लिए न मितने वाला कलंक बन चुका है। सन् १८६० में सर एशले एडन ने जो बाद में बंगाल का लेफ्टिनेण्ट गवर्नर हुआ, स्पष्ट कहा था—“नील की काश्त कभी भी लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्कि उनसे नित्य बल-पूर्वक कराई जाती है।” सभी विद्वानों का यही मत है कि ब्रिटिश भारत में चाय और नील की काश्त का इतिहास गुलामी की प्रथा का अत्यन्त लज्जाजनक इतिहास है।

चौथा मुख्य उपाय अँगरेजों को नौकरियों देने का था। उस समय ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ बनाये रखने का एक मुख्य उपाय यह भी मान लिया गया था। अनेक अँगरेजों ने यह स्वीकार कर लिया है कि अँगरेजों को जो वेतन साधारणतया भारत में दिया जाता है उससे आधा भी उन्हें इङ्ग्लैण्ड या किसी दूसरे देश में न मिल सकता।

पाँचवाँ मुख्य उपाय वास्तविक शासन से भारतीयों को दूर रखना था। यह ऐसा उपाय था जिसने अंगरेजों को भारत में सम्हाल लिया किन्तु साथ ही साथ भारतीयों को कुचल भी दिया। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि जिस कार्य से भारत का हित होता उसी कार्य से इङ्गलैण्ड का अहित अवश्य होगा और जिस कार्य से इङ्गलैण्ड का हित होगा उसी कार्य से भारत का अहित होना अनिवार्य है। एक के उद्योग-धंधों की उन्नति में दूसरे की बेकारी है और एक के सम्पन्न होने में दूसरे की निर्धनता है। इसलिए शासन के प्रबन्ध में कोई वास्तविक अधिकार भारतीयों को देना विदेशी शासकों के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता था।

कप्तान पी० पेज ने लन्दन के ईस्ट इण्डिया हाउस से अपने एक में मेमोरैण्डम में लिखा है कि “मैं भारतवासियों की नेकचलनी के इनाम में उनके सम्मान को बढ़ा दूँगा किन्तु उनके हाथ में शासन कभी न दूँगा। X X X यही सिद्धान्त रोमन लोगों का था। भारतवासियों के हाथों में बिना किसी प्रकार की सत्ता दिये ही हम उनकी खैरखाही अपनी ओर बनाए रख सकते हैं। उन्हें केवल सत्ता का आभास देना पर्याप्त होगा और यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में मैं राशफूकाल्ट के इस सिद्धान्त को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ कि मनुष्य अपने मित्रों के साथ भी इस प्रकार से रहे कि मानों एक दिन वे अवश्य शत्रु बनने वाले हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि भारत के शासकों के लिए इस सिद्धान्त को सदा ध्यान में रखना ही उचित है।”

भारत और इङ्गलैण्ड दोनों ही देशों के नीतिज्ञ इस बात

को भली भाँति जानते हैं कि सन् १८३५ के गवर्नमेट आफ इण्डिया एक्ट की असेम्बलियों और मन्त्रिमण्डल भी 'सत्ता के आभास' से किसी अंश में अधिक नहीं है। स्वाधीन भारत 'सत्ता के आभास' को पहिचान चुका है इसलिये वह नित्य सतर्क ही रहेगा। १८५७ के इतने दिनों के बाद हम अपने को स्वाधीन भारत के निवासी कहने के योग्य हो सके हैं।

छठा मुख्य उपाय कानून और अदालतों का था। 'भारत की उपजाऊ शक्ति को उन्नति देने' का एक मुख्य उपाय आज-कल के कानून और अदालतें हैं। भारत के स्वाधीन होने तक इन कानूनों और अदालतों ने अपने बे हथ-कड़े दिखाये हैं जिनका अनुभव प्रायः सभी भारतवासियों को है। जो 'ताजी रात हिन्द' सन् १८३३ के चार्टर एक्ट के बाद लार्ड मैकाले ने तैयार किया था वह सन् १८५७ के विप्लव के बाद ही भारत के कानून के रूप में हो गया।

दीवानी के कानून की पेचीदगियों भी मुकदमेबाजी को कम करने के स्थान पर बढ़ाने ही में अधिक सहायता पहुँचाती है और असंख्य घरानों के सर्वनाश का कारण भी साबित हो चुकी हैं। इन अदालतों और इनकी कार्रवाइयों से भारतवासियों का जो आर्थिक और नैतिक पतन हुआ है, वह किसी से भी छिपा नहीं है। इन अदालतों से तंग आकर जब भारतवासी अपने अतीत की ओर जाते थे तब उन्हें उन पंचायतों की याद आती थी जो कि हजारों वर्ष पहले से चली आती थीं और अँगरेजों के आते ही आते समाप्त हो चुकी थीं। वे पंचायतें ऐसी थीं कि 'उन्हें गरीब से गरीब बिना पैसे के ही न्याय प लेता

था और मुगल काल के शहरों के उन न्यायालयों की याद आ जाती थी जिनके फाटक पर लिखा रहता था 'फकीरी ही न्यायाधीश के लिए सब से अधिक अभिमान की वस्तु है, और जिनके धर्मभीरु न्यायाधीशों के लिए किसी के यहाँ निमंत्रण में जाना अथवा किसी से एक पान तक भेंट स्वीकार करना हराम समझा जाता था।

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय सिपाही अपूर्व वीर थे किन्तु उनमें देशभक्ति का अभाव था। यदि ऐसा न होता तो वे कदापि विदेशी राज्य के संस्थापन में विशेष रूप से हाथ न बंटाते। किन्तु सन् १८५७ के विद्रोह में अपनी अपूर्व वीरता, साहस और देशभक्ति का जो अलौकिक चमत्कार उन सबों ने दिखाया था उससे अंगरेज सतर्क हो गये थे इसलिए विद्रोह के बाद सेना के नये संगठन के लिए एक रायल कमीशन नियुक्त हुआ। कुछ लोगों की यह राय थी कि केवल अंगरेज और एंग्लो-इण्डियन सिपाही भारतीय सेना में रखे जायें किन्तु यह राय न मानी गई क्योंकि इससे काम चल सकना संभव न था। कुछ और लोगों की राय थी कि अंगरेज और एंग्लो-इण्डियन सिपाहियों के साथ थोड़े से अरब, बर्मी और अफ्रीका के इन्डो-चीनी भी भारतीय सेना में भर्ती किये जायें। इस प्रकार के परामर्श देने वाले लोग विद्रोह से डर गये थे और भारतीय सिपाहियों की पलटनों को एकदम तोड़ देना चाहते थे किन्तु सोच-विचार कर देखा गया तो इस राय से भी काम चल सकना असंभव-सा दीखने लगा। अन्त में यह राय निश्चित हुई कि हिन्दुस्तानी पलटनों में ब्रिटिश-भारतीय प्रजा के साथ साथ नेपाल के गोरखों, सरहद के पठानों, जम्मू के डोगरों, राजपूतों,

घटियाले आदि के सिखों और मराठा रियासतों के मराठों को भी शामिल किया जाय। तोपखाने की नौकरियों अविश्वास के कारण देशी सिपाहियों के लिए बन्द कर दी गईं अंगरेजों ने यह भी देख लिया था कि तोपखाने के महकमे में हिन्दुरतानी सिपाही सब से अधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। देशी सिपाहियों को तुलना घटिया हथियार मिलने लगे। फौज के बड़े-बड़े और वास्तविक उत्तरदायित्व-पूर्ण पद उनके लिए बन्द कर दिये गये।

विश्व को शान्त करने का समस्त व्यय यहाँ तक कि इंग्लैण्ड के गोरे सिपाहियों को शिक्षा देने और उनके भारत आने जाने का व्यय तक भारत से वसूल किया गया। भारत से बाहर के अंगरेजों के अनेक युद्धों का व्यय भी भारत से लिया गया। मेजर विनगेट लिखता है कि सन् १८५९ से १९१७ अंगरेज सिपाही भारत में पल रहे थे और इनके अलावा १६४०७ अंगरेज सिपाही ऐसे थे जो उस समय इंग्लैण्ड में रहते थे, इंग्लैण्ड की रक्षा करते थे और जिन्हें वेतन भारत से मिलता था। जब कभी इंग्लैण्ड से भारत पलटनें लाने की आवश्यकता होती थी तब उन गोरी पलटनों के इंग्लैण्ड से चलने के ६ महीने पहले तक का वेतन और समस्त व्यय भारत से लिया जाता था। भारतीय सेना के नये संगठन द्वारा अंगरेजी सेना की संख्या बढ़ा दी गई, और उनकी आमदनी बढ़ गई। देशी सिपाहियों की अवस्था और अधिक हीन हो गई। भारत के शासन का आर्थिक भार बढ़ गया और देश की शृङ्खलाएँ और मजबूत हो गईं।

१९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के अंदर अंगरेजी

साम्राज्य को जिन विशेष अनुभवी नीतिज्ञों ने विस्तार किया था उनमें से सर जान मैलकम भी एक था। सन् १८१३ में पार्लियामेंट की जॉच कमेटी के सामने गवाही देते हुए उसने कहा था—
 “इस समय हमारा साम्राज्य इतनी दूर तक फैला हुआ है कि जो असाधारण ढंग की हुकूमत हमने उस देश में कायम की है उसके बने रहने के लिए हमें केवल एक बात का सहारा है, वह यह कि जो बड़ी-बड़ी जातियाँ इस समय अंगरेज सरकार के अधीन हैं वे सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं और जातियों में भी फिर अनेक जातियाँ हैं, जब तक ये लोग इस प्रकार एक दूसरे से बंटे रहेंगे तब तक इस बात का डर नहीं है कि कोई भी विद्रोह हमारी सत्ता को हिला सके।”

इसके कई वर्षों बाद एक अंगरेज अफसर ने लिखा था—
 “हमारे राजनैतिक, देशी और फौजी तीनों प्रकार के भारतीय शासन का उसूल ‘फूट फैलाओ और शासन करो’ होना चाहिए।”

मेजर जनरल सर लिओनेल स्मिथ ने सन् १८१३ की जॉच के समय कहा था—“××× अभी तक हमने साम्प्रदायिक और धार्मिक पक्षपात के द्वारा ही देश को बश में रखा है—हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों को और इसी प्रकार अन्य जातियों को एक दूसरे के विरुद्ध ×××।”

सन् १८५७ के विद्रोह के बाद कर्नल जान कोक ने जो; उस समय मुरादाबाद की पलटनों का कमाण्डर था, लिखा कि,
 “हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि भिन्न-भिन्न धर्मों और जातियों के लोगों में हमारे सौभाग्य से जो भेदभाव वर्तमान

है उसे पूर्ण रूप से बना रहने देना चाहिए। हमें उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। भारत सरकार का अमूल्य सिद्धान्त यही होना चाहिये—‘फूट फैलाओ और शासन करो।’

बम्बई के गवर्नर लार्ड एलफिन्सटन ने १४ मई सन् १८५९ को अपने एक सरकारी पत्र में लिखा था—“पुराने रोम के शासकों का सिद्धान्त था ‘फूट फैलाओ और शासन करो’ यही हमारा सिद्धान्त होना चाहिये।”

यह तो मानी हुई बात है कि वास्तव में किसी देश के अन्दर विदेशी शासन को चिरस्थायी बनाये रखने का सबसे उत्तम उपाय यही हो सकता है।

जिस प्रकार एक धर्म, जाति, समुदाय, संस्था और दूसरे धर्म, जाति, समुदाय, संस्था के लोगों में भेदभाव उत्पन्न करने का प्रश्न है। उसी प्रकार एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के लोगों में भेदभाव उत्पन्न करने का प्रश्न भी है। सन् १८५७ के विप्लव के बाद एक राय यह की गई थी कि भारतीय सरकार के अधिकारों को थोड़ा सा कम कर दिया जाय और भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों को अपने अपने प्रान्त के शासन से अधिक स्वतंत्रता दे दी जाय। इस भेद-नीति से पूर्ण राय का नाम उसके वास्तविक अनिष्टकारी लक्ष्य को छिपाने के लिए ‘प्रान्तीय स्वाधीनता’ रखा गया। मेजर जी० बिनगेट ने १३ जुलाई सन् १८५८ को पार्लिमेण्ट की सिलेक्ट कमेटी के सामने इस उद्देश्य का वर्णन पूर्ण रूप से कर दिया था। जब प्रश्न किया गया कि आप कहते हैं कि एक केन्द्रीय सरकार से कई प्रकार के खतरे हैं और आप

कहते हैं कि इसमें समस्त देशवासियों में एक समान भाव उत्पन्न होंगे और उनके एक समान लक्ष्य होंगे जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मेजर जी० बिगनेट ने कहा था—हाँ मैं समझता हूँ कि यदि कोई एक ऐसी बात हुई कि जिसमें समस्त भारतवासी दिलचस्पी लेने लगे तो उससे विदेशी शासन को अधिक हानि पहुँचाने की सम्भावना, बनिस्वत किसी भी ऐसी बात के कि जिसका आन्दोलन भारतवर्ष देश के केवल एक भाग तक सीमित हो। यदि किसी प्रश्न पर समस्त भारतीय साम्राज्य भर में आन्दोलन होने लगा तो इसमें संन्देह नहीं कि किसी ऐसे प्रश्न की अपेक्षा, जिसका सम्बन्ध केवल एक प्रान्त के निवासियों से हो, विदेशी शासन के लिए यह कहीं अधिक भयानक होगा।

इस 'प्रान्तीय स्वाधीनता' का वास्तविक उद्देश्य यही था कि विविध प्रान्तों के लोगों में परस्पर प्रेम और राष्ट्रीयता अर्थात् भारतीयता के भाव उत्पन्न न हो सकें साथ ही साथ किसी न किसी प्रश्न को लेकर नित्य एक नया झगड़ा सामने खड़ा रहे और उसका परिणाम यह हो कि अँगरेजों का शासन भारत में अचल हो जाय।

स्थूल दृष्टि से देखने पर भारत इङ्गलैण्ड को किसी भी प्रकार का खिराज नहीं देता किन्तु मेजर बिगनेट ने बड़ी योग्यता के साथ साबित किया है कि जो रकम 'होम चार्ज' के नाम से भारत सरकार प्रतिवर्ष इङ्गलैण्ड भेजती है, वह वास्तव में भारतवर्ष का इङ्गलैण्ड को खिराज देना है। सन् १८३४ से १८५१

तक १७ वर्ष के अन्दर ५७,६०,००० पौंड अर्थात् लगभग ७५ करोड़ रुपये इस मद में भारत से इङ्ग्लैण्ड भेजे गये। इस रकम के बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न हुआ और न भारत को इससे कोई लाभ हुआ। जो रकमे प्रति वर्ष अँगरेजों ने अपने और अपने कुटुम्बियों के लिए भारत से इङ्ग्लैण्ड भेजी और जो विशाल धन इङ्ग्लैण्ड के लोगों ने भारत के व्यापार से कमाया उन सब का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत से कमाये हुए धन में से ३,६०,००,००० पौण्ड भिन्न-भिन्न अँगरेजों का उस समय भारत सरकार के पास ऋण के रूप में जमा था।

विप्लव के बाद से लेकर आज तक का इतिहास लिखना हमारी इस पुस्तक के विषय से बाहर की बात है। पिछले अध्यायों के पढ़ने से पाठकों को भली भाँति विदित हुआ होगा: सन् १८५७ के विप्लव की पूर्ण रूप से कुचल देने के बाद से ही अँगरेजों ने अनेक प्रकार के हथकंडों और प्रयत्नों द्वारा भारत में अँगरेजी राज्य को सुदृढ़ और स्थायी बनाने के उपायों को बराबर जारी रक्खा, लेकिन भारत पर अँगरेजों का पूर्ण अधिकार हो जाने पर भी भारत निवासियों के हृदयों में पिछले सैकड़ों वर्षों से उत्पन्न स्वाधीनता की जो आग सुलग रही थी वह न बुझ सकी और अनेक अर्थों में यह दबी हुई आग विप्लव के २७ वर्षों बाद जाकर सन् १८८५ में काँग्रेस के रूप में प्रकट हुई। काँग्रेस के पिछले ६० वर्षों का अँगरेजी सरकार के साथ भयानक संघर्ष और अपने स्वाधीनता संग्राम में अँगरेजी शासकों द्वारा भयानक अत्याचार, अपमान और भीषण रूप से दमन के होते हुए भी अँगरेज, स्वाभिमानी भारतवासियों के स्वाधीनता के

भावों को नष्ट न कर सके और अन्त में परिणाम यह हुआ कि इन भयानक अँगरेजी अत्याचारों के बावजूद भी भारत अपने बलिदान और महान आत्मत्याग के द्वारा १५ अगस्त सन् १९४७ को स्वतन्त्र हो गया ।

